

नालन्दा - वैशनागरी - पालि - मन्थमालाय

मुत्तपिटके

खुद्दकनिकाये

महानिद्देसपालि

पधानसंशोधको

भिक्षु जगदीसकत्सपो



बिहारराजकीयेन पालिपकासनमण्डलेन

पकासिता

सु० २५०४

१९६०

पि० २०१७

वितरक
मोतीलाल बनारसी दास
नेपाली खपरा
पोस्ट बाक्स नं० ७५
धारावासी
(भारत)

Nalanda-Devanagari-Pali-Series

THE
MAHĀNIDDESA
[KHUDDAKANIKĀYA Vol. IV, Part I]

General Editor
BHIKKHU J. KASHYAP



PĀLI PUBLICATION BOARD
(BIHAR GOVERNMENT)

B. E. 2504

V. E. 2017

1960

GENERAL PREFACE

The teaching of the prophets is generally distorted by the beliefs of the world and the interpretations of the priests. If we wish to ascertain what the founders of great religions taught, we have to get back to the original sources.

Buddhism in all its forms goes back to the life and teaching of the Buddha. While the austerities practised by him till he attained enlightenment appeal to the Hinayāna, the Pali, or the Southern school, his life of service and compassion for 45 years after the attainment of enlightenment is the authority for the Mahāyāna, the Sanskrit or the Northern school.

The religious quest springs from the consciousness of the imperfection and suffering of the world. The questions which worried Tolstoy in the fiftieth year of his life disturb all thinking men. "What is life? Why should I live? Why should I do anything? Is there any meaning in life that can overcome inevitable death?" Nijinsky summed up the whole problem in his *Diary* when he wrote: "The whole life of my wife and all of mankind is death." How can we be saved from the body of this death? This is the problem of religion.

The Buddha traces suffering to selfish desire. Suffering is the result of tension between a living creature's essential impulse to try to make itself into the centre of the universe and its essential dependence on the rest of creation. Craving is that which binds the individual to the creative process. The individual with selfish desire becomes the slave of the universe. We can overcome suffering only if we get rid of *tr̥ṣṇā* or *taṇhā*. To attempt to get rid of suffering through the various devices of self-deception is not to cease to suffer but to suffer in a different way.

The Buddha formulates the eight-fold path of morality which helps us to eliminate selfish desire and overcome

suffering. When the Upaniṣads declare, "That thou art", *tat tvam asi*, it is not a mere statement of fact. It is a call to action. Make thyself that which thou know thou canst be. Whereas the Hindu mind believes in a permanent element in the individual which can stand firm and unshaken in the midst of change, the Buddhist stresses the dynamic character of the self. No change is possible with an unchanging consciousness. We can achieve the possibilities in us by the exertion of the will rather than by the play of the intellect. Religion is not a creed, but a vital process. It is no use railing against God or destiny when we are ourselves the authors of our disgrace. If few are chosen, it is because few choose to be chosen. The Buddha laid stress on the creative freedom of man. The Buddha did not encourage dependence on the supernatural. He could not conceive of a being capable of creating a world for the express purpose of its creatures praising him. The ten veramaṇīs or prohibitions or abstinences called *dasāśīla* or *dasāśikṣāpada* which the novices in the path of Buddhism utter are given in these words: "I take upon myself the abstinence, (1) from destroying life, (2) from taking what is not given, (3) from leading an unchaste life, (4) from speaking untruth, (5) from giving myself to intoxicating drugs, (6) from eating at irregular hours, (7) from seeing musical and dancing performances and other shows and pageants, (8) from wearing garlands, perfumes, unguents and other bodily decorations, (9) from using high couches and seats, (10) from accepting gifts of gold and silver." The first five are the Buddhist *pañcaśīla*.

Pāpātipātā veramaṇi sikkhāpadam samādiyāmi
 Adinnādānā veramaṇi sikkhāpadam samādiyāmi
 Kāmesu micchācārā veramaṇi sikkhāpadam samādiyāmi
 Musāvādā veramaṇi sikkhāpadam samādiyāmi
 Surā-merayamajja-pamādaṭṭhānā
 veramaṇi sikkhāpadam samādiyāmi

Conflicts in the world are conflicts in the human soul enlarged. If men were at peace within themselves, the outer conflicts between nations would inevitably cease. By practising the Buddha's *pañcaśīla* we will develop patience, courage, love

and unselfishness. The Buddha teaches us that even in an age of anxiety and violence, it is possible to gain and maintain inner harmony, which is not at the mercy of outward circumstance.

Niroḍḍhaṃ paramam sukhaṃ : Nirvāṇa is the highest bliss. It is not a negative state of annihilation but a positive state of joy, consciousness grown from an unhappy to a beatific one. The Buddha does not tell us that man is but a bubble on the turbulent surface of nature and that he has no destiny save to undergo dissolution. The Hindu affirms that man can realise his identity with Brahman, the ground of all being; the Buddhist says that man can live in a transfigured world where *samsāra* and *niroḍḍha* are one. In *Mahā-saccaka Sutta*, the Buddha himself is reported to have described the supreme triumph of reaching the goal of his quest as follows :

“When this knowledge, this insight had arisen within me, my heart was set free from intoxication of lusts, set free from the intoxication of becomings, set free from the intoxication of ignorance. In me, thus emancipated, there arose the certainty of that emancipation. And I came to know : “Rebirth is at an end. The higher life has been fulfilled. What had to be done has been accomplished. After this present life there is no further for this or that. This last insight did I attain to in the last watch of the night. Ignorance was beaten down, insight arose, darkness was destroyed, the light came, inasmuch as I was there strenuous, earnest, master of myself”. Thus ended the struggle of six long years.

The Buddha is said to be a physician. Even as the physician strives to restore to health a sick man, the Buddha tries to restore us to our normal condition. If our leaders become normal, we may be able to replace the present social order in which division, falsehood and violence prevail, by a new one in which humanity, truth and brotherhood will reign.

On the occasion of the 2,500th anniversary of the Buddha's parinirvāṇa, the Government of India decided to publish standard versions in Devanāgarī script of the complete Pali

and the Sanskrit texts of the two schools, Southern and Northern, in the hope that some of the readers of these books may be impelled to love the good, to practise altruism and hold their spirit aloof from the desires and ambitions of the world.

S. Radhakrishnan

INTRODUCTION

1. The Pāli Tipiṭaka

After the passing away of the Buddha at Kusinārā, the disciples had assembled to pay their last homage to him. The Venerable Mahā Kassapa, the chief of the congregation, was delivering words of consolation to the bereaved assembly, reminding them of the declaration of the Buddha:—"It is the very nature of all things near and dear to us that we must divide ourselves from them." Subhadra, a monk who had received ordination in an advanced age, however, did not look gloomy. He took a perverted view of the situation and spoke :—"Do not grieve, brothers, for now we are definitely released from the restraint of the Great Teacher and his too rigid discipline. While the Teacher lived, we were constantly rebuked for failing to observe the hard rules; but now we are at liberty to do as we please; therefore, do not grieve." These words sounded a note of warning against the future possible distortion of the Dhamma at the hands of faithless members of a similar category. The Venerable Mahā Kassapa felt an urgent need for convening a Grand Council of the leading Elders of the Saṅgha to make a full collection of the teachings, and also to adopt means for their right preservation and transmission to posterity. He addressed the Bhikkhus thus :—"Come, friends, let us chant together the Dhamma and the Vinaya..." The Venerable Mahā Kassapa drew a list of five hundred names of the topmost disciples to be appointed as members of the Council. At first, the name of the Venerable Ānanda was left out in view of the fact that he had not attained Arhathood till then. But, as no one else in the Saṅgha had the privilege of listening to the Teacher so very closely and for such a long period of time, his participation was deemed necessary and important. He was, consequently, asked to go to a suitable abode and develop insight, so as to become an Arhat and be able in time to join the Council. King Ajātasattu made necessary arrangements for the accommodation

and convenience of the convention at Rājagaha, a favourite resort of the Teacher himself. A spacious beautiful pavilion was raised for the meeting at the entrance of the Sattapaṇṇi cave, on the northern side of the Vebhāra Hill.

Venerable Ānanda made the best efforts to train himself in developing insight. He kept walking up and down for the whole night absorbed in deep meditation; and, early in the morning, as he was going to stretch himself on the bed, his feet had left the ground and the head had not reached the pillow, at that moment, as if by a flash of light, darkness was dispelled and the sublime light of sainthood dawned upon him. And, through his miraculous superhuman power of an Arhat, he appeared all of a sudden on his appointed seat in the hall, as if emerging out of the ground, exactly as the proceedings were going to be started.

With the permission of the Saṅgha, Venerable Mahā Kassapa asked Upāli questions on Vinaya, relating to the different monastic transgressions; the matter, the occasion, the individuals concerned, the principal rules (paññatti), the amended rules (anupaññatti) and all other details about them. In this, the Vinaya text was agreed upon and settled. Then, again, with the permission of the Saṅgha, he asked Ānanda questions on the Dhamma; the occasion of a sermon and the person or persons with reference to whom it was preached.¹

The commentary, *Aṭṭhakathā* of a much later date, assumes that the Abhidhamma Pitaka was also included in the collection of the Dhamma, and that the Tipitaka, as it is available to us, was finalised at this very stage.²

A century after the passing away of the Buddha, a great controversy arose in the Saṅgha concerning the interpretation of some Vinaya rules. This necessitated the holding of the Second Council at Vesāli. Seven hundred leading Elders

1. *Cullaavagga*, Chapter XI. 2. *Sumaṅgalavilāsini*, *Nidānakathā*.

from distant parts of the country assembled to take part in it; and they had drawn up a new edition of the Scripture, resulting in the fixing up of the Piṭakas, Nikāyas, Aṅgas and Dhammakhandhas.¹

A century after, when King Asoka embraced Buddhism and gave patronage to its propagation, the richly furnished monasteries became centres of attraction even for the members of other sects. They donned the yellow robe, either by proper ordination or stealthily, and went about as Bhikkhus enjoying the privileges and honour given to them. They could not, however, leave their own inclinations behind, and began to twist and distort the Doctrine in their own ways. This led to a state of confusion, and it became difficult to distinguish the true principles from the coloured ones. The Elders felt the necessity of safeguarding the purity of the Dhamma by affecting a total purge of the alien elements in the philosophical life of the Saṅgh. This task was entrusted to the Venerable Moggaliputta Tissa, a saint, a thinker and a writer. He compiled a book called the Kathāvattu, refuting all the foreign theories, which was adopted as a book of the Tipiṭaka at the Third Council held at Pāṭaliputta under his presidentship. After the council, Asoka despatched missionaries to the then civilised parts of the world for a wide propagation of the Dhamma.²

Prince Mahinda and Princess Saṅghamittā renounced the world and joined the Order to lead a mission to Sīhaladīpa (Ceylon). Since then, the island became a stronghold of Buddhism, and, even up to this day has maintained the tradition of Pāli Tipiṭaka with all religious zeal.³

Up till then, Tipiṭaka was traditionally handed down orally from teachers to pupils. The complete Scripture was compiled in the form of books for the first time in Ceylon in 29 B. C., under the patronage of king Vaṭṭagāmani Abhaya, with all the detailed classifications that are now obtained in the Pāli Tipiṭaka of the Theravāda School. This was done

1. *Cullavagga Chapter XI.* 2. *Mahāvamsa, Chapter V.*
3. *Mahāvamsa, op. cit.*

at the Council convened for the purpose, known as the Fourth Great Council.¹

The Fifth Council, according to orthodox tradition, was held at Mandalay, Upper Burma, in 1871, under the patronage of King Mindon. In this Council, the entire Pāli Tipiṭaka was revised, re-edited and finally engraved on 729 marble slabs as follows² :—

Vinaya :	111 slabs
Sutta :	410 slabs
Abhidhamma :	208 slabs

Now, in this present age, there was the necessity of bringing out an up-to-date edition of the Tipiṭaka, printed on modern machines. This task was taken up by the Burmese Chattha Saṅgāyana, the Sixth Great Council, held in Rangoon, which opened on the 17th May 1954 in the artificially built Rock cave, specially constructed for this purpose, at a little distance from the city. Two thousand and five hundred of the most erudite Bhikkhus, from all parts of the world, participated in chanting the Tipiṭaka together. A modern printing press was installed in a separate building, and there the texts were printed as soon as they received the sanction of the Saṅgāyana. The Council kept functioning for two years, and concluded on the full moon day, May 1956, synchronising with the 2500th Jayantī of the Buddha.

In Ceylon, Burma, Thailand and Cambodia the principal religion of the people is Theravāda Buddhism, that adheres to Pāli Tipiṭaka as its Scripture. There, they have been having editions of it in their own scripts. Pali Text Society, London, has been able to complete the publication of a major portion of it in Roman characters. But, as yet, it is not fully available in any script of India

It is with a view to removing this want that the Government of India and the State Government of Bihar have jointly

1. *Mahāvamsa*, Chapter X—XXIII. 2. बौद्ध धर्म के २५०० वर्ष, १९५६, p. 35.

sanctioned a scheme of editing and publishing the entire Pāli Tipiṭaka in Devanāgarī, which will be complete in 40 volumes of about 400 pages each. This task has been entrusted to the Devanāgarī Tripiṭaka Publication Department, Nalanda. It aims at presenting a co-ordinated edition of the text based on the printed books in Roman, Sinhalese, Burmese and Siamese scripts.

The following chart will show the distribution of books in the literature :—

TIPITAKA

Vinaya Piṭaka	Sutta Piṭaka	Abhidhamma Piṭaka
1. Mahāvagga	1. Dīghanikāya	1. Dhammasaṅgani
2. Cullavagga	2. Majjhimanikāya	2. Vibhaṅga
3. Pācittiya	3. Saṃyuttanikāya	3. Dhātukathā
4. Pārājika	4. Aṅguttaranikāya	4. Puggalapaññatti
5. Parivāra	5. Khuddakanikāya,	5. Kathāvattu
	which contains the 6	Yamaka
	following fifteen	7. Paṭṭhāna
	books :—	
	i. Khuddakapātha	
	ii. Dhammapada	
	iii. Udāna	
	iv. Itivuttaka	
	v. Suttanipāṭa	
	vi. Vimānavattu	
	vii. Petavatthu	
	viii. Theragāthā	
	ix. Therīgāthā	
	x. Jātaka	
	xi. Nīdessa	
	xii. Paṭisambhidamagga	
	xiii. Apadāna	
	xiv. Buddhavaṃsa &	
	xv. Cariyāpiṭaka	

2. The Present Volume

The two volumes—the Mahā Niddesa and the Culla Niddesa—are very much different in contents and style from the other books of the Tipiṭaka. In reality, they belong to the class of Commentary Literature, the Atthakathā, and not to that of the texts, the Pāli, inasmuch as they are nothing but full-fledged commentary on the last two chapters of the Suttanipāta, the Aṭṭhaka Vagga and the Pāṇāyana Vagga. The text of the entire Vagga is quoted in the beginning of the book. And then, following the traditional style of the Atthakathā, stanza by stanza has been taken up and commented upon. For the convenience of the reader, the extracts quoted from the text of the stanzas, ending with 'ti', have been printed in black. This will help in avoiding the confusion that is likely to be caused due to their being mixed up with the body of the commentary.

3. The Present Edition

The present edition has been prepared co-ordinating the following texts :—

Burmese—Chaṭṭhasaṅgāyana publication, 1956

Sinhalese—Edited by Sri Pandit Weliwitiya Sorato Thero, 1933

Siamese—Mahāmakuṭa Government publication 1926.

Roman—Edited by L. DE LA VALLEE POUSSIN and E. J. THOMAS. P. T. S. 1916-17

For preparing our MSS, we have adopted the Chaṭṭhasaṅgāyana edition as our basic text, an edition that has been brought out by the efforts and sanction of an international Saṅgha constituting of the zealous holders of the orthodox Theravāda tradition.

As regards the other details of preparing the edition, the same principles have been followed as in the other previous Volumes.

× × × ×

Shri Shyamdeo Dubedi M.A., a learned member of our Editorial Staff, has finalised the Press Copy of this volume, and has vigilently supervised the work of Printing.

Varanasi
29th August, 1959.

Bhikkhu J. Kashyap

महानिद्देसपालि

सूची

	पिड्डा		पिड्डा
अट्टकवग्गो	३		
१. कामसुत्तनिद्देसो	३	९. मागण्डियसुत्तनिद्देसो	१५१
२. गुहट्टकसुत्तनिद्देसो	२०	१०. पुराभेदसुत्तनिद्देसो	१७५
३. दुट्टकसुत्तनिद्देसो	५२	११. कलहविवादसुत्तनिद्देसो	२१३
४. सुद्धट्टकसुत्तनिद्देसो	७०	१२. चूळवियूहसुत्तनिद्देसो	२४०
५. परमट्टकसुत्तनिद्देसो	८५	१३. महावियूहसुत्तनिद्देसो	२५७
६. जरासुत्तनिद्देसो	९७	१४. तुवट्टकसुत्तनिद्देसो	२८७
७. तिस्समेत्तेय्यसुत्तनिद्देसो	११६	१५. अत्तदण्डसुत्तनिद्देसो	३४५
८. पसूरसुत्तनिद्देसो	१३४	१६. सारिपुत्तसुत्तनिद्देसो	३८६

आमूल

१. पालि तिपिटक

कुशीनगर में बद्ध के निर्वाण के पश्चात् उनके शिष्यगण एकत्रित हो अपनी-अपनी श्रद्धा-ञ्जलि अर्पित कर रहे थे। उस समय सङ्घनायक आयुष्मान् 'महाकस्सप' सभी को सान्त्वना देते हुए बुद्ध के उपदेश का स्मरण दिला रहे थे—“सभी वस्तुये अनित्य हैं और उनसे वियोग होना अवश्यम्भावी है”। उस परिषद् में 'सुभद्' नामक एक बृद्ध प्रव्रजित भिक्षु भी था, जो दुःखी होने के स्थान पर बुद्ध के निर्वाण पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए कह रहा था—“भिक्षुओ, दुःखी मत हो। अब हम उस महाश्रमण के कठिन नियन्त्रण से मुक्त हो गये। वह बराबर कहता रहता था—‘यह करना तुम्हें विहित है और यह नहीं’। अब हम स्वेच्छा से जो चाहेंगे करेंगे और जो नहीं चाहेंगे नहीं करेंगे। अतः आप लोग दुःखी न हो”। 'सुभद्' के इन शब्दों से चेतावनी सी मिली और आयुष्मान् 'महाकस्सप' ने इस आवश्यकता का अनुभव किया कि प्रमुख भिक्षुओं की एक बैठक का आयोजन हो, जिसमें बुद्ध-वचन का प्रामाणिक संग्रह कर लिया जाय, जिससे धर्म की सुरक्षा हो सके और आगामी पीढ़ियों में उसकी परम्परा अबाधगति से चल सके। अतः उन्होंने भिक्षुओं को सम्बोधित किया—“आवुसो, हम लोग 'धम्म' और 'विनय' का सङ्गायन करें”। उन्होंने उक्त बैठक में भाग लेने के लिये सुयोग्य भिक्षुओं की एक नामावली तैयार की। पहले तो उन्होंने आयुष्मान् आनन्द का नाम उसमें सम्मिलित नहीं किया, क्योंकि तब तक वे अर्हत्-पद को प्राप्त न कर सके थे। परन्तु सम्पूर्ण सङ्घ में भगवान् के निकटतम सम्पर्क में रहकर उनके वचन श्रवण करने का सीमाग्य आयुष्मान् आनन्द के अतिरिक्त और किसी को नहीं प्राप्त हुआ था। अतः अन्त में आयुष्मान् 'महाकस्सप' को उनका भी नाम सम्मिलित करना पड़ा। आयुष्मान् आनन्द भी पूरी श्रद्धा और वीर्य से ध्यानारम्भ से तल्लीन हो गये, जिससे वे बैठक की तिथि के पूर्व ही अर्हत्-पद की प्राप्ति करने में समर्थ हो सकें।

तत्कालीन मगध-सम्राट अजातशत्रु ने राजगृह के 'बैमार' पर्वत के उत्तर-पार्श्व में स्थित 'सप्तपर्णी' गुहा के द्वार पर एक विस्तृत रम्य मण्डप का निर्माण कराया, जिसमें भिक्षुओं की उक्त बैठक प्रारम्भ हुई।

उत्तर आयुष्मान् आनन्द को भी अपने प्रयत्न में सिद्धि-लाभ हुआ। सारी रात वे ध्यान-मग्न हो चक्रमण करते रहे। प्रातःकाल जैसे ही वे शय्या पर लेटने के लिये बैठे, उनके पैर भूमि से उठ चुके थे और उनका सिर तकिये तक पहुँचा भी न था कि इसी बीच उनका अज्ञानान्धकार नष्ट हो गया और उनमें परम ज्ञान की ज्योति का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने अर्हत्-पद को प्राप्त

कर लिया। अपनी दिव्य शक्ति से वे बैठक प्रारम्भ होने के क्षण ही मण्डप में अपने लिये निर्धारित आसन पर ऐसे विराजमान हुए मानो वे पृथ्वी के गर्भ से उद्भूत हुये हो।

सङ्घ की अनुमति लेकर आयुष्मान् 'महाकुत्सप' ने उपाधि से विनय के नियम पूछे और आयुष्मान् उपाधि ने भी सङ्घ को उन प्रश्नों का सविस्तार उत्तर दिया। फिर उसी प्रकार आयुष्मान् 'महाकुत्सप' ने आनन्द से भगवान् बुद्ध के उपविष्ट वर्म पर प्रश्न किये, जिनका उन्होंने पूर्णरूपेण उत्तर दिया। इस प्रकार इसमें 'विनय' और 'धम्म' दोनों का समग्र किया गया।^१ पर इस सङ्गीति के कई शताब्दी पश्चात् लिखे गये 'अट्टकथा-साहित्य' में यह उल्लेख मिलता है कि इसी पहली बैठक में ही 'अभिघम्मपिटक' का भी समग्र हो गया था और जिस रूप में आज हमें 'तिपिटक' साहित्य मिलता है, उसी रूप में उसका उसी समय निर्माण हुआ था।^१

बुद्ध-निर्वाण के एक शताब्दी पश्चात् विनय के नियमों को लेकर एक बड़ा विवाद सजा हुआ, जिस पर निर्णय करने के लिये वैशाली में एक दूसरी बैठक बुलाई गई। इसमें देश के सुदूर प्रान्तों के चुने हुये विख्यात सात सौ शिक्षु सम्मिलित हुये। इसी कारण यह द्वितीय सङ्गीति 'सप्तशतिका' नाम से प्रसिद्ध है।^१

इसके एक सौ वर्ष बाद जब सम्राट् अशोक ने बौद्ध-धर्म ग्रहण किया और उसके प्रचार को राज्याश्रय प्राप्त हुआ, तब लाम देखकर अन्य भतावलम्बी भी बौद्ध-विहारों की ओर आकृष्ट हुये। विधिवत् प्रव्रज्या ग्रहण करके अथवा चुपचाप ही पीले वस्त्र धारण कर वे अपने को बौद्ध-मिक्षु घोषित करके विहारों में रहने लगे। किन्तु उनके लिये अपने पुराने सत्कार और विचार छोड़ना सरल नहीं था। अतः उन्होंने अपनी-अपनी तरह से धर्म की उलट-पलट व्याख्या करनी प्रारम्भ कर दी। फलतः मिक्षु-सङ्घ के बौद्धिक जीवन में एक उच्छृङ्खलता प्रकट हुई और धर्म के वास्तविक स्वरूप का निर्णय करना कठिन हो गया। धर्म के नायक स्थविर मिक्षुओं ने धर्म की नुद्धता को चिरस्थायी रखने के लिये तथा उसे विरोधी तत्त्वों से मुक्त रखने के लिये एक तीसरी सङ्गीति की आवश्यकता समझी। सम्राट् अशोक के गुरु आयुष्मान् 'मोग्गलिपुत्त तिस्स' के नेतृत्व में पाटलिपुत्र के 'अशोकाराम' नामक विहार में इस सङ्गीति की बैठक हुई। आयुष्मान् 'तिस्स' ने अशुद्ध मतों का क्षण्डन करते हुए और मौलिक परम्परा से मान्य शुद्ध 'स्थविरवाद' नामक धर्म के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए 'कथावत्थु' नामक एक ग्रन्थ की रचना की, जिसे सङ्घ ने तीसरी सङ्गीति में बुद्ध-वचन का ही शौर्य प्रदान किया। आज भी यह 'तिपिटक' साहित्य का एक अभूष्य ग्रन्थ माना जाता है। इस सङ्गीति के पश्चात् अशोक ने सुदूर देशों में प्रचार करने के निमित्त धर्मदूतों को भेजा।^१

१. चुल्लवग्ग, ग्यारहवाँ 'खन्धक'।
२. सुमङ्गलविलासिनी, निदान कथा।
३. चुल्लवग्ग, ग्यारहवाँ 'खन्धक'।
४. महावंस, पाँचवाँ अध्याय।

राजकुमार 'महिन्द' और राजकुमारी 'सङ्घमिता' ने गृह त्याग कर भिक्षु-सङ्घ में प्रव्रज्या ग्रहण की। उन लोगों ने दक्षिण में सुदूर लङ्काद्वीप की यात्रा की और वहाँ वे धर्म की स्थापना करने में सफल हुये। आज तक बौद्ध 'पालि-तिपिटक' की परम्परा लङ्का में अनप्राणित हो रही है।^१

ईसा पूर्व २९ में राजा 'बट्टगामिनी अमय' के संरक्षण में एक चौथी सङ्गीति की बैठक हुई, जिसमें सम्पूर्ण 'तिपिटक' लिपिबद्ध कर लिया गया।^१ फिर स्थविरवाद की मान्यता के अनुसार बर्मा देश के माण्डले नामक नगर में १८७१ ई० में राजा मिण्डन के संरक्षण में पाँचवी सङ्गीति का आयोजन हुआ, जिसमें सारे 'तिपिटक' का सशोधन और सम्पादन किया गया और उन्हें सङ्गमरमर की पट्टियों पर इस प्रकार उत्कीर्ण कर दिया गया।—

विनय	१११ पट्टियाँ
सुत्त	४१० पट्टियाँ
अभिधम्म	२०८ पट्टियाँ

लोग इस आवश्यकता का अनुभव कर रहे थे कि अब इस युग में आधुनिकतम यन्त्रों पर 'तिपिटक' का सुन्दर से सुन्दर मुद्रित संस्करण प्रकाशित किया जाय। बर्मा में होने वाले 'छट्ट-सङ्गायन' में इस अभाव की पूर्ति करने का निश्चय किया गया। राजधानी रंगून से कुछ ही दूर सुन्दर निर्मित पाषाण-गुहा में १७ मई, १९५४ को सङ्गायन की बैठक प्रारम्भ हुई। ससार के विभिन्न देशों से आमन्त्रित ढाई सहस्र विद्वान् भिक्षुओं ने सङ्गायन में भाग लिया। सङ्गायन द्वारा स्वीकृत मूल 'तिपिटक' वही अपने मुद्रणालय में मुद्रित कर लिया गया। १९५६ ई० की पञ्चीस-सौवी बुद्ध-जयन्ती के दिन सङ्गायन की बैठक पूरी हुई।

लङ्का, बर्मा, थाईलैण्ड और कम्बोडिया आदि में राष्ट्रधर्म बौद्ध-स्थविरवाद है, जिसका सर्वमान्य ग्रन्थ है :—'पालि-तिपिटक'। उन देशों में उनकी अपनी-अपनी लिपियों में समय-समय पर 'तिपिटक' के सुन्दर से सुन्दर संस्करण प्रकाशित होते रहे हैं। लन्दन की 'पालि टेक्स्ट सोसायटी' ने भी 'तिपिटक' के अधिकांश का प्रकाशन रोमन लिपि में किया है। किन्तु अभी तक भारतवर्ष की किसी लिपि में यह अमूल्य साहित्य उपलब्ध नहीं है।

१. महावंस, वही।

२. महावंस, अध्याय १०-२३।

३. बौद्धधर्म के २५०० वर्ष, १९५६, पृ० ३५।

इस अभाव की पूर्ति के उद्देश्य से केन्द्रीय तथा बिहार सरकार के समुक्त प्रयत्न से सम्पूर्ण 'पालि-तिपिटक' को देवनागरी लिपि में सम्पादित तथा मुद्रित करने की योजना स्वीकृत की गई। प्रायः चार-चार सौ पृष्ठों वाले चालीस खण्डों में यह प्रकाशन समाप्त होगा। इसे पूर्ण करने का भार नालन्दा के 'देवनागरी तिपिटक प्रकाशन विभाग' को सौंपा गया है। इस प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य रोमन, सिंहली, बर्मी तथा स्यामी लिपियों में मुद्रित ग्रन्थों के आधार पर एक प्रामाणिक देवनागरी-संस्करण उपस्थित करना है।

'तिपिटक' के ग्रन्थों का विभाजन किस प्रकार है, यह निम्न तालिका से प्रकट होगा :—

तिपिटक		
विनयपिटक	सुत्तपिटक	अभिधम्मपिटक
१ महावग्ग	१. दीघनिकाय	१ धम्मसङ्गणि
२ खुल्लवग्ग	२. मज्झिमनिकाय	२. विभङ्ग
३. पाराजिक	३. समुत्तनिकाय	३ धातुकथा
४. पाचित्ति	४. अट्टसुत्तरनिकाय	४. पुग्गलपञ्जत्ति
५ परिवार	५ खुद्दकनिकाय	५. कथावत्थु
	(१) खुद्दकपाठ	६. यमक
	(२) धम्मपद	७. पट्टान
	(३) उदान	
	(४) इत्थिवुत्तक	
	(५) सुत्तनिपात	
	(६) विमानवत्थु	
	(७) पेतवत्थु	
	(८) थेरगाथा	
	(९) थेरीगाथा	
	(१०) जातक	
	(११) निद्देस	
	(१२) पट्टिसम्भिवामग्ग	
	(१३) अपदान	
	(१४) बुद्धवस	
	(१५) चरियापिटक	

२. प्रस्तुत ग्रन्थ

‘निर्देश’ के दो भाग—महा और चुल्ल—तिपिटक के दूसरे ग्रन्थों से मूलतः मिले हैं। सचमुच, इनकी गिनती अट्टकथा-साहित्य के साथ होनी चाहिये, न कि मूल पालि-साहित्य के साथ, क्योंकि वे सुत्त-निपात के अन्तिम दो वर्गों—अट्टकवग्ग और पारायनवग्ग—के भाष्य मात्र हैं। पुस्तक के प्रारम्भ में ही पूरे वर्ग का मूल पाठ अवतरित कर दिया गया है। फिर अट्टकथा की पारम्परिक शैली के अनुसार एक एक गाथा लेकर उसकी पूरी व्याख्या की गई है। पाठक की सुविधा के लिये मूल पाठ के प्रतीकों को काले अक्षरों में छाप दिया गया है ताकि वे व्याख्यांश से मिल जा कर कोई भ्रम पैदा न कर सकें।

३. प्रस्तुत संस्करण

प्रस्तुत ग्रन्थ का संस्करण निम्नांकित ग्रन्थों के पाठों के आधार पर तैयार किया गया है :—

वर्षी-संस्करण—छट्ट-संगायन प्रकाशन, १९५६

स्यामी-संस्करण—महामकुट राजविद्यालय प्रकाशन, १९२६

सिंहली-संस्करण—श्री पं० वेलिवित्तिय सोरतो थेर द्वारा सम्पादित, १९३३

रोमन-संस्करण—श्री एल डी ला वेली पाउजिन तथा ई० जे० थोमस द्वारा सम्पादित, पालि टेक्स्ट सोसायटी, १९१६—१७

स्थविरवाद परम्परा के चुने हुये प्रतिनिधियों के अन्तर्राष्ट्रीय सङ्घ के सोत्साह सम्मिलित प्रयत्न से तैयार किये गये ‘छट्ट-संगायन संस्करण’ को हमने अपनी पहली पाण्डुलिपि तैयार करने के लिये आधार-स्वरूप ग्रहण किया है।

इस जिल्द में भी सम्पादन के वे ही विस्तृत सिद्धान्त अपनाये गये हैं जो हमारी और जिल्दों में विद्यमान हैं।

× × × ×

इस ग्रन्थ की पाण्डुलिपि को योग्यता से तैयार करने और अवधि के भीतर छपाई पूर्ण कर देने का श्रेय हमारे सम्पादक मण्डल के विद्वान् सदस्य श्री श्यामदेव द्विवेदी, एम० ए० को है।

वाराणसी
२९-८-५९

भिक्षु जगदीश काश्यप

**THE PĀLI ALPHABET IN
DEVANĀGARĪ AND ROMAN CHARACTERS**

VOWELS

अ a आ ā इ i ई i उ u ऊ ū ए e ओ o

CONSONANTS WITH VOWEL "A"

क ka	ख kha	ग ga	घ gha	ङ ṅa
च ca	छ cha	ज ja	झ jha	ञ ña
ट ṭa	ठ ṭha	ड ḍa	ढ ḍha	ण ṇa
त ta	थ tha	द da	ध dha	न na
प pa	फ pha	ब ba	भ bha	म ma
य ya	र ra	ल la	व va	स sa
		ह ha	ळ ḷa	अ am̐

VOWELS IN COMBINATION

क ka का kā कि ki की ki कु ku कू kū के ke को ko
 ख kha खा khā खि khi खी khi खु khu खू khū खे khe खो kho

CONJUNCT-CONSONANTS

क kka	ञ्ज ङ्जा	द्व द्वा	म्ब म्बा
क्ख kkhā	ञ्छ ङ्छा	ध्व ध्वा	म्भ म्भ्वा
क्य kya	ञ्ज ङ्जा	ध्व ध्वा	म्म म्मा
क्रि kri	ञ्ज, ङ्क ङ्ङा	न्त nta	म्य mya
क्ल kla	दृ दृट् ङ्गा	न्त्व ntva	म्ह mha
क्व kva	दृ ङ्गा	न्थ nthā	य्य yya
क्ख्य khya	दृ, दृट् ङ्ङा	न्द nda	म्ह yha
क्ख्वा khvā	दृ, दृट् ङ्ङा	न्द्र ndra	ल्ल lla
ग्ग gga	ण्ट ङ्गा	न्ध ndha	ल्य lya
ग्घ ggā	ण्ट ङ्गा	ञ्ज nna	ल्ह lha
ग्य gya	ण्ट ङ्गा	न्य nya	व्ह vha
ग्र gra	ण्ण ङ्गा	न्ह nha	स्त sta
ङ्क ṅka	ण्ह ङ्गा	प्य ppa	स्त्र stra
ङ्क्ख ṅkhā	त्त tta	प्फ ppha	स्न sna
ङ्ग ṅga	त्थ ttha	प्य pya	स्य sya
ङ्घ ṅghā	त्त tva	प्ल pla	स्स ssa
ञ्ज cca	त्थ tya	व्व bba	स्म sma
ञ्छ cchā	त्र tra	व्भ bbha	स्व sva
ञ्ज jja	दृ, दृट् द्दा	व्य bya	ह्य hma
ञ्ज, ङ्क ṅjja	दृ ddha	ब्र bra	ह्व hva
ञ्ज ङ्ङा ṅṅā	द्य dya	म्य mpa	ळ्ह ḷha
ञ्ह ṅhā	द्र dra	म्फ mpha	

ī = ā;	ī = i;	ī = ī;	ū = u;	ū = ū;	ē = e;	ī = o
१	२	३	४	५, ६	७	८
१	२	३	४	५	६	७
						०

सुत्तपिटके
खुद्दकनिकाये
महानिद्देशो

महानिद्देसपालि

१. अट्टकवग्गो'

१. कामसुत्तनिद्देशो

१. कामं कामयमानस्स, तस्स चे तं समिज्जति ।

अद्धा पीत्तिमनो होत्ति, लद्धा मच्चो यद्विच्छति ॥

B. 1,
E. 1

कामं कामयमानस्सा ति । कामा ति । उद्दानतो द्वे कामा -
वत्थुकामा च किलेसकामा च । कतमे वत्थुकामा ? मनापिका रूपा मना-
पिका सद्दा मनापिका गन्धा मनापिका रसा मनापिका फोट्टुब्बा, अत्थरणा
पावुरणा^१ दासिदासा^२ अजेळका कुक्कुटसूकरा हत्थिगवास्सवळवा खेत्तं
वत्थु हिरञ्जं सुवण्णं गामनिगमराजधानियो रट्टं च जनपदो च कोसो च
कोट्टागारं च, यं किञ्चि रजनीयं^३ वत्थु^४ - वत्थुकामा ।

अपि च, अतीता कामा अनागता कामा पच्चुप्पन्ना कामा
अज्झत्ता कामा बहिद्धा कामा अज्झत्तबहिद्धा कामा हीना कामा मज्झिमा
कामा पणीता कामा आपायिका कामा भानुसिका कामा दिब्बा कामा
पच्चुपट्ठिता कामा निम्मित्ता कामा अनिम्मित्ता^५ कामा^६ परनिम्मित्ता कामा
परिग्गहिता कामा अपरिग्गहिता कामा समायिता कामा अममायिता
कामा, सब्बे पि कामावचरा धम्मा सब्बे पि रूपावचरा धम्मा सब्बे पि
अरूपावचरा धम्मा तण्हावत्थुका तण्हारम्मणा कामनीयट्ठेन रजनी-
यट्ठेन मदनीयट्ठेन कामा - इमे वुच्चन्ति वत्थुकामा ।

B. 2

B. 2

कतमे किलेसकामा ? छन्दो कामो रागो कामो छन्दरागो कामो
सङ्कप्पो कामो रागो कामो सङ्कप्परागो कामो, यो कामेसु कामच्छन्दो

१ अट्टकवग्गिको - स्या०; सी० पोत्थके नत्थि । २ पापुरणा - सी०, स्या० । ३ दासीदासा - स्या० । ४-४. रजनीयवत्थु - स्या० । ५-५. स्या० पोत्थके नत्थि ।

कामरागो कामनन्दी कामतण्हा कासस्नेहो^१ कामपरिळाहो काममुच्छा
कामज्भोसानं कामोघो कामयोगो कामुपादानं कामच्छन्दनीवरणं ।

अदसं काम ते मूलं, सङ्कप्पा काम जायसि ।

न तं सङ्कप्पयिस्सामि, एवं काम न होहिंसी^२ ति ॥

६ इमे वुच्चन्ति किलेसकामा । कामयमानस्सा ति । कामयमानस्स
इच्छमानस्स सादियमानस्स पत्थयमानस्स पिह्यमानस्स अभिजप्प-
मानस्सा ति — कामं कामयमानस्स ।

तस्स चे तं समिज्जती ति । तस्स चे ति । तस्स खत्तियस्स वा
ब्राह्मणस्स वा वेस्सस्स वा सुद्दस्स वा गहट्टस्स वा पब्बजितस्स वा देवस्स
१० वा मनुस्सस्स वा । तं ति । वत्थुकामा वुच्चन्ति । मनापिका रूपा मना-
पिका सद्दा मनापिका गन्धा मनापिका रसा मनापिका फोट्टब्बा । समि-
ज्जती ति । इज्जति समिज्जति लभति पटिलभति अधिगच्छति विन्दती
ति — तस्स चे तं समिज्जति ।

अद्धा पीतिमनो होती ति । अद्धा ति । एकंसवचनं निस्संसय-
१५ वचनं निक्कट्ठावचनं अट्टेज्जवचनं अट्टेळहकवचनं नियोगवचनं अपण्णक-
वचनं अवत्थापनवचनमेतं — अद्धा ति । पीती ति । या पञ्चकामगुण-
पटिसञ्चुत्ता पीति पामुज्ज^३ आमोदना पमोदना हासो पहासो वित्ति
तुट्ठि ओदमयं अत्तमनता अभिफरणता^४ चित्तस्स । मनो ति । यं चित्तं
मनो भानसं हृदय पण्डरं मनो मनायतनं मनिन्द्रियं विञ्जाणं विञ्जाण-
२० क्वन्धो तज्जा मनोविञ्जाणघातु, अयं वुच्चति मनो । अयं मनो इमाय
पीत्तिया सहगतो होति सहजातो संसट्ठो सम्पयुत्तो एकुप्पादो एकनिरोधो
एकवत्थुको एकारम्मणो । पीतिमनो होती ति । पीतिमनो होति तुट्ट-
१. ३ मनो हट्टमनो पहट्टमनो अत्तमनो उदग्गमनो मुदितमनो^५ पमोदितमनो^६
होती ति — अद्धा पीतिमनो होति ।

२५ लद्धा मच्चो यदिच्छती ति । लद्धा ति । लभित्वा^७ पटिलभित्वा^८
अधिगन्त्वा विन्दित्वा । मच्चो ति । सत्तो नरो भानवो पोसो पुग्गलो जीवो

१. कामसिनेहो—सी० । २. हेहिंसी—स्या० । ३. पामोज्ज—सी० । ४. अभि-
फरणता—सी०; अभिपूरणता—स्या० । ५. स्या० पीत्यके नत्थि । ६. पमुदितमनो—सी०,
समुदितमनो—स्या० । ७. लद्धा लभित्वा—स्या० । ८. सी० पीत्यके नत्थि ।

जागु^१ जन्तु इन्दगु^२ मनुजो । यदिच्छती ति । यं इच्छति यं सादियति यं पत्यति यं पिहेति यं अभिजप्पति, रूपं वा सहं वा गन्वं वा रसं वा फोटुब्बं वा ति - लद्धा मच्चो यदिच्छति । तेनाह भगवा -

“कामं कामयमानस्स, तस्स चे तं समिज्झति ।
अद्धा पीतिमनो होति, लद्धा मच्चो यदिच्छती” ति ॥ ६

२. तस्स चे कामयानस्स^३, छन्दजातस्स जन्तुनो ।
ते कामा परिहायन्ति, सल्लविद्धो व रूपति ॥

तस्स चे कामयानस्सा ति । तस्स चे ति । तस्स खत्तियस्स वा
ब्राह्मणस्स वा वेस्सस्स वा सुहस्स वा गहट्टस्स वा पव्वजितस्स वा देवस्स
वा मनुस्सस्स वा । कामयानस्सा ति । कामे इच्छमानस्स सादिय- 10
मानस्स पत्ययमानस्स पिहयमानस्स अभिजप्पमानस्स । अथ वा, काम-
तण्हाय यायति निव्यति वुय्हति संहरीयति । यथा हत्थियानेन वा अस्स-
यानेन वा भोयानेन वा अजयानेन वा मेण्डयानेन^४ वा ओट्टयानेन वा
खरयानेन वा यायति निव्यति वुय्हति संहरीयति, एवमेवं कामतण्हाय
यायति निव्यति वुय्हति संहरीयती ति - तस्स चे कामयानस्स । 15

छन्दजातस्स जन्तुनो ति । छन्दो ति । यो कामेसु कामच्छन्दो
कामरागो कामनन्दी कामतण्हा कामस्नेहो कामपरिळाहो काममुच्छा
कामज्झोसानं कामोघो कामयोगो कामुपादानं कामच्छन्दनीवरणं, तस्स
सो कामच्छन्दो जातो होति सञ्जातो निब्बत्तो अभिनिव्वत्तो पात्तुभूतो ।
जन्तुनो ति । सत्तस्स नरस्स मानवस्स पोसस्स पुगलस्स जीवस्स 20
जागुस्स जन्तुस्स इन्दगुस्स मनुजस्सा ति - छन्दजातस्स जन्तुनो ।

ते कामा परिहायन्ती ति । ते वा कामा परिहायन्ति, सो वा
कामेहि परिहायति । कथं ते कामा परिहायन्ति ? तस्स तिट्ठन्तस्सेव ते
भोगे राजानो वा हरन्ति, चोरा वा हरन्ति, अग्गि वा दहति, उदकं वा
वहति, अप्पिया वा दायादा हरन्ति, निह्मितं वा नाधिगच्छति, दुप्पयुत्ता वा 25
कम्मन्ता भिज्जन्ति, कुले वा कुलज्जारो^५ उप्पज्जति, यो^६ ते भोगे विकि-
रति विधमति^७ विद्धंसंति, अनिच्चता येव अट्टमी । एवं ते कामा हायन्ति

१ जागु - स्या० । २ इन्दगु - स्या० । ३ कामयमानस्स - स्या०, एवमुपरि पि ।
४ मेण्डकयानेन - सी०, स्या० । ५ कुलज्जापको - स्या०, रो० । ६ सो - सी० । ७
विधमेति - स्या० ।

परिहायन्ति परिधंसेन्ति' परिपतन्ति' अन्तरघायन्ति विप्पलुज्जन्ति ।
कथं सो कामेहि परिहायति ? तिट्ठन्तेव ते भोगे' सो चवति मरति'
विप्पलुज्जति । एवं सो कामेहि हायति परिहायति परिधंसेति' परिपतति
अन्तरघायति विप्पलुज्जति ।

- 5 चोरा हरन्ति राजानो, अग्गि दहति नस्सति ।
अय' अन्तेन जहति, सरीरं सपरिग्गहं ॥
एतदञ्जाय मेधावी, भुञ्जेथ च ददेथ च ।
दत्त्वा च भुत्वा च यथानुभावं,
अनिन्दितो सग्गमुपेति ठानं ति ॥

10 ते कामा परिहायन्ति ।

सल्लविद्धो व रुप्पती ति । यथा अयोमयेन वा सल्लेन विद्धो
अट्टिमयेन' वा सल्लेन दन्तमयेन वा सल्लेन विसाणमयेन वा सल्लेन कट्ट-
मयेन वा सल्लेन विद्धो रुप्पति कुप्पति घट्टीयति पीळीयति व्याधितो
दोभनस्सितो होति, एवमेव वत्थुकामानं विपरिणामञ्जथाभावा
15 उप्पज्जन्ति सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा । सो कामसल्लेन च'
सोकसल्लेन च' विद्धो रुप्पति कुप्पति घट्टीयति पीळीयति व्याधितो
दोभनस्सितो होती ति - सल्लविद्धो व रुप्पति । तेनाह भगवा -

“तस्स चे कामयानस्स, छन्दजातस्स जन्तुनो ।
ते कामा परिहायन्ति, सल्लविद्धो व रुप्पती” ति ॥

- R. 6 20 ३. यो कामे परिवज्जेति, सप्पस्सेव पदा सितो ।
सोमं विसत्तिकं लोके, सतो समतिवसति ॥

यो कामे परिवज्जेती ति । यो ति । यो यादिसो यथायुत्तो
यथाविहितो यथापकारो यंठानप्पतो यधम्मसमन्नागतो खत्तियो वा
B. 5 ब्राह्मणो वा वेस्सो वा सुद्धो वा गहद्धो वा पव्वजितो वा देवो वा मनुस्सो
25 वा । कामे परिवज्जेती ति । कामा ति । उद्दानतो द्वे कामा - वत्थुकामा
च किलेसकामा च पे०... इमे वुच्चन्ति वत्थुकामा । पे० इमे वुच्चन्ति
किलेसकामा । कामे परिवज्जेती ति । द्वीहि कारणेहि कामे परिवज्जेति

१. परिधंसेन्ति - स्या०, परिधसन्ति - सी० । २ परिवज्जन्ति - स्या० । ३ भोगा -
स्या० । ४ मरति अन्तरघायति - सी०, स्या० । ५ परिद्वसति - म० । ६ अयो - स्या० ।
७. अट्टमयेन - स्या० । ८-८. स्या० पोत्यके गत्थि ।

—विक्रमम्भनतो वा समुच्छेदतो वा । कथं विक्रमम्भनतो कामे परिवर्ज्जेति ? “अट्टिकङ्कलूपमा कामा अप्पस्सादट्टेना” ति पस्सन्तो विक्रमम्भनतो कामे परिवर्ज्जेति । “मंसपेसूपमा कामा बहुसाधारणट्टेना” ति पस्सन्तो विक्रमम्भनतो कामे परिवर्ज्जेति । “तिणुक्कूपमा कामा अनुदहनट्टेना” ति पस्सन्तो विक्रमम्भनतो कामे परिवर्ज्जेति । “अङ्गारकासूपमा कामा महापरिच्छाहट्टेना” ति पस्सन्तो विक्रमम्भनतो कामे परिवर्ज्जेति । “सुपिनकूपमा कामा इत्तरपच्चुपट्टानट्टेना” ति पस्सन्तो विक्रमम्भनतो कामे परिवर्ज्जेति । “याचितकूपमा कामा तावकालिकट्टेना” ति पस्सन्तो विक्रमम्भनतो कामे परिवर्ज्जेति । “एक्खफलूपमा कामा सम्भञ्जनपरिभञ्जनट्टेना” ति पस्सन्तो विक्रमम्भनतो कामे परिवर्ज्जेति । “असिसूनूपमा कामा अधिकुट्टनट्टेना” ति पस्सन्तो विक्रमम्भनतो कामे परिवर्ज्जेति । “सत्तिसूलूपमा कामा विनिविज्झनट्टेना” ति पस्सन्तो विक्रमम्भनतो कामे परिवर्ज्जेति । “सप्पसिरूपमा कामा सप्पटिभयट्टेना” ति पस्सन्तो विक्रमम्भनतो कामे परिवर्ज्जेति । “अग्गिक्खन्धूपमा कामा महाभितापनट्टेना” ति पस्सन्तो विक्रमम्भनतो कामे परिवर्ज्जेति ।

बुद्धानुस्सति भावेन्तो पि विक्रमम्भनतो कामे परिवर्ज्जेति, धम्मानुस्सति भावेन्तो पि .. पे०... सङ्खानुस्सति भावेन्तो पि ... सीलानुस्सति भावेन्तो पि ... चागानुस्सति भावेन्तो पि ... देवतानुस्सति भावेन्तो पि ... आनापानस्सति भावेन्तो पि ... मरणस्सति भावेन्तो पि ... कायगतासति भावेन्तो पि ... उपसमानुस्सति भावेन्तो पि विक्रमम्भनतो कामे परिवर्ज्जेति ।

पठमं भानं भावेन्तो पि विक्रमम्भनतो कामे परिवर्ज्जेति ... पे०... दुतियं भानं भावेन्तो पि .. ततियं भानं भावेन्तो पि ... चतुत्थं भानं भावेन्तो पि .. आकासानञ्चायतनसमापत्तिं भावेन्तो पि ... विञ्जाणञ्चायतनसमापत्तिं भावेन्तो पि ... आकिञ्चञ्चायतनसमापत्तिं भावेन्तो पि . नेवसञ्जानासञ्चायतनसमापत्तिं भावेन्तो पि विक्रमम्भनतो कामे परिवर्ज्जेति । एवं विक्रमम्भनतो कामे परिवर्ज्जेति ।

१. अधिकन्तनट्टेना - स्या० । २ सपत्ति० - स्या० । ३. महग्गितापनट्टेना - स्या० । ४. आनापानसति - सी० । ५. मरणानुस्सति - स्या० ।

कथं समुच्छेदतो कामे परिवर्ज्जेति ? सोतापत्तिमग्नं भावेन्तो
 पि अपायगमनीये कामे समुच्छेदतो परिवर्ज्जेति, सकदागामिमग्नं भावेन्तो
 पि ओळारिके कामे समुच्छेदतो परिवर्ज्जेति, अनागामिमग्नं भावेन्तो पि
 अनुसहगते कामे समुच्छेदतो परिवर्ज्जेति, अरहत्तमग्नं भावेन्तो पि सब्बेन
 5 सब्बं सब्बथा सब्बं असेसं निस्सेसं समुच्छेदतो कामे परिवर्ज्जेति । एवं
 समुच्छेदतो कामे परिवर्ज्जेतीति — यो कामे परिवर्ज्जेति ।

B. 8

सप्पस्सेव पदा सिरो ति । सप्पो^१ वुच्चति अहि । केन्द्रेण^२
 सप्पो ? संसप्पन्तो गच्छतीति — सप्पो । भुजन्तो गच्छतीति — भुजगो ।
 उरेण गच्छतीति — उरगो । पन्नसिरो गच्छतीति — पन्नगो । सिरेण
 10 सुपतीति — सरीसपो^३ । बिले^४ सयतीति — बिलासयो । गुहाय सयती^५
 ति — गुहासयो । दाठा^६ तस्स आवुधो ति — दाठानुधो । विसं तस्स
 घोरति — घोरविसो । जिब्हा तस्स दुविधा ति — द्विजिब्हा । द्वीहि
 जिब्हाहि रसं सायतीति — द्विरसञ्जू^७ । यथा पुरिसो जीवितुकामो
 15 अमरितुकामो सुखकामो दुक्खपटिक्कूलो^८ पादेन सप्पसिरं वज्जेय्य विव-
 ज्जेय्य परिवर्ज्जेय्य अभिनिवर्ज्जेय्य, एवमेव सुखकामो दुक्खपटिक्कूलो
 कामे वज्जेय्य विवर्ज्जेय्य परिवर्ज्जेय्य अभिनिवर्ज्जेय्याति — सप्पस्सेव
 पदा सिरो ।

सोभं विसत्तिकं लोके सतो समतिवत्ततीति । सोति । यो
 कामे परिवर्ज्जेति । विसत्तिका वुच्चति तण्हा । यो रागो सारागो
 20 अनुनयो अनुरोधो नन्दी नन्दिरागो चित्तस्स सारागो इच्छा मुच्छा
 अज्झोसानं गेधो पल्लिगेधो^९ सङ्गो पङ्को एजा माया जनिका सञ्जननी
 सिम्बिनी जालिनी सरिता विसत्तिका सुत्तं विसता^{१०} आयूहिनी^{११} दुतिया
 पणिधि भवनेत्ति वनं वनथो सन्धवो^{१२} स्नेहो अपेक्खा पटिवन्धु^{१३} आसा
 आसीसना^{१४} आसीसित्तत्त रूपासा सद्दासा गन्धासा रसासा फोटुब्बासा
 25 लाभासा जनासा^{१५} पुत्तासा जीवितासा जप्पा पजप्पा अभिजप्पा जप्पना

१ अनुसहगते — स्या०, एवमुपरि पि । २. सपो — स्या०; एवमुपरि पि । ३. केन्द्रेण —
 स्या०, एवमुपरि पि । ४. सिरिसपो — सी०; सिरिसपो — स्या० । ५. बिले — स्या० । ६.
 सेती — स्या० । ७. दाठा — स्या० । ८. द्विरसञ्जू — स्या० । ९. दुक्खपटिक्कूलो — स्या० ।
 १०. पल्लिगेधो — सी० । ११. विसता — स्या० । १२. आयूहिनी — सी०, स्या० । १३. सन्धवो —
 सी०, स्या० । १४. पटिवन्धा — स्या० । १५. आसिसना — सी०, स्या० । १६. जनासा —
 सी०, स्या० ।

जप्पित्तं लोलुप्पं^१ लोलुप्पायना लोलुप्पायित्तं पुच्छञ्जिकता^२ साधु-
 क्कम्यता^३ अधम्मरागो विसमलोभो निकन्ति निकामना पत्थना पिहना
 सम्पत्थना कामतण्हा भवतण्हा विभवतण्हा रूपतण्हा अरूपतण्हा
 निरोधतण्हा रूपतण्हा^४ सद्दतण्हा गन्धतण्हा रसतण्हा फोट्टव्वतण्हा
 धम्मतण्हा ओघो योगो गन्थो उपादानं आवरणं नीवरणं छदनं बन्धनं
 उपक्किलेसो^५ अनुसयो परियुट्टानं लता वेविच्छं दुक्खमूलं दुक्खनिदानं
 दुक्खप्पभवो मारपासो मारबल्लिसं मारविसयो^६ तण्हानदी तण्हाजालं
 तण्हागद्दुलं^७ तण्हासमुट्ठो अभिज्झा लोभो अकुसलमूलं ।

विसत्तिका ति । केनट्ठेन विसत्तिका ? विसता ति - विस-
 त्तिका । विसाला ति - विसत्तिका । विसटा ति - विसत्तिका । विस-
 क्कती ति - विसत्तिका । विसंहरती ति - विसत्तिका । विसंवादिका
 ति - विसत्तिका । विसमूला ति - विसत्तिका । विसफला ति - विस-
 त्तिका । विसपरिभोगा^८ ति - विसत्तिका । विसाला वा पन सा तण्हा
 रूपे सद्दे गन्धे रसे फोट्टव्वे कुले गणे आवासे लाभे यसे पसंसाय सुखे चीवरे
 पिण्डपाते सेनासने गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारे, कामघातुया रूप-
 घातुया अरूपघातुया कामभवे रूपभवे अरूपभवे सञ्जाभवे असञ्जा-
 भवे नेवसञ्जानासञ्जाभवे एकवोकारभवे चतुवोकारभवे पञ्चवोकार-
 भवे अतीते अनागते पच्चुप्पन्ने दिट्ठसुतमुतविञ्जातव्वेसु धम्मसेसु विसटा
 वित्थता ति - विसत्तिका ।

लोके ति । अपायलोके मनुस्सलोके देवलोके खन्धलोके धातु-
 लोके आयतनलोके । सतो ति । चतूहि कारणेहि सतो - काये कायानु-
 पस्सनासतिपट्टानं भावेन्तो सतो, वेदनासु ... चित्ते ... धम्मसेसु धम्मानु-
 पस्सनासतिपट्टानं भावेन्तो सतो ।

अपरेहि पि चतूहि कारणेहि सतो - असतिपरिवज्जनाय सतो,
 सत्तिकरणीयानं^९ धम्मानं कत्तत्ता सतो, सतिपरिबन्धानं^{१०} धम्मानं हतत्ता
 सतो, सतिनिमित्तानं धम्मानं असम्मुट्ठत्ता^{११} सतो ।

१. लोलुप्पा - स्या० । २. पुच्छञ्जिकता - सी०, स्या० । ३. साधुक्कम्यता - सी० । ४. सी० पोत्यके नत्थि । ५. उपक्किलेसो - म० । ६. मारबल्लिसं - सी० । ७. मारविसो - सी० । ८. तण्हागद्दुलं - स्या०; ० गद्दुलं - म० । ९. विसपरिभोगो - म० । १०. सत्तिकरणीयानं च - सी० । ११. सतिपटिपक्खानं - सी०, स्या० । १२. अप्पमुट्ठत्ता - स्या०, रो० ।
 म० नि० - २

अपरेहि पि चतूहि कारणेहि सतो -- सतिया समन्नागतत्ता सतो, सतिया वसितत्ता सतो, सतिया पागुञ्जताय सतो, सतिया अपच्चोरोहणताय सतो ।

B 8

अपरेहि पि चतूहि कारणेहि सतो -- सत्तत्ता सतो, सन्तत्ता सतो, 6 समितत्ता सतो, सन्तधम्मसमन्नागतत्ता सतो । बुद्धानुस्सतिया सतो, धम्मानुस्सतिया सतो, सञ्चानुस्सतिया सतो, सीलानुस्सतिया सतो, चागानुस्सतिया सतो, देवतानुस्सतिया सतो, आनापानस्सतिया सतो, मरणस्सतिया सतो, कायगतासतिया सतो, उपसमानुस्सतिया सतो । या सति अनुस्सति पटिस्सति सति सरणता धारणता अपिलापनता असम्मुस्सनता 10 सति सतिन्द्रिय सतिवलं सम्मासति सतिसम्बोज्झो एकायनमग्गो, अयं बुच्चति सति । इमाय सतिया उपेतो होति समुपेतो उपगतो समुपगतो उपपन्नो समुपपन्नो समन्नागतो, सो बुच्चति सतो ।

सोमं विसत्तिकं लोके सतो समतिवत्तती ति । लोके वा सा विसत्तिका, लोके वा तं विसत्तिकं सतो तरति उत्तरति पतरति समति- 15 क्कमति वीतिवत्तती ति -- सोम विसत्तिक लोके सतो समतिवत्तति । तेनाह भगवा --

“यो कामे परिवज्जेति, सप्पस्सेव पदा सिरो ।

सोमं विसत्तिक लोके, सतो समतिवत्तती” ति ॥

४. खेतं वत्थुं हिरञ्जं वा, गवास्सं दासपोरिसं ।

20

थियो बन्धू पुथु कामे, यो नरो अनुगिञ्जति ॥

R. 11

खेतं वत्थुं हिरञ्जं वा ति । खेतं ति । सालिकखेत वीहिकखेत मुग्गकखेत मासकखेत यवकखेत गोधुमकखेत तिलकखेत । वत्थुं ति । घरवत्थुं कोट्टकवत्थुं पुरेवत्थु पच्छावत्थु आरामवत्थु विहारवत्थु । हिरञ्जं ति । हिरञ्ज बुच्चति कहापणो ति -- खेत वत्थु हिरञ्जं वा ।

25 गवास्सं दासपोरिसं ति । गवं ति । गवा बुच्चन्ति । अस्सा ति । पसुकादयो बुच्चन्ति । दासा ति । चत्तारो दासा -- अन्तोजातको दासो,

१ ० रोपनताय -- सी० । २. सतत्ता -- स्या० । ३ अस्सम्मुस्सनता -- स्या० । ४-५ लोके वेसा विसत्तिका लोके वेत -- सी०, या लोके विसत्तिका इम लोके -- स्या० । ५ गोधुमकखेत -- स्या० । ६. घरवत्थु -- स्या०, एवमुपरि पि । ७. कोट्टकवत्थु -- स्या० । ८. गावो -- स्या० ।

धनक्कीतको दासो, सामं वा दासव्यं^१ उपेति, अकामको वा दासविसयं^२ उपेति ।

आमाय दासा पि भवन्ति हेके,

धनेन कीता पि भवन्ति दासा ।

सामं च एके उपयन्ति दास्यं^३,

भयापनुष्णा पि भवन्ति दासा ति ॥

B. 1

6

पुरिसा^४ ति^५ । तयो पुरिसा - भतका^६, कम्मकरा, उपजीविनो ति - गवास्सं दासपोरिसं ।

थियो बन्धू पुथु^७ कामे ति । थियो ति । इत्थिपरिग्गहो वुच्चति । बन्धू ति । चत्तारो बन्धू-जातिबन्धवा पि वन्धु, गोत्तबन्धवा पि बन्धु, मन्तबन्धवा पि बन्धु, सिप्पबन्धवा पि बन्धु । पुथु कामे ति । बहू कामे । एते पुथु कामा मनापिका रूपा ... पे०... मनापिका फोट्टुब्बा ति - थियो बन्धू पुथु कामे ।

10

यो नरो अनुगिज्झती ति । यो ति । यो यादिसो यथायुत्तो यथाविहितो यथापकारो यंठानप्पत्तो^८ यंघम्मसमन्नागतो खत्तियो वा ब्राह्मणो वा वेस्सो वा सुद्धो वा गहट्टो वा पव्वजितो वा देवो वा मनुस्सो वा । नरो ति । सत्तो नरो मानवो पोसो पुग्गलो जीवो जागु जन्तु इन्दगु मनुजो । अनुगिज्झती ति । किलेसकामेन वत्थुकामेसु गिज्झति अनुगिज्झति पल्लिगिज्झति पल्लिबज्झती ति - यो नरो अनुगिज्झति । तेनाह भगवा -

16

R. 1

20

“खेत्तं वत्थु हिरञ्जं वा, गवास्सं दासपोरिसं ।

थियो बन्धू पुथु कामे, यो नरो अनुगिज्झती” ति ॥

५. अबला नं बलीयन्ति, महन्ते नं परिस्सया ।

ततो नं दुक्खमन्वेत्ति, नावं भिन्नमिबोदकं ॥

अबला नं बलीयन्ती ति । अबला ति । अबला किलेसा दुब्बला अप्पबला अप्पथामका हीना निहीना^९ ओमका लामका छतुवका^{१०} परित्ता ।

25

१. दासवियं - स्या० । २. दासं - स्या० । ३-३ पोरिसन्ति - स्या० । ४. भजका - स्या० । ५. पुथु - स्या० । ६. यंठान पत्तो - सी० । ७. निहीना परिहीना - सी०, स्या० । ८. अनुक्का - सी०, स्या०, एवमुपरि पि ।

ते किलेसा तं पुगलं सहन्ति परिसहन्ति अभिभवन्ति अज्झोत्थरन्ति परियादियन्ति मद्दन्ती ति - एवं पि अबला नं बलीयन्ति । अथ वा, अबलं पुगलं दुब्बलं अप्पबलं अप्पथामकं हीनं निहीनं ओमकं लामकं छत्तुक्कं परित्तं यस्स नत्थि सद्दावर्लं विरियवलं^१ सत्तिवलं समाधिवलं पञ्जावलं
 B. 10 5 हिरिवलं ओत्तप्पबलं । ते किलेसा तं पुगलं सहन्ति परिसहन्ति अभिभवन्ति अज्झोत्थरन्ति परियादियन्ति मद्दन्ती ति - एवं पि अबला नं बलीयन्ती ति ।

। मद्दन्ते नं परिस्सया ति । द्वे^२ परिस्सया - पाकटपरिस्सया च पटिच्छन्नपरिस्सया च । कतमे पाकटपरिस्सया ? सीहा व्यग्घा दीपी^३
 R. 13 10 अच्छा तरच्छा कोका म्हिंसा^४ हत्थी अहिंविच्छिका सतपदी, चोरा वा अस्सु मानवा वा कतकम्मा वा अकतकम्मा वा, चक्खुरोगो सोतरोगो धानरोगो जिह्वारोगो कायरोगो सीसरोगो कण्णरोगो मुखरोगो दन्तरोगो कासो सासो पिनासो डहो^५ जरो कुच्छिरोगो मुच्छा पक्खन्दिका सूला विसूचिका कुट्टं गण्डो किलासो सोसो अपमारो दद्दु कण्डु कच्छु
 15 रखसा वितच्छिका लोहितपित्तं मधुमेहो अंसा पिळका भगन्दला पित्तसमुट्टाना आवाधा सेम्हसमुट्टाना आवाधा वातसमुट्टाना आवाधा सन्धिपातिका आवाधा उतुपरिणामजा आवाधा विसमपरिहारजा आवाधा ओपक्कमिका आवाधा कम्मविपाकजा आवाधा सीतं उण्हं जिघच्छा पिपासा उच्चारो पस्सावो ढंसमकसवातातपसरीसपसम्फत्सा इति
 20 वा - इमे वुच्चन्ति पाकटपरिस्सया ।

कतमे पटिच्छन्नपरिस्सया ? कायदुच्चरितं वचीदुच्चरितं मनोदुच्चरितं काम्मच्छन्दनीवरणं व्यापादनीवरणं थिनमिद्धनीवरणं उद्धच्चकुक्कुच्चनीवरणं विचिकिच्छानीवरणं रागो दोसो मोहो क्रोधो उपनाहो मक्खो पळासो इस्सा मच्छरियं माया साठेय्यं थम्भो सारम्मो मानो
 25 अतिमानो मदो पमादो सब्बे किलेसा सब्बे दुच्चरिता सब्बे दरथा सब्बे परिळाहा सब्बे सन्तापा सब्बाकुसलाभिसङ्कारा^६ - इमे वुच्चन्ति पटिच्छन्नपरिस्सया ।

१. धीरियवल - म० । २ परिस्सया ति द्वे - सी०, स्या० । ३. विधि - सी०; धीपि - स्या० । ४. महिसा - सी०; गो महिसा - स्या०, रो० । ५. डहो - स्या० । ६. धीनमिद्ध - सी०, स्या० । ७. सब्बेकुसला० - सी० ।

परिस्सया ति । केनट्टेन परिस्सया ? परिसहन्ती ति परि-
 स्सया, परिहानाय संवत्तन्ती ति परिस्सया, तत्रासया ति परिस्सया ।
 कथं परिसहन्ती ति परिस्सया ? ते परिस्सया तं पुग्गलं सहन्ति परि-
 सहन्ति अभिभवन्ति अज्झोत्थरन्ति परियादियन्ति महन्ति । एवं परि-
 सहन्ती ति परिस्सया । कथं परिहानाय संवत्तन्ती ति परिस्सया ? ते 6
 परिस्सया कुसलानं धम्मानं अन्तरायाय परिहानाय संवत्तन्ति । कतमेसं
 कुसलानं धम्मानं ? सम्मापटिपदाय अनुलोमपटिपदाय अपच्चवनीक-
 पटिपदाय अविस्सद्धपटिपदाय^१ अन्वत्थपटिपदाय धम्मानुधम्मपटिपदाय
 सीलेसु परिपूरिकारिताय इन्द्रियेसु गुत्तद्वारायाय भोजने मत्तञ्जुताय
 जागरियानुयोगस्स सतिसम्पजञ्जस्स चतुस्रं सतिपट्टानानं भावनानु- 10
 योगस्स चतुस्रं सम्मप्पधानानं भावनानुयोगस्स चतुस्रं इट्ठिपादानं भाव-
 नानुयोगस्स पच्चन्नं इन्द्रियानं भावनानुयोगस्स पच्चन्नं बलानं भावनानु-
 योगस्स सत्तन्नं बोज्झङ्गानं भावनानुयोगस्स अरियस्स अट्टुङ्गिक्कस्स
 भग्गस्स भावनानुयोगस्स - इमेसं कुसलानं धम्मानं अन्तरायाय परिहा-
 नाय संवत्तन्ति । एवं परिहानाय संवत्तन्ती ति - परिस्सया । 16

B 1

R 1

कथं तत्रासया ति - परिस्सया ? तत्थेते पापका अकुसला धम्मा
 उप्पज्जन्ति अत्तभावसन्निस्सया । यथा बिले बिलासया पाणा सयन्ति,
 दके दकासया पाणा सयन्ति, वने वनासया पाणा सयन्ति, रुक्खे
 रुक्खासया पाणा सयन्ति, एवमेव तत्थेते पापका अकुसला धम्मा
 उप्पज्जन्ति अत्तभावसन्निस्सया । एवं पि तत्रासया ति - परिस्सया । 20

वुत्तं हेतं भगवता-“सान्तेवासिको, भिक्खवे, भिक्खु साचरियको
 दुक्खं न फासु विहरति । कथं च, भिक्खवे, भिक्खु सान्तेवासिको साच-
 रियको दुक्खं न फासु विहरति ? इध, भिक्खवे, भिक्खुनो चक्खुना रूपं
 दिस्वा उप्पज्जन्ति ये^१ पापका अकुसला धम्मा सरसङ्कप्पा सञ्जोनिया^२,
 त्यस्स अन्तो वसन्ति अन्वासवन्ति^३ पापका अकुसला धम्मा ति - 25
 तस्मा सान्तेवासिको ति वुच्चति । ते नं समुदाचरन्ति । समुदाचरन्ति^४
 न^५ पापका अकुसला धम्मा ति - तस्मा साचरियको ति वुच्चति ।

१. स्या०, दो० पोत्यकेसु नत्थि । २ स्या० पोत्यके नत्थि, एवमुपरि पि । ३.
 सञ्जोनीया-सी०, स्या० । ४. अन्वास्स वसन्ति-सी०, अन्वास्सवन्ति-स्या० । ५-५.
 स्या० पोत्यके नत्थि; एवमुपरि पि ।

B. 15

“पुन चपर, भिक्खवे, भिक्खुनो सोतेन सद्द सुत्वा, घानेन गन्धं घायित्वा, जिञ्हाय रसं सायित्वा, कायेन फोट्टुब्बं फुसित्वा, मनसा धम्म विञ्जाय उप्पज्जन्ति ये पापका अकुसला धम्मा सरसङ्कप्पा सञ्जो-
जनिया, त्यस्स अन्तो वसन्ति अन्वासवन्ति पापका अकुसला धम्मा ति
5 - तस्मा सान्तेवासिको ति वुच्चति । ते न समुदाचरन्ति । समुदाचरन्ति
न पापका अकुसला धम्मा ति - तस्मा साचरियको ति वुच्चति । एव
खो, भिक्खवे, भिक्खु सान्तेवासिको साचरियको दुक्खं न फासु विहरती”
ति । एवं पि तत्रासया ति - परिस्सया ।

B. 12

वुत्तं हेतं भगवता - “तयोमे, भिक्खवे, अन्तरामला अन्तरा-
10 अमित्ता अन्तरासपत्ता अन्तरावधका अन्तरापच्चत्थिका । कतमे तयो ?
लोभो, भिक्खवे, अन्तरामलं अन्तरामित्तो अन्तरासपत्तो अन्तरावधको
अन्तरापच्चत्थिको । दोसो . पे०... मोहो, भिक्खवे, अन्तरामल अन्तरा-
अमित्तो अन्तरासपत्तो अन्तरावधको अन्तरापच्चत्थिको । इमे खो,
भिक्खवे, तयो अन्तरामला अन्तरामित्ता अन्तरासपत्ता अन्तरावधका
15 अन्तरापच्चत्थिका ।

“अनत्थजननो लोभो, लोभो चित्तप्पकोपनो ।
भयमन्तरतो जातं, तं जनो नाववुज्झति ॥

“लुद्धो अत्थं न जानाति, लुद्धो धम्मं न पस्सति ।
अन्वन्तमं तदा होति, यं लोभो सहते नरं ॥

20

“अनत्थजननो दोसो, दोसो चित्तप्पकोपनो ।
भयमन्तरतो जातं, तं जनो नाववुज्झति ॥

“कुद्धो अत्थं न जानाति, कुद्धो धम्मं न पस्सति ।
अन्वन्तमं तदा होति, यं दोसो सहते नरं ॥

B. 10

25

“अनत्थजननो मोहो, मोहो चित्तप्पकोपनो ।
भयमन्तरतो जातं, तं जनो नाववुज्झति ॥

“मूळ्हो अत्थं न जानाति, मूळ्हो धम्मं न पस्सति ।
अन्वन्तमं तदा होति, यं मोहो सहते नरं” ति ॥

एवं पि तत्रासया ति - परिस्सया ।

१. अन्तरामलो - त्या०, एवमुपरि पि । २ अन्वन्तम - त्या०; एवमुपरि पि ।

वृत्तं पि' हेतं भगवता — “तयो खो, महाराज, पुरिसस्स धम्मा
अज्झत्तं उप्पज्जमाना उप्पज्जन्ति अहिताय दुक्खाय अफासुविहाराय ।
कतमे तयो? लोभो खो, महाराज, पुरिसस्स धम्मो अज्झत्तं उप्पज्ज-
मानो उप्पज्जति अहिताय दुक्खाय अफासुविहाराय । दोसो खो, महाराज
.. पे०... मोहो खो, महाराज, पुरिसस्स धम्मो अज्झत्तं उप्पज्जमानो 5
उप्पज्जति अहिताय दुक्खाय अफासुविहाराय । इमे खो, महाराज, तयो
पुरिसस्स धम्मा अज्झत्तं उप्पज्जमाना उप्पज्जन्ति अहिताय दुक्खाय
अफासुविहाराय ।

“लोभो दोसो च मोहो च, पुरिसं पापचेतसं ।

B. 11

हिसन्ति अत्तसम्भूता, तच्चसारं व सम्फलं” ति ॥ 10

एवं पि तत्रासया ति — परिस्सया ।

वृत्तं पि चेतं भगवता —

“रागो च दोसो च इतोनिदाना,
अरत्ति' रत्ति' लोमहंसो इतोजा' ।

इतो समुट्ठाय मनोवित्तक्का,
कुमारका धङ्कमिवोत्सजन्ती” ति ॥ 16

एवं पि तत्रासया ति — परिस्सया ।

महन्ते नं परिस्सया ति । ते परिस्सया त पुग्गलं सहन्ति
परिसहन्ति अभिभवन्ति अज्झोत्थरन्ति परियादियन्ति महन्ती ति —
महन्ते नं परिस्सया ।

20

ततो नं दुक्खमन्वेती ति । ततो' ति' । ततो ततो' परिस्सयतो
तं पुग्गल दुक्खं अन्वेति अनुगच्छति अन्वायिकं होति, जातिदुक्खं अन्वेति
अनुगच्छति अन्वायिकं होति, जरादुक्खं अन्वेति अनुगच्छति अन्वायिकं
होति, व्याधिदुक्खं अन्वेति अनुगच्छति अन्वायिकं होति, मरणदुक्खं
अन्वेति अनुगच्छति अन्वायिकं होति, सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायास-
दुक्खं अन्वेति अनुगच्छति अन्वायिकं होति, नेरयिक दुक्खं, तिरच्छान- 25

R

१. सी०, स्या० पोत्थकेषु नत्थि । २ अरती—सी०, स्या० । ३ रती—सी० । ४.
इतो जातो—स्या० । ५-५ धङ्कमिवोत्सज्जन्तीति—स्या० । ६-६ स्या० पोत्थके न विस्सति ।
७. सी० पोत्थके नत्थि ।

- योनिं दुःखं, पित्तविसयिकं दुःखं अन्वेति अनुगच्छति अन्वायिकं होति, मानुसिकं दुःखं .. गम्भोक्कन्तिमूलकं दुःखं .. गम्भे ठितिमूलकं दुःखं .. गम्भा वृद्धानमूलकं दुःखं ... जातस्सूपनिबन्धकं दुःखं ... जातस्स पराधेय्यकं दुःखं .. अत्तूपक्कमं दुःखं परूपक्कमं दुःखं अन्वेति अनु-
- 6 गच्छति अन्वायिकं होति, दुःखदुःखं अन्वेति अनुगच्छति अन्वायिकं होति, सङ्खारदुःखं . विपरिणामदुःखं... चक्खुरोगो सोतरोगो धानरोगो जिह्वारोगो कायरोगो सीसरोगो कण्णरोगो मुखरोगो दन्तरोगो कासो सासो पिनासो डाहो जरो कुच्छिरोगो मुच्छा पक्खन्दिका सूला विसूचिका कुट्टं गण्डो किलोसो सोसो अपमारो दद्दु कण्डु कच्छु रक्खसा वितच्छिका
- 10 लोहितपित्तं मधुमेहो असा पिळका भगन्दला पित्तसमुद्धाना आबाधा सेम्हसमुद्धाना आबाधा वातसमुद्धाना आबाधा सन्निपातिका आबाधा उत्तुपरिणामजा आबाधा विसमपरिहारजा आबाधा ओपक्कमिका आबाधा कम्मविपाकजा आबाधा सीतं उण्ह जिघच्छा पिपासा उच्चारो पस्सावो डसमकसवातातपसरीसपसम्फस्सदुःखं .. भातुमरणं दुःखं ...
- 15 पित्तुमरणं दुःखं .. भातुमरणं दुःखं . भगिनिमरणं दुःखं . पुत्तमरणं दुःखं . धीतुमरणं दुःखं .. वातिव्यसनं दुःखं ... भोगव्यसनं दुःखं ... रोगव्यसनं दुःखं ... सीलव्यसनं दुःखं .. दिट्ठिव्यसनं दुःखं अन्वेति अनुगच्छति अन्वायिकं होति ति - ततो न दुःखमन्वेति ।
- B. 14
- B. 18

- नावं भिन्नमिवोदकं ति । यथा भिन्नं नाव दकमेसिं ततो ततो
- 20 उदकं अन्वेति अनुगच्छति अन्वायिकं होति, पुरतो पि उदकं अन्वेति अनुगच्छति अन्वायिकं होति, पच्छतो पि, हेट्ठतो पि, पस्सतो पि उदकं अन्वेति अनुगच्छति अन्वायिकं होति, एवमेव ततो ततो परिस्सयतो तं पुगलं दुःखं अन्वेति अनुगच्छति अन्वायिकं होति, जातिदुःखं अन्वेति अनुगच्छति अन्वायिकं होति . पे०. दिट्ठिव्यसनं दुःखं
- 25 अन्वेति अनुगच्छति अन्वायिकं होति ति - नाव भिन्नमिवोदकं । तेनाह भगवा -

“अबला नं बलीयन्ति, महन्ते न परिस्सया ।

ततो न दुःखमन्वेति, नाव भिन्नमिवोदकं” ति ॥

१-१ पित्तविसयिकदुःखं - स्या० । २ जातस्सूप० - स्या० । ३. अत्तु० - स्या० । ४. पव० - स्या० । ५ उदकवायिको - सी०, उदकं अन्वायिकं - स्या० ।

६. तस्मा जन्तु सदा सतो, कामानि परिवज्जये ।
ते पहाय तरे ओघं, नावं सित्वा च पारगू ॥

तस्मा जन्तु सदा सतो ति । तस्मा ति । तस्मा तंकारणा तंहेतु
तप्पच्चया तंनिदाना एतं आदीनवं सम्पस्समानो कामेसू ति—तस्मा ।
जन्तू ति । सतो नरो मानवो पोसो पुग्गलो जीवो जागु जन्तु इन्दगु 5
मनुजो । सदा ति । सदा सब्बदा सब्बकालं निच्चकालं धुवकालं सततं
समितं अब्बोकिण्णं पोह्वानुपोह्वं उदकूमिकजातं अवीचि सन्तति
सहितं फस्सितं पुरेभत्तं पच्छाभत्तं पुरिमयामं मज्झिमयामं पच्छिमयामं B. 1
काले जुण्हे वस्से हेमन्ते गिम्हे पुरिमे वयोखन्धे मज्झिमे वयोखन्धे पच्छिमे
वयोखन्धे । सतो ति । चतूहि कारणेहि सतो — काये कायानुपस्सनासति- 10
पट्टानं भावेन्तो सतो, वेदनासु ... चित्ते ... धम्मेषु धम्मानुपस्सनासति-
पट्टानं भावेन्तो सतो । अपरेहि चतूहि कारणेहि सतो ... पे० ... सो B. 1
बुच्चति सतो ति — तस्मा जन्तु सदा सतो ।

कामानि परिवज्जये ति । कामा ति । उदानतो द्वे कामा — वत्थु-
कामा च किलेसकामा च . . पे०... इमे बुच्चन्ति वत्थुकामा ... पे०... इमे 15
बुच्चन्ति किलेसकामा । कामानि परिवज्जये ति । द्वीहि कारणेहि कामे
परिवज्जेय्य — विक्खम्भनतो वा समुच्छेदतो वा । कथं विक्खम्भनतो
कामे परिवज्जेय्य ? “अट्टिकङ्कलूपमा कामा अप्पस्सादट्टेना” ति
पस्सन्तो विक्खम्भनतो कामे परिवज्जेय्य । “मंसपेसूपमा कामा बहु-
साधारणट्टेना” ति पस्सन्तो विक्खम्भनतो कामे परिवज्जेय्य । “तिणु- 20
क्कूपमा कामा अनुदहनट्टेना” ति पस्सन्तो विक्खम्भनतो कामे परि-
वज्जेय्य ... पे० ... नेवसञ्जानासञ्जायतनसमापत्ति भावेन्तो विक्खम्भ-
नतो कामे परिवज्जेय्य । एवं विक्खम्भनतो कामे परिवज्जेय्य ... पे० ...
एवं समुच्छेदतो कामे परिवज्जेय्या ति — कामानि परिवज्जये ।

ते पहाय तरे ओघं ति । ते ति । वत्थुकामे परिजानित्वा 25
किलेसकामे पहाय पजहित्वा विनोदेत्वा व्यन्ति करित्वा अनभावं

१ पोखानुपोख—सी०, स्या० । २. उदकोमिकजातं—सी०, उदकुम्मिकजातं—
स्या० । ३ फुरिसित—सी०, फुरितं—स्या० । ४. पुरिमं यामं—सी० । ५. काले—सी० ।
६ भावेन्तो पि—सी० । ७ अपरेहि पि—सी०, स्या० । ८-८. कामानीति—स्या० । ९
विनोदित्वा—स्या० । १०. व्यन्ती—स्या०; एवमुपरि पि ।

गमित्वा; कामच्छन्दनीवरण पहाय पजहित्वा विनोदेत्वा व्यन्ति करित्वा अनभावं गमित्वा; व्यापादनीवरण...पे० ..थिनमिद्धनीवरण ..उद्धच्च-
कुक्कुच्चनीवरणं ... विचिकिच्छानीवरणं पहाय पजहित्वा विनोदेत्वा व्यन्ति करित्वा अनभावं गमित्वा कामोघ भवोघ दिद्वोघं अविज्जोघ
5 तरेय्य उत्तरेय्य पतरेय्य समतिककमेय्य वीतिवत्तेय्या ति -ते पहाय तरे ओघं ।

B. 20

नावं सित्वा व पारगू ति । यथा गरुकं नावं भारिकं उदकं सित्वा^१
ओसिञ्चित्वा छड्हेत्वा लहुकाय नावाय खिप्पं लहुं अप्पकसिरेनेव पार
गच्छेय्य, एवमेव वत्थुकामे परिजानित्वा किलेसकामे पहाय पजहित्वा
10 विनोदेत्वा व्यन्ति करित्वा अनभावं गमित्वा^१, कामच्छन्दनीवरण ...
व्यापादनीवरण ... थिनमिद्धनीवरणं .. उद्धच्चकुक्कुच्चनीवरणं .. विचि-
किच्छानीवरणं पहाय पजहित्वा विनोदेत्वा व्यन्ति करित्वा अनभाव
गमित्वा^१ खिप्पं लहुं अप्पकसिरेनेव पारं गच्छेय्य । पारं वुच्चति अमतं
निब्बान । यो सो सब्बसङ्खारसमथो सब्बूपधिपटिनिस्सग्गो तण्हकखयो
B. 16 विरापो निरोधो निब्बानं । पारं गच्छेय्या ति - पार अधिगच्छेय्य, पारं
16 फुसेय्य, पारं सच्छिकरेय्य । पारगू ति । यो पि पार गन्तुकामो सो पि
पारगू, यो पि पारं गच्छति सो पि पारगू, यो पि पार गतो सो पि
पारगू । वुत्तं पि हेतं भगवता -

“तिण्णो पारङ्गतो^१ थले तिट्ठति ब्राह्मणो^२ ” ति^३ । ब्राह्मणो ति
20 खो, भिक्खवे, अरहत्तो एत अधिवचन । सो अभिञ्जापारगू परिञ्जा-
पारगू पहानपारगू भावनापारगू सच्छिकिरियापारगू समापत्तिपारगू ।
अभिञ्जापारगू सब्बधम्मन, परिञ्जापारगू सब्बदुक्खानं, पहानपारगू
सब्बकिलेसान, भावनापारगू चतुन्नं अरियमग्गानं, सच्छिकिरियापारगू
निरोधस्स, समापत्तिपारगू सब्बसमापत्तीन । सो वसिप्पत्तो पारमि-
25 प्ततो अरियस्मि सीर्लस्मि, वसिप्पत्तो पारमिप्पत्तो अरियस्मि समाधिस्मि,
वसिप्पत्तो पारमिप्पत्तो अरियाय पञ्चाय, वसिप्पत्तो पारमिप्पत्तो अरि-
याय विमुत्तिया । सो पारं गतो पारप्पत्तो अन्तगतो अन्तप्पत्तो कोटि-
गतो कोटिप्पत्तो परियन्तगतो परियन्तप्पत्तो वोसानगतो वोसानप्पत्तो
ताणगतो ताणप्पत्तो लेणगतो लेणप्पत्तो सरणगतो सरणप्पत्तो अभयगतो

१ सिञ्चित्वा-सी०, स्या० । २ गमेत्वा-सी० । ३ पारगतो-सी०, स्या० ।
४-४. सी० पोत्यके नत्थि ।

अभयप्पत्तो अञ्चुतगतो अञ्चुतप्पत्तो अमतगतो अमतप्पत्तो निब्बान-
गतो निब्बानप्पत्तो। सो बुट्टवासो चिण्णचरणो गतद्धो गतदिसो
गतकोटिको पालितब्रह्मचरियो उत्तमदिट्ठिप्पत्तो भावितमग्गो पहीन-
किलेसो पटिबिद्धाकुप्पो सञ्छिकतनिरोधो, दुक्ख तस्स परिञ्जातं,
समुदयो पहीनो, मग्गो भावितो, निरोधो सञ्छिकतो, अभिञ्जेय्यं 5
अभिञ्जातं, परिञ्जेय्यं परिञ्जातं, पहातब्बं पहीनं, भावेतब्बं भावितं,
सञ्छिकातब्बं सञ्छिकत।

सो उक्खित्तपलिघो संकिण्णपरिक्खो अब्बुल्लहेसिको निरग्गळो
अरियो पन्नद्धजो पन्नभारो विसञ्जुत्तो पञ्चङ्गविप्पहीनो छल्लङ्गसमन्ना-
गतो एकारक्खो चतुरापस्सेनो पनुण्णपञ्चेकसच्चो समवयसट्ठेसनो अना- 10
विलसङ्गप्पो पस्सद्धकायसङ्कारो सुविमुत्तचित्तो सुविमुत्तपञ्जो केवली
वुसितवा उत्तमपुरिसो परमपुरिसो परमपत्तिप्पत्तो^१। सो नेवाचिनति^२
नापचिनति^३, अपचिनित्वा ठितो। नेव पजहति न उपादियति, पजहित्वा
ठितो। नेव संसिब्बति^४ न उस्सिनेति, विसिनित्वा^५ ठितो। नेव विधूपेत्ति 15
न सन्धूपेत्ति, विधूपेत्त्वा ठितो। असेक्खेन सीलक्खन्धेन समन्नागतत्ता 16
ठितो। असेक्खेन समाधिकक्खन्धेन ... असेक्खेन पञ्जक्खन्धेन^६ ... असे-
क्खेन^७ विमुत्तिकक्खन्धेन ... असेक्खेन विमुत्तिबाणदस्सनक्खन्धेन समन्ना-
गतत्ता ठितो। सच्चं सम्पटिपादियित्वा^८ ठितो। एजं^९ समतिककमित्त्वा
ठितो। किलेसग्गि परियादियित्वा ठितो। अपरिगमनत्ताय ठितो। कटं^{१०}
समादाय ठितो। मुत्तिपटिसेवनत्ताय ठितो। मेत्ताय पारिसुद्धिया ठितो। 20
करुणाय... मुदिताय... उपेक्खाय पारिसुद्धिया ठितो। अच्चन्तपारिसुद्धिया
ठितो। अकम्मयत्ताय^{११} पारिसुद्धिया ठितो। विमुत्तत्ता ठितो। सन्तुस्सि-
त्ता ठितो। खन्धपरियन्ते ठितो। धातुपरियन्ते ठितो। आयतनपरियन्ते
ठितो। गतिपरियन्ते ठितो। उपपत्तिपरियन्ते ठितो। पटिसन्धिपरियन्ते
ठितो। भवपरियन्ते^{१२} ठितो^{१३}। संसारपरियन्ते ठितो। वट्टपरियन्ते ठितो। 25
अन्तिमे भवे ठितो। अन्तिमे समुस्सये ठितो। अन्तिमदेहघरो अरहा।

१. परमपत्तिप्पत्तो—सी०; परमपत्तिप्पत्तो—स्या०। २. नेव आचिनाति—सी०,
स्या०। ३. न अपचिनाति—सी०, स्या०। ४. सिनेति—सी०; विसिनेति—स्या०। ५.
विसिनेत्त्वा—स्या०। ६. पञ्जाक्खन्धेन—सी०, स्या०। ७. असेक्खेन—सी०, एवमुपरि पि।
८. पटिपादयित्वा—स्या०। ९. एवं—स्या०। १०. कूटं—स्या०, कथ—सी०। ११. अकम्म-
ज्जाय—स्या०, अकम्मयत्ताय—सी०। १२-१३. सी० पाल्यके नति।

तस्सायं पच्छिमको भवो', चरिमोयं समुस्सयो ।
जातिमरणसंसारो, नत्थि तस्स पुनब्भवो ति ॥

नाव सित्वा व पारगू ति । तेनाह भगवा -

“तस्मा जन्तु सदा सतो, कामानि परिवज्जये ।

ते पहाय तरे ओष, नावं सित्वा व पारगू” ति ॥

कामसुत्तनिद्देशो पठमो ।

२. गुहट्टकसुत्तनिद्देशो

अथ' गुहट्टकसुत्तनिद्देशं वक्खति' -

R. 23

७. सत्तो गुहायं बहूनाभिच्छन्नो,
तिट्ठं नरो मोहनस्मि पगाळ्हो ।
दूरे विवेका हि तथाविधो सो,
कामा हि लोके न हि सुप्पहाया ॥

10

B. 18

सत्तो गुहायं बहूनाभिच्छन्नो ति । सत्तो ति हि खो वुत्तं, अपि च
गुहा ताव वत्तव्वा । गुहा वुच्चति कायो । कायो ति वा गुहा ति वा
देहो ति वा सन्देहो ति वा नावा ति वा रथो ति वा धजो ति वा वम्मिको
ति वा नगरं ति वा निट्ठु' ति वा कुटी ति वा गण्डो ति वा कुम्भो ति वा
15 नागो' ति वा' कायस्सेतं अधिवचनं । सत्तो गुहायं ति । गुहायं सत्तो
विसत्तो आसत्तो लग्गो लग्गतो पलिवुद्धो' । यथा भित्तिखिले' वा नाग-
दन्ते वा गण्डं सत्तं विसत्तं आसत्तं लग्ग लग्गतं पलिवुद्ध, एवमेव गुहायं
सत्तो विसत्तो आसत्तो लग्गो लग्गतो पलिवुद्धो । वुत्तं हेतं भगवता -

B. 24

“रूपे खो, राध,' यो छन्दो यो रागो या नन्दी या तण्हा ये उप-
20 यूपादाना' चेतसो अधिद्वानाभिनिवेशानुसया, तत्र' सत्तो तत्र' विसत्तो",
तस्मा सत्तो ति वुच्चति । वेदनाय खो, राध .. पे० .. सञ्जाय खो, राध ..
सङ्घारेसु खो, राध... विञ्जाणे खो, राध, यो छन्दो यो रागो या नन्दी या

१. सी० पोत्यके नत्थि । २-२. स्या० पोत्यके नत्थि । ३ निर्द्ध-सी०, स्या० ।
४-४. स्या० पोत्यके नत्थि । ५ पलिवुद्धो-सी० । ६ ० खीले-सी०, स्या० । ७.
स्या० पोत्यके नत्थि । ८ उपायुपादाना-सी०, स्या० । ९ तत्रा-स्या० । १०-१० स्या०
पोत्यके नत्थि ।

तण्हा ये उपयूपादाना चेतसो अधिष्ठानाभिनिवेशानुसयां, तत्र सत्तो तत्र
 विसत्तो, तस्मा सत्तो ति वुच्चति। सत्तो ति लग्गनाधिवचनं” ति -
 सत्तो गुहायं। बहुनाभिच्छन्नो ति। बहुकेहि किलेसेहि छन्नो। रागेन
 छन्नो दोसेन छन्नो मोहेन छन्नो कोधेन छन्नो उपनाहेन छन्नो मक्खेन छन्नो
 पळासेन छन्नो इस्साय छन्नो मच्छरियेन छन्नो मायाय छन्नो साठेय्येन छन्नो 5
 थम्भेन छन्नो सारम्भेन छन्नो मानेन छन्नो अतिमानेन छन्नो मदेन छन्नो
 पमादेन छन्नो। सब्बकिलेसेहि सब्बदुच्चरितेहि सब्बदरथेहि सब्बपरि-
 ळाहेहि सब्बसन्तापेहि सब्बाकुसलाभिसङ्घारेहि छन्नो विछन्नो उच्छन्नो
 आवुतो^१ निवुतो ओवुतो^२ पिहितो पटिच्छन्नो पटिकुज्जितो ति - सत्तो
 गुहायं बहुनाभिच्छन्नो। 10

तिट्ठं नरो मोहनस्मि पगाळ्हो ति। तिट्ठन्तो^३ नरो रत्तो राग-
 वसेन तिट्ठति, दुट्ठो दोसवसेन तिट्ठति, मूळ्हो मोहवसेन तिट्ठति, विनि-
 बद्धो^४ मानवसेन तिट्ठति, परामट्ठो दिट्ठिवसेन तिट्ठति, विक्खेपगतो
 उद्धञ्चवसेन तिट्ठति, अनिट्ठङ्गतो विचिकिच्छावसेन तिट्ठति, थामगतो
 अनुसयवसेन तिट्ठति। एवं पि तिट्ठं नरो। 15

वुत्तं हेतं भगवता - “सन्ति, भिक्खवे, चक्खुविञ्जेय्या रूपा
 इट्ठा कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता^५ रजनीया, तं चे भिक्खु
 अभिनन्दति अभिवदति अज्झोसाय तिट्ठति। सन्ति, भिक्खवे, 10
 सोतविञ्जेय्या सट्ठा ... घानविञ्जेय्या गन्धा ... जिह्वाविञ्जेय्या रसा ...
 कायविञ्जेय्या फोट्ठब्बा ... मनोविञ्जेय्या धम्मा इट्ठा कन्ता मनापा
 पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया, तं चे भिक्खु अभिनन्दति अभिवदति
 अज्झोसाय तिट्ठती” ति। एवं पि तिट्ठं नरो। 20

वुत्तं हेतं भगवता - “रूपपयं वा, भिक्खवे, विञ्जाणं तिट्ठमानं
 तिट्ठति, रूपारम्मणं रूपपतिट्ठं नन्दूपसेचनं बुद्धिं^६ विरूळ्हिं वेपुल्लं
 आपज्जति। वेदनूपयं^७ वा, भिक्खवे ... सञ्ज्ञूपयं ... सङ्खारूपयं वा, 25
 भिक्खवे, विञ्जाणं तिट्ठमानं तिट्ठति, सङ्खारारम्मणं सङ्खारपतिट्ठं^८

१ सी०, स्या० पोत्यकेसु नत्थि। २-२ आवुटो निवुटो ओवुटो - स्या०। ३. तिट्ठं
 नरोति तिट्ठन्तो - सी०, स्या०। ४ विनिवन्धो - स्या०; एवमुपरि पि। ५. कामुपसंहिता -
 स्या०। ६. बुद्धिं - स्या०, एवमुपरि पि। ७ वेदनूपयं - सी०, स्या०; एवमुपरि पि।
 ८. सङ्खारपतिट्ठं - स्या०।

नन्दूपसेचनं बुद्धिं विरूढिह वेपुल्ल आपज्जती” ति । एवं पि तिट्ठं नरो ।

वुत्तं पि हेतं भगवता --“कबळीकारे” चे, भिक्खवे, आहारे अत्थि रागो अत्थि नन्दी अत्थि तण्हा । पतिट्ठित तत्थ विञ्जाणं विरूढह । यत्थ पतिट्ठितं विञ्जाणं विरूढह, अत्थि तत्थ नामरूप-
 5 स्सावक्कं ति । यत्थ अत्थि नामरूपस्सावक्क ति, अत्थि तत्थ सङ्खारानं बुद्धि । यत्थ अत्थि सङ्खारानं बुद्धि, अत्थि तत्थ आयति पुनब्भवाभिनिव्वत्ति । यत्थ अत्थि आयति पुनब्भवाभिनिव्वत्ति, अत्थि तत्थ आयति जातिजरामरण । यत्थ अत्थि आयति जाति-
 10 जरामरणं, ससोक त, भिक्खवे, सरजं सउपायास ति वदामी” ति । एवं पि तिट्ठं नरो ।

“फस्से चे, भिक्खवे, आहारे . मनोसञ्चेतनाय चे, भिक्खवे, आहारे .. विञ्जाणे चे, भिक्खवे, आहारे अत्थि रागो अत्थि नन्दी
 . 26 अत्थि तण्हा, पतिट्ठित तत्थ विञ्जाणं विरूढह । यत्थ पतिट्ठित
 16 विञ्जाणं विरूढह, अत्थि तत्थ नामरूपस्सावक्कं ति । यत्थ अत्थि नामरूपस्सावक्कं ति, अत्थि तत्थ सङ्खारानं बुद्धि । यत्थ अत्थि सङ्खारानं बुद्धि, अत्थि तत्थ आयति पुनब्भवाभिनिव्वत्ति । यत्थ अत्थि आयति पुनब्भवाभिनिव्वत्ति, अत्थि तत्थ आयति जातिजरा-
 मरण । यत्थ अत्थि आयति जातिजरामरण, ससोक त, भिक्खवे,
 20 सरजं सउपायास ति वदामी” ति । एवं पि तिट्ठं नरो ।

मोहनस्मि पगाळहो ति । मोहना वुच्चन्ति पञ्च कामगुणा । चक्खुविञ्जेय्या रूपा इट्ठा कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसहिता रजनीया, सोतविञ्जेय्या सट्ठा धानविञ्जेय्या गन्धा जिण्हा-
 विञ्जेय्या रसा कायविञ्जेय्या फोट्ठब्बा इट्ठा कन्ता मनापा
 25 पियरूपा कामूपसहिता रजनीया । किंकारणा मोहना वुच्चन्ति पञ्च कामगुणा ? येसुय्येन देवमनुस्सा पञ्चसु कामगुणसु मुग्घन्ति सम्मुग्घन्ति सम्पमुग्घन्ति, मूळहा सम्मूळहा सम्पमूळहा^१ अविज्जाय अन्धीकता^२ आवुता निवुता ओवुता पिहिता पटिच्छन्ना पटि-
 3 20 कुज्जिता, तकारणा मोहना वुच्चन्ति पञ्च कामगुणा । मोहनस्मिं

१ कबळिकारे-स्या० । २ पमूळहा-सी० । ३ अन्धिकता-सी०, स्या० ।

पगाळहो ति । मोहनस्मिं पगाळहो ओगाळहो अज्भोगाळहो निमुग्गो ति - तिट्ठं नरो मोहनस्मिं पगाळहो ।

दूरे विवेका हि तथाविधो सो ति । विवेका ति । तयो विवेका - कायविवेको, चित्तविवेको, उपधिविवेको । कतमो काय-विवेको ? इध भिक्खु विवित्तं सेनासनं भजति अरञ्जं रक्खमूलं 5 पब्बतं कन्दरं गिरिगुहं सुसानं वनपत्थं अब्भोकासं पलालपुञ्जं । कायेन^१ विवित्तो विहरति । सो एको गच्छति, एको तिट्ठति, एको निसीदति, एको सेय्यं कप्पेति, एको गामं पिण्डाय पविससति, एको पटिक्कमति, एको र्हो निसीदति, एको चङ्कमं अधिट्ठाति, एको चरति विहरति इरियति वत्तति पालेति यपेति यापेति । अयं कायविवेको । 10

कतमो चित्तविवेको ? पठम भानं समापन्नस्स नीवरणेहि चित्तं विवित्तं होति । दुतियं भानं समापन्नस्स वितक्कविचारेहि चित्तं विवित्तं होति । ततियं भानं समापन्नस्स पीतिया चित्तं विवित्तं होति । चतुत्थं भानं समापन्नस्स सुखदुक्खेहि चित्तं विवित्तं होति । आकासानञ्चायतनं समापन्नस्स रूपसञ्जाय पटिघसञ्जाय 15 नानत्तसञ्जाय चित्तं विवित्तं होति । विञ्जाणञ्चायतनं समापन्नस्स आकासानञ्चायतनसञ्जाय चित्तं विवित्तं होति । आकिञ्चञ्जायतनं समापन्नस्स विञ्जाणञ्चायतनसञ्जाय चित्तं विवित्तं होति । नेवसञ्जानासञ्जायतनं समापन्नस्स आकिञ्चञ्जायतनसञ्जाय चित्तं विवित्तं होति । सोतापन्नस्स सवकायदिट्ठिया विचिकिच्छाय सील- 20 व्वतपरामासा दिट्ठानुसया विचिकिच्छानुसया, तदेकट्ठेहि च किलेसेहि चित्तं विवित्तं होति । सकदागामिस्स ओळारिका कामरागसञ्जोजना पटिघसञ्जोजना ओळारिका कामरागानुसया पटिधानुसया, तदेकट्ठेहि च किलेसेहि चित्तं विवित्तं होति । अनागामिस्स अनुसहगता कामरागसञ्जोजना पटिघसञ्जोजना अनुसहगता कामरागानुसया 25 पटिधानुसया, तदेकट्ठेहि च किलेसेहि चित्तं विवित्तं होति । अरहतो रूपारूपरागा माना उद्धञ्चा अविज्जाय मानानुसया भवरागानुसया अविज्जानुसया, तदेकट्ठेहि च किलेसेहि बहिद्धा च सब्बनिमित्तेहि चित्तं विवित्तं होति । अयं चित्तविवेको ।

R 27

15

20

25

B. 21

कतमो उपधिविवेको ? उपधि वुच्चन्ति किलेसा च खत्वा
 च अभिसङ्कारा च । उपधिविवेको वुच्चति अमतं निब्बानं । यो'
 सब्बसङ्कारसमथो सब्बूपधिपटिनिस्सग्गो' तण्हक्खयो विरागो निरोधो
 निब्बानं । अय उपधिविवेको । कायविवेको च विवेकट्टकायानं'
 5 नेक्खम्माभिरतान, चित्तविवेको च परिसुद्धचित्तानं परमवोदान-
 प्तानं, उपधिविवेको च निरूपधीन पुग्गलानं विसङ्कारगतानं ।

R 28

दूरे विवेका ही ति । यो सो एव गुहाय सत्तो एव बहुकेहि
 किलेसेहि छन्नो एवं मोहनस्मि पगाळ्हो सो कायविवेका पि दूरे,
 चित्तविवेका पि दूरे, उपधिविवेका पि दूरे विदूरे सुविदूरे न
 10 सन्तिके न सामन्ता अनासन्ने विवेकट्ठे' । तथाविधो ति । तादिसो'
 तस्सण्ठितो तप्पकारो तप्पटिभागो यो सो मोहनस्मि पगाळ्हो
 ति - दूरे विवेका हि तथाविधो सो ।

कामा हि लोके न हि सुप्पहाया ति । कामा ति । उद्धानतो
 द्वे कामा - वत्थुकामा च किलेसकामा च । कतमे वत्थुकामा ?
 15 मनापिका रूपा मनापिका सद्दा मनापिका गन्धा मनापिका रसा
 मनापिका फोट्टब्बा, अत्थरणा पावुरणा' दासिदासा अजेळका
 कुक्कुटसूकरा हत्थिगवास्सवळवा खेत्त वत्थु हिरञ्जं सुवण्ण
 गामनिगमराजधानियो रट्ट च जनपदो च कोसो च कोट्टागारं च,
 य किञ्चि रजनीय वत्थु - वत्थुकामा । अपि च, अतीता कामा
 20 अनागता कामा पच्चुप्पन्ना कामा अज्झत्ता कामा बहिद्धा कामा
 अज्झत्तबहिद्धा कामा हीना कामा मज्झिमा कामा पणीता कामा
 आपायिका कामा मानुसिका कामा दिब्बा कामा पच्चुपट्टिता
 कामा निम्मिता कामा अनिम्मिता' कामा' परनिम्मिता' कामा'
 परिग्गहिता कामा अपरिग्गहिता कामा ममायिता कामा अममायिता
 25 कामा, सब्बे पि कामावचरा धम्मा सब्बे पि रूपावचरा धम्मा
 सब्बे पि अरूपावचरा धम्मा तण्हावत्थुका तण्हारम्मणा कामनी-
 यट्ठेन रजनीयट्ठेन मदनीयट्ठेन कामा । इमे वुच्चन्ति वत्थुकामा ।

१ यो सो-स्या० । २ सब्बूपधि०-स्या० । ३ वक्कट्टकायान-सी०, वूपकट्ट-
 कायान-स्या० । ४ वक्कट्ठे-सी०, अनुपकट्ठे-स्या० । ५ तथाविधो तादिसो-स्या० ।
 ६ पावुरणा-सी०, स्या० । ७-७ स्या० पोत्यके नत्थि । ८-८ सी० पोत्यके नत्थि ।

कतमे किलेसकामा ? छन्दो कामो रागो कामो छन्दरागो कामो सङ्कप्पो कामो रागो कामो सङ्कप्परागो कामो, यो कामेसु कामच्छन्दो कामरागो कामनन्दी^१ कामतण्हा कामस्नेहो कामपरि-
ळाहो काममुच्छा कामज्जोसानं कामोधो कामयोगो । कामुपादानं कामच्छन्दनीवरणं ।

B. 2

5

अदसं काम ते मूलं, सङ्कप्पा काम जायसि ।
न तं सङ्कप्पयिस्सामि, एवं काम न होहिंसी ति ॥

इमे वुच्चन्ति किलेसकामा । लोके ति । अपायलोके मनुस्स-
लोके देवलोके खन्धलोके धातुलोके आयतनलोके । कामा हि लोके
न हि सुप्पहाया ति । कामा हि लोके दुप्पहाया दुच्चज्जा^२ दुप्प-
रिच्चज्जा दुब्बिम्मदया दुब्बिवेठया^३ दुब्बिनिवेठया^४ दुत्तरा दुप्पतरा
दुस्समतिक्कमा दुब्बिनिवत्ता^५ ति - कामा हि लोके न हि सुप्प-
हाया । तेनाह भगवा -

B. 2

10

“सत्तो गुहायं बहुनाभिच्छो ,
तिट्ठं नरो मोहनस्मिं पगाळहो ।
दूरे विवेका हि तथाविधो सो,
कामा हि लोके न हि सुप्पहाया” ति ॥

15

८. इच्छानिदाना भवसातबद्धा,
ते दुप्पमुञ्चा न हि अञ्जमोक्खा ।
पच्छा पुरे वा पि अपेक्खमाना,
इमे व कामे पुरिमे व जप्पं ॥

20

इच्छानिदाना भवसातबद्धा ति । इच्छा वुच्चति तण्हा ।
यो रागो सारागो अनुनयो अनुरोधो नन्दी नन्दिरागो चित्तस्स
सारागो इच्छा मुच्छा अज्जोसानं गेधो पल्लिगेधो सङ्गो पङ्को एजा
माया जनिका सञ्जननी सिब्बिनी जालिनी सरित्ता विसत्तिका
सुत्तं विसटा आयूहिनी दुत्तिया पणिधि भवनेत्ति वनं वनथो
सन्धवो^६ स्नेहो अपेक्खा पटिबन्धु^७ आसा आसीसना^८ आसीसित्तं

25

१. कामनन्दि - सी०, स्या०; एवमुपरि पि । २. दुच्चजा - स्या०; एवमुपरि पि । ३.
स्या० पोत्यके नत्थि । ४. दुब्बिनिवेधया - स्या० । ५. दुब्बिनिवत्ता - स्या० । ६. सन्धवो -
सी०, स्या० । ७. पटिबन्धा - स्या० । ८. आसिसना - सी०, स्या० ।

B 23

रूपासा सद्दासा गन्धासा रसासा फोट्टुब्बासा लाभासा धनासा पुत्तासा
जीवितासा जप्पा पजप्पा अभिजप्पा जप्पना जप्पितत्त लोलुप्पं लोलु-

B. 30

प्पायना लोलुप्पायितत्त पुच्छञ्चिकता' साधुकम्यता अधम्मरागो
विसमलोभो निकन्ति निकामना पत्थना पिहना सम्पत्थना कामतण्हा
5 भवतण्हा विभवतण्हा रूपतण्हा अरूपतण्हा निरोधतण्हा रूपतण्हा
सद्दतण्हा गन्धतण्हा रसतण्हा फोट्टुब्बतण्हा धम्मतण्हा ओघो योगो
गन्थो उपादानं आवरणं नीवरणं छदनं बन्धनं उपक्किलेसो
अनुसयो परियुट्टानं लता वेविच्छं दुक्खमूल दुक्खनिदान दुक्खप्पभवो
मारपासो मारबल्लिसं मारविसयो तण्हानदी तण्हाजाल तण्हागद्दुल
10 तण्हासमुद्दो अभिज्झा लोभो अकुसलमूल। इच्छानिदाना ति।
इच्छानिदानका इच्छाहेतुका इच्छापच्चया इच्छाकारणा इच्छापभवा
ति - इच्छानिदाना।

भवसातबद्धा ति। एक भवसातं - सुखा वेदना। द्वे भव-
सातानि - सुखा च वेदना इट्ठ च वत्थु। तीणि भवसातानि -
15 योब्बञ्जं, आरोग्यं, जीवितं। चत्तारि भवसातानि - लाभो, यसो,
पससा, सुखं। पञ्च भवसातानि - मनापिका रूपा, मनापिका सद्दा,
मनापिका गन्धा, मनापिका रसा, मनापिका फोट्टुब्बा। छ भव-
सातानि - चक्खुसम्पदा, सोतसम्पदा, धानसम्पदा, जिह्वासम्पदा,
कायसम्पदा, मनोसम्पदा। भवसातबद्धा, सुखाय वेदनाय सातबद्धा,
20 इट्ठस्मिं वत्थुस्मि बद्धा, योब्बञ्जे बद्धा, आरोग्ये बद्धा, जीविते
बद्धा, लाभे बद्धा, यसे बद्धा, पससाय बद्धा, सुखे बद्धा, मनापिकेसु
रूपेसु बद्धा, सद्देसु . गन्धेसु . रसेसु ... मनापिकेसु फोट्टुब्बेसु बद्धा,
चक्खुसम्पदाय बद्धा, सोत-धान-जिह्वा-काय-मनोसम्पदाय बद्धा
विबद्धा' आबद्धा लग्गा लग्गता पलिबद्धा ति - इच्छानिदाना
25 भवसातबद्धा।

B. 31

ते दुप्पमुञ्चा न हि अञ्जमोक्खा ति। ते वा भवसातवत्थू
दुप्पमुञ्चा, सत्ता वा एत्तो दुम्मोचया। कथं ते भवसातवत्थू दुप्प-
मुञ्चा? सुखा वेदना दुप्पमुञ्चा, इट्ठ वत्थु दुप्पमुञ्चं, योब्बञ्जं

१ पुच्छञ्चिकता - सी०, स्या०, मुच्छञ्चिकता - रो०। २. सत्ताबद्धा - सी०,
बद्धा - स्या०। ३ विनिबद्धा - स्या०। ४ दुम्मुञ्च - स्या०, एवमुपरि पि।

दुष्पमुञ्चं, आरोग्यं दुष्पमुञ्चं, जीवितं दुष्पमुञ्चं, लाभो दुष्पमुञ्चो, यसो दुष्पमुञ्चो, पसंसा दुष्पमुञ्चा, सुखं दुष्पमुञ्चं, मनापिका रूपा दुष्पमुञ्चा, मनापिका सदा ... गन्धा ... रसा ... फोटुब्बा दुष्पमुञ्चा, चक्खुसम्पदा दुष्पमुञ्चा, सोत-धान-जिब्हा-काय-मनो-सम्पदा दुष्पमुञ्चा दुम्मोचया दुष्पमोचया दुब्बिवेठया दुब्बिनिवेठया 5
दुत्तरा दुप्पतरा दुस्समतिककमा दुब्बिनिवत्ता। एवं ते भवसातवत्थू दुष्पमुञ्चा।

B. 24

कथं सत्ता एत्तो दुम्मोचया? सुखाय वेदनाय सत्ता दुम्मोचया, इट्ठस्सा वत्थुस्सा दुम्मोचया, योब्बञ्जा दुम्मोचया, आरोग्या दुम्मोचया, जीविता दुम्मोचया, लाभा दुम्मोचया, यसा 10
दुम्मोचया, पसंसाय दुम्मोचया, सुखा दुम्मोचया, मनापिकेहि रूपेहि दुम्मोचया, मनापिकेहि सद्देहि ... गन्धेहि ... रसेहि ... फोटुब्बेहि दुम्मोचया, चक्खुसम्पदाय दुम्मोचया, सोत-धान-जिब्हा-काय-मनो-सम्पदाय दुम्मोचया दुख्खरा। दुस्समुद्धरा दुब्बुट्ठापया दुस्समुट्ठापया 15
दुब्बिवेठया दुब्बिनिवेठया दुत्तरा दुप्पतरा दुस्समतिककमा दुब्बिनिवत्ता। एवं सत्ता एत्तो दुम्मोचया ति—ते दुष्पमुञ्चा।

न हि अञ्जमोक्खा ति। ते अत्तना पल्लिपल्लिपन्ना न सक्कोन्ति परं पल्लिपल्लिपन्नं उद्धरितुं। वुत्तं हेतं भगवता—“सो वत, चुन्द, अत्तना पल्लिपल्लिपन्नो परं पल्लिपल्लिपन्नं उद्धरिस्सती 20
ति नेतं ठानं विज्जति। सो वत, चुन्द, अत्तना अदन्तो अविनीतो अपरिनिब्बुतो परं दमेस्सति विनेस्सति परिनिब्बापेस्सती ति नेतं ठानं विज्जती” ति। एवं पि न हि अञ्जमोक्खा।

B. 31

अथ वा, नत्थञ्जो कोचि मोचेता। ते यदि मुञ्चेय्युं, सकेन थामेन सकेन बलेन सकेन वीरियेन सकेन परक्कमेन सकेन पुरिसथामेन सकेन पुरिसबलेन सकेन पुरिसवीरियेन सकेन पुरिस- 25
परक्कमेन अत्तना सम्मापटिपदं अनुलोमपटिपदं अपञ्चनीकपटिपदं अन्वत्थपटिपदं धम्मानुधम्मपटिपदं पटिपज्जमाना मुञ्चेय्युं ति। एवं पि न हि अञ्जमोक्खा।

१. दुब्बुट्ठापना—स्या०, एवमुपरि पि। २. स्या० पोत्यके नत्थि। ३. मोचेतुं—स्या०।

वृत्तं पि हेतं भगवता -

“नाहं सहिस्सामि^१ पमोचनाय,
कथं कथिं धोतक किञ्चि^२ लोके ।
धम्मं च सेट्टुं अभिजानमानो,
एवं तुवं ओघमिमं तरेसी” ति ॥

एवं पि न हि अञ्जमोक्खा ।

B 26

वृत्तं पि हेतं भगवता -

“अत्तना व^३ कत्तं^४ पापं, अत्तना संकिलिस्सति ।
अत्तना अकत्तं पापं, अत्तना व विसुज्झति ।
सुद्धी^५ असुद्धि पच्चत्तं, नाञ्जो^६ अञ्जो^६ विसोधये” ति ॥

10

एवं पि न हि अञ्जमोक्खा ।

R. 33

वृत्तं पि हेतं भगवता - “एवमेव खो, ब्राह्मण, तिट्ठतेव
निब्बानं, तिट्ठति निब्बानगामिमगो, तिट्ठामहं समादपेत्ता । अथ च
पन मम सावका मया एवं ओवदियमाना एवं अनुसासियमाना
अप्येकच्चे अच्चन्तनिट्ठं निब्बानं आराधेन्ति, एकच्चे नाराधेन्ति ।
एत्थ क्याहं, ब्राह्मण, करोमि? मग्गक्खायी, ब्राह्मण, तथागतो ।
मग्गं बुद्धो आचिक्खति । अत्तना पटिपज्जमाना मुञ्चेय्यु” ति । एवं
पि न हि अञ्जमोक्खा ति - ते दुप्पमुञ्चा न हि अञ्जमोक्खा ।

15

पच्छा पुरे वा पि अपेक्खमाना ति । पच्छा वुच्चति
अनागतं, पुरे वुच्चति अतीतं । अपि च, अतीतं उपादाय अनागतं
च पच्चुप्पन्नं च पच्छा, अनागतं उपादाय अतीतं च पच्चुप्पन्नं च
पुरे । कथं पुरे अपेक्खं करोति? “एवंरूपो अहोसि अतीतमद्धानं”
ति तत्थ नन्दिं समन्नानेति । “एवंवेदनो अहोसिं .. एवंसञ्जो
अहोसिं ... एवंसङ्खारो अहोसिं ... एवंविञ्जाणो अहोसिं अतीतमद्धानं”
ति तत्थ नन्दिं समन्नानेति । एवं पि पुरे अपेक्खं करोति ।

25

- अथ वा, “इति मे चक्खु अहोसि अतीतमद्धानं, इति
रूपा” ति - तत्थ छन्दरागपटिबद्धं होति विञ्जाणं । छन्दरागपटिबद्धता

१ सहिस्सामि - स्या० । २ कञ्चि - स्या० । ३-३. पकत्तं - स्या० । ४. सुद्धि -
सी०, स्या० । ५-५. नाञ्जमञ्जो - सी० । ६. समन्नागमेति - स्या०; एवमुपरि पि ।

विञ्जाणस्स तदभिनन्दति । तदभिनन्दन्तो एवं पि पुरे अपेक्खं करोति । “इति मे सोतं अहोसि अतीतमद्धानं, इति सद्दा” ति... “इति मे घानं अहोसि अतीतमद्धानं, इति गन्धा” ति... “इति मे जिब्हा अहोसि अतीतमद्धानं, इति रसा” ति... “इति मे कायो अहोसि अतीतमद्धानं, इति फोट्टब्बा” ति... “इति मे मनो अहोसि 5 अतीतमद्धानं, इति धम्मा” ति—तत्थ छन्दरागपटिबद्धं होति विञ्जाणं । छन्दरागपटिबद्धत्ता विञ्जाणस्स तदभिनन्दति । तदभिनन्दन्तो एवं पि पुरे अपेक्खं करोति ।

अथ वा, यानिस्स तानि पुब्बे मातुगामेन सद्धिं हसित-
लपितकीळितानि तदस्सादेति तं निकामेति तेन च वित्तिं आपज्जति । 10
एवं पि पुरे अपेक्खं करोति ।

B. 26,
R. 24

कथं पच्छा अपेक्खं करोति ? “एवरूपो सियं अनागत-
मद्धानं” ति तत्थ नन्दि समन्नानेति । “एवंवेदनो सियं... एवंसञ्जो
सियं... एवंसङ्खारो सियं... एवंविञ्जाणो सियं अनागतमद्धानं”
ति तत्थ नन्दि समन्नानेति । एवं पि पच्छा अपेक्खं करोति । 15

अथ वा, “इति मे चक्खु सिया अनागतमद्धानं, इति रूपा”
ति—अप्पटिलद्धस्स पटिलाभाय चित्तं पणिदहति । चेतसो पणि-
धानपच्चया तदभिनन्दति । तदभिनन्दन्तो एवं पि पच्छा अपेक्खं
करोति । “इति मे सोतं सिया अनागतमद्धानं, इति सद्दा” ति... “इति
मे घानं सिया अनागतमद्धानं, इति गन्धा” ति... “इति मे जिब्हा 20
सिया अनागतमद्धानं, इति रसा” ति... “इति मे कायो सिया अनागत-
मद्धानं, इति फोट्टब्बा” ति... “इति मे मनो सिया अनागतमद्धानं,
इति धम्मा” ति—अप्पटिलद्धस्स पटिलाभाय चित्तं पणिदहति ।
चेतसो पणिधानपच्चया तदभिनन्दति । तदभिनन्दन्तो एवं पि पच्छा
अपेक्खं करोति ।

25

अथ वा, “इमिनाहं सीलेन वा वतेन वा तपेन वा ब्रह्म-
चरियेन वा देवो वा भविस्सामि देवञ्जतरो वा” ति—अप्पटिलद्धस्स
पटिलाभाय चित्तं पणिदहति । चेतसो पणिधानपच्चया तदभि-
नन्दति । तदभिनन्दन्तो एवं पि पच्छा अपेक्खं करोती ति—पच्छा
पुरे वा पि अपेक्खमाना ।

30

- R. 35 इमे व कामे पुरिमे व जप्पं ति । इमे व कामे ति । पच्चुप्पन्ने पञ्च कामगुणे इच्छन्ता सादियन्ता पत्थयन्ता पिहयन्ता अभिजप्पन्ता । पुरिमे व जप्पं ति । अतीते पञ्च कामगुणे जप्पन्ता पजप्पन्ता अभिजप्पन्ता ति—इमे व कामे पुरिमे व जप्प । तेनाह
8 भगवा —

“इच्छानिदाना भवसातवद्धा,
ते दुप्पमुञ्चा न हि अञ्जमोक्खा ।
पच्छा पुरे वा पि अपेक्खमाना,
इमे व कामे पुरिमे व जप्प” ति ॥

B 27 10

९. कामेसु गिद्धा पसुता पमूळ्हा,
अवदानिया ते विसमे निविट्ठा ।
दुक्खूपनीता परिदेवयन्ति,
किंसू भविस्साम इतो चुतासे ॥

- कामेसु गिद्धा पसुता पमूळ्हा ति । कामा ति । उद्दानतो द्वे
15 कामा—वत्थुकामा च किलेसकामा च .पे० इमे वुच्चन्ति वत्थुकामा
...पे०.. इमे वुच्चन्ति किलेसकामा । गेधो वुच्चति तण्हा । यो रागो
सारगो पे०.. अभिज्झा लोभो अकुसलमूलं । किलेसकामेन वत्थु-
कामेसु रत्ता गिद्धा गधिता मुच्छिता अज्झोसन्ना' लग्गा लग्गिता
पलिवुद्धा ति—कामेसु गिद्धा ।

- 20 पसुता ति । ये पि कामे एसन्ति गवेसन्ति परियेसन्ति
तच्चरिता तव्वहुला तग्गस्का तन्निन्ना तप्पोणा तप्पम्भारा तदधि-
मुत्ता तदधिपतेय्या', ते पि कामपसुता' । ये पि तण्हावसेन रूपे एसन्ति
गवेसन्ति परियेसन्ति ...सद्दे ..गन्धे . रसे . फोट्टुव्वे . पे० परियेसन्ति
तच्चरिता तव्वहुला तग्गस्का तन्निन्ना तप्पोणा तप्पम्भारा तदधिमुत्ता
25 तदधिपतेय्या, ते पि कामपसुता । ये पि तण्हावसेन रूपे पटिलभन्ति .
B 36 सद्दे ... गन्धे ... रसे ... फोट्टुव्वे पटिलभन्ति तच्चरिता तव्वहुला
तग्गस्का तन्निन्ना तप्पोणा तप्पम्भारा तदधिमुत्ता तदधिपतेय्या,
ते पि कामपसुता । ये पि तण्हावसेन रूपे परिभुञ्जन्ति ... सद्दे... गन्धे ..

१ अज्झोसन्ना—सी०, स्या० । २. तदाधिपतेय्या—स्या० । ३ कामपसुता—स्या० ।

रसे ... फोट्टुब्बे परिभुञ्जन्ति तच्चरिता तब्बहुला तग्गरुका तन्निन्ना
 तप्पोणा तप्पभारा तदधिमुत्ता तदधिपतेय्या, ते पि कामपसुता ।
 यथा कलहकारको कलहपसुतो, कम्मकारको कम्मपसुतो, गोचरे
 चरन्तो गोचरपसुतो, भायी भानपसुतो, एवमेव ये पि कामे
 एसन्ति गवेसति परियेसन्ति तच्चरिता तब्बहुला तग्गरुका तन्निन्ना ६
 तप्पोणा तप्पभारा तदधिमुत्ता तदधिपतेय्या, ते पि कामपसुता ।
 ये पि तण्हावसेन रूपे एसन्ति गवेसन्ति परियेसन्ति ... सद्दे ... गन्धे ...
 रसे ... फोट्टुब्बे ... पे० ... परियेसन्ति तच्चरिता तब्बहुला तग्गरुका
 तन्निन्ना तप्पोणा तप्पभारा तदधिमुत्ता तदधिपतेय्या, ते पि काम-
 पसुता । ये पि तण्हावसेन रूपे पटिलभन्ति ... सद्दे ... गन्धे ... रसे ... १०
 फोट्टुब्बे पटिलभन्ति तच्चरिता तब्बहुला तग्गरुका तन्निन्ना तप्पोणा
 तप्पभारा तदधिमुत्ता तदधिपतेय्या, ते पि कामपसुता । ये पि
 तण्हावसेन रूपे परिभुञ्जन्ति ... सद्दे ... गन्धे ... रसे ... फोट्टुब्बे परिभुञ्जन्ति
 तच्चरिता तब्बहुला तग्गरुका तन्निन्ना तप्पोणा तप्पभारा तदधि-
 मुत्ता तदधिपतेय्या, ते पि कामपसुता । पमूळहा ति । येभुय्येन १५
 देवमनुस्सा पञ्चसु कामगुणेषु मुय्हन्ति सम्मुय्हन्ति सम्पमुय्हन्ति
 मूळहा सम्मूळहा सम्पमूळहा अविज्जाय अन्धीकता आवुता निवुता
 ओवुता पिहिता पटिच्छन्ना पटिकुज्जिता ति - कामेषु गिद्धा पसुता
 पमूळहा ।

B. 28

अवदानिया ते विसमे निविट्ठा ति । अवदानिया ति । २०
 अवगच्छन्ती' ति' पि अवदानिया, मच्छरिनो पि वुच्चन्ति अवदानिया,
 बुद्धानं सावकानं वचन व्यपपथ देसनं अनुसिट्ठि नादियन्ती ति
 - अवदानिया । कथं अवगच्छन्ती ति - अवदानिया ? निरयं' गच्छन्ति,
 तिरच्छानयोनिं गच्छन्ति, पेत्तिविसयं गच्छन्ती ति, एवं आगच्छन्ती
 ति - अवदानिया । कथं मच्छरिनो वुच्चन्ति अवदानिया ? पञ्च २५
 मच्छरियाणि - आवासमच्छरियं, कुलमच्छरियं, लाभमच्छरियं,
 वण्णमच्छरियं, धम्ममच्छरियं । यं एवरूप मच्छरियं मच्छरायना
 मच्छरायित्त वेविच्छं कदरियं कटुकञ्चुकता अगहित्तं चित्तस्स,

B. 37

१-१ अवङ्गच्छन्ती ति - सी०, स्या० । २ बुद्धसावकानं - सी०, स्या०, रो० । ३.
 अवङ्गच्छन्ती ति निरयं - सी०, स्या० । ४. कटुकञ्चुकता - स्या० ।

इदं वुच्चति मच्छरियं । अपि च, खन्धमच्छरियं पि मच्छरियं,
 धातुमच्छरियं पि मच्छरियं, आयतनमच्छरियं पि मच्छरियं गाहो ।
 इदं वुच्चति मच्छरियं । इमिना मच्छरियेन अवदञ्चुताय समन्नागता
 जना पमत्ता । एव मच्छरिनो वुच्चन्ति अवदानिया । कथं बुद्धानं
 5 सावकानं वचनं व्यप्पथं देसनं अनुसिद्धिं नादियन्ती ति - अवदानिया ?
 बुद्धानं सावकानं वचनं व्यप्पथं देसनं अनुसिद्धिं न आदियन्ति न
 सुस्सुसन्ति, न सोतं ओदहन्ति, न अञ्जा चित्तं उपट्टपेन्ति, अनस्सवा
 अवचनकरा पटिलोमवुत्तिनो, अञ्जेनेव मुखं करोन्ति । एवं बुद्धानं
 सावकानं वचनं व्यप्पथं देसनं अनुसिद्धिं नादियन्ती ति अवदानिया
 10 ति - अवदानिया ।

ते विसमे निविट्ठा ति । विसमे कायकम्मे निविट्ठा, विसमे
 वचीकम्मे निविट्ठा, विसमे मनोकम्मे निविट्ठा, विसमे पाणातिपाते
 निविट्ठा, विसमे अदिन्नादाने निविट्ठा, विसमे कामेसुमिच्छाचारे
 निविट्ठा, विसमे मुसावादे निविट्ठा, विसमाय पिसुणाय वाचाय' ..
 R. 38 15 विसमाय फरुसाय वाचाय .. विसमे सम्फपलापे ... विसमाय अभि-
 ज्जाय निविट्ठा, विसमे ब्यापादे ... विसमाय मिच्छादिट्ठिया निविट्ठा,
 विसमेसु सद्दारेसु निविट्ठा, विसमेसु पञ्चसु कामगुणेषु निविट्ठा,
 B 20 विसमेसु पञ्चसु नीवरणेषु निविट्ठा* विनिविट्ठा' पतिट्ठिता अल्लीना
 उपगता अञ्फोसिता अधिमुत्ता लग्गा लग्गिता पल्लबुद्धा ति -
 20 अवदानिया ते विसमे निविट्ठा ।

दुक्खूपनीता परिदेवयन्ती ति । दुक्खूपनीता ति । दुक्खप्पत्ता
 दुक्खसम्पत्ता दुक्खूपगता, मारप्पत्ता मारसम्पत्ता मारूपगता, मरण-
 प्पत्ता मरणसम्पत्ता मरणूपगता । परिदेवयन्ती ति । लपन्ति लालपन्ति
 सोचन्ति किलमन्ति परिदेवन्ति उरत्तालि' कन्दन्ति सम्मोहं आपज्जन्ती
 25 ति - दुक्खूपनीता परिदेवयन्ति ।

किंस् भविस्साम इतो चुतासे ति । इतो चुता किं
 भविस्साम ? नेरयिका भविस्साम, तिरच्छानयोनिका भविस्साम,

१-१ स्या० पोत्यके न विस्सति । २ वाचाय निविट्ठा - रो०, एवमुपरि पि । *
 'विसमाय चेतनाय विसमाय पत्थनाय विसमाय पणिधिया' इति स्या० पोत्यके अधिको
 पाठो विस्सति । ३. निविट्ठा - स्या० । ४ उरत्तालि - स्या० । ५ किमु - स्या० ।

पेत्तिविसयिका भविस्साम, मनुस्सा भविस्साम, देवा भविस्साम,
 रूपी भविस्साम, अरूपी भविस्साम, सञ्जी भविस्साम, असञ्जी
 भविस्साम, नेवसञ्जीनासञ्जी भविस्साम, भविस्साम नु खो मयं
 अनागतमद्धानं, ननु खो भविस्साम अनागतमद्धानं, किं नु खो
 भविस्साम अनागतमद्धानं, कथं नु खो भविस्साम अनागतमद्धानं,
 किं हुत्वा किं भविस्साम नु खो मयं अनागतमद्धानं ति संसयपक्खन्दा'
 विमत्तिपक्खन्दा द्वेळ्हकजाता लपन्ति लालपन्ति सोचन्ति किलमन्ति
 परिदेवन्ति उरत्ताळिं कन्दन्ति सम्मोहं आपज्जन्ती ति - किंसू
 भविस्साम इतो चुतासे। तेनाह भगवा -

“कामेसु गिद्धा पसुता पमूळ्हा,
 अवदानिया ते विसमे निविट्ठा।
 दुक्खूपनीता परिदेवयन्ति,
 किंसू भविस्साम इतो चुतासे” ति ॥

१०. तस्मा हि सिक्खेथ इधेव जन्तु,
 यं किञ्चि जञ्जा विसमं ति लोके।
 न तस्स हेतू विसमं चरेय्य,
 अप्पञ्चिहदं जीवितमाहु धीरा ॥

तस्मा हि सिक्खेथ इधेव जन्तु ति। तस्मा ति^१। तंकारणा
 तहेतु तप्पच्चया तन्निदाना एतमादीनवं सम्पस्समानो^२ कामेसु ति -
 तस्मा। सिक्खेथा ति। तिस्सो सिक्खा - अधिसीलसिक्खा, अधि-
 चित्तसिक्खा, अधिपञ्जासिक्खा। कतमा अधिसीलसिक्खा? इध
 भिक्खु सीलवा होति, पातिमोक्खसंवरसंबुतो विहरति आचार-
 गोचरसम्पन्नो, अणुमत्तेसु वज्जेसु भयदत्सावी, समादाय सिक्खति
 सिक्खापदेसु। खुद्दको सीलक्खन्धो महन्तो सीलक्खन्धो सीलं
 पतिट्ठा आदि चरणं संयमो संबरो भोक्खं^३ पामोक्खं^४ कुसलानं
 धम्मानं समापत्तिया - अयं अधिसीलसिक्खा।

कतमा अधिचित्तसिक्खा? इध भिक्खु विविच्चेव कामेहि
 विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्कं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं

१ संसयपक्खन्दा - सी०, स्या०। २ ति तस्मा - सी०, स्या०। ३ पत्समानो - सी०।
 ४ मुखं - स्या०। ५ पमोक्ख - सी०; पमुखं - स्या०।

पठमं भानं उपसम्पज्ज विहरति । वितक्कविचारानं वूपसमा
 अज्झत्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभाव अवितक्क अविचार समा-
 धिजं पीतिसुखं दुतियं भानं उपसम्पज्ज विहरति । पीतिया च
 विरागा उपेक्खको च विहरति सतो च सम्पजानो सुख च कायेन
 5 पटिसंवेदेति । यं त अरिया आचिक्खन्ति - 'उपेक्खको सतिमा
 सुखविहारी' ति ततियं भानं उपसम्पज्ज विहरति । सुखस्स च
 पहाना दुक्खस्स च पहाना पुब्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्यङ्गमा
 अदुक्खमसुख उपेक्खासतिपारिसुद्धिं चतुत्थं भान उपसम्पज्ज विहरति -
 अयं अधिचित्तसिक्खा ।

- 10 क्तमा अधिपञ्जासिक्खा ? इध भिक्खु पञ्जवा होति
 उदयत्थगामिनिया पञ्जाय समन्नागतो अरियाय निव्वेधिकाय
 सम्मादुक्खक्खयगामिनिया । सो "इद दुक्ख" ति यथाभूत
 पजानाति, "अयं दुक्खसमुदयो" ति यथाभूत पजानाति, "अय
 दुक्खनिरोधो" ति यथाभूत पजानाति, "अय दुक्खनिरोधगामिनी
 15 पटिपदा" ति यथाभूत पजानाति । "इमे आसवा" ति यथाभूत
 पजानाति, "अय आसवसमुदयो" ति यथाभूत पजानाति, "अय
 आसवनिरोधो" ति यथाभूत पजानाति, "अय आसवनिरोधगामिनी
 पटिपदा" ति यथाभूत पजानाति - अय अधिपञ्जासिक्खा । इमा
 तिस्सो सिक्खायो आवज्जन्तो सिक्खेय्य, जानन्तो सिक्खेय्य,
 20 पस्सन्तो सिक्खेय्य, पच्चवेक्खन्तो सिक्खेय्य, चित्त अधिट्ठहन्तो
 सिक्खेय्य, सद्धाय अधिमुच्चन्तो सिक्खेय्य, वीरियं पग्गण्हन्तो
 सिक्खेय्य, सति उपट्टपेन्तो सिक्खेय्य, चित्तं समादहन्तो सिक्खेय्य,
 पञ्जाय पजानन्तो सिक्खेय्य, अभिञ्जेय्य अभिजानन्तो सिक्खेय्य,
 परिञ्जेय्य परिजानन्तो सिक्खेय्य, पहातब्ब पजहन्तो सिक्खेय्य,
 B. 31 25 भावेतब्बं भावेन्तो सिक्खेय्य, सच्छिकातब्ब सच्छिकरोन्तो सिक्खेय्य
 आचरेय्य समाचरेय्य समादाय वत्तेय्य ।

इथा ति । इमिस्सा दिट्ठिया इमिस्सा खन्तिया इमिस्सा
 रुचिया इमस्मि आदाये इमस्मि धम्मे इमस्मि विनये इमस्मि

१-१ पठमज्ज्ञान - सी०, एवमुपरि पि । २-२ त ततियज्ज्ञान - सी० । ३. पहाना -
 सी० । ४ सिक्खा - स्या० । ५ उपट्टहन्तो - स्या०, रो० ।

धम्मविनये इमस्मिं पावचने इमस्मिं ब्रह्मचरिये इमस्मिं सत्थुसासने
इमस्मिं अत्तभावे इमस्मिं मनुस्सलोके — तेन वुच्चति इधा ति । जन्तु
ति । सत्तो नरो ..पे० ..मनुजो ति—तस्मा हि सिक्खेथ इधेव जन्तु ।

यं किञ्चि जञ्जा विसमं ति लोके ति । यं किञ्ची ति ।
सब्बेन सब्बं सब्बथा सब्बं असेसं निस्सेसं परियादियनवचनमेतं^१ 5 R.
—यं किञ्ची ति । विसमं ति जञ्जा ति । विसमं कायकम्मं विसमं ति
जानेय्य, विसमं वचीकम्मं विसमं ति जानेय्य, विसमं मनोकम्मं
विसमं ति जानेय्य, विसमं पाणातिपात विसमो ति जानेय्य, विसमं
अदिन्नादानं विसमं ति जानेय्य, विसमं कामेसु मिच्छाचारं विसमो ति
जानेय्य, विसमं मुसावादं विसमो ति जानेय्य, विसमं पिसुणं वाचं 10
विसमा ति जानेय्य, विसमं फरुसं वाचं विसमा ति जानेय्य, विसमं
सम्फप्पलापं विसमो ति जानेय्य, विसमं अभिज्झं विसमा ति जानेय्य,
विसमं व्यापादं विसमो ति जानेय्य, विसमं मिच्छादिट्ठि विसमा ति
जानेय्य, विसमे सङ्कारे विसमा ति जानेय्य, विसमे पञ्च कामगुणे
विसमा ति जानेय्य, विसमे पञ्च नीवरणे विसमा ति जानेय्य 15
आजानेय्य विजानेय्य पटिविजानेय्य^२ पटिविज्झेय्य । लोके ति । अपाय-
लोके ...पे०... आयतनलोके ति—यं किञ्चि जञ्जा विसमं ति लोके ।

न तस्स हेतू विसमं चरेय्या ति । विसमस्स कायकम्मस्स
हेतु विसमं न चरेय्य, विसमस्स वचीकम्मस्स हेतु विसमं न चरेय्य,
विसमस्स मनोकम्मस्स हेतु विसमं न चरेय्य, विसमस्स पाणाति- 20
पातस्स हेतु विसमं न चरेय्य, विसमस्स अदिन्नादानस्स हेतु
विसमं न चरेय्य, विसमस्स कामेसु मिच्छाचारस्स हेतु विसमं न
चरेय्य, विसमस्स मुसावादस्स हेतु विसमं न चरेय्य, विसमाय
पिसुणाय वाचाय हेतु विसमं न चरेय्य, विसमाय फरुसाय वाचाय
हेतु विसमं न चरेय्य, विसमस्स सम्फप्पलापस्स हेतु विसमं न 25
चरेय्य, विसमाय अभिज्झाय हेतु विसमं न चरेय्य, विसमस्स
व्यापादस्स हेतु विसमं न चरेय्य, विसमाय मिच्छादिट्ठिया हेतु
विसमं न चरेय्य, विसमानं सङ्कारानं हेतु विसमं^३ न चरेय्य,

१. परियादायवचनमेतं—स्या०, रो० । २. पटिविजानेय्य—सी० । ३. विसमे—स्या०,
एवमपरि पि ।

B. 42

विसमानं पञ्चन्नं कामगुणानं हेतु विसमं न चरेय्य, विसमान
पञ्चन्नं नीवरणानं हेतु विसमं न चरेय्य, विसमाय चेतनाय हेतु
विसमं न चरेय्य, विसमाय पत्यनाय हेतु विसमं न चरेय्य, विस-
माय पणिधिया हेतु विसमं न चरेय्य न आचरेय्य न समाचरेय्य न
6 समादाय वत्तेय्या ति - न तस्स हेतु विसमं चरेय्य।

अप्पञ्चिद्वं जीवितमाहु धीरा ति। जीवितं ति। आयु
ठिति यपना यापना इरियना वत्तना पालना जीवितं जीवितिन्द्रियं।
अपि च, द्वीहि कारणेहि अप्पकं जीवितं - ठितिपरित्ताय वा
अप्पकं जीवितं, सरसपरित्ताय वा अप्पक जीवितं। कथं ठिति-
10 परित्ताय अप्पकं जीवितं? अतीते चित्तक्खणे जीवित्थ, न जीवति
न जीविस्सति; अनागते चित्तक्खणे जीविस्सति, न जीवति न
जीवित्थ; पञ्चुप्पन्ने चित्तक्खणे जीवति, न जीवित्थ न जीविस्सति।

जीवितं अत्तभावो च, सुखदुक्खा च केवला।
एकचित्तसमायुत्ता, लहुसो वत्तते^१ खणो^१॥
15 चुल्लासीतिसहस्सानि^२, कप्पा तिट्ठन्ति ये मरु।
न त्वेव ते पि जीवन्ति, द्वीहि चित्तेहि संयुता^३॥
ये निरुद्धा मरन्तस्स, तिट्ठमानस्स वा इष।
सब्बे पि^४ सदिसा खन्धा, गता अप्पटिसन्धिका॥
अनन्तरा च ये भग्गा^५, ये च भग्गा अनागता।
20 तदन्तरे निरुद्धानं, वेसमं^६ नत्थि लक्खणे॥
अनिब्बत्तेन न जातो, पञ्चुप्पन्नेन जीवति।
चित्तभग्गा मतो लोको, पञ्चत्ति परमत्थिया॥
यथा निन्ना पवत्तन्ति, छन्देन परिणामिता।
अच्छिन्नधारा^७ वत्तन्ति, सळायतनपच्चया॥
अनिधानगता भग्गा, पुञ्जो नत्थि अनागते।
निब्बत्ता ये च^८ तिट्ठन्ति, आरग्गे सासपूपमा॥

B. 43 25

१-१. वत्तत्तक्खणो-स्या०। २. चुल्लासीति०-स्या०, चुल्लासीति०-सी०। ३
समाहिता-स्या०। ४ व-स्या०। ५ भङ्गा-सी० स्या०। ६. वेसम्म-स्या०। ७
अच्छिन्नधारा-स्या०। ८. व-सी०, स्या०।

निब्वत्तानं च धम्मानं, भङ्गो नेसं पुरक्खतो^१ ।
 पलोकधम्मा तिट्ठन्ति, पुराणेहि अमिस्सिता ॥
 अदस्सनतो आयन्ति, भङ्गा गच्छन्ति दस्सनं^२ ।
 विज्जुप्पादो व आकासे, उप्पज्जन्ति वयन्ति चा ति ॥

एवं ठितिपरित्ताय अप्पकं जीवितं ।

कथं सरसपरित्ताय अप्पकं जीवितं? अस्सासूपनिब्वन्धं^३
 जीवितं, पस्सासूपनिब्वन्धं जीवितं, अस्सासपस्सासूपनिब्वन्धं जीवितं,
 महाभूतपनिब्वन्धं जीवितं, कबळीकाराहारूपनिब्वन्धं^४ जीवितं, उस्मूप-
 निब्वन्धं जीवितं, विञ्जाणूपनिब्वन्धं जीवितं । मूलं पि इमेसं
 दुब्बलं, पुब्बहेतू पि इमेसं दुब्बला । ये^५ पच्चया ते पि दुब्बला, ये
 पि पभाविका^६ ते पि दुब्बला । सहभूमिं^७ इमेसं दुब्बला, सम्पयोगा
 पि इमेसं दुब्बला, सहजा पि इमेसं दुब्बला, या पि पयोजिका
 सा पि दुब्बला, अञ्जमञ्जं इमे निच्चदुब्बला, अञ्जमञ्जं अन-
 वट्ठिता इमे । अञ्जमञ्जं परिपातयन्ति इमे, अञ्जमञ्जस्स हि
 नत्थि तायिता, न चा पि ठपेन्ति अञ्जमञ्जं इमे । यो पि
 निब्वत्तको सो न विज्जति ।

न च केनचि कोचि हायति,
 गन्धब्बा^८ च इमे हि सब्बसो ।
 पुरिमेहि पभाविका^६ इमे,
 ये पि पभाविका ते पुरे मता ।
 पुरिमा पि च पच्छिमा पि च,
 अञ्जमञ्जं न कदाचि महसंसू^९ ति^{१०} ॥

एवं सरसपरित्ताय अप्पकं जीवितं ।

अपि च, चातुमहाराजिकानं देवानं जीवितं उपादाय
 मनुस्सानं अप्पकं जीवितं परित्तकं^{११} जीवितं थोकं जीवितं खणिकं

१. पुरेक्खतो-स्या० । २. अदस्सन-सी० । ३. अस्सासूपनिब्वन्धं-सी०; एवमुपरि
 पि; अस्सासूपनिब्वन्धं-स्या० । ४. कबळी०-सी०; कबळिकारहारूपनिब्वन्धं-स्या० । ५.
 ये पि-सी०, स्या०, एवमुपरि पि । ६. पभाविका-सी०, स्या० । ७. सहभूमि पि-सी०,
 सहभू पि-स्या० । ८. गङ्गव्या-स्या० । ९. पभाविता-स्या० । १०-१०. महसंसूति-सी०;
 अहसंसूति-स्या० । ११. परित्तं-सी० ।

जीवितं लहुकं जीवितं इतरं जीवितं अनद्वनीयं जीवितं नचिरद्वितिकं जीवितं । तावतिसानं देवानं . यामानं देवानं . तुसितानं देवानं निम्मानरतीनं देवानं परनिम्मितवसवत्तीनं देवानं ब्रह्मकायिकानं देवानं जीवितं उपादायं मनुस्सानं अप्पकं जीवितं परित्तकं जीवितं ४ थोकं जीवितं खणिकं जीवितं लहुकं जीवितं इतरं जीवितं अनद्वनीयं जीवितं नचिरद्वितिकं जीवितं । वुत्तं हेतं भगवता -

३. ३४

“अप्पमिदं, भिक्खवे, मनुस्सानं आयु । गमनियो सम्परायो मन्ताय बोद्धव्वं, कत्तव्वं कुसलं, चरित्तव्वं ब्रह्मचरियं, नत्थि जातस्स अमरणं । यो, भिक्खवे, चिरं जीवति सो वस्ससत अप्प वा भिय्यो” ।

१०

अप्पमायुं मनुस्सानं, हीळ्ळ्यं न सुपोरिसो ।

चरेय्यादित्तसीसो व, नत्थि मच्चुस्सनागमो ॥

अच्चयन्ति अहोरत्ता, जीवितं उपरुञ्जति ।

आयुं खिय्यति मच्चानं, कुत्तदीनं व ओदकं ति ॥

१५

४. ४५

अप्पञ्चिह्वं जीवितमाहुं धीरा ति । धीरा ति धीरा, धित्तिमा ति धीरा, धित्तिसम्पन्ना ति धीरा, धीकत्तपापा ति धीरा । धी वुच्चति पञ्जा । या पञ्जा पजानना विचयो पविचयो धम्मविचयो सल्लक्खणा उपलक्खणा पच्चुपलक्खणा पण्डिच्च कोसल्लं नेपुञ्जं वेमब्बा चिन्ता उपपरिक्खा भूरि मेघा परिणायिका विपस्सना सम्पजञ्ज पतोदो पञ्जा पञ्चिन्द्रियं पञ्जाबलं पञ्जासत्थं पञ्जापासादो पञ्जाआलोको पञ्जाओभासो पञ्जापज्जोतो पञ्जारत्तनं अमोहो धम्मविचयो सम्मादिट्ठि, ताय पञ्जाय समन्नागतता धीरा । अपि च, खन्धधीरा धातुधीरा आयतनधीरा पटिच्चसमुप्पादधीरा सत्तिपट्टानधीरा सम्मप्पधानधीरा इट्ठिपादधीरा २५ इन्द्रियधीरा बलधीरा बोक्कङ्गधीरा मग्गधीरा फलधीरा निब्बानधीरा । ते धीरा एवमाहुसु - “मनुस्सानं अप्पकं जीवितं, परित्तकं जीवितं, थोकं जीवितं, खणिकं जीवितं, लहुकं जीवितं,

१ फोड्ढ - स्या० । २ भिय्यो वा - सी० । ३ हिळ्ळ्यं - स्या० । ४. उदकं स्या० । ५ स्या० पोत्यके नत्थि । ६ धिक्कत्तपापा - सी०, स्या० । ७ चिन्तमन्ता - सी० । ८ इट्ठिपादधीरा - स्या० । ९-१० सी० पोत्यके नत्थि ।

इत्तरं जीवितं, अनद्धनीयं जीवितं, नचिरट्टितिक जीवितं” ति ।
 इमाहंसु एवं कथेन्ति एवं भणन्ति एव दीपयन्ति एवं बोहरन्ती
 ।-अप्पञ्चिहद जीवितमाहु धीरा । तेनाह भगवा -

“तस्मा हि सिक्खेथ इधेव जन्तु,
 य किञ्चि जञ्जा विसमं ति लोके ।
 न तस्स हेतू विसमं चरेय्य,
 अप्पञ्चिहदं जीवितमाहु धीरा” ति ॥

११. पस्सामि लोके परिफन्दमानं,
 पजं इमं तण्हगतं भवेसु ।

हीना नरा मच्चुमुखे लपन्ति,
 अबीततण्हासे भवाभवेसु ॥

पस्सामि लोके परिफन्दमानं ति । पस्सामी ति । मस-
 चक्खुना पि पस्सामि, दिब्बचक्खुना पि पस्सामि, पञ्जाचक्खुना पि
 पस्सामि, बुद्धचक्खुना पि पस्सामि, समन्तचक्खुना पि पस्सामि
 दक्खामि ओलोकेमि निज्झायामि उपपरिक्खामि । लोके ति ।
 अपायलोके मनुस्सलोके देवलोके खन्धलोके धातुलोके आयतन-
 लोके ।

परिफन्दमानं ति । तण्हाफन्दनाय फन्दमानं, दिट्ठिफन्दनाय
 फन्दमानं, किलेसफन्दनाय फन्दमानं, पयोगफन्दनाय फन्दमानं,
 विपाकफन्दनाय फन्दमानं, दुच्चरितफन्दनाय फन्दमानं, रत्तं रागेन
 फन्दमानं, दुट्ठं दोसेन फन्दमानं, मूळ्ह मोहेन फन्दमानं, विनिबद्धं
 मानेन फन्दमानं, परामट्ठं दिट्ठिया फन्दमानं, विक्खेपगतं उद्धच्चेन
 फन्दमानं, अनिट्ठुज्जतं विचिकिच्छाय फन्दमानं, थामगतं अनुसयेहिं
 फन्दमानं, लाभेन फन्दमानं, अलाभेन फन्दमानं, यसेन फन्दमानं,
 अयसेन फन्दमानं, पसंसाय फन्दमानं, निन्दाय फन्दमानं, सुखेन
 फन्दमानं, दुक्खेन फन्दमानं, जातिया फन्दमानं, जराय फन्दमानं,
 व्याधिना फन्दमानं, मरणेन फन्दमानं, सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सु-
 पायासेहिं फन्दमानं, नेरयिकेन दुक्खेन फन्दमानं, तिरच्छानयोनिकेन

- दुक्खेन फन्दमानं, पेत्तिविसयिकेन दुक्खेन फन्दमानं, मानुसिकेन दुक्खेन फन्दमानं, गब्भोक्कन्तिमूलकेन दुक्खेन फन्दमानं, गब्भे ठितिमूलकेन दुक्खेन फन्दमानं, गब्भा बुद्धानमूलकेन दुक्खेन फन्दमानं, जातस्सूपनिबन्धकेन दुक्खेन फन्दमानं, जातस्स पराधेय्यकेन दुक्खेन फन्दमानं, अत्तूपक्कमेन दुक्खेन फन्दमानं, परूपक्कमेन दुक्खेन फन्दमानं, दुक्खदुक्खेन फन्दमानं, सङ्खारदुक्खेन फन्दमानं, विपरिणामदुक्खेन फन्दमानं, चक्खुरोगेन दुक्खेन फन्दमानं, सोतारोगेन दुक्खेन फन्दमानं, घानरोगेन दुक्खेन ... जिह्वारोगेन ... कायरोगेन ... सीसरोगेन .. कण्णरोगेन .. मुखरोगेन ... दन्तरोगेन ... कासेन ... सासेन .. पिनासेन ... दाहेन' ... जरेन ... कुच्छिरोगेन ... मुच्छाय ... पक्खन्दिकाय ... सूलाय .. विसुच्चिकाय' ... कुट्टेन .. गण्डेन ... किलासेन . सोसेन .. अपमारेन .. दद्दुया ... कण्डुया ... कच्छुया ... रक्खसाय' . वित्तच्छिकाय .. लोहितेन .. पित्तेन ... मधुमेहेन ... अंसाय . पिळ्ळकाय .. भगन्दलेन' .. पित्तसमुद्धानेन आबाधेन... सेम्हसमुद्धानेन आबाधेन .. वातसमुद्धानेन आबाधेन ... सन्निपातिकेन आबाधेन .. उत्तुपरिणामजेन आबाधेन ... विसमपरिहारजेन आबाधेन ओपक्कमिकेन आबाधेन ... कम्मविपाकजेन आबाधेन ... सीतेन ... उण्हेन ... जिघच्छाय ... पिपासाय .. उच्चारेण ... पस्सावेन . ङसमकसवातात्तपसरीसपसम्फस्सेन दुक्खेन . भातुमरणेन दुक्खेन ... पितुमरणेन दुक्खेन ... भातुमरणेन दुक्खेन ... भगिनिमरणेन दुक्खेन .. पुत्तमरणेन दुक्खेन .. धीतुमरणेन दुक्खेन ... वातिव्यसनेन ... भोगव्यसनेन ... रोगव्यसनेन ... सीलव्यसनेन ... दिट्ठिव्यसनेन दुक्खेन फन्दमानं सम्फन्दमान विप्फन्दमान वेधमानं पवेधमानं सम्पवेधमानं पस्सामि दक्खामि ओलोकेमि निज्झायामि उपपरिक्खामी ति-
 25 पस्सामि लोके परिफन्दमान ।

पजं इमं तण्हगतं भवेसू ति । पजा ति । सत्ताधिवचनं । तण्हा ति । रूपतण्हा सद्दतण्हा गन्धतण्हा रसतण्हा फोटुब्बतण्हा धम्मतण्हा । तण्हगतं ति । तण्हागत तण्हागुगत तण्हायानुसट

१ डहेन - सी०, स्या० । २ विसुच्चिकाय - सी०, स्या० । ३. नखसाय - सी० । ४. भगन्दलाय - स्या० ।

तण्हायासन्नं' तण्हाय पातितं अभिभूतं परियादिन्नचित्तं । भवेसू
ति । कामभवे रूपभवे अरूपभवे ति - पजं इमं तण्हगतं भवेसु ।

हीना नरा मच्चुमुखे लपन्ती ति । हीना नरा ति । हीना
नरा हीनेन कायकम्मेन समन्नागता ति हीना नरा, हीनेन
वचीकम्मेन समन्नागता ति हीना नरा, हीनेन मनोकम्मेन समन्ना- 5
गता ति हीना नरा, हीनेन पाणातिपातेन समन्नागता ति हीना
नरा, हीनेन अदिन्नादानेन ... हीनेन कामेसु मिच्छाचारेण ... हीनेन
मुसावादेन ... हीनाय पिसुणाय वाचाय ... हीनाय फरुसाय वाचाय ...
हीनेन सम्फप्पलापेण ... हीनाय अभिज्झाय ... हीनेन व्यापादेन ...
हीनाय मिच्छादिट्ठिया ... हीनेहि सङ्खारेहि ... हीनेहि पच्चहि काम- 10
गुणेहि नीवरणेहि .. हीनाय चेतनाय ... हीनाय पत्थनाय ... हीनाय
पणिषिया समन्नागता ति हीना नरा हीना निहीना ओहीना
ओमका लामका छतुक्का परित्ता ति - हीना नरा । मच्चुमुखे
लपन्ती ति । मच्चुमुखे ति । मारमुखे मरणमुखे, मच्चुप्पत्ता
मच्चुसम्पत्ता मच्चूपागता, मारप्पत्ता मारसम्पत्ता मारूपागता, 15
मरणप्पत्ता मरणसम्पत्ता मरणूपागता लपन्ति लालपन्ति सोचन्ति
किलमन्ति परिदेवन्ति उरत्ताळिं कन्दन्ति सम्मोहं आपज्जन्ती ति -
हीना नरा मच्चुमुखे लपन्ति ।

अवीततण्हासे भवाभवेसू ति । तण्हा ति । रूपतण्हा ... पे० ...
धम्मतण्हा । भवाभवेसू ति । भवाभवे कम्मभवे पुनब्भवे कामभवे, 20
कम्मभवे कामभवे पुनब्भवे रूपभवे, कम्मभवे रूपभवे पुनब्भवे
अरूपभवे, कम्मभवे अरूपभवे पुनब्भवे पुनप्पुनब्भवे, पुनप्पुनगतिया
पुनप्पुनउपपत्तिया पुनप्पुनपटिसन्धिया पुनप्पुनअत्तभावाभिनिब्बत्तिया,
अवीततण्हा' अविगततण्हा अचत्ततण्हा' अवन्ततण्हा । अमुत्ततण्हा
अप्पहीनतण्हा' अप्पटिनिस्सट्ठतण्हा ति - अवीततण्हासे भवाभवेसु । 25
तेनाह भगवा -

“पस्सामि लोके परिफन्दमानं,
पजं इमं तण्हगतं भवेसु ।

१. तण्हायापन्नं - स्या०; तण्हापन्नं - सी० । २. मच्चूपागता - सी० । ३. अवीततण्हा-
सेति - स्या० । ४. अचत्त० - स्या० । ५. अप्पहीणतण्हा - सी० ।

हीना नरा मच्चुमुखे लपन्ति,
अवीततण्हासे भवाभवेसू" ति ॥

१२. ममायिते पस्सथ फन्दमाने,
मच्छे' व' अप्पोदके खीणसोते ।
एतं पि दिस्वा अममो चरेय्य,
भवेसु आसत्तिमकुब्बमानो ॥

ममायिते पस्सथ फन्दमाने ति । ममत्ता ति । द्वे ममत्ता -
तण्हाममत्त च दिट्ठिममत्तं च । कतम तण्हाममत्तं ? यावता तण्हा-
सङ्घातेन सीमकत मरियादिकत ओधिकत परियन्तकत' परिगहित
10 ममायितं । इद मम, एत मम, एत्तकं मम, एत्तावता मम, मम
रूपा सदा गन्धा रसा फोट्ठवा, अत्थरणा पावुरणा दासिदासा
अजेळका कुक्कुटसूकरा हत्थिगवास्सवळवा खेत वत्थु हिरञ्ज
सुवण्णं गामनिगमराजधानियो रट्ट च' जनपदो च' कोसो च
कोट्टागार च, केवल पि महापथवि तण्हावसेन ममायति । यावता
15 अट्टसत तण्हाविचरितं, इद तण्हाममत्त ।

R. 50

कतम दिट्ठिममत्त ? वीसत्तिवत्थुका सक्कायदिट्ठि, दसवत्थुका
मिच्छादिट्ठि, दसवत्थुका अन्तग्गाहिका दिट्ठि, या एवरूपा दिट्ठि
दिट्ठिगतं दिट्ठिगहन दिट्ठिकन्तारो दिट्ठिविसूकायिक दिट्ठिविप्फन्दिक'
दिट्ठिसञ्जो जन गाहो पटिग्गाहो अभिनिवेशो परामासो कुम्मगो
20 मिच्छापथो मिच्छत्त तित्थायतन विपरियेसग्गाहो' विपरीतग्गाहो
विपल्लासग्गाहो मिच्छागाहो "अयाथावकस्मिं याथावक" ति गाहो ।
यावता द्वासट्ठि दिट्ठिगतानि, इद दिट्ठिममत्त । ममायिते पस्सथ
फन्दमाने ति । ममायित वत्थु अच्छेदसकिनो पि फन्दन्ति, अच्छि-
न्दन्ते पि फन्दन्ति, अच्छिन्ने पि फन्दन्ति, ममायित वत्थु विपरि-
25 णामसकिनो पि फन्दन्ति, विपरिणामन्ते पि फन्दन्ति, विपरिणते
पि फन्दन्ति पफन्दन्ति' सम्फन्दन्ति विप्फन्दन्ति वेधन्ति' पवेधन्ति
सम्पवेधन्ति । एव फन्दमाने पफन्दमाने' सम्फन्दमाने विप्फन्दमाने

१-१ मच्छोव-सी० । २ परियन्तिकत-स्या० । ३ सी० पोत्थके नत्थि । ४ दिट्ठि-
विप्फन्दित-सी०, स्या० । ५ विपरियेसग्गाहो-सी०, एवमुपरि पि । ६ सी०, स्या०
पोत्थकेसु नत्थि । ७ वेधेन्ति-स्या०, एवमुपरि पि ।

वेधमाने पवेधमाने सम्पवेधमाने पस्सथ दक्खथ ओलोकेथ निजभा-
यथ' उपपरिक्खथा ति - ममायिते पस्सथ फन्दमाने ।

B. 38

मच्छे व अप्पोदके खीणसोते ति । यथा मच्छा अप्पोदके
परित्तोदके उदकपरियादाने काकेहि वा कुललेहि वा बलाकाहि'
वा परिपातियमाना' उक्खिपियमाना खज्जमाना फन्दन्ति पफन्दन्ति 5
सम्फन्दन्ति विप्फन्दन्ति वेधन्ति पवेधन्ति सम्पवेधन्ति; एवमेव
पजा ममायितं वत्थुं अच्छेदसंकिनो पि फन्दन्ति, अच्छिन्दन्ते' पि
फन्दन्ति, अच्छिन्ने पि फन्दन्ति, ममायितं वत्थुं विपरिणामसंकिनो
पि फन्दन्ति, विपरिणामन्ते पि फन्दन्ति, विपरिणते पि फन्दन्ति
पफन्दन्ति सम्फन्दन्ति विप्फन्दन्ति वेधन्ति पवेधन्ति सम्पवेधन्ती 10
ति - मच्छे व अप्पोदके खीणसोते ।

एतं पि दिस्वा अममो चरेय्या ति । एतं आदीनवं दिस्वा
परिस्त्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा ममत्तेसू
ति - एतं पि दिस्वा । अममो चरेय्या ति । ममत्ता ति । द्वे ममत्ता -
तण्हाममत्तं च दिट्ठिममत्तं च ...पे० .. इदं तण्हाममत्तं ...पे०... इदं 15
दिट्ठिममत्तं । तण्हाममत्तं पहाय दिट्ठिममत्तं पटिनिस्सज्जित्वा चवखुं
अममायन्तो सोतं अममायन्तो घानं अममायन्तो जिह्वं अममायन्तो कायं
अममायन्तो मनं अममायन्तो रूपे ... सहे ... गन्धे ... रसे ... फोटुब्बे ...
धम्मे' ... कुलं .. गण .. आवासं ... लाभं ... यसं ... पसंसं ... सुखं ...
चीवर ... पिण्डपातं .. सेनासनं ... गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारं ... 20
कामघातुं ... रूपघातुं ... अरूपघातुं ... कामभवं ... रूपभवं ... अरूपभवं
सञ्जाभवं ... असञ्जाभवं ... नेवसञ्जानासञ्जाभवं ... एकवोकारभवं ...
चतुवोकारभवं .. पच्चवोकारभवं ... अतीतं ... अनागतं ... पच्चुप्पन्नं...
दिट्ठसुतमुत्तविञ्जातब्बे धम्मे अममायन्तो अगण्हन्तो अपरामसन्तो
अनभिनिविसन्तो चरेय्य विहरेय्य इरियेय्य वत्तेय्य पालेय्य यपेय्य 25
यापेय्या ति - एतं पि दिस्वा अममो चरेय्य ।

B. 51

भवेसु आसत्तिमकुब्बमानो ति । भवेसु ति । कामभवे रूप-
भवे अरूपभवे । आसत्ति वुच्चति तण्हा । यो रागो सारागो पे०...

१. हायथ - सी० । २. बलाकेहि - स्या० । ३. एहि वा तेहि परिपातियमाना - सी० ।
४. अच्छिन्दन्ते - सी०, स्या० । ५. स्या० पोत्यके नत्ति ।

अभिज्झा लोभो अकुसलमूलं । भवेसु आसत्तिमकुब्बमानो ति ।
भवेसु आसत्तिं अकुब्बमानो, छन्दं पेमं रागं खन्तिं अकुब्बमानो
अजनयमानो असञ्जनयमानो अनिब्बत्तयमानो अनभिनिब्बत्तयमानो
ति - भवेसु आसत्तिमकुब्बमानो । तेनाह भगवा -

B. 39 5

“ममायिते पस्सथ फन्दमाने,
मच्छे व अप्पोदके खीणसोते ।
एतं पि दिस्वा अममो चरेय्य,
भवेसु आसत्तिमकुब्बमानो” ति ॥

10

१३. उभोसु अन्तेसु विनेय्य छन्दं,
फस्सं परिञ्जाय अनानुगिद्धो ।
यदत्तगरही तदकुब्बमानो,
न लिम्पती दिट्ठसुतेसु धीरो ॥

R. 52

उभोसु अन्तेसु विनेय्य छन्दं ति । अन्ता ति । फस्सो एको
अन्तो फस्ससमुदयो दुतियो अन्तो, अतीतो एको अन्तो अनागतो
15 दुतियो अन्तो, सुखा वेदना एको अन्तो दुक्खा वेदना दुतियो
अन्तो, नामं एको अन्तो रूपं दुतियो अन्तो, छ अज्झत्तिकानि
आयतनानि एको अन्तो छ बाहिरानि आयतनानि दुतियो अन्तो,
सक्कायो एको अन्तो सक्कायसमुदयो दुतियो अन्तो । छन्दो ति ।
यो कामेसु कामच्छन्दो कामरागो कामनन्दी कामतण्हा कामस्नेहो
20 कामपरिळाहो काममुच्छा कामज्झोसानं कामोघो कामयोगो
कामुपादानं कामच्छन्दनीवरणं । उभोसु अन्तेसु विनेय्य छन्दं ति ।
उभोसु अन्तेसु छन्दं विनेय्य पटिविनेय्य पजहेय्य विनोदेय्य व्यन्तिं
करेय्य अनभावं गमेय्या ति - उभोसु अन्तेसु विनेय्य छन्द ।

फस्सं परिञ्जाय अनानुगिद्धो ति । फस्सो ति । चक्खु-
25 सम्फस्सो सोतसम्फस्सो धानसम्फस्सो जिह्वासम्फस्सो कायसम्फस्सो
मनोसम्फस्सो, अधिवचनसम्फस्सो, पटिघसम्फस्सो, सुखवेदनीयो
सम्फस्सो दुक्खवेदनीयो सम्फस्सो अदुक्खमसुखवेदनीयो सम्फस्सो,
कुसलो फस्सो अकुसलो फस्सो अब्बाकतो फस्सो, कामावचरो
फस्सो रूपावचरो फस्सो अरूपावचरो फस्सो, सुञ्जतो फस्सो
30 अनिमित्तो फस्सो अप्पणिहितो फस्सो, लोकियो फस्सो लोकुत्तरो

फस्सो, अतीतो फस्सो अनागतो फस्सो पञ्चुप्पन्नो फस्सो, यो एवरूपो फस्सो फूसना सम्फूसना सम्फूसितत्तं - अयं वुच्चति फस्सो ।

B. 40

फस्सं परिञ्जाया ति । फस्सं तीहि परिञ्जाहि परिजानित्वा - वातपरिञ्जाय, तीरणपरिञ्जाय, पहानपरिञ्जाय । कतमा वात-
परिञ्जा ? फस्सं जानाति - अयं चक्खुसम्फस्सो, अयं सोतसम्फस्सो, अयं
घानसम्फस्सो, अयं जिह्वासम्फस्सो, अयं कायसम्फस्सो, अयं मनोसम्फस्सो,
अयं अधिवचनसम्फस्सो, अयं पटिघसम्फस्सो, अयं सुखवेदनीयो फस्सो,
अयं दुक्खवेदनीयो फस्सो, अयं अदुक्खमसुखवेदनीयो फस्सो, अयं कुसलो
फस्सो, अयं अकुसलो फस्सो, अयं अब्याकतो फस्सो, अयं कामावचरो
फस्सो, अयं रूपावचरो फस्सो, अयं अरूपावचरो फस्सो, अयं सुञ्जतो
फस्सो, अयं अनिमित्तो फस्सो, अयं अप्पणिहितो फस्सो, अयं लोकियो
फस्सो, अयं लोकुत्तरो फस्सो, अयं अतीतो फस्सो, अयं अनागतो फस्सो,
अयं पञ्चुप्पन्नो फस्सो ति जानाति पस्सति - अयं वातपरिञ्जा ।

10 B. 58

कतमा तीरणपरिञ्जा ? एवं वातं कत्वा फस्सं तीरेति । अनि-
च्चतो दुक्खतो रोगतो गण्डतो सल्लतो अघतो आबाधतो परतो पलोकतो
ईतितो उपह्वतो भयतो उपसग्गतो चलतो पभङ्गुतो अधुवतो
अताणतो अलेणतो असरणतो रिक्ततो तुच्छतो सुञ्जतो अनत्ततो
आदीनवतो विपरिणामधम्मतो असारकतो अघमूलतो वधकतो
विभवतो सासवतो सङ्गततो माराभिसतो जातिजरआधिमरणधम्मतो
सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासधम्मतो संकिलेसधम्मतो समुदयतो
अत्यङ्गमतो अस्सादतो आदीनवतो निस्सरणतो तीरेति - अयं
तीरणपरिञ्जा ।

15

20

कतमा पहानपरिञ्जा ? एवं तीरयित्वा फस्से छन्दरागं पजहति
विनोदेति व्यन्ति करोति अनभावं गमेति । वुत्तं हेतं भगवता - "यो,
भिक्षवे, फस्सेसु छन्दरागो तं पजहथ । एवं सो फस्सो पहीनो भविस्सति
उच्छिन्नमूलो तालावत्थुकतो अनभावंकतो आयति अनुप्पादधम्मो" ति -
अयं पहानपरिञ्जा । फस्सं परिञ्जाया ति । फस्सं इमाहि तीहि परि-
ञ्जाहि परिजानित्वा । अनानुगिद्धो ति । गेधो वुच्चति तप्पहा । यो
रागो सारागो ...पे०... अभिञ्जा लोभो अकुसलमूलं । यस्सेसो गेधो

25

B. 41

१. तिरण० - स्या० । २. तिरिति - स्या०; एवमुपरि पि । ३. गतो - सी०, स्या० ।

- पहीनो समुच्छिन्नो वूपसन्तो पटिपस्सद्धो अभब्बुप्पत्तिको ाणग्गिना दङ्को, सो वुच्चति अगिद्धो । सो रूपे अगिद्धो सद्दे अगिद्धो गन्धे अगिद्धो रसे अगिद्धो फोटुब्बे अगिद्धो कुले .. गणे ... आवासे . लाभे . यसे ... पसंसाय .. सुखे चीवरे पिण्डपाते .. सेनासने ... गिला-
 6. पच्चयभेसज्जपरिक्खारे .. कामधातुया .. रूपधातुया .. अरूपधातुया .. कामभवे ... रूपभवे . अरूपभवे . सञ्जाभवे . असञ्जाभवे ... नेवसञ्जानासञ्जाभवे . एकवोकारभवे . चतुवोकारभवे . पच्च-
 वोकारभवे ... अतीते ... अनागते .. पच्चुप्पन्ने . दिट्ठसुतमुतविञ्जातब्बेसु धम्मसेसु अगिद्धो अगधितो अमुच्छित्तो अनज्झापन्नो' वीतगेधो
 10 विगतगेधो चत्तगेधो वन्तगेधो मुत्तगेधो पहीनगेधो पटिनिस्सट्ठगेधो वीतरागो विगतरागो चत्तरागो वन्तरागो मुत्तरागो पहीनरागो पटिनिस्सट्ठरागो निच्छातो निब्बुतो सीतिभूतो सुखपटिसंवेदी ब्रह्मभूतेन अत्तना विहरती ति - फस्सं परिञ्जाय अनानुगिद्धो ।

यदत्तगरही तदकुब्बमानो ति । यदं ति । यं । अत्तगरही' ति' ।

- 15 द्वीहि कारणेहि अत्तानं गरहति - कतत्ता च अकतत्ता च । कथं कतत्ता च अकतत्ता च अत्तानं गरहति ? कतं मे कायदुच्चरितं, अकतं मे काय-
 सुचरितं ति - अत्तानं गरहति । कतं मे वचीदुच्चरितं, अकतं मे वची-
 सुचरितं ति - अत्तानं गरहति । कतं मे मनोदुच्चरितं, अकतं मे मनो-
 सुचरितं ति - अत्तानं गरहति । कतो मे पाणातिपातो, अकता मे पाणा-
 20 तिपाता वेरमणी ति - अत्तानं गरहति । कतं मे अदिग्घादानं, अकता मे अदिग्घादाना वेरमणी ति - अत्तानं गरहति । कतो मे कामेसु मिच्छा-
 चारो, अकता मे कामेसु मिच्छाचारा वेरमणी ति - अत्तानं गरहति ।
 कतो मे मुसावादो, अकता मे मुसावादा वेरमणी ति - अत्तानं गरहति ।
 कता मे पिसुणा वाचा, अकता मे पिसुणाय वाचाय वेरमणी ति - अत्तानं
 25 गरहति । कता मे फरसा वाचा, अकता मे फरसाय वाचाय वेरमणी
 ति - अत्तानं गरहति । कतो मे सम्फप्पलापो, अकता मे सम्फप्पलापा
 वेरमणी ति - अत्तानं गरहति । कता मे अभिज्झा, अकता मे अन-
 भिज्झा ति - अत्तानं गरहति । कतो मे ब्यापादो, अकतो मे अब्यापादो
 ति - अत्तानं गरहति । कता मे मिच्छादिट्ठि, अकता मे सम्मादिट्ठी

ति - अत्तानं गरहति । एवं कतत्ता च अकतत्ता च अत्तानं गरहति ।
 अथ वा, सीलेसुम्हि न परिपूरकारी ति - अत्तानं गरहति । इन्द्रियेसुम्हि
 अगुत्तद्वारो ति - अत्तानं गरहति । भोजनेम्हि^१ अमत्तञ्चू ति^२ -
 अत्तानं गरहति । जागरियं अननुयुत्तो ति - अत्तानं गरहति । सति-
 सम्पजञ्जेन असमन्नागतो^३ ति^४ - अत्तानं गरहति । अभाविता मे चत्तारो^५
 सतिपट्टाना ति - अत्तानं गरहति । अभाविता मे चत्तारो सम्मप्यधाना
 ति - अत्तानं गरहति । अभाविता मे चत्तारो इद्धिपादा ति - अत्तानं
 गरहति । अभावितानि मे पञ्चिन्द्रियानी ति - अत्तानं गरहति । अभा-
 वितानि मे पञ्चबलानी ति - अत्तानं गरहति । अभाविता मे सत्त
 बोक्कञ्जा ति - अत्तानं गरहति । अभावितो मे अरियो अट्टुङ्गको मग्गो^६
 ति - अत्तानं गरहति । दुक्खं मे अपरिञ्जात ति - अत्तानं गरहति ।
 समुदयो मे अप्पहीनो ति - अत्तानं गरहति । मग्गो मे अभावितो ति -
 अत्तानं गरहति । निरोधो मे असञ्चिकतो ति - अत्तानं गरहति । एवं
 कतत्ता च अकतत्ता च अत्तानं गरहति । एव अत्तगरहितं^७ कम्म अकुब्ब-
 मानो अजनयमानो असञ्जनयमानो अनिब्बत्तयमानो अनभिनिब्बत्तय-^८
 मानो ति - यदत्तगरही तदकुब्बमानो । न लिम्पती दिट्ठसुत्तेसु धीरो ति ।
 लेपो^९ ति । द्वे लेपा - तण्हालेपो च दिट्ठिलेपो च ...पे०.. अयं तण्हालेपो
 पे०.. अयं दिट्ठिलेपो । धीरो ति । पण्डितो पञ्जवा बुद्धिमा आणी
 विभावी मेधावी । धीरो तण्हालेपं पहाय दिट्ठिलेपं पटिनिस्सज्जित्वा
 दिट्ठे न लिम्पति सुत्ते न लिम्पति मूत्ते न लिम्पति विञ्जाते न लिम्पति^{१०}
 न पलिम्पति^{११} न उपलिम्पति । अलित्तो अपलित्तो^{१२} अनुपलित्तो निक्खन्तो
 निस्सटो^{१३} विप्पमुत्तो विसञ्चुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरती ति -
 न लिम्पती दिट्ठसुत्तेसु धीरो ति । तेनाह भगवा -

“उभोसु अन्तेसु विनेय्य छन्द,
 फस्सं परिञ्जाय अनानुगिद्धो ।
 यदत्तगरही तदकुब्बमानो,
 न लिम्पती दिट्ठसुत्तेसु धीरो” ति ॥

25

१-१ भोजने अमत्तञ्चुम्ही ति - स्या० । २-२ समन्नागतोम्ही ति - स्या० । ३ अत्त-
 गरहित्क - सी० ; अत्तगरहित्य - स्या० । ४ लेपा - स्या० । ५ सलिम्पति - स्या० । ६ अस-
 लित्तो - स्या० । ७ निस्सटो - स्या० ।

B. 48,
R. 58

१४. सञ्जं परिञ्जा वितरेय्य ओघं,
परिगहेसु मुनि नोपलित्तो ।
अब्बूळहसल्लो चरमप्पमत्तो,
नासीसती' लोकमिमं परं च ॥

5 सञ्जं परिञ्जा वितरेय्य ओघं ति । सञ्जा ति । कामसञ्जा
व्यापादसञ्जा विहिंसासञ्जा नेक्खम्मसञ्जा अब्यापादसञ्जा अविहिंसा-
सञ्जा रूपसञ्जा सहसञ्जा गन्धसञ्जा रससञ्जा फोटुब्बसञ्जा धम्म-
सञ्जा - या एवरूपा सञ्जा सञ्जनना' सञ्जानितत्तं - अयं वुच्चति
सञ्जा । सञ्जं परिञ्जा ति । सञ्जं तीहि परिञ्जाहि परिजानित्वा -
10 वातपरिञ्जाय, तीरणपरिञ्जाय, पहानपरिञ्जाय । कतमा वात-
परिञ्जा ? सञ्जं जानाति - अयं कामसञ्जा, अयं व्यापादसञ्जा,
अयं विहिंसासञ्जा, अयं नेक्खम्मसञ्जा, अयं अब्यापादसञ्जा, अयं
अविहिंसासञ्जा, अयं रूपसञ्जा, अयं सहसञ्जा, अयं गन्धसञ्जा,
अयं रससञ्जा, अयं फोटुब्बसञ्जा, अयं धम्मसञ्जा ति जानाति
15 पस्सति - अयं वातपरिञ्जा ।

कतमा तीरणपरिञ्जा ? एवं वातं कत्वा सञ्जं तीरेति । अनि-
च्चतो दुक्खतो रोगतो गण्डतो सल्लतो अघतो आबाघतो परतो पलोकतो
ईतितो उपह्वतो भयतो उपसग्गतो चलतो पभङ्गुतो पे० समुदयतो
अत्यङ्गमतो अस्सादतो आदीनवतो निस्सरणतो तीरेति - अयं तीरण-
20 परिञ्जा ।

कतमा पहानपरिञ्जा* ? एवं तीरयित्वा' सञ्जाय छन्दरागं
पजहति विनोदेति* अनभाव गमेति । वुत्त पि हेत भगवता - "यो,
भिवक्खवे, सञ्जाय छन्दरागो त पजहथ । एव सा सञ्जा पहीना भवि-
स्सति उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावंकता आयति अनुप्पाद-
25 धम्मा" ति - अयं पहानपरिञ्जा । सञ्जं परिञ्जा ति । सञ्जं इमाहि
तीहि परिञ्जाहि परिजानित्वा । वितरेय्य ओघं ति । कामोघं भवोघं
दिट्ठोघं अविज्जोघं तरेय्य उत्तरेय्य पतरेय्य समतिक्कमेय्य वीतिवत्तेय्या
ति - सञ्जं परिञ्जा वितरेय्य ओघं ।

R. 57

१ नासिसती - सी०, स्या०, रो० । २ सञ्जानना - सी०, स्या० । * एव वात
कत्वा इति सी० पोत्यके अधिको पाठो विस्सति । ३ तिरित्वा - स्या० । * व्यन्ती करोती
ति अधिको पाठो सी०, स्या० पोत्यकेषु विस्सति ।

परिग्गहेत्सु मुनि नोपलित्तो ति । परिग्गहा ति । द्वे परिग्गहा —
 तण्हापरिग्गहो च दिट्ठिपरिग्गहो च ... पे०... अयं तण्हापरिग्गहो ... पे०...
 अयं दिट्ठिपरिग्गहो । मुनी ति । मोनं वुच्चति ञाणं । या पञ्जा पजानना
 ... पे०... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिट्ठि, तेन ञाणेन समन्नागतो मुनि
 मोनप्पत्तो ति । तीणि मोनेय्यानि — कायमोनेय्यं, वचीमोनेय्यं, मनो- 5
 मोनेय्यं । कतमं कायमोनेय्यं ? तिविधकायदुच्चरितानं पहानं काय-
 मोनेय्यं, तिविधं कायसुचरितं कायमोनेय्यं, कायारम्भणे ञाणं कायमोनेय्यं,
 कायपरिञ्जा कायमोनेय्यं, परिञ्जासहगतो मग्गो कायमोनेय्यं, काये
 छन्दरागस्स पहानं कायमोनेय्यं, कायसङ्खारनिरोधो चतुत्थज्झानसमा-
 पत्ति कायमोनेय्यं — इदं कायमोनेय्यं । कतमं वचीमोनेय्यं ? चतुब्बिध- 10
 वचीदुच्चरितानं पहानं वचीमोनेय्यं, चतुब्बिधं वचीसुचरितं वचीमोनेय्यं,
 वाचारम्भणे ञाणं वचीमोनेय्यं, वाचापरिञ्जा वचीमोनेय्यं, परिञ्जा-
 सहगतो मग्गो वचीमोनेय्यं, वाचाय छन्दरागस्स पहानं वचीमोनेय्यं,
 वचीसङ्खारनिरोधो द्रुतियज्झानसमापत्ति वचीमोनेय्यं — इदं वचीमोनेय्यं ।
 कतमं मनोमोनेय्यं ? तिविधमनोदुच्चरितानं पहानं मनोमोनेय्यं, तिविधं 15
 मनोसुचरितं मनोमोनेय्यं, चित्तरम्भणे ञाणं मनोमोनेय्यं, चित्तपरिञ्जा
 मनोमोनेय्यं, परिञ्जासहगतो मग्गो मनोमोनेय्यं, चित्ते छन्दरागस्स पहानं
 मनोमोनेय्यं, चित्तसङ्खारनिरोधो सञ्जावेदयितनिरोधं मनोमोनेय्यं —
 इदं मनोमोनेय्यं ।

B. 44

5

10

15

B. 58

कायमुनिं वाचामुनिं, मनोमुनिमनासवं ।

20

मुनिं मोनेय्यसम्पन्नं, आहु सव्वप्पहायिनं ॥

कायमुनिं वाचामुनिं, मनोमुनिमनासवं ।

मुनिं मोनेय्यसम्पन्नं, आहु निन्हातपापकं ति ॥

इमेहि तीहि मोनेय्येहि धम्मोहि समन्नागता छ मुनिनो' — अगार-
 मुनिनो, अनगारमुनिनो, सेखमुनिनो, असेखमुनिनो, पच्चेकमुनिनो, 25
 मुनिमुनिनो ति । कतमे अगारमुनिनो ? ये ते अगारिका दिट्ठपदा
 विञ्जातसासना — इमे अगारमुनिनो । कतमे अनगारमुनिनो ? ये ते
 पव्वजिता दिट्ठपदा विञ्जातसासना — इमे अनगारमुनिनो । सत्त सेखा

१. सञ्जावेदयितनिरोधसमापत्ति — रो० । २. मुनयो — स्या० ; एवमुपरि ति ।

सेखमुनिनो । अरहन्तो असेखमुनिनो । पच्चेकबुद्धा पच्चेकमुनिनो ।
मुनिमुनिनो वुच्चन्ति तथागता अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा ।

B. 45

न मोनेन मुनि होति, मूळहरूपो अविद्दसु ।
यो च तुलं व पग्गह्, वरमादाय पण्डितो ॥

5

पापानि परिवज्जेति, स मुनि तेन सो मुनि ।
यो मुनाति उभो लोके, मुनि तेन पवुच्चति ॥

असतं च सतं च अत्वा धम्मं,
अञ्जत्तं बहिद्धा च सब्बलोके ।

देवमनुस्सेहि पूजितो यो',

10

सङ्गजालमत्तिच्च सो मुनी ति ॥

लेपा ति । द्वे लेपा - तण्हालेपो च दिट्ठिलेपो च...पे० .अथ
तण्हालेपो .पे०...अयं दिट्ठिलेपो । मुनि तण्हालेप पहाय दिट्ठिलेप पटि-
निस्सज्जित्वा परिग्गहेसु न लिम्पति न पलिम्पति न उपलिम्पति ।
अलित्तो अपलित्तो अनुपलित्तो निक्खन्तो निस्सट्ठो विप्पमुत्तो विसञ्जुत्तो
15 विमरियादिकतेन चेतसा विहरती ति - परिग्गहेसु मुनि नोपलित्तो ।

R. 59

अब्बूळहसल्लो चरमप्पमत्तो ति । सल्लं ति । सत्त सल्लानि -
रागसल्ल, दोससल्लं, मोहसल्ल, मानसल्लं, दिट्ठिसल्ल, सोकसल्लं, कथ-
कथासल्ल' । यस्सेते' सल्ला पहीना समुच्छिन्ना वूपसन्ता पटिपस्सद्धा'
अभब्बुप्पत्तिका आणग्गिना दड्ढा, सो वुच्चति अब्बूळहसल्लो अब्बहित-
20 सल्लो उद्धत्तसल्लो' समुद्धत्तसल्लो उप्पाटितसल्लो समुप्पाटितसल्लो
चत्तसल्लो वन्तसल्लो मुत्तसल्लो पहीनसल्लो पटिनिस्सट्ठसल्लो
निच्छातो निब्बुतो सीतिभूतो सुखपटिसवेदी ब्रह्मभूतेन अत्तना विहरती
ति - अब्बूळहसल्लो ।

चरं ति । चरन्तो विहरन्तो इरियन्तो वत्तन्तो' पालेन्तो यपेन्तो
25 यापेन्तो । अप्पमत्तो ति । सक्कच्चकारी सातच्चकारी अट्ठितकारी अनो-
लीनवृत्तिको अनिक्खत्तच्छन्दो अनिक्खत्तधुरो कुसलेसु धम्मेषु ।

१ यो सो - स्या० । २ वुच्चरित्तसल्ल - सी० । ३ यस्सेतानि - स्या०, एवमुपरि
पि । ४ पटिप्पस्सद्धा - सी०, पटिप्पस्सद्धानि - स्या० । ५ उद्धत्तसल्लो - स्या०, एवमुपरि
पि । ६ वत्तेन्तो - स्या० ।

“कथाहं अपरिपूरं वा सीलकखन्धं परिपूरेयं, परिपूरं वा सीलकखन्धं तत्थ तत्थ पञ्जाय अनुग्गण्हेयं” ति यो तत्थ छन्दो च वायामो च उस्साहो च उस्सोळ्ही च अप्पटिवानि च सति च सम्पजञ्जं च आतप्पं पधानं अधि-
 ट्टानं अनुयोगो अप्पमादो कुसलेसु धम्मसे। “कथाहं अपरिपूरं वा समा-
 धिकखन्धं परिपूरेयं, परिपूरं वा समाधिकखन्धं तत्थ तत्थ पञ्जाय अनु- 5 B. 46
 ग्गण्हेयं” ति... पे०... कुसलेसु धम्मसे। “कथाहं अपरिपूरं वा पञ्जाकखन्धं 5 B. 60
 परिपूरेयं’... विमुत्तिकखन्धं ... विमुत्तिजाणदस्सनकखन्धं परिपूरेयं,
 परिपूरं वा विमुत्तिजाणदस्सनकखन्धं’ तत्थ तत्थ पञ्जाय अनुग्गण्हेयं’
 ति यो तत्थ छन्दो च वायामो च उस्साहो च उस्सोळ्ही’ च अप्पटिवानि च
 सति च सम्पजञ्जं च आतप्पं पधानं अधिट्टानं अनुयोगो अप्पमादो कुस- 10
 लेसु धम्मसे। “कथाहं अपरिञ्जातं वा दुक्खं परिजानेयं, अप्पहीने वा
 किलेसे पज्जेयं, अभावितं वा मगं भावेयं, असञ्चिकतं वा निरोधं
 सञ्चिकरेयं” ति यो तत्थ छन्दो च वायामो च उस्साहो च उस्सोळ्ही च
 अप्पटिवानि’ च सति च सम्पजञ्जं च आतप्पं पधानं अधिट्टानं अनुयोगो
 अप्पमादो कुसलेसु धम्मसे ति - अब्बूळ्हसल्लो चरमप्पमत्तो। 15

नासीसती लोकमिमं परं चा ति। इमं लोकं नासीसति सकत्त-
 भावं, परलोकं नासीसति परत्तभावं। इमं लोकं नासीसति सकरूपवेदना-
 सञ्जासङ्खारविञ्जाणं, परं लोकं नासीसति पररूपवेदनासञ्जासङ्खार-
 विञ्जाणं। इमं लोकं नासीसति छ अज्झत्तिकानि आयतनानि, परं लोकं
 नासीसति छ बाहिरानि आयतनानि। इमं लोकं नासीसति मनुस्सलोकं, 20
 परं लोकं नासीसति देवलोकं। इमं लोकं नासीसति कामघातुं, परं लोकं
 नासीसति रूपघातुं अरूपघातुं। इमं लोकं नासीसति कामघातुं रूपघातुं,
 परं लोकं नासीसति अरूपघातुं। पुनर्गतिं वा उपपत्तिं वा पटिसन्धिं वा
 भवं वा संसारं वा वट्ठं वा नासीसति न इच्छति न सादियति न पत्थेति न
 पिहेति नातिजप्पती’ ति - नासीसती लोकमिमं परं चा ति। तेनाह 25
 भगवा -

“सञ्जं परिञ्जा वितरेय्य ओघं,
 परिग्गहेसु मुनि नोपलित्तो।

B. 61

१. स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि। २-२. सी० पोत्यके न विस्सति। ३. उस्सोळ्ही
 सी०। ४. अप्पटिवानी - स्या०। ५-५. नाभिजप्पतीति - सी०, स्या०।

अब्बूळहसल्लो चरमप्पमत्तो,
नासीसती लोकमिमं परं चा' ति ॥

गुहट्टकमुत्तनिद्देशो वुत्तियो ।

३. वुट्टकमुत्तनिद्देशो

अथ वुट्टकमुत्तनिद्देशं वक्खति -

B. 47,
R. 62

5

१५. वदन्ति वे वुट्टमना पि एके,
अथो' पि वे' सच्चमना वदन्ति ।
वादं च जातं मुनि नो उपेति,
तस्मा मुनी नत्थि खिलो' कुहिञ्चि ॥

वदन्ति वे वुट्टमना पि एके ति । ते' तित्थिया वुट्टमना
विरुद्धमना पटिविरुद्धमना आहतमना पच्चाहतमना आघातितमना
10 पच्चाघातितमना वदन्ति उपवदन्ति भगवन्तं च भिक्खुसङ्घं च
अभूतेना ति - वदन्ति वे वुट्टमना पि एके ।

अथो पि वे सच्चमना वदन्ती ति । ये तेसं तित्थियानं सद्दहन्ता
ओकप्पेन्ता अधिमुच्चन्ता सच्चमना सच्चसञ्चिनो भूतमना भूत-
सञ्चिनो तथमना तथसञ्चिनो याथावमना याथावसञ्चिनो अविप-
15 रीतमना अविपरीतसञ्चिनो वदन्ति उपवदन्ति भगवन्तं च भिक्खुसङ्घं
च अभूतेना ति - अथो पि वे सच्चमना वदन्ति ।

वादं च जातं मुनि नो उपेती ति । सो वादो जातो होति
सञ्जातो निव्वत्तो अभिनिव्वत्तो पातुभूतो परतो घोसो अक्कोसो उप-
वादो भगवतो च भिक्खुसङ्घस्स च अभूतेना ति - वादं च जातं । मुनि
20 नो उपेती ति । मुनी ति । मोनं वुच्चति आणं । या पञ्जा पजानना
अमोहो धम्मविचयो सम्मादिट्ठि, तेन आणेन समन्नागतो मुनि मोनप्पत्तो
.. पे० .. सङ्गजालमत्तिच्च सो मुनि । यो वादं उपेति सो द्वीहि कारणेहि
वादं उपेति - कारको कारकताय वादं उपेति, अथ वा वुच्चमानो उप-
वदियमानो कुप्पति व्यापज्जति पतिट्ठियति कोपं च दोसं च अप्पच्चय
25 च पातुकरोति । अकारकोम्ही ति यो वादं उपेति सो इमेहि द्वीहि

B. 63

कारणेहि वादं उपेति । मुनि द्वीहि कारणेहि वादं न उपेति — अकारको मुनि^१ अकारकताय वादं न उपेति, अथ वा वुच्चमानो उपवदियमानो न कुप्पति न ब्यापज्जति न पतिट्ठियति न कोपं च दोसं च अप्यच्चयं च पातुकरोति । अकारकोम्ही ति मुनि इमेहि द्वीहि कारणेहि वादं न उपेति न उपगच्छति न गण्हाति न परामसति न अभिनिविसती ति — वादं च जातं मुनि नो उपेति ।

B. 48

तस्मा मुनी नत्थि खिलो कुहिञ्ची ति । तस्मा ति । तस्मा तंकारणा तंहेतु तप्पच्चया तंनिदानं^२ मुनिनो आहृतचित्तता खिलजातता पि नत्थि । पञ्च पि चेतोखिला नत्थि, तथो पि खिला नत्थि । राग-खिलो दोसखिलो मोहखिलो नत्थि न^३ सन्ति^३ न संविज्जति नुपलब्धति, पहीनो समुच्छिन्नो वूपसन्तो पटिपस्सद्धो अभब्बुप्पत्तिको वाणगिगना दद्धो । कुहिञ्ची ति । कुहिञ्चि किम्हिञ्चि कत्थञ्चि अज्झत्तं वा बहिद्धा वा अज्झत्तबहिद्धा वा ति — तस्मा मुनी नत्थि खिलो कुहिञ्ची ति । तेनाह भगवा —

“वदन्ति वे दुद्धमना पि एके,
अथो पि वे सच्चमना वदन्ति ।
वादं च जातं मुनि नो उपेति,
तस्मा मुनी नत्थि खिलो कुहिञ्ची” ति ॥

15

१६. सकञ्चि दिट्ठिं कथमच्चयेय्य,
छन्दानुनीतो रुचिया निविट्ठो ।
सयं समत्तानि पकुब्बमानो,
यथा हि जानेय्य तथा वदेय्य ॥

20

सकञ्चि दिट्ठिं कथमच्चयेय्या ति । यं ते तित्थिया सुन्दरिपरि-
ब्बाजिकं हन्त्वा समणानं सक्यपुत्तियानं अवण्णं पकासयित्वा “एवं एतं
लाभं यससककारं सम्मानं पच्चाहरिस्सामा” ति ते एवंदिट्ठिका एवं-
खन्तिका एवंरुचिका एवंलद्धिका एवंअज्झासया एवंअधिप्पाया, ते नास-
क्खिसु सकं दिट्ठिं सकं खन्ति सकं रुचिं सकं लद्धिं सकं अज्झासयं सकं
अधिप्पायं अतिक्कमित्तुं, अथ खो स्वेव अयसो ते पच्चागतो ति, एवं

25

R. 64

१. स्या० पोत्थके नत्थि । २. तंनिदाना — स्या०; तस्मिदाना — सी० । ३-३. सी० पोत्थके नत्थि ।

- पि - सकञ्चिद्दिद्वि कथमच्चयेय्य । अय वा, “सस्सतो लोको, इदमेव सच्चं मोघमञ्ज” ति यो सो एवंवादो, सो सकं दिद्वि सकं खन्ति सकं र्चि सकं लद्धि सकं अज्झासयं सक अधिप्पायं कथं अच्चयेय्य अतिक्कमेय्य समतिक्कमेय्य वीतिवत्तेय्य ! त किस्स हेतु ? तस्स सा
- 5 दिद्वि तथा समत्ता समादिन्ना गहिता परामट्ठा अभिनिविट्ठा अज्झोसिता अधिमुत्ता ति । एवं पि - सकञ्चिद्दिद्वि कथमच्चयेय्य । “असस्सतो लोको ... अन्तवा लोको . अनन्तवा लोको ... तं जीवं तं सरीरं ... अञ्ज जीवं अञ्जं सरीरं .. होति तथागतो परं मरणा ... न होति तथागतो परं मरणा ... होति च न च होति तथागतो परं मरणा ... नेव होति न न
- 10 होति तथागतो परं मरणा, इदमेव सच्चं मोघमञ्ज” ति यो सो एवं वादो, सो सकं दिद्वि सकं खन्ति सकं र्चि सकं लद्धि सकं अज्झासय सकं अधिप्पायं कथं अच्चयेय्य अतिक्कमेय्य समतिक्कमेय्य वीतिवत्तेय्य ! तं किस्स हेतु ? तस्स सा दिद्वि तथा समत्ता समादिन्ना गहिता परामट्ठा अभिनिविट्ठा अज्झोसिता अधिमुत्ता ति । एवं पि - सकञ्चिद्दिद्वि
- 15 दिद्वि कथमच्चयेय्य ।

- छन्दानुनीतो र्चिया निविट्ठो ति । छन्दानुनीतो ति । सकाय दिद्विया सकाय खन्तिया सकाय र्चिया सकाय लद्धिया यायति निय्यति वुह्ति संहरीयति । यथा हत्थियानेन वा अस्सयानेन वा रथयानेन वा गोयानेन वा अजयानेन वा मेण्डयानेन वा ओट्टयानेन वा खरयानेन वा
- 20 यायति निय्यति वुह्ति संहरीयति, एवमेव सकाय दिद्विया सकाय खन्तिया सकाय र्चिया सकाय लद्धिया यायति निय्यति वुह्ति संहरीयती ति - छन्दानुनीतो । र्चिया निविट्ठो ति । सकाय दिद्विया सकाय र्चिया सकाय लद्धिया निविट्ठो पतिट्ठितो अल्लीनो उपगतो अज्झोसितो अधिमुत्तो ति - छन्दानुनीतो र्चिया निविट्ठो ।

- 25 सयं समत्तानि पक्कम्बमानो ति । सय समत्त करोति परिपुण्णं करोति अनोमं करोति अगं सेट्ठं विसिट्ठं पामोक्खं उत्तमं पवर करोति । “अयं सत्था सब्बञ्जू” ति सयं समत्त करोति परिपुण्णं करोति अनोमं करोति अगं सेट्ठं विसिट्ठं पामोक्ख उत्तम पवरं करोति । “अयं घम्मो स्वाक्खातो ... अयं गणो सुप्पटिपन्नो ... अयं दिद्वि भट्टिका ... अय

पटिपदा सुपञ्जत्ता ... अयं मग्गो निय्यानिको” ति सयं समत्तं करोति परिपुण्णं करोति अनोमं करोति अग्गं सेट्ठं विसिट्ठं पामोक्खं उत्तमं पवरं करोति जनेति सञ्जनेति निब्बत्तोति अभिनिब्बत्तेती ति - सयं समत्तानि पकुब्बमानो ।

यथा हि जानेय्य तथा वदेय्या ति । यथा जानेय्य, तथा वदेय्य ६
कथेय्य भणेय्य दीपयेय्य' वोहरेय्य । “सस्सतो लोको, इदमेव सच्चं मोघमञ्ज” ति यथा जानेय्य, तथा वदेय्य कथेय्य भणेय्य दीपयेय्य' वोहरेय्य । “असस्सतो लोको ...पे०... नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा, इदमेव सच्चं मोघमञ्ज” ति यथा जानेय्य, तथा वदेय्य कथेय्य भणेय्य दीपयेय्य' वोहरेय्या ति - यथा हि जानेय्य तथा वदेय्य । तेनाह 10
मगवा -

B. 60

“सकञ्चिह दिट्ठि कथमच्चयेय्य,
छन्दानुनीतो रुचिया निविट्ठो ।
सयं समत्तानि पकुब्बमानो,
यथा हि जानेय्य तथा वदेय्या” ति ॥

B 60

15

१७. यो अत्तनो सीलवतानि जन्तु,
अनानुपुट्ठो व' परेस' पाव' ।
अनरियधम्मं कुसला तमाहु,
यो आतुमानं सयमेव पाव ॥

यो अत्तनो सीलवतानि जन्तु ति । यो ति । यो यादिसो यथा- 20
युत्तो यथाविहितो यथापकारो यथानप्यत्तो यंघम्मसमन्नागतो खत्तियो वा
ब्राह्मणो वा वेस्सो वा सुट्ठो वा गहट्ठो वा पब्बजितो वा देवो वा मनुस्सो
वा । सीलवतानि ति । अत्थि सीलं चेव वतं च, अत्थि वतं न सील ।
कतमं सीलं चेव वतं च ? इच्च भिक्खु सीलवा होति, पातिमोक्खसंवर-
संबुतो विहरति आचारगोचरसम्पन्नो अणुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी, 25
समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु । यो तत्थ संयमो संवरो अवीतिककमो,
इदं सीलं । यं समादानं तं वतं । संवरट्ठेन सीलं; समादानट्ठेन वत - इदं
वुच्चति सीलं चेव वतं च । कतमं वतं, न सीलं ? अट्ठघुतङ्गानि -

१. दीपेय्य - स्या० । २. च - स्या० । ३. परेसं - सी० । ४. पावा - सी०, स्या० ।

आरञ्जिकङ्गं, पिण्डपातिकङ्गं, पंसुकूलिकङ्गं, तेचीवरिकङ्गं, सपदान-
चारिकङ्गं, खलुपच्छामतिकङ्गं, नेसज्जिकङ्गं, यथासन्थतिकङ्गं - इदं
वुच्चति वतं, न सीलं । वीरियसमादानं पि वुच्चति वतं, न सीलं ।
“कामं तचो च न्हार च अट्टि च अवसिस्सतु, सरीरे उपस्सुस्सतु मंस-
लोहित । यं तं पुरिसथामेन पुरिसवलेन पुरिसवीरियेन पुरिस-
परक्कमेन पत्तब्बं, न तं अपापुणित्वा वीरियस्स सण्ठानं भविस्सती”
ति - चित्तं पग्गण्हाति पदहति । एवरूपं वीरियसमादानं - इदं
वुच्चति वत, न सीलं ।

R. 07

B. 51

“नासिस्स न पिविस्सामि, विहारतो न निक्खमे ।
न पि पस्सं निपातेस्सं, तण्हासल्ले अनूहते” ति ॥

10

चित्तं पग्गण्हाति पदहति । एवरूपं पि वीरियसमादानं वुच्चति
वतं, न सीलं । “न तावाह इम पल्लङ्क भिन्दिस्सामि याव मे न अनुपादाय
आसवेहि चित्तं विमुच्चिस्सती” ति - चित्तं पग्गण्हाति पदहति । एवरूपं
पि वीरियसमादानं वुच्चति वतं, न सीलं । “न तावाहं इमम्हा आसना
वुट्टहिस्सामि, चङ्कमा ओरोहिस्सामि, विहारा निक्खमिस्सामि, अट्ट-
योगा निक्खमिस्सामि, पासादा निक्खमिस्सामि, हम्मिया निक्ख-
मिस्सामि, गुहाय निक्खमिस्सामि, लेणा निक्खमिस्सामि, कुटिया निक्ख-
मिस्सामि, कूटागारा निक्खमिस्सामि, अट्टा निक्खमिस्सामि, माळा
निक्खमिस्सामि, उट्टण्डा निक्खमिस्सामि उपट्टानसालाय निक्खमिस्सामि
मण्डपा निक्खमिस्सामि, रुक्खमूला निक्खमिस्सामि याव मे न अनुपा-
दाय आसवेहि चित्तं विमुच्चिस्सती” ति - चित्तं पग्गण्हाति पदहति ।
एवरूपं पि वीरियसमादानं वुच्चति वत, न सीलं । “इमस्मिञ्जेव पुब्बह-
समयं अरियधम्म आहरिस्सामि समाहरिस्सामि अधिगच्छिस्सामि
फस्सयिस्सामि सञ्चिकरिस्सामी” ति - चित्तं पग्गण्हाति पदहति ।
एवरूपं पि वीरियसमादानं वुच्चति वतं, न सीलं । “इमस्मिञ्जेव
मज्झन्हिक्कसमयं, सायन्हुसमयं, पुरेभत्तं, पच्छामत्तं, पुरिमं याम,
मज्झिम याम, पच्छिम यामं, काळे, जुण्हे, वस्ते, हेमन्ते, गिम्हे, पुरिमे
वयोखन्धे, मज्झिमे वयोखन्धे, पच्छिमे वयोखन्धे अरियधम्मं आह-
रिस्सामि समाहरिस्सामि अधिगच्छिस्सामि फस्सयिस्सामि सञ्चि-

R. 08

करिस्सामी” ति— चित्तं पगगण्हाति पदहति। एवरूपं पि वीरियसमादानं वुच्चति वतं, न सीलं। जन्तू ति। सत्तो नरो मानवो पोसो पुग्गलो जीवो जागु जन्तु इन्दगु मनुजो ति — यो अत्तनो सीलवतान्नि जन्तु।

अनानुपुट्टो व परेस पावा ति। परेसं ति। परेसं खत्तियानं ब्राह्मणानं वेस्सानं सुद्धानं गहद्धानं पब्बजितानं देवानं मनुस्सानं। अनानु- 5
पुट्टो ति। अपुट्टो अपुच्छित्तो अयाचित्तो^१ अनज्जेसितो अपसादितो। पात्रा ति। अत्तनो सीलं वा व्रतं वा सीलब्बतं वा पावदति। अहमस्मि सीलसम्पन्नो ति वा, वतसम्पन्नो ति वा, सीलब्बतसम्पन्नो ति वा जातिया वा गोत्तेन वा कोलपुत्तियेन^२ वा दण्णषोक्खरताय वा धनेन वा अज्जेनेन वा कम्मायतनेन वा सिप्पायतनेन वा विज्जाट्टानेन^३ वा सुतेन वा पटिभानेन वा अञ्जतरञ्जतरेन वा वत्थुना, उच्चाकुला पब्बजितो ति वा, महा- 10
कुला पब्बजितो ति वा, महाभोगकुला पब्बजितो ति वा, उल्लारभोगकुला पब्बजितो ति वा, जातो यसस्सी सगहद्दपब्बजितानं^४ ति वा, लाभिम्हि चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपञ्चयभेसज्जपरिक्खारानं” ति वा, सुत्त-
न्तिको ति वा, विनयघरो ति वा, धम्मकथिको ति वा, आरञ्जिको ति 15
वा, पिण्डपात्तिको ति वा, पंसुकूलिको ति वा, तेचीवरिको ति वा, सप-
दानचारिको ति वा, खलुपच्छाभत्तिको ति वा, नेसज्जिको ति वा, यथा-
सन्थतिको ति वा, पठमस्स भानस्स लाभी ति वा, दुतियस्स भानस्स लाभी ति वा, ततियस्स भानस्स लाभी ति वा, चतुत्थस्स भानस्स लाभी ति वा, आकासानञ्चायतनसमापत्तिया लाभी ति वा, विञ्जाणञ्चायतन- 20
समापत्तिया लाभी ति वा, आकिञ्चञ्चायतनसमापत्तिया लाभी ति वा, नेवसञ्जानासञ्चायतनसमापत्तिया लाभी ति वा पाचद्दति कथेति भणति दीपयति बोहरती ति — अनानुपुट्टो व परेस पाव।

अनरियधम्मं कुसला तमाहू ति। कुसला ति। ये ते खन्धकुसला धातुकुसला आयतनकुसला पटिच्चसमुप्पादकुसला सतिपट्टानकुसला 25
सम्मप्यवानकुसला इद्धिपादकुसला इन्द्रियकुसला बलकुसला बोक्कङ्ग-
कुसला मग्गकुसला फलकुसला निब्बानकुसला, ते कुसला एवमाहंसु —
“अनरियानं एसो धम्मो, नेसो धम्मो अरियानं ; बालानं एसो धम्मो, नेसो

१. अनायाचित्तो— स्या०। २. कोलपुत्तियेन— स्या०। ३. विज्जाट्टानेन— स्या०।

४. गहद्धानं पब्बजितानं— स्या०।

धम्मो पण्डितानं, असप्पुरिसानं एसो धम्मो, नेसो धम्मो सप्पुरिसानं”
ति। एवमाहंसु एवं कथेन्ति एवं भणन्ति एवं दीपयन्ति एवं वोहरन्ती
ति - अनरियधम्मं कुसला तमाहु।

यो आतुमानं सयमेव पावा ति। आतुमा वुच्चति अत्ता।

5 सयमेव पावा ति। सयमेव अत्तानं पावदति - “अहमस्मि सीलसम्पन्नो
ति वा, वतसम्पन्नो ति वा, सीलव्वतसम्पन्नो ति वा, जातिया वा गोत्तेन
वा कोलपुत्तियेन वा वण्णपोक्खरताय वा घनेन वा अज्जेनेन वा
कम्मायतनेन वा सिप्पायतनेन वा विज्जाट्टानेन वा सुतेन वा पट्टि-
भानेन वा अञ्जतरञ्जतरेन वा वत्थुना, उच्चाकुला पव्वजितो ति वा,
10 महाकुला पव्वजितो ति वा, महाभोगकुला पव्वजितो ति वा, उल्लार-
भोगकुला पव्वजितो ति वा, आतो यसस्सी सगहद्दुपव्वजितानं ति
वा, लाभिम्हि चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारान
ति वा, सुत्तन्तिको ति वा, विनयघरो ति वा, धम्मकथिको ति वा,
आरञ्जिको ति वा, पिण्डपातिको ति वा, पसुकूलिको ति वा, तेची-
15 वरिको ति वा, सपदानचारिको ति वा, खलुपच्छाभत्तिको ति वा,
नेसज्जिको ति वा, यथासन्थतिको ति वा, पठमस्स भानस्स लाभो ति
वा, दुतियस्स भानस्स लाभो ति वा, ततियस्स भानस्स लाभो ति
वा, चतुत्थस्स भानस्स लाभो ति वा, आकासानञ्चायतनसमापत्तिया
लाभो ति वा, विञ्जाणञ्चायतनसमापत्तिया लाभो ति वा, आकिञ्च-
20 ञ्चायतनसमापत्तिया लाभो ति वा, नेवसञ्जानासञ्जायतनसमा-
पत्तिया लाभो ति वा” पावदति कथेति भणति दीपयति वोहरती
ति - यो आतुमानं सयमेव पावा ति। तेनाह भगवा -

“यो अत्तनो सीलवतानि जन्तु,
अनानुपुट्टो व परेस पाव।

25 अनरियधम्मं कुसला तमाहु,
यो आतुमानं सयमेव पावा” ति ॥

१८. सन्तो च भिक्खु अभिनिब्बुतत्तो,

इतिहं ति सीलेसु अकत्थमानो।

तमरियधम्मं कुसला वदन्ति,

30 यस्सुस्सदा नत्थि कुहिञ्च लोके ॥

सन्तो च भिक्खु अभिनिब्बुतत्तो ति । सन्तो ति । रागस्स
 समितत्ता^१ सन्तो, दोसस्स समितत्ता सन्तो, मोहस्स समितत्ता सन्तो,
 कोधस्स... उपनाहस्स ... मक्खस्स... पळासस्स... इस्साय... मच्छरियस्स...
 मायाय ... साठेय्यस्स ... थम्भस्स ... सारम्भस्स ... मानस्स... अति-
 मानस्स... मदस्स ... पमादस्स ... सब्बकिलेसानं ... सब्बदुच्चरितानं ... 5
 सब्बदरथानं ... सब्बपरिळाहानं .. सब्बसन्तापानं... सब्बाकुसलाभि-
 सङ्कारानं सन्तत्ता समितत्ता वूपसमितत्ता विज्झातत्ता निब्बुतत्ता
 विगतत्ता पटिपस्सद्धत्ता सन्तो उपसन्तो वूपसन्तो निब्बुतो पटिपस्सद्धो
 ति - सन्तो । भिक्खू ति । सत्तन्नं धम्मानं भिन्नत्ता भिक्खु - सक्काय-
 दिट्ठि भिन्ना होति, विचिकिच्छा भिन्ना होति, सीलम्बतपरामासो 10
 भिन्नो होति, रागो भिन्नो होति, दोसो भिन्नो होति, मोहो भिन्नो
 होति, मानो भिन्नो होति । भिन्नास्स होन्ति पापका अकुसला धम्मा
 संकिलेसिका पोनोभविका सदरा दुक्खविपाका आर्याति जातिजरा-
 मरणिया ।

B. 54

पज्जेन कतेन अत्तना, (सभिया ति भगवा) 15 B. 71
 परिनिब्बानगतो वित्तिण्णकल्लो ।
 विभवं च भवं च विप्पहाय,
 वुसितवा खीणपुनम्भवो स^१ भिक्खू^१ ति ॥

सन्तो च भिक्खु अभिनिब्बुतत्तो ति । रागस्स निब्बापितत्ता
 अभिनिब्बुतत्तो, दोसस्स निब्बापितत्ता अभिनिब्बापितत्ता, मोहस्स 20
 निब्बापितत्ता अभिनिब्बुतत्तो, कोधस्स... उपनाहस्स ... मक्खस्स ...
 पळासस्स ... इस्साय ... मच्छरियस्स ... मायाय ... साठेय्यस्स ...
 थम्भस्स ... सारम्भस्स ... मानस्स ... अतिमानस्स ... मदस्स ... पमा-
 दस्स ... सब्बकिलेसानं ... सब्बदुच्चरितानं ... सब्बदरथानं ... सब्बपरि-
 ळाहानं ... सब्बसन्तापानं ... सब्बाकुसलाभिसङ्कारानं निब्बापितत्ता 25
 अभिनिब्बुतत्तो ति - सन्तो च भिक्खु अभिनिब्बुतत्तो ।

इतिहं ति सीलेसु अकत्थमानो ति । इतिहं ति । पदसन्धि पदसं-
 सगो पदपारिपूरी अक्खरसमवायो व्यञ्जनसिलिट्ठता पदानुपुब्बतापेतं^१

१. सन्तत्ता - स्या०; एवमुपरि पि । २-२. स्या० पोत्यके नत्थि । ३. ०भेतं -
 स्या० ।

—इतिहं ति। सीलेसुं अकथ्यमानो ति। इधेकच्चो कथ्यो होति विकथ्यी।
 सो कथ्यति विकथ्यति। अहमस्मि सीलसम्पन्नो ति वा, वतंसम्पन्नो ति
 वा, सीलव्वतसम्पन्नो ति वा, जातियो वा गोत्तेन वा कोलपुत्तियेन
 वा वण्णपोक्खरताय वा .. पे० .. नेवसञ्जानासञ्जायतनंसमापत्तिया
 5 लामी ति वा कथ्यति विकथ्यति। एवं न कथ्यति न विकथ्यति।
 कथ्यना आरत्तो विरतो पटिविरतो निक्खन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो
 विसञ्जुत्तो विमरियादिकतेन चेतंसा विहरती ति — इतिहं ति सीलेसुं
 अकथ्यमानो।

B. 55

R. 72

तमरियधम्मं कुसला वदन्ती ति। कुसला ति। ये ते खन्ध-
 10 कुसला धातुकुसला आयतनकुसला पटिच्चसमुप्पादकुसला सतिपट्टान-
 कुसला सम्मप्पधानकुसला इद्धिपादकुसला इन्द्रियकुसला बलकुसला
 बोज्झङ्गकुसला मंगकुसला फलकुसला निब्बानकुसला, ते कुसला एवं
 वदन्ति — “अरियानं एसो धम्मो, नेसो धम्मो अनरियानं; पण्डितानं
 एसो धम्मो, नेसो धम्मो बालानं, सप्पुरिसानं एसो धम्मो, नेसो धम्मो
 15 असप्पुरिसानं” ति। एवं वदन्ति, अरियानं एवं कथेन्ति एवं भणन्ति एवं
 दीपयन्ति एवं वोहरन्ती ति — तमरियधम्मं कुसला वदन्ति।

यस्सुस्सदा नत्थि कुहिञ्चि लोके ति। यस्सा ति। अरहत्तो
 खीणासवस्स। जस्सदा ति। सत्तुस्सदा — रागुस्सदो, दोसुस्सदो, मोहु-
 स्सदो, मानुस्सदो, दिट्ठुस्सदो, किलेसुस्सदो, कम्मसुस्सदो। यस्सिमे'
 20 उंस्सेदा नत्थि न सन्ति' न विज्जन्ति' नुपलब्भन्ति, पहीनां समुच्छिन्नां
 वूपसन्ता पटिपस्सद्धा अभव्वुप्पत्तिका ज्ञाणगिगनां दड्ढा। कुहिञ्चि' ति।
 कुहिञ्चि किंहिचि कथ्यचि अज्झत्तां वा बहिद्धा वा अंज्जत्तबहिद्धा वा।
 लोके ति। अपायलोके मनुस्सलोके देवलोके खन्धलोके धातुलोके आय-
 तनलोके ति — यस्सुस्सदा नत्थि कुहिञ्चि लोके। तेनाह भगवा —

26

“सन्तो च भिक्खु अग्निनिब्बुत्ततो,
 इतिहं ति सीलेसु अकथ्यमानो।
 तमरियधम्मं कुसला वदन्ति,
 यस्सुस्सदा नत्थि कुहिञ्चि लोके” ति ॥

१९. पकप्पितां सङ्घतां यस्स धम्मा,
पुरक्खता^१ सन्ति अबीवदाता ।
यदत्तनि पस्सति आनिसंसं,
तं निस्सितो कुप्पपटिच्चसन्ति ॥

पकप्पिता सङ्घता यस्स धम्मा ति । पकप्पना ति । द्वे पकप्पना — 5
तण्हापकप्पना च दिट्ठिपकप्पना च ...पे०... अयं तण्हापकप्पना ...पे०...
अयं दिट्ठिपकप्पना । सङ्घता ति । सङ्घता अभिसङ्घता^२ सण्ठापिता^३ ति R. 73
पि — सङ्घता । अथ वा, अनिच्चा सङ्घता पटिच्चसमुप्पन्ना खयधम्मा
वयधम्मा विरागधम्मा निरोधधम्मा ति पि — सङ्घता । यस्सा ति । दिट्ठि- B. 56
गतिकस्स । धम्मा वुच्चन्ति द्वासट्ठि दिट्ठिगतानी ति — पकप्पिता सङ्घता 10
यस्स धम्मा ।

पुरक्खतां सन्ति अबीवदाता ति । पुरक्खता ति । द्वे पुरेक्खारा
— तण्हापुरेक्खारो च दिट्ठिपुरेक्खारो च ...पे०... अयं तण्हापुरेक्खारो
... पे० ... अयं दिट्ठिपुरेक्खारो । तस्स तण्हापुरेक्खारो अप्पहीनो, दिट्ठि-
पुरेक्खारो अप्पटिनिस्सट्ठो । तस्स तण्हापुरेक्खारस्स अप्पहीनत्ता, दिट्ठि- 15
पुरेक्खारस्स अप्पटिनिस्सट्ठत्ता सो तण्हं वा दिट्ठिं वा पुरतो कत्वा
चरति तण्हाधजो तण्हाकेतु तण्हाधिपतेय्यो, दिट्ठिधजो दिट्ठिकेतु
दिट्ठाधिपतेय्यो, तण्हाय वा दिट्ठिया वा परिवारितो चरती ति —
पुरक्खता । सन्ती ति । सन्ति संविज्जन्ति अत्थि^४ उपलब्भन्ति ।
अबीवदाता ति । अबीवदाता अबोदाता अपरिसुद्धा संकिलिद्धा संकिले- 20
सिका ति — पुरक्खता सन्ति अबीवदाता^१ ।

यदत्तनि पस्सति आनिसंसं ति । यदत्तनी ति । यं अत्तनि ।
अत्ता वुच्चति दिट्ठिगतं । अत्तनो दिट्ठिया द्वे आनिसंसं पस्सति —
दिट्ठधम्मिकं च आनिसंसं, सम्परायिकं च आनिसंसं । कतमो दिट्ठिया
दिट्ठधम्मिको आनिसंसो ? यंदिट्ठिको सत्था होति, तंदिट्ठिका सावका 25
होन्ति । तंदिट्ठिकं सत्थारं सावका सक्करोन्ति गरं करोन्ति मानेन्ति
पूजेन्ति अपचितिं करोन्ति । लभति^५ च ततोनिदानं चीवरपिण्डपात-
सेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारं — अयं दिट्ठिया दिट्ठधम्मिको

१. पुरेक्खता — सी० । २. विसङ्घता अभिसङ्घता — रो० । ३. सण्ठापिता — सी० ।
४. स्या० पोत्यके नत्थि । ५. अबेवदाता — सी० । ६. लभन्ति — स्या० ।

B. 74

आनिसंसो । कतमो दिद्विया सम्परायिको आनिसंसो ? अयं दिद्वि
अलं नागत्ताय वा सुपण्णत्ताय वा यक्खत्ताय वा असुरत्ताय वा
गन्धब्बत्ताय वा महाराजत्ताय वा इन्दत्ताय वा ब्रह्मात्ताय वा देवत्ताय
वा । अयं दिद्वि सुद्विया^१ विसुद्विया परिसुद्विया, मृत्तिया विमृत्तिया
5 परिमृत्तिया । इमाय दिद्विया सुज्झन्ति विसुज्झन्ति परिसुज्झन्ति
मुच्चन्ति विमुच्चन्ति परिमुच्चन्ति । इमाय दिद्विया सुज्झिस्सामि विसु-
ज्झिस्सामि परिसुज्झिस्सामि, मुच्चिस्सामि विमुच्चिस्सामि परिमुच्चि-
स्सामी ति आयतिं फलपाटिकह्वी होति - अयं दिद्विया सम्परायिको
आनिसंसो । अत्तनो दिद्विया इमे द्वे आनिसंसो पस्सति दक्खति
10 ओलोकेति निज्जायति उपपरिक्खती ति - यदत्तनि पस्सति आनिसंसं ।

B. 67

तं निस्सितो कुप्पपटिच्चसन्तिं ति । तित्तो सन्तियो -
अच्चन्तसन्ति, तदङ्गसन्ति, सम्मृतिसन्ति^२ । कतमा अच्चन्तसन्ति ?
अच्चन्तसन्ति वुच्चति अमत्तं निब्बानं । यो सो सब्बसङ्खारसमथो
सब्बूपधिपटिनिस्सग्गो तण्हक्खयो विरागो निरोधो निब्बान । अयं
15 अच्चन्तसन्ति । कतमा तदङ्गसन्ति ? पठमं भानं समापन्नस्स नीचरणा
सन्ता होन्ति, दुतियं भानं समापन्नस्स वितक्कविचारा सन्ता होन्ति,
ततियं भानं समापन्नस्स पीति सन्ता होति; चतुत्थं भानं समापन्नस्स
सुखदुक्खा सन्ता होन्ति, आकासानञ्चायतनं समापन्नस्स रूपसञ्जा
पटिघसञ्जा नानत्तसञ्जा सन्ता होन्ति; विञ्जाणञ्चायतनं समापन्नस्स
20 आकासानञ्चायतनसञ्जा सन्ता होति; आकिञ्चञ्चायतन समा-
पन्नस्स विञ्जाणञ्चायतनसञ्जा सन्ता होति; नेवसञ्जानासञ्चायतन
समापन्नस्स आकिञ्चञ्चायतनसञ्जा सन्ता होति । अयं तदङ्गसन्ति ।
कतमा सम्मृतिसन्ति ? सम्मृतिसन्तियो वुच्चन्ति द्वासट्ठि दिद्विगतानि
दिद्विसन्तियो । अपि च, सम्मृतिसन्ति इमस्मिं अत्थे अधिप्पेता सन्ती ति ।
B. 75 25 तं निस्सितो कुप्पपटिच्चसन्तिं ति । कुप्पसन्तिं पकुप्पसन्तिं एरितसन्तिं
समेरितसन्तिं चलितसन्तिं घट्टितसन्तिं कप्पितसन्तिं पकप्पितसन्तिं
अनिच्चं सङ्गतं पटिच्चसमुप्पन्न खयघम्मं वयघम्मं विरागघम्मं निरोध-
घम्मं, सन्ति निस्सितो असितो^३ अल्लीनो उपगतो अज्झोसितो
अधिमुत्तो ति - तं निस्सितो कुप्पपटिच्चसन्तिं । तेनाह भगवा -

१ अल्ल सुद्विया - सी०, स्या०, रो० । २ सम्मृतिसन्ति - स्या० । ३ असितो -
सी०; स्या० पोत्थके नत्थि ।

“पकप्पिता सङ्घता यस्स धम्मा,
पुरक्खता सन्ति अवीवदाता ।
यदत्तानि पस्सति आनिसंसं,
तंनिस्सतो कुप्पपटिच्चसन्ति” ति ॥

२०. दिट्ठीनिवेसा न हि स्वातिवत्ता,
धम्मेसु निच्छेय्य समुग्गहीतं ।
तस्मा नरो तेसु निवेसनेसु,
निरस्सतो आदियती च धम्मं ॥

5

दिट्ठीनिवेसा न हि स्वातिवत्ता ति । दिट्ठीनिवेसा ति ।
“सस्सतो लोको, इदमेव सच्चं मोघमञ्जं” ति अभिनिवेसपरामासो 10
दिट्ठिनिवेसनं । “असस्सतो लोको...अन्तवा लोको... अनन्तवा लोको...
तं जीवं तं सरीरं...अञ्जं जीवं अञ्जं सरीरं...होति तथागतो परं
मरणा...न होति तथागतो पर मरणा...होति च न च होति तथागतो
परं मरणा...नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा, इदमेव सच्चं
मोघमञ्जं” ति अभिनिवेसपरामासो दिट्ठिनिवेसनं ति । दिट्ठीनिवेसा 15
न हि स्वातिवत्ता ति । दिट्ठिनिवेसा न हि स्वातिवत्ता दुरतिवत्ता
दुत्तरा दुप्पतरा दुस्समतिवकमा दुब्बिनिवत्ता ति—दिट्ठीनिवेसा न
हि स्वातिवत्ता ।

B. 58

R. 76

धम्मेसु निच्छेय्य समुग्गहीतं ति । धम्मेसु ति । द्वासट्ठि
दिट्ठिगतेसु । निच्छेय्या ति । निच्छित्त्वा विनिच्छित्त्वा विचिन्त्वा 20
पविचिन्त्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं क्त्वा ।
समुग्गहीतं ति । निवेसनेसु ओधिग्गाहो बिलग्गाहो वरग्गाहो कोट्टा-
सग्गाहो उच्चयग्गाहो समुच्चयग्गाहो । इदं सच्चं तच्छं तथं भूतं
याथावं अविपरीतं गहितं परामट्ठं अभिनिविट्ठं अज्झोसितं अधिमुत्तं
ति—धम्मेसु निच्छेय्य समुग्गहीतं । 25

तस्मा नरो तेसु निवेसनेसु ति । तस्मा ति । तस्मा तंकारणा
तंहेषु तप्पच्चया तंनिदानं । नरो ति । सत्तो नरो मानवो पोसो
पुरगलो जीवो जागु जन्तु इन्दगु मनुजो । तेसु निवेसनेसु ति । तेसु
दिट्ठिनिवेसनेसु ति—तस्मा नरो तेसु निवेसनेसु ।

१. दुब्बिनिवत्ता—सी०, स्या० । २. विलग्गाहो—स्या० । ३. जनु—सी०; जातु—स्या० ।

- निरस्सती' आदियती च धम्मं ति । निरस्सती ति । द्वीहि
कारणेहि निरस्सति - परविच्छिन्दनाय वा निरस्सति, अनभिसम्भुणन्तो
वा निरस्सति । कथं परविच्छिन्दनाय निरस्सति ? परो विच्छिन्देति -
सो सत्था न सब्बञ्जू, धम्मो न स्वाक्खातो, गणो न सुप्पटिपन्नो,
दिट्ठि न भद्दिका, पटिपदा न सुपञ्जत्ता, मग्गो न निय्यानिको,
नत्थेत्य सुद्धि वा विसुद्धि वा परिसुद्धि वा मुत्ति वा विमुत्ति वा
परिमुत्ति वा, नत्थेत्य सुज्झन्ति वा विसुज्झन्ति वा परिसुज्झन्ति
वा मुच्चन्ति वा विमुच्चन्ति वा परिमुच्चन्ति वा, हीना निहीना
ओमका लामका छतुक्का^१ परित्ता ति - एवं परो विच्छिन्देति ।
R. 77 10 एवं विच्छिन्दियमानो सत्थारं निरस्सति^२, धम्मक्खानं निरस्सति,
गणं निरस्सति, दिट्ठि निरस्सति, पटिपदं निरस्सति, मग्गं निरस्सति ।
एवं परविच्छिन्दनाय निरस्सति । कथं अनभिसम्भुणन्तो निरस्सति ?
सीलं अनभिसम्भुणन्तो सीलं निरस्सति, वतं अनभिसम्भुणन्तो वत
निरस्सति, सीलब्बतं अनभिसम्भुणन्तो सीलब्बतं निरस्सति । एव
B. 59 15 अनभिसम्भुणन्तो निरस्सति । आदियती च धम्मं ति । सत्थारं
गण्हाति, धम्मक्खानं गण्हाति, गणं गण्हाति, दिट्ठि गण्हाति, पटिपदं
गण्हाति, मग्गं गण्हाति परामसति अभिनिविसती ति - निरस्सती
आदियती च धम्म । तेनाह भगवा -

“दिट्ठीनिवेसा न हि स्वातिवत्ता,
20 धम्मेसु निच्छेद्य्य समुग्गहीतं ।
तस्मा नरो तेसु निवेसनेसु,
निरस्सती आदियती च धम्म” ति ॥

२१. धोनस्स हि नत्थि कुहिञ्चि लोके,
पकप्पिता दिट्ठि भवाभवेसु ।
25 मायं च मानं च पहाय धोने,
स केन गच्छेद्य्य अनूपयो सो ॥

धोनस्स हि नत्थि कुहिञ्चि लोके पकप्पिता दिट्ठि भवाभवेसु
ति । धोने ति । धोना वुच्चति पञ्जा - या पञ्जा पजानना विचयो

१. निरस्सति - सी०, निदस्सति - स्या०; एवमुपरि पि । २. जतुक्का - सी०, स्या० ।
३. विच्छिन्दति - स्या०, रो० । ४. निवस्सति - रो०; एवमुपरि-पि ।

पविचयो धम्मविचयो सल्लक्खणा उपलक्खणा पच्चुपलक्खणा
 पण्डिच्चं कोसल्लं नेपुञ्जं वेमब्ब्या चिन्ता उपपरिक्खा भूरि मेघा
 परिणायिका विपस्सना सम्पज्जञ्जं पतोदो पञ्जा पञ्चिन्द्रियं
 पञ्जाबलं पञ्जासत्थं पञ्जापासादो पञ्जाबालोको पञ्जाओभासो
 पञ्जापज्जोतो पञ्जारतनं अमोहो धम्मविचयो सम्मादिट्ठि। किं- ६
 कारणा धोना वुच्चति पञ्जा ? ताय पञ्जाय कायदुच्चरितं धुतं च
 धोतं च सन्धोतं च निद्धोतं च; वचीदुच्चरितं ... मनोदुच्चरितं धुतं च
 धोतं च सन्धोतं च निद्धोतं च; रागो धुतो च धोतो च सन्धोतो
 च निद्धोतो च; दोसो ... मोहो ... कोधो ... उपनाहो ... मक्खो ... पळासो
 धुतो च धोतो च सन्धोतो च निद्धोतो च; इस्सा धुता च धोता 10
 च सन्धोता च निद्धोता च; मच्छरियं धुतं च धोतं च सन्धोतं च
 निद्धोतं च; माया धुता च धोता च सन्धोता च निद्धोता च;
 साठेय्यं धुतं च धोतं च सन्धोतं च निद्धोतं च; थम्भो धुतो च
 धोतो च सन्धोतो च निद्धोतो च; सारम्भो ... मानो ... अतिमानो ...
 मदो ... पमादो धुतो च धोतो च सन्धोतो च निद्धोतो च; सब्बे 15
 किलेसा, सब्बे दुच्चरिता, सब्बे दरथा, सब्बे परिळाहा, सब्बे सन्तापा,
 सब्बाकुसलाभिसङ्गारा धुता च धोता च सन्धोता च निद्धोता च।
 तंकारणा धोना वुच्चति पञ्जा।

R. 78

B. 60

अथ वा, सम्मादिट्ठिया मिच्छादिट्ठि धुता च धोता च सन्धोता
 च निद्धोता च; सम्मासङ्कप्पेन मिच्छासङ्कप्पो धुतो च धोतो च 20
 सन्धोतो च निद्धोतो च; सम्मावाचाय मिच्छावाचा धुता च धोता
 च ... पे० ... सम्माकम्मन्तेन मिच्छाकम्मन्तो धुतो च ... सम्माआजीवेन
 मिच्छाआजीवो धुतो च ... सम्मावायामेन मिच्छावायामो धुतो च ...
 सम्मासतिया मिच्छासति धुता च ... सम्मासमाधिना मिच्छासमाधि
 धुतो च धोतो च सन्धोतो च निद्धोतो च; सम्माबाणेन मिच्छाबाणं 25
 धुतं च ... सम्माविमुत्तिया मिच्छाविमुत्ति धुता च धोता च सन्धोता
 च निद्धोता च।

अथ वा, अरियेन अट्टङ्गिकेन मग्गेन सब्बे किलेसा, सब्बे
 दुच्चरिता, सब्बे दरथा, सब्बे परिळाहा, सब्बे सन्तापा, सब्बाकुसला-
 भिसङ्गारा धुता च धोता च सन्धोता च निद्धोता च। अरहा इमेहि 30
 धोनेय्येहि धम्मोहि उपेतो समुपेतो उपगतो समुपगतो उपपन्नो समुपपन्नो

समन्नागतो; तस्मा अरहा धोनो। सो धुतरागो धुतपापो धुतकिल्लोसो
धुतपरिळाहो ति - धोनो। कुहिञ्चि ति। कुहिञ्चि किमिह्वि क्त्यचि
अज्झत्तं वा वहिद्धा वा अज्झत्तवहिद्धा वा। लोके ति। अपायलोके
...पे०... आयतनलोके।

- 9 5 पकप्पिता ति। द्वे पकप्पना - तण्हापकप्पना च दिट्ठिपकप्पना
च...पे०...अयं तण्हापकप्पना...पे०...अयं दिट्ठिपकप्पना। भवाभवेसू
ति। भवाभवे कम्मभवे पुनब्भवे कामभवे, कम्मभवे कामभवे पुनब्भवे
रूपभवे, कम्मभवे रूपभवे पुनब्भवे अरूपभवे, कम्मभवे अरूपभवे
पुनब्भवे पुनप्पुनभवे पुनप्पुनगतिया पुनप्पुनउपपत्तिया पुनप्पुनपटि-
20 सन्धिया पुनप्पुनअत्तभावाभिनिव्वत्तिया। धोनस्स हि नत्थि कुहिञ्चि
लोके पकप्पिता दिट्ठि भवाभवेसू ति। धोनस्स कुहिञ्चि लोके
भवाभवेसु च कप्पिता पकप्पिता अभिसह्णता सण्ठपिता दिट्ठि नत्थि
न सन्ति न संविज्जति नुपलब्भति, पहीना समुच्छिन्ना वूपसन्ता
पटिपस्सद्धा अभव्वुप्पत्तिका बाणग्गिना दड्ढा ति - धोनस्स हि नत्थि
15 कुहिञ्चि लोके पकप्पिता दिट्ठि भवाभवेसु।

मायं च मानं च पहाय धोनो ति। माया वुच्चति वञ्चनिका
चरिया। इधेकच्चो कायेन दुच्चरितं चरित्वा, वाचाय दुच्चरित
B 01 चरित्वा, मनसा दुच्चरितं चरित्वा तस्स पटिच्छादनहेतु पापिकं
इच्छ पणिदहति - "मा म जञ्जा" ति इच्छति, "मा मं जञ्जा" ति
20 सङ्कप्पेति, "मा मं जञ्जा" ति वाच भासति, "मा म जञ्जा" ति
कायेन परव्वकमति। या एवरूपा माया मायाविता अच्चसरा^१ वञ्चना
निकत्ति निकिरणा परिहरणा गूहना^२ परिगूहना^३ छादना परिच्छादना
अनुत्तानिकम्मं अनाविकम्म वीच्छादना पापकिरिया, अथ वुच्चति
मायां।

25 मानो ति। एकविधेन मानो - या चित्तस्स उन्नति। दुविधेन
मानो - अत्तुककंसनमानो, परव्वम्भनमानो। तिविधेन मानो - सेय्योहमस्मी
B 80 ति मानो, सदिसोहमस्मी ति मानो, हीनोहमस्मी ति मानो। चतुर्विधेन
मानो - लाभेन मानं जनेति, यसेन मानं जनेति, पससाय मान जनेति,
सुखेन मानं जनेति। पञ्चविधेन मानो - लाभिन्दिह मनापिकान रूपान

१ अच्चया - सी०। २ गूहना - स्वा०। ३ परिगूहना - स्वा०।

ति मानं जनेति, लाभिम्हि मनापिकानं सद्दानं ... गन्धानं ... रसानं ...
 फोटुब्बानं ति मानं जनेति। छब्बिधेन मानो—चक्खुसम्पदाय मानं
 जनेति, सोतसम्पदाय ... धानसम्पदाय ... जिव्हासम्पदाय ... कायसम्पदाय
 . मनोसम्पदाय मानं जनेति। सत्तविधेन मानो—मानो, अतिमानो,
 मानातिमानो, ओमानो, अधिमानो, अस्मिमानो, मिच्छामानो। 5
 अट्टविधेन मानो—लाभेन मानं जनेति, अलाभेन ओमानं जनेति,
 यसनं मानं जनेति, अयसेन ओमानं जनेति, पसंसाय मानं जनेति,
 निन्दाय ओमानं जनेति, सुखेन मानं जनेति, दुक्खेन ओमानं जनेति।
 नवविधेन मानो—सेय्यस्स सेय्योहमस्मी ति मानो, सेय्यस्स सदिसो-
 हमस्मी ति मानो, सेय्यस्स हीनोहमस्मी ति मानो, सदिसस्स 10
 सेय्योहमस्मी ति मानो, सदिसस्स सदिसोहमस्मी ति मानो, सदिसस्स
 हीनोहमस्मी ति मानो, हीनस्स सेय्योहमस्मी ति मानो, हीनस्स
 सदिसोहमस्मी ति मानो, हीनस्स हीनोहमस्मी ति मानो। दसविधेन
 मानो—इधेक्कच्चो मानं जनेति जातिया वा गोत्तेन वा कोलपुत्तियेन
 वा वण्णपोक्खरत्ताय वा धनेन वा अज्जेनेन वा कम्मायतनेन वा 15
 सिप्पायतनेन वा विज्जाट्टानेन वा सुतेन वा पटिमानेन वा अञ्ज-
 तरञ्जतरेन वा वत्थुना। यो एवरूपो मानो मञ्जना मञ्जितत्तं
 उन्नति' उन्नामो' धजो सम्पग्गाहो केतुकम्यता चित्तस्स—अयं वुच्चति
 मानो। मायं च मानं च पहाय धोनो ति। धोनो मायं च मानं च
 पहाय पजहित्वा विनोदेत्वा ब्यन्तिं करित्वा अनभावं गमेत्वा ति— 20
 मायं च मानं च पहाय धोनो।

स केन गच्छेय्य अनूपयो सो ति। उपया' ति। द्वे उपया—
 तण्हूपयो च दिट्ठूपयो च . पे०... अयं तण्हूपयो ... पे०... अयं दिट्ठूपयो।
 तस्स तण्हूपयो पहीनो, दिट्ठूपयो पटिनिस्सट्ठो। तण्हूपयस्स पहीनत्ता,
 दिट्ठूपयस्स पटिनिस्सट्ठत्ता अनूपयो पुग्गलो केन रागेन गच्छेय्य, 25
 केन दोसेन गच्छेय्य, केन मोहेन गच्छेय्य, केन मानेन गच्छेय्य, काय
 दिट्ठिया गच्छेय्य, केन उद्धच्चेन गच्छेय्य, काय विचिकिच्छाय
 गच्छेय्य, केहि अनुसयेहि गच्छेय्य—रत्तो ति वा दुट्ठो ति वा मूळ्हो
 ति वा विनिबद्धो ति वा परामट्ठो ति वा विक्खेपगतो ति वा

अनिद्वङ्गतो ति वा थामगतो ति वा । ते अभिसङ्कारा पहीना ।
 अभिसङ्कारानं पहीनत्ता गतियो केन गच्छेय्य-नेरयिको ति वा तिर-
 च्छान थोनिको ति वा पेट्तिविसयिको ति वा मनुस्सो ति वा देवो ति
 वा रूपी ति वा अरूपी ति वा सञ्जी ति वा असञ्जी ति वा
 ५ नेवसञ्जीनासञ्जी ति वा । सो हेतु नत्थि पच्चयो नत्थि कारणं नत्थि,
 येन गच्छेय्या ति-स केन गच्छेय्य अनूपयो सो । तेनाह भगवा-

“धोनस्स हि नत्थि कुहिञ्चि लोके,
 पकप्पिता दिट्ठि भवाभवेसु ।
 मायं च मानं च पहाय धोनो,
 10 स केन गच्छेय्य अनूपयो सो” ति ॥

२२. उपयो हि धम्मेसु उपेति वादं,
 अनूपयं केन कथं वेदय्य ।
 अत्ता^१ निरत्ता^१ न हि तस्स अत्थि,
 अघोसि सो दिट्ठिमिधेव सब्बं ॥

15 उपयो हि धम्मेसु उपेति वादं ति । उपया ति । द्वे उपया -
 तण्हूपयो च दिट्ठूपयो च...पे०...अयं तण्हूपयो .पे० ..अयं दिट्ठूपयो ।
 तस्स तण्हूपयो अप्पहीनो, दिट्ठूपयो अप्पटिनिस्सट्ठो । तण्हूपयस्स
 B 03 अप्पहीनत्ता, दिट्ठूपयस्स अप्पटिनिस्सट्ठत्ता धम्मेसु वादं उपेति - रत्तो
 ति वा दुट्ठो ति वा मूळ्हो ति वा विनिबद्धो ति वा परामट्ठो ति
 R. 82 20 वा विक्खेपगतो ति वा अनिद्वङ्गतो ति वा थामगतो ति वा । ते
 अभिसङ्कारा अप्पहीना । अभिसङ्कारानं अप्पहीनत्ता गतिया वादं
 उपेति । नेरयिको ति वा तिरच्छानयोनिको ति वा पेट्तिविसयिको ति
 वा मनुस्सो ति वा देवो ति वा रूपी ति वा अरूपी ति वा सञ्जी
 ति वा असञ्जी ति वा नेवसञ्जीनासञ्जी ति वा वादं उपेति
 25 उपगच्छति गण्हाति परामसति अभिनिविसती ति - उपयो हि धम्मेसु
 उपेति वादं ।

अनूपयं केन कथं वेदय्या ति । उपया ति । द्वे उपया -
 तण्हूपयो च दिट्ठूपयो च...पे०...अयं तण्हूपयो...पे०...अयं दिट्ठूपयो ।

तस्स तण्हूपयो पहीनो, दिट्ठूपयो पटिनिस्सट्ठो । तण्हूपयस्स पहीनत्ता,
 दिट्ठूपयस्स पटिनिस्सट्ठत्ता अनूपयं पुग्गलं केन रागेन वदेय्य, केन
 दोसेन वदेय्य, केन मोहेन वदेय्य, केन मानेन वदेय्य, काय दिट्ठिया
 वदेय्य, केन उद्धच्चेन वदेय्य, काय विचिकिच्छाय वदेय्य, केहि
 अनुसयेहि वदेय्य - रत्तो ति वा द्दुट्ठो ति वा मूळ्हो ति वा विनिबद्धो 5
 ति वा परामट्ठो ति वा विक्खेपगतो ति वा अनिट्ठुत्ततो ति वा
 थामगतो ति वा । ते अभिसङ्खारा पहीना । अभिसङ्खारानं पहीनत्ता
 गतियो केन वदेय्य - नेरयिको ति वा ...पे०...नेवसञ्जीनासञ्जी ति
 वा । सो हेतु नत्थि पच्चयो नत्थि कारणं नत्थि, येन वदेय्य कथेय्य
 भणेय्य दीपयेय्य वोहरेय्या ति - अनूपयं केन कथं वदेय्य । 10

अत्ता निरत्ता न हि तस्स अत्थी ति । अत्ता ति । अत्तानुदिट्ठि'
 नत्थि । निरत्ता ति । उच्छेददिट्ठि नत्थि । अत्ता ति गहितं नत्थि ।
 निरत्ता ति मुञ्चितब्बं नत्थि । यस्सत्थि गहितं, तस्सत्थि मुञ्चितब्बं;
 यस्सत्थि मुञ्चितब्बं, तस्सत्थि गहितं । गहणं' मुञ्चना' समतिक्कन्तो
 अरहा बुद्धिपरिहानिवीतिवत्तो । सो वुट्ठवासो चिण्णचरणो गतद्धो 15
 गतदिसो जातिमरणसंसारो, नत्थि तस्स पुनब्भवो ति - अत्ता निरत्ता
 न हि तस्स अत्थि ।

अधोसि सो दिट्ठिमिधेव सब्बं ति । तस्स द्वासट्ठि दिट्ठिगतानि
 पहीनानि समुच्छिन्नानि वूपसन्तानि पटिपस्सद्धानि अभब्बुप्पत्तिकानि
 षाण्णग्गिना दङ्गानि । सो सब्बदिट्ठिगतं इधेव अधोसि धुनि सन्धुनि 20
 निद्धुनि पज्जहि विनोदेसि ब्यन्तिं अकासि अनभावं गमेसी ति -
 अधोसि सो दिट्ठिमिधेव सब्बं । तेनाह भगवा -

“उपयो हि धम्मेषु उपेति वादं,
 अनूपयं केन कथं वदेय्य ।
 अत्ता निरत्ता न हि तस्स अत्थि,
 अधोसि सो दिट्ठिमिधेव सब्बं” ति ॥ 25

दृष्टदृक्पुत्तनिर्देशो ततियो ।

४. सुद्धट्टकसुत्तनिद्देशो

अथ सुद्धट्टकसुत्तनिद्देशं वक्खति -

B. 84

२३. पस्सामि सुद्धं परमं अरोगं,
दिट्ठेन संसुद्धिं नरस्स होति।
एवाभिजानं परमं ति अत्वा,
सुद्धानुपस्सी ति पच्चेति ञ्णाणं ॥

5

पस्सामि सुद्धं परमं अरोगं ति। पस्सामि सुद्धं ति। पस्सामि सुद्धं, दक्खामि सुद्धं, ओलोकेमि सुद्धं, निज्झायामि सुद्धं, उपपरि-
क्खामि सुद्धं। परमं अरोगं ति। परमं आरोपयप्पत्तं ताणप्पत्तं
लेणप्पत्तं सरणप्पत्तं अमयप्पत्तं अच्चुतप्पत्तं अमतप्पत्तं निब्बानप्पत्तं
10 ति - पस्सामि सुद्धं परमं अरोगं।

दिट्ठेन संसुद्धिं नरस्स होती ति। चक्खुविञ्जाणं रूपदस्सनेन
नरस्स सुद्धिं विसुद्धिं परिसुद्धिं, मुत्तिं विमुत्तिं परिमुत्तिं होति, नरो
सुज्झति विसुज्झति परिसुज्झति, मुच्चति विमुच्चति परिमुच्चती
ति - दिट्ठेन संसुद्धिं नरस्स होति।

15

एवाभिजानं परमं ति अत्वा ति। एवं अभिजानन्तो आजा-
नन्तो विजानन्तो पटिविजानन्तो पटिविज्झन्तो। "इदं परमं अग्गं सेट्ठं
विसिट्ठं पामोक्खं उत्तमं पवरं" ति अत्वा जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा
विभावयित्वा विभूतं कत्वा ति - एवाभिजानं परमं ति अत्वा।

B. 65,
B. 85

सुद्धानुपस्सी ति पच्चेति ञ्णाणं ति। यो सुद्धं पस्सति, सो
सुद्धानुपस्सी पच्चेति। ञ्णाणं ति। चक्खुविञ्जाणं रूपदस्सनेन ञ्णाणं
20 ति पच्चेति, मग्गो ति पच्चेति, पथो ति पच्चेति, निब्बानं ति
पच्चेती ति - सुद्धानुपस्सी ति पच्चेति ञ्णाणं। तेनाह मग्गवा -

25

"पस्सामि सुद्धं परमं अरोगं,
दिट्ठेन संसुद्धिं नरस्स होति।
एवाभिजानं परमं ति अत्वा,
सुद्धानुपस्सी ति पच्चेति ञ्णाणं" ति ॥

१ क्षेमप्पत्तं ताणप्पत्तं - सी०, स्या०। २. परायणप्पत्तं अमयप्पत्तं - स्या०। ३.
चक्खुविञ्जाणेन - सी०, स्या०। ४ त अग्गं - सी०। ५ वित्तेहं - सी०, स्या०।

२४. विद्वेन चे सुद्धि नरस्स होति,
 भाणेन वा सो पजहाति दुक्खं ।
 अञ्जेन सो सुज्झति सोपधीको,
 विद्वी हि नं पाव तथा वदानं ॥

विद्वेन चे सुद्धि नरस्स होती ति । चक्खुविञ्जाणं रूपदस्सनेन 5
 चे नरस्स सुद्धि विसुद्धि परिसुद्धि, मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति होति,
 नरो सुज्झति विसुज्झति परिसुज्झति, मुच्चति विमुच्चति परि-
 मुच्चती ति—विद्वेन चे सुद्धि नरस्स होति ।

भाणेन वा सो पजहाति दुक्खं ति । चक्खुविञ्जाणं रूप-
 दस्सनेन चे नरो जातिदुक्खं पजहति, जरादुक्खं पजहति, ब्याधिदुक्खं 10
 पजहति, मरणदुक्खं पजहति, सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासदुक्खं
 पजहती ति — भाणेन वा सो पजहाति दुक्खं ।

अञ्जेन सो सुज्झति सोपधीको ति । अञ्जेन असुद्धिमग्गेन
 मिच्छापटिपदाय अनिय्यानिकपथेन^१ अञ्जत्र सतिपट्टानेहि अञ्जत्र
 सम्मप्पधानेहि अञ्जत्र इद्धिपादेहि अञ्जत्र इन्द्रियेहि अञ्जत्र बलेहि 15
 अञ्जत्र बोज्झङ्गेहि अञ्जत्र अरिया^२ अट्टङ्गिका मग्गा^३ नरो सुज्झति
 विसुज्झति परिसुज्झति, मुच्चति विमुच्चति परिमुच्चति । सोपधीको
 ति । सरागो सदोसो समोहो समानो सतण्हो सदिट्ठि सकिलेसो
 सजपादानो ति — अञ्जेन सो सुज्झति सोपधीको^४ । R 86

विद्वी हि नं पाव तथा वदानं ति । साव विद्वि तं पुग्गलं 20
 पावदति—इति वायं^५ पुग्गलो मिच्छादिद्विको विपरीतदस्सनो । तथा
 वदानं ति । तथा वदन्तं कथेन्तं भणन्तं दीपयन्तं वोहरन्तं । “सस्सतो
 लोको, इदमेव सच्चं मोघमञ्जं” ति तथा वदन्तं कथेन्तं भणन्तं
 दीपयन्तं वोहरन्तं । “असस्सतो लोको ... अन्तवा लोको...अनन्तवा
 लोको ... तं जीवं तं सरीरं ... अञ्जं जीवं अञ्जं सरीर ... होति तथागतो 25
 परं मरणा ... न होति तथागतो परं मरणा ... होति च न च होति
 तथागतो परं मरणा ... नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा,

१. अनिय्याणिकपथेन—सी०; अनिय्याणपथेन—स्या० । २-२ अरियट्टङ्गिकमग्गेन
 -रो० । ३ सोपधीको—स०, रो० । ४. पाय—स्या०; चाय—सी० । B 86

इदमेव सच्चं मोघमञ्ज" ति तथा वदन्तं कथेन्तं भणन्तं दीपयन्तं
वोहरन्तं ति - दिट्टी हि नं पाव तथा वदानं । तेनाह भगवा -

"दिट्ठेन चे सुद्धि नरस्स होति,
भाणेन वा सो पजहाति दुक्खं ।
अञ्जेन सो सुज्झति सोपधीको,
दिट्टी हि नं पाव तथा वदानं" ति ॥

२५. न ब्राह्मणो अञ्जतो सुद्धिमाह,
दिट्ठे सुते सीलवते मुते वा ।
पुञ्जे च पापे च अनूपलित्तो,
अत्तञ्जहो नयिध पकुब्बमानो ॥

न ब्राह्मणो अञ्जतो सुद्धिमाह दिट्ठे सुते सीलवते मुते वा
ति । ना ति । पटिक्खेपो । ब्राह्मणो ति । सत्तन्नं धम्मानं बाहितत्ता
ब्राह्मणो - सक्कायदिट्ठि बाहिता होति, विचिकिच्छा बाहिता होति,
सीलवत्परामासो बाहितो होति, रागो बाहितो होति, दोसो बाहितो
होति, मोहो बाहितो होति, मानो बाहितो होति । बाहितास्स' - होगि
पापका अकुसला धम्मा संकिलेसिका पोनोभविका' सदरा दुक्ख-
विपाका आयति जातिजरामरणिया ।

बाहित्वा' सब्बपापकानि, (सभिया ति भगवा)
विमलो साधुसमाहितो ठित्तो ।
संसारमतिच्च केवली सो,
असितो' तादि पवुच्चते स ब्रह्मा ॥

न ब्राह्मणो अञ्जतो सुद्धिमाह ति । ब्राह्मणो अञ्जेन
असुद्धिमग्गेन मिच्छापटिपदाय अनिय्यानिकपथेन अञ्जत्र सतिपट्टानेहि
अञ्जत्र सम्मप्पधानेहि अञ्जत्र इद्धिपादेहि अञ्जत्र इन्द्रियेहि अञ्जत्र
बलेहि अञ्जत्र बोज्झहेहि अञ्जत्र अरियेन अट्टिज्जेकेन मग्गेन सुद्धिं
विसुद्धिं परिसुद्धिं मुत्तिं विमुत्तिं परिमुत्तिं नाह न कथेति न भणति
न दीपयति न वोहरती ति - न ब्राह्मणो अञ्जतो सुद्धिमाह ।

१ बहितस्स - स्या० । २ पोनोभविका - स्या०; एवमुपरि पि । ३ बाहित्वा -
सी०, स्या० । ४ अनिस्सितो - स्या० ।

विद्वे सुते सीलवते मुते वा ति। सन्तेके समणब्राह्मणा
 दिट्टिसुद्धिका। ते एकच्चानं रूपानं दस्सनं मङ्गलं पच्चेन्ति, एकच्चानं
 रूपानं दस्सनं अमङ्गलं पच्चेन्ति। कतमेसं रूपानं दस्सनं मङ्गलं
 पच्चेन्ति? ते कालतो बुद्धहित्वा अभिमङ्गलगतानि रूपानि पस्सन्ति
 -चाटकसकुणं^१ पस्सन्ति, फुस्सवेळुवलट्टि^२ पस्सन्ति, गब्भिनित्थिं^३
 पस्सन्ति, कुमारकं^४ खन्धे आरोपेत्वा गच्छन्तं पस्सन्ति, पुण्णघटं
 पस्सन्ति, रोहितमच्छं पस्सन्ति, आजञ्जं पस्सन्ति, आजञ्जरथं
 पस्सन्ति, उसभं पस्सन्ति, गोकपिलं पस्सन्ति। एवरूपानं रूपानं
 दस्सनं मङ्गलं पच्चेन्ति। कतमेसं रूपानं दस्सनं अमङ्गलं पच्चेन्ति?
 पलालपुञ्जं पस्सन्ति, तक्कघटं पस्सन्ति, रित्तघटं पस्सन्ति, नटं
 पस्सन्ति, नग्गसमणकं पस्सन्ति, खरं पस्सन्ति, खरयानं पस्सन्ति,
 एकयुत्तयानं पस्सन्ति, काणं पस्सन्ति, कुणिं पस्सन्ति, खञ्जं पस्सन्ति,
 पक्खहतं पस्सन्ति, जिण्णकं पस्सन्ति, व्याधिकं^५ पस्सन्ति*। एवरूपानं
 रूपानं दस्सनं अमङ्गलं पच्चेन्ति। इमे ते समणब्राह्मणा दिट्टिसुद्धिका।
 ते विद्वेने सुद्धिं विसुद्धिं परिसुद्धिं मुत्तिं विमुत्तिं परिमुत्तिं पच्चेन्ति।^६

R. 88

10

15

सन्तेके समणब्राह्मणा सुतसुद्धिका। ते एकच्चानं सद्दानं
 सवनं मङ्गलं पच्चेन्ति, एकच्चानं सद्दानं सवनं अमङ्गलं पच्चेन्ति।
 कतमेसं सद्दानं सवनं मङ्गलं पच्चेन्ति? ते कालतो बुद्धहित्वा अभि-
 मङ्गलगतानि सद्दानि सुणन्ति - वद्धा ति वा वद्धमाना ति वा पुण्णा
 ति वा फुस्सा^१ ति वा असोका^२ ति वा सुमना ति वा सुनक्खत्ता
 ति वा सुमङ्गला ति वा सिरी ति वा सिरीवद्धा ति वा। एवरूपानं
 सद्दानं सवनं मङ्गलं पच्चेन्ति। कतमेसं सद्दानं सवनं अमङ्गलं
 पच्चेन्ति? काणो ति वा कुणी ति वा खञ्जो ति वा पक्खहतो ति वा
 जिण्णको ति वा व्याधिको ति वा मतो ति वा छिन्दं^३ ति वा भिन्दं
 ति वा दद्धं ति वा नट्टं ति वा नत्थी ति वा। एवरूपानं सद्दानं सवनं
 अमङ्गलं पच्चेन्ति। इमे ते समणब्राह्मणा सुतसुद्धिका। ते सुतेने
 सुद्धिं विसुद्धिं परिसुद्धिं मुत्तिं विमुत्तिं परिमुत्तिं पच्चेन्ति।^४

20

B. 61

१. चाटकसकुणं-सी०, वातसकुणं-स्या०, रो०। २. पुस्स०-स्या०। ३. कुमा-
 रिक्कं-स्या०। ४. व्याधितं-सी०। ५. मतं पस्सन्ती ति-सी०, स्या० पोत्यकेषु अघिको
 विससति। ६. पुस्सा-स्या०। ७. अस्सोका-स्या०। ७-७. छिन्नन्ति-सी०, स्या०। ८-८.
 भिन्नन्ति-सी०, स्या०।

R 80

- सन्तेके समणब्राह्मणा सीलसुद्धिका । ते सीलमत्तेन संयममत्तेन
 संवरमत्तेन अवीतिकममत्तेन सुद्धिं विसुद्धिं परिसुद्धिं मुत्तिं विमुत्तिं
 परिमुत्तिं पच्चेन्ति । समणो मुण्डिकापुत्तो^१ एवमाह— “चतूहि खो अहं,
 गहपति^२, धम्मोहि समन्नागतं पुरिसपुग्गल पञ्चापेमि सम्पन्नकुसलं
 5 परमकुसल उत्तमपत्तिप्पत्तं समण अथोज्जं^३ । कतमेहि चतूहि ?
 इध, गहपति, न कायेन पापक कम्म करोति, न पापकं वाचं भासति,
 न पापकं सङ्कप्पं सङ्कप्पति,^४ न पापकं आजीव आजीवति । इमेहि
 १० खो अहं, गहपति, चतूहि धम्मोहि समन्नागत पुरिसपुग्गल पञ्चापेमि
 सम्पन्नकुसल परमकुसल उत्तमपत्तिप्पत्तं समण अथोज्जं^५ । एवमेव
 सन्तेके समणब्राह्मणा सीलसुद्धिका, ते सीलमत्तेन संयममत्तेन संवर-
 मत्तेन अवीतिकममत्तेन सुद्धिं विसुद्धिं परिसुद्धिं मुत्तिं विमुत्तिं
 परिमुत्तिं पच्चेन्ति ।

- सन्तेके समणब्राह्मणा वत्तसुद्धिका^६ । ते हत्थिवतिका वा
 होन्ति, अस्सवतिका वा होन्ति, गोवतिका वा होन्ति, कुक्कुरवतिका
 15 वा होन्ति, काकवतिका वा होन्ति, वासुदेववतिका वा होन्ति,
 बलदेववतिका वा होन्ति, पुण्णभद्दवतिका वा होन्ति, मणिभद्दवतिका
 वा होन्ति, अग्गिवतिका वा होन्ति, नागवतिका वा होन्ति, सुपण्ण-
 वतिका वा होन्ति, यक्खवतिका वा होन्ति, असुरवतिका वा होन्ति,
 गन्धब्बवतिका वा होन्ति, महाराजवतिका वा होन्ति, चन्दवतिका
 20 वा होन्ति, सूरियवतिका वा होन्ति, इन्दवतिका वा होन्ति, ब्रह्म-
 वतिका वा होन्ति, देववतिका वा होन्ति, दिसावतिका^७ वा होन्ति ।
 इमे ते समणब्राह्मणा वत्तसुद्धिका । ते वतेन सुद्धिं विसुद्धिं परिसुद्धिं
 मुत्तिं विमुत्तिं परिमुत्तिं पच्चेन्ति ।

R 90

- सन्तेके समणब्राह्मणा मुत्तसुद्धिका । ते कालतो वुट्ठहित्वा
 25 पथविं आमसन्ति, हरितं आमसन्ति, गोमय आमसन्ति, कच्छप
 आमसन्ति, फाल^८ अक्कमन्ति, तिलवाह आमसन्ति, फुस्सतिल
 B 69 खादन्ति, फुस्सतेलं मक्खेन्ति, फुस्सदन्तकट्ट खादन्ति, फुस्समत्तिकाय

१ मुण्डिकापुत्तो—सी० । २ वपति—सी०, स्या०, एवमुपरि पि । ३ अथोज्जं—
 सी०, स्या०, एवमुपरि पि । ४ पापिक—सी०, स्या० । ५ सङ्कप्पेति—सी०, स्या० । ६
 वत्तसुद्धिका—स्या०, एवमुपरि पि । ७ दिसवतिका—स्या० । ८ जाल—स्या० ।

न्हार्यन्ति, ' फुस्ससाटकं निवासेन्ति, फुस्सवेठनं वेठेन्ति' । इमे ते समण-
ब्राह्मणा मुत्तसुद्धिका । ते मुतेन सुद्धिं विसुद्धिं परिसुद्धिं मुत्तिं विमुत्तिं
परिमुत्तिं पच्चेन्ति ।

न ब्राह्मणो अञ्जतो सुद्धिमाह दिट्ठे सुते सीलवते मुते वा ति ।
ब्राह्मणो दिट्ठसुद्धिया पि सुद्धिं नाह, सुत्तसुद्धिया पि सुद्धिं नाह, 5
सीलसुद्धिया पि सुद्धिं नाह, वत्तसुद्धिया पि सुद्धिं नाह, मुत्तसुद्धिया पि
सुद्धिं नाह न कयेति न भणति न दीपयति न वोहरती ति - न
ब्राह्मणो अञ्जतो सुद्धिमाह दिट्ठे सुते सीलवते मुते वा ।

पुञ्जे च पापे च अनूपलित्तो ति । पुञ्जं वुच्चति यं किञ्चि
तेधातुकं कुसलाभिसङ्कारं, अपुञ्जं वुच्चति सब्बं अकुसलं । यतो 10
पुञ्जाभिसङ्कारो च अपुञ्जाभिसङ्कारो च आनेञ्जाभिसङ्कारो च
पहीना होन्ति उच्छिन्नमूला तालावत्युकता अनभावंकता आयतिं
अनुप्पादधम्मा; एत्तावता पुञ्जे च पापे च न लिम्पति न पल्लिम्पति
न उपल्लिम्पति अलित्तो अपलित्तो अनूपलित्तो निक्खन्तो निस्सटो
विप्पमुत्तो विसञ्जुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरती ति - पुञ्जे 15
च पापे च अनूपलित्तो ।

अत्तञ्जहो नयिध पकुब्बमानो ति । अत्तञ्जहो ति । अत्त-
दिट्ठिजहो । अत्तञ्जहो ति । गाहं जहो । अत्तञ्जहो ति । तण्हावसेन
दिट्ठिवसेन गहितं परामट्टं अभिनिविट्ठं अञ्जोसितं अधिमुत्तं, सब्बं R. 91
तं चत्तं होति वन्तं मुत्तं पहीनं पट्टिनिस्सट्टं । नयिध पकुब्बमानो 20
ति । पुञ्जाभिसङ्कारं वा अपुञ्जाभिसङ्कारं वा आनेञ्जाभिसङ्कार
वा अपकुब्बमानो अजनयमानो असञ्जनयमानो अनिब्बत्तयमानो
अभिनिब्बत्तयमानो ति - अत्तञ्जहो नयिध पकुब्बमानो । तेनाह
भगवा -

"न ब्राह्मणो अञ्जतो सुद्धिमाह, 25
दिट्ठे सुते सीलवते मुते वा ।
पुञ्जे च पापे च अनूपलित्तो,
अत्तञ्जहो नयिध पकुब्बमानो" ति ॥

१. नहार्यन्ति - सी०, स्या० । २-२. फुस्सवेठनं वेठेन्ति - स्या० । ३. अनभावङ्गता -
सी०, स्या० । ४ एत्तावता च - स्या० ।

B. 70

२६. पुरिमं पहाय अपरं सितासे,
 एजानुगा ते न तरन्ति सङ्गं।
 ते उग्गहायन्ति निरस्सजन्ति,
 कपी व साखं पमुञ्चं' गहाय ॥

८ पुरिमं पहाय अपरं सितासे ति। पुरिमं सत्थार पहाय परं
 सत्थारं निस्सिता; पुरिमं धम्मक्खानं पहाय अपरं धम्मक्खान
 निस्सिता; पुरिमं गणं पहाय अपरं गणं निस्सिता; पुरिमं दिट्ठि
 पहाय अपरं दिट्ठि निस्सिता; पुरिमं पटिपदं पहाय अपरं पटिपदं
 निस्सिता; पुरिम मगं पहाय अपरं मगं निस्सिता सन्निस्सिता
 १० अल्लीना उपगता अज्जोसिता अधिमुत्ता ति—पुरिमं पहाय अपरं
 सितासे।

एजानुगा ते न तरन्ति सङ्गं ति। एजा वुच्चति तण्हा। यो
 रागो सारागो. पे०.. अभिज्झा लोभो अक्रुसलमूल। एजानुगा ति।
 एजानुगा एजानुगता एजानुसटा एजाय पन्ना पत्तिता अभिभूता
 १५ परियादिन्नचित्ता। ते' न तरन्ति सङ्गं ति। रागसङ्गं दोससङ्गं
 मोहसङ्गं मानसङ्गं दिट्ठिसङ्गं किलेससङ्गं दुच्चरितसङ्गं न तरन्ति न
 उत्तरन्ति न पतरन्ति न समतिककमन्ति न वीतिवत्तन्ती ति—
 एजानुगा ते न तरन्ति सङ्गं।

ते उग्गहायन्ति निरस्सजन्ती ति। सत्थारं गणहन्ति, तं
 B. 02 २० मुञ्चित्वा अञ्ज सत्थारं गणहन्ति, धम्मक्खान गणहन्ति, तं
 मुञ्चित्वा अञ्जं धम्मक्खानं गणहन्ति; गणं गणहन्ति, तं मुञ्चित्वा
 अञ्जं गणं गणहन्ति; दिट्ठि गणहन्ति, तं मुञ्चित्वा अञ्जं दिट्ठि
 गणहन्ति, पटिपदं गणहन्ति, तं मुञ्चित्वा अञ्जं पटिपदं गणहन्ति;
 मगं गणहन्ति, तं मुञ्चित्वा अञ्जं मगं गणहन्ति, गणहन्ति च
 २५ मुञ्चन्ति च आदियन्ति च निरस्सजन्ति चा ति—ते उग्गहायन्ति
 निरस्सजन्ति।

कपी व साखं पमुञ्चं गहाया ति। यथा मक्कटो अरञ्जे
 पवने चरमानो साखं गण्हाति, तं मुञ्चित्वा अञ्जं साखं गण्हाति।*

१ पमुञ्च—सी०, स्या०; एवमुपरि पि। २. अपरं—सी०, स्या०। ३ स्या० पोत्यके
 नत्थि। *. तं मुञ्चित्वा अञ्जं साखं गण्हाती ति—सी०, स्या० पोत्यकेषु अधिको विस्सति।

एवमेव पुथुसमणब्राह्मणा पुथुदिट्ठिगतानि गण्हन्ति च मुञ्चन्ति च
आदियन्ति च निरस्सजन्ति चा ति - कपी व साखं पमुञ्चं गहाय।
तेनाह भगवा -

“पुरिमं पहाय अपरं सितासे,
एजानुगा ते न तरन्ति सङ्गं ।
ते उगहायन्ति निरस्सजन्ति,
कपी व साखं पमुञ्चं गहाया” ति ॥

5

२७. सयं समादाय वतानि जन्तु,
उच्चावचं गच्छति सञ्जसत्तो ।
विद्धा' च वेदेहि समेच्च धम्मं,
न उच्चावचं गच्छति भूरिपञ्जो ॥

B 71

10

सयं समादाय वतानि जन्तू ति । सयं समादाया ति । सामं
समादाय । वतानी ति । हत्थिवतं वा अस्सवतं वा गोवतं वा कुक्कु-
रवतं वा काकवतं वा वासुदेववतं वा बलदेववतं वा पुण्णभद्दवतं
वा मणिभद्दवतं वा अग्गिवतं वा नागवतं वा सुपण्णवतं वा यक्खवतं
वा असुरवतं वा ...पे०... दिसावतं वा आदाय समादाय आदियित्वा
समादियित्वा गण्हित्वा परामसित्वा अभिनिविसित्वा । जन्तू ति ।
सत्तो नरो...पे०... मनुजो ति - सयं समादाय वतानि जन्तु ।

15

R. 98

उच्चावचं गच्छति सञ्जसत्तो ति । सत्थारतो सत्थारं गच्छति ;
धम्मक्खानतो धम्मक्खानं गच्छति ; गणतो गणं गच्छति ; दिट्ठिया
दिट्ठि गच्छति ; पटिपदाय' पटिपदं गच्छति ; मग्गतो मग्गं गच्छति ।
सञ्जसत्तो ति । कामसञ्जाय ब्यापादसञ्जाय विहिसासञ्जाय दिट्ठि-
सञ्जाय सत्तो विसत्तो आसत्तो लग्गो लग्गितो पलिबुद्धो । यथा
भित्तिखिले' वा नागदन्ते वा भण्डं सत्तं विसत्तं आसत्तं लग्गं लग्गितं
पलिबुद्धं ; एवमेव कामसञ्जाय ब्यापादसञ्जाय विहिसासञ्जाय
दिट्ठिसञ्जाय सत्तो विसत्तो आसत्तो लग्गो लग्गितो पलिबुद्धो
ति - उच्चावचं गच्छति सञ्जसत्तो ।

20

25

१. विद्धा - स्या० ; एवमुपरि पि । २. कुक्कुरवतं - स्या० ; कुक्कुरवतं - म० । ३.
पटिपदातो - सी०, स्या० । ४. भित्तिखिले - सी०, स्या० ।

विद्वान् च वेदेहि समेच्च धम्मं ति । विद्वान् ति । विद्वान् विज्जा-
गतो वाणी विभावी^१ मेधावी । वेदेही ति । वेदा कुच्चन्ति चतूसु
मग्गेषु वाणं पञ्जा पञ्चिन्द्रियं पञ्जाबलं धम्मविचयसम्बोज्झो
वीमंसा विपस्सना सम्मादिट्ठि । तेहि वेदेहि जातिजरामरणस्स
५ अन्तगतो अन्तप्पत्तो, कोटिगतो कोटिप्पत्तो, परियन्तगतो परियन्त-
प्पत्तो, वोसानगतो वोसानप्पत्तो, ताणगतो ताणप्पत्तो, लेणगतो
लेणप्पत्तो, सरणगतो सरणप्पत्तो, अभयगतो अभयप्पत्तो, अञ्चुतगतो
अञ्चुतप्पत्तो, अमतगतो अमतप्पत्तो, निब्बानगतो निब्बानप्पत्तो ।
वेदानं वा अन्तगतो ति वेदगू, वेदेहि वा अन्तगतो ति वेदगू, सत्तन्न^२
१० वा धम्मानं^३ विदितत्ता वेदगू । सक्कायदिट्ठि विदिता होति, विचि-
किच्छा विदिता होति; सीलब्बतपरामासो विदितो होति, रागो
विदितो होति, दोसो विदितो होति, मोहो विदितो होति, मानो
विदितो होति, विदितास्स होन्ति पापका अकुसला धम्मा संकि-
लेसिका पोणोभविका सदरा दुक्खविपाका आयतिं जातिजरामरणिया ।

B. 72

१५ वेदानि विचेय्य केवलानि, (सभिया ति भगवा)
समणानं यानीधत्थि^४ ब्राह्मणानं ।
सब्बवेदनासु वीतरागो,
सब्बं वेदमत्तिच्च वेदगू सो ति ॥

R. 94

विद्वान् च वेदेहि^५ समेच्च धम्मं ति । समेच्च अभिसमेच्च
२० धम्मं । सब्बे सङ्खारा अनिच्चा ति समेच्च अभिसमेच्च धम्मं,
सब्बे सङ्खारा दुक्खा ति समेच्च अभिसमेच्च धम्मं, सब्बे धम्मा
अनत्ता ति समेच्च अभिसमेच्च धम्मं, अविज्जापच्चया सङ्खारा ति
समेच्च अभिसमेच्च धम्मं, सङ्खारपच्चया विज्जाणं ति समेच्च
अभिसमेच्च धम्मं; विज्जाणपच्चया नामरूपं ति . नामरूपपच्चया
२५ सळायत्तन ति . सळायत्तनपच्चया फस्सो ति . फस्सपच्चया वेदना
ति . वेदनापच्चया तण्हा ति ... तण्हापच्चया उपादानं ति. .. उपादान-
पच्चया भवो ति . भवपच्चया जाती ति .. जातिपच्चया जरामरणं
ति समेच्च अभिसमेच्च धम्मं; अविज्जानिरोधा सङ्खारनिरोधो ति

१ बुद्धिमा विभावी - स्या० । २-२ सत्तन्न धम्मान - स्या० । ३ यानिपत्तिव - सी०,
स्या० । ४-४ स्या० पोत्थके तत्थि ।

समेच्च अभिसमेच्च धम्मं; सङ्खारनिरोधा विञ्जाणनिरोधो ति
 समेच्च अभिसमेच्च धम्मं; विञ्जाणनिरोधा नामरूपनिरोधो ति ...
 नामरूपनिरोधा सल्लायतननिरोधो ति ... सल्लायतननिरोधा फस्स-
 निरोधो ति .. फस्सनिरोधा वेदनानिरोधो ति ... वेदनानिरोधा तण्हा-
 निरोधो ति ... तण्हानिरोधा उपादाननिरोधो ति ... उपादाननिरोधा 6
 भवनिरोधो ति ... भवनिरोधा जातिनिरोधो ति ... जातिनिरोधा जरा-
 मरणनिरोधो ति समेच्च अभिसमेच्च धम्मं; इदं दुक्खं ति समेच्च
 अभिसमेच्च धम्म, अयं दुक्खसमुदयो ति ... अयं दुक्खनिरोधो ति ...
 अयं दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा ति समेच्च अभिसमेच्च धम्मं;
 इमे आसवा ति समेच्च अभिसमेच्च धम्मं, अयं आसवसमुदयो ति ... 10
 अयं आसवनिरोधो ति ... अयं आसवनिरोधगामिनी पटिपदा ति समेच्च
 अभिसमेच्च धम्मं; इमे धम्मा अभिञ्जेय्या ति समेच्च अभिसमेच्च
 धम्मं; इमे धम्मा परिञ्जेय्या ति ... इमे धम्मा पहातब्बा ति ... इमे
 धम्मा भावेतब्बा ति इमे धम्मा सच्छिकातब्बा ति समेच्च अभि-
 समेच्च धम्मं। छन्नं फस्सायतनानं समुदयं च अत्थङ्गमं च अस्सादं 16
 च आदीनव च निस्सरणं च समेच्च अभिसमेच्च धम्मं। पञ्चन्नं
 उपादानक्खन्धान समुदयं च अत्थङ्गमं च अस्सादं च आदीनवं च
 निस्सरणं च समेच्च अभिसमेच्च धम्म। चतुन्नं महाभूतानं समुदयं 18
 च अत्थङ्गमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च समेच्च
 अभिसमेच्च धम्मं। यं किञ्चि समुदयधम्मं सब्बं तं निरोधधम्मं ति 20
 समेच्च अभिसमेच्च धम्मं ति - विद्वा च वेदेहि समेच्च धम्मं।

B. 73

R. 95

न उच्चावचं गच्छति भूरिपञ्जो ति। न सत्थारतो सत्थारं
 गच्छति, न धम्मक्खानतो धम्मक्खानं गच्छति, न गणतो गणं
 गच्छति, न दिट्ठिया दिट्ठि गच्छति, न पटिपदाय पटिपदं गच्छति,
 न भग्गतो भगं गच्छति। भूरिपञ्जो ति। भूरिपञ्जो महापञ्जो 25
 पुथुपञ्जो हासपञ्जो जवनपञ्जो तिवक्खपञ्जो निब्बेधिकपञ्जो।
 भूरि वुच्चति पथवी। ताय पथविसमाय पञ्जाय विपुलाय
 वित्थताय समन्नागतो ति - न उच्चावचं गच्छति भूरिपञ्जो।
 तेनाह भगवा -

“सयं समादाय वतानि जन्तु,
उच्चावचं गच्छति सञ्जसतो ।
विद्वा च वेदेहि समेच्च धम्मं,
न उच्चावचं गच्छति भूरिपञ्चो” ति ॥

6 २८. स सब्बधम्मेषु विसेनिभूतो,
यं किञ्चि विट्ठं व सुतं मुतं वा ।
तमेव वसिं वितटं चरन्तं,
केनोध लोकास्मिं विकप्पयेय्य ॥

स सब्बधम्मेषु विसेनिभूतो यं किञ्चि विट्ठं व सुतं मुतं वा
10 ति । सेना वुच्चति मारसेना । कायदुच्चरितं मारसेना, वचीदुच्चरितं
मारसेना, मनोदुच्चरितं मारसेना, रागो मारसेना, दोसो मारसेना,
मोहो मारसेना, कोधो मारसेना, उपनाहो .पे०...सब्बाकुसलाभि-
सङ्घारा मारसेना । वुत्तं हेतं भगवता -

R 96 “कामा ते पठमा सेना, दुतिया अरति वुच्चति ।
15 ततिया खुप्पिपासा ते, चतुत्थी तण्हा वुच्चति” ॥
B 74 “पञ्चमी” थिनमिद्धं ते, छट्ठा भीरू पवुच्चति ।
सत्तमी विचिकिच्छा ते, मक्खो थम्मो ते अट्टमो ॥ .
“लाभो सिलोको सक्कारो, मिच्छा लद्धो च यो यसो ।
यो चत्तानं समुक्कंसे, परे च अवजानति ॥
20 “एसा नमुचि ते सेना, कण्हस्साभिप्पहारिनी ।
न नं असुरो जिनाति, जेत्वा वं लभते सुख” ति ॥

यतो चतूहि अरियमग्गेहि सब्बा च मारसेना सब्बे च
पट्टिसेनिकरा किलेसा जिता च पराजिता च भग्गा विप्पल्लुग्गा
परम्मुखा, सो वुच्चति विसेनिभूतो । सो दिट्ठे विसेनिभूतो, सुते
25 विसेनिभूतो, मुते विसेनिभूतो, विञ्जाते विसेनिभूतो ति - स सब्ब-
धम्मेषु विसेनिभूतो यं किञ्चि विट्ठं व सुतं मुतं वा ।

१ लोकास्मि - म० । २ पवुच्चति - सी०, स्या० । ३ पञ्चम - स्या० । ४. व -
सी०, स्या० । ५ विप्पल्लुगा - स्या० ।

तमेव दस्सिं विवटं चरन्तं ति । तमेव सुद्धदस्सिं विसुद्धदस्सिं
 परिसुद्धदस्सिं वोदातदस्सिं' परियोदातदस्सिं । अथ वा, सुद्धदस्सनं
 विसुद्धदस्सनं परिसुद्धदस्सनं वोदातदस्सनं परियोदातदस्सनं । विवटं
 ति । तण्हाछदनं दिट्ठिछदनं किलेसछदनं दुच्चरितछदनं अविज्जाछदनं ।
 तानि छदनानि विचटानि होन्ति विद्धसितानि उग्घाटितानि' समु- 6
 ग्घाटितानि पहीनानि समुच्छिन्नानि वूपसन्तानि पटिपस्सद्धानि
 अभब्बुप्पत्तिकानि बाणगिगना दड्डानि । चरन्तं ति । चरन्तं विचरन्तं
 विहरन्तं' इरियन्तं वत्तेन्तं पालेन्तं यपेन्तं यापेन्तं ति - तमेव दस्सिं
 विवटं चरन्तं ।

केनीध लोकस्सिं विकप्पयेय्या ति । कप्पा ति । द्वे कप्पा - 10 B. 97
 तण्हाकप्पो च दिट्ठिकप्पो च ...पे०... अयं तण्हाकप्पो ...पे०... अयं
 दिट्ठिकप्पो । तस्स तण्हाकप्पो पहीनो, दिट्ठिकप्पो पटिनिस्सट्ठो ।
 तण्हाकप्पस्स पहीनत्ता दिट्ठिकप्पस्स पटिनिस्सट्ठत्ता केन रागेन
 कप्पेय्य, केन दोसेन कप्पेय्य, केन मोहेन कप्पेय्य, केन मानेन
 कप्पेय्य, काय दिट्ठिया कप्पेय्य, केन उद्धच्चेन कप्पेय्य, काय 15
 विच्चिकिञ्छाय कप्पेय्य, केहि अनुसयेहि कप्पेय्य - रत्तो ति वा दुट्ठो
 ति वा मूलहो ति वा विनिबद्धो ति वा परामट्ठो ति वा विक्खेप-
 गतो ति वा अनिट्ठङ्गतो ति वा थामगतो ति वा । ते अभिसङ्खारा
 पहीना । अभिसङ्खारानं पहीनत्ता गतियो केन कप्पेय्य - नेरयिको ति B. 96
 वा तिरच्छानयोनिको ति वा पेत्तिविसयिको ति वा मनुस्सो ति 20
 वा देवो ति वा रूपी ति वा अरूपी ति वा सञ्जी ति वा असञ्जी
 ति वा नेवसञ्जीनासञ्जी ति वा । सो हेतु नत्थि, पच्चयो नत्थि,
 कारणं नत्थि, येन कप्पेय्य विकप्पेय्य विकप्पं आपज्जेय्य । लोकस्सिं
 ति । अपायलोके मनुस्सलोके देवलोके खन्धलोके घातुलोके आयतन-
 लोके ति - केनीध लोकस्सिं विकप्पयेय्य । तेनाह भगवा - 26

“स सब्बधम्मेषु विसेनिभूतो,
 यं किञ्चिद्विद्वं व सुतं मुतं वा ।
 तमेव दस्सिं विवटं चरन्तं,
 केनीध लोकस्सिं विकप्पयेय्या” ति ॥

१ बोधानदस्सि - सी०, स्या० । २. उग्घाटितानि - स्या० । ३. सी०, स्या० पोत्थ-
 केसु नत्थि ।

२९. न- कप्पयन्ति न पुरेक्खरोन्ति,
अच्चन्तसुद्धी ति न ते वदन्ति ।
आदानगन्थं गथितं विसज्ज,
आसं न कुब्बन्ति कुहिञ्च लोके ॥

४ न कप्पयन्ति न पुरेक्खरोन्ती ति । कप्पा ति । द्वे कप्पा -
तण्हाकप्पो च दिट्ठिकप्पो च ... पे० ... अयं तण्हाकप्पो ... पे०... अयं
दिट्ठिकप्पो । तेसं तण्हाकप्पो पहीनो, दिट्ठिकप्पो पटिनिस्सट्ठो ।
तण्हाकप्पस्स पहीनत्ता, दिट्ठिकप्पस्स पटिनिस्सट्ठत्ता तण्हाकप्पं वा
दिट्ठिकप्पं वा न कप्पेन्ति न जनेन्ति न सञ्जनेन्ति न निब्बत्तेन्ति
१० नाभिनिब्बत्तेन्ती ति - न कप्पयन्ति । न पुरेक्खरोन्ती ति । पुरेक्खारा
ति । द्वे पुरेक्खारा - तण्हापुरेक्खारो च दिट्ठिपुरेक्खारो च ... पे० .
अयं तण्हापुरेक्खारो...पे०...अयं दिट्ठिपुरेक्खारो । तेस तण्हापुरेक्खारो
पहीनो, दिट्ठिपुरेक्खारो पटिनिस्सट्ठो । तण्हापुरेक्खारस्स पहीनत्ता,
दिट्ठिपुरेक्खारस्स पटिनिस्सट्ठत्ता न तण्हं वा न दिट्ठि वा पुरतो कत्वा
१६ चरन्ति, न तण्हाघजा न तण्हाकेतू न तण्हाधिपतेय्या, न दिट्ठिघजा'
न दिट्ठिकेतू न दिट्ठाधिपतेय्या, न तण्हाय वा न दिट्ठिया वा परि-
वारिता चरन्ती ति - न कप्पयन्ति न पुरेक्खरोन्ति ।

अच्चन्तसुद्धी ति न ते वदन्ती ति । अच्चन्तसुद्धि संसारसुद्धि
अकिरियदिट्ठि' सस्सतवादं न वदन्ति न कथेन्ति न भणन्ति न
२० दीपयन्ति न बोहरन्ती ति - अच्चन्तसुद्धी ति न ते वदन्ति ।

आदानगन्थं गथितं विसज्जा ति । गन्था ति । चत्तारो
गन्था - अभिज्झा कायगन्थो, ब्यापादो कायगन्थो, सीलब्बतपरामासो
कायगन्थो, इदंसच्चाभिनिर्वेसो कायगन्थो । अत्तनो दिट्ठिया रागो
अभिज्झा कायगन्थो; परवादेसु आघातो अप्पच्चयो ब्यापादो काय-
२५ गन्थो; अत्तनो सीलं वा वत वा सीलवत वा परामसन्ती' ति
सीलब्बतपरामासो कायगन्थो, अत्तनो दिट्ठि इदसच्चाभिनिर्वेसो
कायगन्थो । किकारणा वुच्चति' आदानगन्थो? तेहि गन्थेहि रूप
आदियन्ति उपादियन्ति गण्हन्ति परामसन्ति अभिनिविसन्ति;

१. दिट्ठिज्जा - स्या० । २. अकिरियसुद्धि - स्या० । ३. परामसति - स्या० । ४.
वुच्चन्ति - स्या० ।

वेदनं ... सञ्जं ... सञ्कारे ... विञ्जाणं .. गतिं ... उपपत्तिं ... पटिसन्धिं ...
 भवं .. संसारवट्टं आदियन्ति उपादियन्ति गण्हन्ति परामसन्ति अभि-
 निविसन्ति । तंकारणा वुच्चति आदानगन्थो । विसज्जा ति । गन्थे
 वोसज्जित्वा वा—विसज्ज । अय वा, गन्थे गधिते' गन्थिते बन्धे
 विबन्धे आबन्धे लग्गे लग्गिते पलिबुद्धे बन्धने पोटयित्वा' —विसज्ज । 5
 यथा वय्हं वा रथं वा सकटं वा सन्दमानिकं वा सज्जं विसज्जं
 करोन्ति विकोपेन्ति; एवमेव गन्थे वोसज्जित्वा — विसज्ज । अथ वा,
 गन्थे गधिते गन्थिते बन्धे विबन्धे आबन्धे लग्गे लग्गिते पलिबुद्धे
 बन्धने पोटयित्वा विसज्जां ति—आदानगन्थं गधितं विसज्ज ।

आसं न कुब्बन्ति कुहिञ्चि लोके ति । आसा वुच्चति 10
 तण्हा । यो रागो सारागो...पे०... अभिज्झा लोभो अकुसलमूलं ।
 आसं न कुब्बन्ती ति । आसं न कुब्बन्ति न जनेन्ति न सञ्जनेन्ति
 न निब्बत्तेन्ति न अभिनिब्बत्तेन्ति । कुहिञ्ची ति । कुहिञ्चि
 किम्हिञ्चि कत्थञ्चि अज्झत्तं वा वहिद्धा वा अज्झत्तवहिद्धा वा ।
 लोके ति । अपायलोके ...पे०... आयतनलोके ति — आसं न कुब्बन्ति 16
 कुहिञ्चि लोके । तेनाह भगवा —

“न कप्पयन्ति न पुरेक्खरोन्ति,
 अच्चन्तसुद्धी ति न ते वदन्ति ।
 आदानगन्थं गधितं विसज्ज,
 आसं न कुब्बन्ति कुहिञ्चि लोके” ति ॥ 20.

३०. सीमातिगो' ब्राह्मणो तस्स नत्थि,
 अत्वा च दिस्वा च समुग्गहीतं ।
 न रागरागी न विरागरत्तो,
 तस्सीधं नत्थि परमुग्गहीतं ॥

सीमातिगो ब्राह्मणो तस्स नत्थि अत्वा च दिस्वा च 25 B. 77
 समुग्गहीतं ति । सीमा ति । चतस्सो सीमायो — सक्कायदिट्ठि,
 विचिकिञ्छा, सीलव्वत्परामासो, दिट्ठानुसयो, विचिकिञ्छा-
 नुसयो, तदेकट्ठा चं किलेसां—अयं पठमा सीमा । ओळारिकं

१. गधिते—सी०, स्या० । २. पोटयित्वा—स्या०; पीठयित्वा—सी० । ३. सीमा-
 तितो—स्या०; एवमुपरि पि । ४. तस्सीधं—स्या० ।

३. 100

- कामरागसञ्जोजनं, पटिघसञ्जोजनं, ओळारिको कामरागानुसयो, पटिधानुसयो, तदेकट्टा च किलेसा - अयं दुतिया सीमा । अनुसहगत कामरागसञ्जोजनं, पटिघसञ्जोजनं, अनुसहगतो कामरागानुसयो, पटिधानुसयो, तदेकट्टा च किलेसा - अयं ततिया सीमा । रूपरागो
- ५ अरूपरागो मानो उद्धच्चं अविज्जा, मानानुसयो भवरागानुसयो अविज्जानुसयो, तदेकट्टा च किलेसा - अयं चतुत्था सीमा । यतो च' चतूहि अरियमग्गेहि इमा चतस्सो सीमायो अतिक्कन्तो होति समतिक्कन्तो वीतिवत्तो, सो वुच्चति सीमातिगो । ब्राह्मणो ति । सत्तन्नं धम्मामं बाहितत्ता ब्राह्मणो - सक्कायदिट्ठि बाहिता होति,
- १० विचिकिच्छा बाहिता होति, सीलम्बतपरामासो बाहितो होति ... पे०... असितो' तादि पवुच्चते स ब्रह्मा । तस्सा ति । अरह्तो खीणासवस्स ।

- अत्वा ति । परचित्तवाणेन वा अत्वा पुब्बेनिवासानुस्सति-वाणेन वा अत्वा । दिस्वा ति । मंसचक्खुना वा दिस्वा दिव्वचक्खुना
- १५ वा दिस्वा । सीमातिगो ब्राह्मणो तस्स नत्थि अत्वा च दिस्वा च समुग्गहीतं ति । तस्स इदं परमं अगं सेट्ठं विसिट्ठ पामोक्ख उत्तम पवरं ति गहितं परामट्ठं अभिनिविट्ठं अज्झोसितं अधिमुत्तं नत्थि' न सन्ति' न संबिज्जति नुपलम्भति, पहीनं समुच्छिन्नं वूपसन्त पटि-पत्सद्धं अभम्बुप्पत्तिकं वाणग्गिना दट्ठं ति - सीमातिगो ब्राह्मणो तस्स
- २० नत्थि अत्वा च दिस्वा च समुग्गहीतं ।

- न रागरागी न विरागरत्तो ति । रागरत्ता वुच्चन्ति - ये पञ्चसु कामगुणेषु रत्ता गिद्धा गधिता मुच्छिता अज्झोसन्ना' लग्गा लग्गिता पल्लिबुद्धा । विरागरत्ता वुच्चन्ति - ये रूपावचरअरूपावचर-समापत्तीसु रत्ता गिद्धा गधिता मुच्छिता अज्झोसन्ना लग्गा लग्गिता
- २५ पल्लिबुद्धा । न रागरागी न विरागरत्तो ति । यतो कामरागो च रूपरागो च अरूपरागो च पहीना होन्ति उच्छिन्नमूला तालावत्थु-कत्ता अनभावकता' आयतिं अनुप्पादधम्मा । एत्तावता न रागरागी न विरागरत्तो ।

१. स्या० पोत्थके नत्थि । २ अनित्थितो - स्या० । ३-३ नत्थी ति नत्थि - स्या० ।
४ अज्झोपन्ना - सी०, स्या० । ५ अनभावकता - सी०, अनभावकता - स्या० ।

तस्सीध नत्थि परमुग्गहीतं ति । तस्सा ति । अरहतो खीणा-
 सवस्स । तस्स इदं परमं अगं सेट्ठं विसिट्ठं पामोक्खं उत्तमं पवरं ति
 गहितं परामट्ठं अभिनिविट्ठं अज्झोसितं अधिमुत्तं नत्थि न सन्ति न संवि-
 ज्जति नुपलब्भति, पहीनं समुच्छिन्नं वूपसन्तं पटिपस्सद्धं अभव्वुप्पत्तिकं
 आणग्गिना दड्ढं ति - तस्सीध नत्थि परमुग्गहीतं । तेनाह भगवा - 6

B. 78

R 101

“सीमातिगो ब्राह्मणो तस्स नत्थि,
 अत्वा च दिस्वा च समुग्गहीतं ।
 न रागरागी न विरागरत्तो,
 तस्सीध नत्थि परमुग्गहीतं” ति ॥

सुद्धद्वकसुत्तनिर्देशो चतुत्थो ।

५. परमद्वकसुत्तनिर्देशो

अथ^१ परमद्वकसुत्तनिर्देशं वक्खति^१ -

10

३१. परमं ति दिट्ठीसु परिब्बसानो,
 यदुत्तरिं कुरुते जन्तु लोके ।
 हीना ति अञ्जे ततो सब्बमाह,
 तस्मा विवादानि अवीतिवत्तो ॥

R 102

परमं ति दिट्ठीसु परिब्बसानो ति । सन्तेके समणब्राह्मणा दिट्ठि-
 गतिका । ते द्वासट्ठिया दिट्ठिगतानं अञ्जतरञ्जतरं दिट्ठिगतं “इदं परमं
 अगं सेट्ठं विसिट्ठं पामोक्खं उत्तमं पवरं” ति गहेत्वा उग्गहेत्वा गण्हित्वा
 परामसित्वा अभिनिविसित्वा सकाय सकाय दिट्ठिया वसन्ति पवसन्ति^१
 आवसन्ति परिवसन्ति । यथा आगारिका वा घरेसु वसन्ति, सापत्तिका
 वा आपत्तीसु वसन्ति, सकिलेसा वा किलेसेसु वसन्ति; एवमेव सन्तेके
 समणब्राह्मणा दिट्ठिगतिका । ते द्वासट्ठिया दिट्ठिगतानं अञ्जतरञ्जतरं
 दिट्ठिगतं “इदं परमं अगं सेट्ठं विसिट्ठं पामोक्खं उत्तमं पवरं” ति
 गहेत्वा उग्गहेत्वा गण्हित्वा परामसित्वा अभिनिविसित्वा सकाय सकाय
 दिट्ठिया वसन्ति पवसन्ति आवसन्ति परिवसन्ती ति - परमं ति दिट्ठीसु
 परिब्बसानो ।

15

20

25

१-१ स्या० पोत्थके न दिस्सति । २. सी० पोत्थके नत्थि, सवसन्ति - स्या० ।

B. 79

R. 103

यदुत्तरिं कुस्ते जन्तु लोके ति । यदं ति । यं । उत्तरिं कुस्ते ति ।
 उत्तरिं करोति, अगं सेट्टं विसिट्टं पामोक्खं उत्तमं पवरं करोति “अयं
 सत्था सब्बञ्जू” ति उत्तरिं करोति, अगं सेट्टं विसिट्टं पामोक्खं उत्तमं
 पवरं करोति । “अयं धम्मो स्वाक्खातो ... अयं गणो सुप्पटिपन्नो ... अयं
 5 दिट्ठि भद्दिका ... अयं पटिपदा सुपञ्जत्ता ... अयं मग्गो निय्यानिको” ति
 उत्तरिं करोति, अगं सेट्टं विसिट्टं पामोक्खं उत्तमं पवरं करोति
 निब्बत्तेति अभिनिब्बत्तेति । जन्तू ति । सत्तो नरो .. पे०... मनुजो ।
 लोके ति । अपायलोके .. पे०... आयत्तलोके ति - यदुत्तरिं कुस्ते
 जन्तु लोके ।

10 हीना ति अञ्जे ततो सब्बमाहा ति । अत्तनो सत्थार धम्मक्खानं
 गणं दिट्ठि पटिपदं मगं ठपेत्वा सब्बे परप्पवादे खिपति उक्खिपति परि-
 क्खिपति । “सो सत्था न सब्बञ्जू, धम्मो न स्वाक्खातो, गणो न सुप्पटि-
 पन्नो”, दिट्ठि न भद्दिका, पटिपदा न सुपञ्जत्ता, मग्गो न निय्यानिको,
 नत्थेत्य सुद्धि वा विसुद्धि वा परिसुद्धि वा मुत्ति वा विमुत्ति वा परिमुत्ति
 15 वा, नत्थेत्य सुज्झन्ति वा विसुज्झन्ति वा परिसुज्झन्ति वा मुच्चन्ति वा
 विमुच्चन्ति वा परिमुच्चन्ति वा, हीना निहीना ओमका लामका छतुक्का
 परित्ता” ति एवमाह एवं कथेति एवं भणति एवं दीपयति एवं बोहरती
 ति - हीना ति अञ्जे ततो सब्बमाह ।

तस्मा विवादानि अवीतिवत्तो ति । तस्मा ति । तंकारणा
 20 तंहेतु तप्पच्चया तनिदाना । विवादानो ति । दिट्ठिकलहानि दिट्ठि-
 भण्डनानि दिट्ठिविग्गहानि दिट्ठिविवादानि दिट्ठिमेघगानि च । अवीति-
 वत्तो ति । अनतिक्कन्तो असमतिक्कन्तो अवीतिवत्तो ति - तस्मा
 विवादानि अवीतिवत्तो । तेनाह भगवा -

“परमं ति दिट्ठिसु परिब्बसानो,
 25 यदुत्तरिं कुस्ते जन्तु लोके ।
 हीना ति अञ्जे ततो सब्बमाह,
 तस्मा विवादानि अवीतिवत्तो” ति ॥

१ सुपटिपन्नो - सी०, स्या० । २-२. स्या० पोत्यके नत्थि । ३. सी०, स्या० पोत्यकेणु
 नत्थि ।

३२. यदत्तनी पस्सति आनिसंसं,
दिट्ठे सुते सीलवते मुते वा ।
तदेव सो तत्थ समुग्गाहाय,
निहीनतो पस्सति सब्बमञ्जं ॥

B. 104

यदत्तनी पस्सति आनिसंसं दिट्ठे सुते सीलवते मुते वा ति । 5 P. 80
यदत्तनी ति । यं अत्तनि । अत्ता वुच्चति दिट्ठिगतं । अत्तनो दिट्ठिया द्वे
आनिसंसो पस्सति — दिट्ठधम्मिकं च आनिसंसं, सम्परायिकं च आनिसंसं ।
कतमो दिट्ठिया दिट्ठधम्मिको आनिसंसो ? यंदिट्ठिको सत्था होति, तंदि-
ट्ठिका सावका होन्ति । तंदिट्ठिकं सत्थारं सावका सक्करोन्ति गरं करोन्ति
मानेन्ति पूजेन्ति, लभति च ततोनिदानं चीवरपिण्डपातसेनासनगिलान- 10
पच्चयभेसज्जपरिक्खारं । अयं दिट्ठिया दिट्ठधम्मिको आनिसंसो । कतमो
दिट्ठिया सम्परायिको आनिसंसो ? “अयं दिट्ठि अलं नागत्ताय वा
सुपण्णत्ताय वा थक्खत्ताय वा असुरत्ताय वा गन्धब्बत्ताय वा महाराज-
त्ताय वा इन्दत्ताय वा ब्रह्मत्ताय वा देवत्ताय वा, अयं दिट्ठि अलं सुद्धिया
विसुद्धिया परिसुद्धिया मुत्तिया विमुत्तिया परिमुत्तिया; इमाय दिट्ठिया 16
सुज्भन्ति विसुज्भन्ति परिसुज्भन्ति मुच्चन्ति विमुच्चन्ति परिमुच्चन्ति;
इमाय दिट्ठिया सुज्भत्सामि विसुज्भत्सामि परिसुज्भत्सामि मुच्चि-
त्सामि विमुच्चित्सामि परिमुच्चित्सामि” आर्याति फलपाटिकाङ्घी होति ।
अयं दिट्ठिया सम्परायिको आनिसंसो । अत्तनो दिट्ठिया इमे द्वे आनिसंसे
पस्सति, दिट्ठसुद्धिया पि द्वे आनिसंसे पस्सति, सुतसुद्धिया पि द्वे आनिसंसे 20
पस्सति, सीलसुद्धिया पि द्वे आनिसंसे पस्सति, वतसुद्धिया पि द्वे आनिसंसे
पस्सति, मुतसुद्धिया पि द्वे आनिसंसे पस्सति — दिट्ठधम्मिकं च आनिसंसं
सम्परायिकं च आनिसंसं । कतमो मुतसुद्धिया दिट्ठधम्मिको आनिसंसो ?
यदिट्ठिको सत्था होति तंदिट्ठिका सावका होन्ति ...पे०... अयं मुतसुद्धिया
दिट्ठधम्मिको आनिसंसो । कतमो मुतसुद्धिया सम्परायिको आनिसंसो ? 25 R. 105
अयं दिट्ठि अलं नागत्ताय वा .. पे० ... अयं मुतसुद्धिया सम्परायिको
आनिसंसो । मुतसुद्धिया पि इमे द्वे आनिसंसे पस्सति दक्खति ओलोकेंति
निज्झायति उपपरिक्खती ति — यदत्तनी पस्सति आनिसंसं दिट्ठे सुते
सीलवते मुते वा ।

तदेव सो तत्थ समुग्गहाया ति । तदेवा ति । तं दिट्ठिगतं ।
तत्था ति । सकाय दिट्ठिया सकाय खन्तिया सकाय रच्चिया सकाय
लाद्धया । समुग्गहाया ति । इदं परमं अग्ग सेट्ठं विसिट्ठं पामोक्खं
उत्तम पवरं ति गहेत्वा उग्गहेत्वा गण्हित्वा परामसित्वा अभिनिवि-
5 सित्वा ति - तदेव सो तत्थ समुग्गहाय ।

B. 81

निहीनतो पस्सति सब्बमञ्जं ति । अञ्ज सत्थार धम्मक्खानं
गण दिट्ठि पटिपद मग्गं हीनतो निहीनतो ओमकतो लामकतो छतुनकतो
परित्ततो विस्सति पस्सति दक्खति ओलोकेति निज्झायति उपपरि-
क्खती ति - निहीनतो पस्सति सब्बमञ्जं । तेनाह भगवा -

10 "यदत्तनी पस्सति आनिसंसं,
दिट्ठे सुते सीलवते मुते वा ।
तदेव सो तत्थ समुग्गहाय,
निहीनतो पस्सति सब्बमञ्जं" ति ॥

15 ३३. तं वा' पि' गन्थं कुसला वदन्ति,
यं निस्सितो पस्सति हीनमञ्जं ।
तस्मा हि दिट्ठं व सुतं सुतं वा,
सीलब्बतं भिक्खु न निस्सयेथ्य ॥

R. 100

तं वा पि गन्थं कुसला वदन्ती ति । कुसला ति । ये ते खन्ध-
कुसला धातुकुसला आयतनकुसला पटिच्चसमुप्पादकुसला सतिपट्टान-
20 कुसला सम्मप्यघानकुसला इट्ठिपादकुसला इन्द्रियकुसला बलकुसला
बोज्झङ्गकुसला मग्गकुसला फलकुसला निब्बानकुसला, ते कुसला एव
वदन्ति - "गन्थो एसो, लग्गन' एत, बन्धनं एत, पल्लिबोवो एसो" ति ।
एव वदन्ति एवं कथेन्ति एव भणन्ति एवं दीपयन्ति एव वोहरन्ती
ति - तं वा पि गन्थं कुसला वदन्ति ।

20 यं निस्सितो पस्सति हीनमञ्जं ति । यं निस्सितो ति । यं
सत्थार धम्मक्खानं गणं दिट्ठि पटिपदं अग्ग निस्सितो सन्निस्सितो अल्लीनो
उपगतो अज्झोसितो अधिमुत्तो । पस्सति हीनमञ्जं ति । अञ्जं सत्थारं
धम्मक्खान गणं दिट्ठि पटिपदं मग्गं हीनतो निहीनतो ओमकतो लामकतो

छतुककतो परित्ततो दिस्सति^१ पस्सति दक्खति ओलोकेति निज्झायति
उपनिज्झायति^२ उपपरिक्खती ति - यं निस्सितो पस्सति हीनमञ्जं ।

तस्मा हि दिट्ठं व सुत्तं मुत्तं वा सीलब्बतं भिक्खु न निस्सयेय्या
ति । तस्मा ति । तस्मा तंकारणा तंहेतु तप्पच्चया तंनिदाना दिट्ठं वा
दिट्ठसुद्धिं वा सुत्तं वा सुत्तसुद्धिं वा मुत्तं वा मुत्तसुद्धिं वा सीलं वा सीलसुद्धिं 5
वा वत्तं वा वत्तसुद्धिं वा न निस्सयेय्य न गण्हेय्य न परामसेय्य नाभिनिवि-
सेय्या ति - तस्मा हि दिट्ठं व सुत्तं मुत्तं वा सीलब्बतं भिक्खु न निस्सयेय्य ।
तेनाह भगवा -

“तं वा पि गन्थं कुसला वदन्ति,
यं निस्सितो पस्सति हीनमञ्जं ।
तस्मा हि दिट्ठं व सुत्तं मुत्तं वा,
सीलब्बतं भिक्खु न निस्सयेय्या” ति ॥

३४. दिट्ठिं पि लोकस्मिं न कप्पयेय्य,
ब्राणेन वा सीलवत्तेन वा पि ।
समो ति अत्तानमनूपनेय्य,
हीनो न मञ्जेथ विसैसि वा पि ॥

दिट्ठिं पि लोकस्मिं न कप्पयेय्य ब्राणेन वा सीलवत्तेन वा पी
ति । अट्ठसमापत्तिब्राणेन वा पञ्चाभिञ्जाब्राणेन वा मिञ्चाब्राणेन वा,
सीलेन वा वत्तेन वा सीलवत्तेन वा दिट्ठिं न कप्पयेय्य न जनेय्य न
सञ्जनेय्य न निव्वत्तेय्य न अभिनिव्वत्तेय्य । लोकस्मिं ति । अपाय-
लोके ...पे०... आयत्तनलोके ति - दिट्ठिं पि लोकस्मिं न कप्पयेय्य ब्राणेन
वा सीलवत्तेन वा पि ।

समो ति अत्तानमनूपनेय्या ति । सदिसोहमस्मी ति अत्तानं न
उपनेय्य जातिया वा गोत्तेन वा कोलपुत्तियेन वा वण्णपोक्खरताय वा
धनेन वा अज्जेनेन वा कम्मयायत्तनेन वा सिप्पायत्तनेन वा विज्जाट्टानेन 25
वा सुत्तेन वा पट्टिभानेन वा अञ्जतरञ्जतरेन वा वत्थुना ति - समो
ति अत्तानमनूपनेय्य ।

१ स्या० पोत्थके नत्थि । २ स्या० पोत्थके न दिस्सति ।

हीनो न मञ्जेथ विसेसि वा पी ति । हीनोहमस्मी ति अत्तानं न
उपनेय्य^१ जातिया वा गोत्तेन वा ...पे०... अञ्जतरञ्जतरेन वा बत्थुना ।
सेय्योहमस्मी ति अत्तानं न उपनेय्य जातिया वा गोत्तेन वा ..पे०...
अञ्जतरञ्जतरेन वा बत्थुना ति - हीनो न मञ्जेथ विसेसि वा पि ।

५ तेनाह भगवा -

B. 83

“दिट्ठि पि लोकास्मि न कप्पयेय्य,
आणेन वा सीलवतेन वा पि ।
समो ति अत्तानमनूपनेय्य,
हीनो न मञ्जेथ विसेसि वा पी” ति ॥

10

३५. अत्तं पहाय अनुपादियानो,
आणेन^२ पि सो निस्सयं^३ नो करोति ।
स वे वियत्तेसु न वग्गसारी,
दिट्ठि पि सो न पच्चेति किञ्चि ॥

B. 108

अत्तं पहाय अनुपादियानो ति । अत्तं पहाया ति । अत्तदिट्ठि
१५ पहाय । अत्तं पहाया ति । गाहं^४ पहाय । अत्तं पहाया ति । तण्हावसेन
दिट्ठिवसेन गहितं परामट्ट अभिनिविट्ठं अज्झोसितं अधिमुत्तं पहाय
पजहित्वा विनोदेत्वा^५ व्यन्ति करित्वा^६ अनभावं गमेत्वा ति - अत्तं
पहाय । अनुपादियानो ति । चतूहि उपादानेहि अनुपादियमानो अगण्ह-
मानो अपरामासमानो अनभिनिविसमानो ति - अत्त पहाय अनुपादि-
२० यानो ।

आणेन पि सो निस्सयं नो करोती ति । अट्टसमापत्तिआणेन वा
पञ्चाभिञ्जाआणेन वा मिञ्छाआणेन वा तण्हानिस्सयं वा दिट्ठिनिस्सय
वा न करोति न जनेति न सञ्जनेति न निब्बत्तेति न अभिनिब्बत्तेती
ति - आणेन पि सो निस्सयं नो करोति ।

२५

स वे वियत्तेसु न वग्गसारी ति । स वे वियत्तेसु^७ भिन्नेसु
द्वेज्जापन्नेसु द्वेज्जकजातेसु नानादिट्ठिकेसु नानाखन्तिकेसु नानारचिकेसु
नानालद्धिकेसु नानादिट्ठिनिस्सय निस्सतेसु छन्दागति गच्छन्तेसु दोसा-
गति गच्छन्तेसु मोहागति गच्छन्तेसु भयागति गच्छन्तेसु न छन्दागति

१ उपनेय्य - सी० । २. आणे - स्या० । ३ निस्सयं - स्या० । ४ अत्तगाह -
सी० । ५. विनोदयित्वा - सी० । ६-६ व्यन्तीकत्वा - स्या० । ७. ववत्थित्तसु - स्या० ।

गच्छति न दोषार्गतिं गच्छति न मोहार्गतिं गच्छति न भयार्गतिं गच्छति
 न रागवसेन गच्छति न दोषवसेन गच्छति न मोहवसेन गच्छति न
 मानवसेन गच्छति न दिट्टिवसेन गच्छति न उद्धञ्चवसेन गच्छति
 न विचिकिच्छावसेन गच्छति न अनुसयवसेन गच्छति न वग्गेहि
 धम्मेहि यायति निव्यति^१ वुहति संहरीयतीति - स वे वियत्तेसु न
 वग्गसारी । 5

दिट्ठिं पि सो न पच्चेति किञ्चीति । तस्स द्वासट्ठिं दिट्ठिगतानि
 पहीनानि समुच्छिन्नानि वूपसन्तानि पटिपस्सद्धानि अभब्बुप्पत्तिकानि
 वाणभिगना दङ्गानि । सो किञ्चिं दिट्ठिगतं न पच्चेति न पच्चागच्छती
 ति - दिट्ठिं पि सो न पच्चेति किञ्चिं । तेनाह भगवा - 10

“अत्तं पहाय अनुपादियानो,
 आणेन पि सो निस्सयं नो करोति ।
 स वे वियत्तेसु न वग्गसारी,
 दिट्ठिं पि सो न पच्चेति किञ्ची” ति ॥

३६. यस्सूभयन्ते पणिघीघ नत्थि,
 भवाभवाय इध वा हुरं वा ।
 निवेसना तस्स न सन्ति केचि,
 धम्मेसु निच्छेय्य समुग्गहीतं ॥ 15 E. 109

यस्सूभयन्ते पणिघीघ नत्थि भवाभवाय इध वा हुरं वा ति ।
 यस्सा ति । अरहतो खीणासवस्स । अन्तो^२ ति । फस्सो एको अन्तो,
 फस्ससमुदयो दुतियो अन्तो; अतीतो^३ एको अन्तो, अनागतो दुतियो
 अन्तो; सुखा वेदना एको अन्तो, दुक्खा वेदना दुतियो अन्तो; नामं एको
 अन्तो, रूपं दुतियो अन्तो; छ अज्झत्तिकानि आयतनानि एको अन्तो, छ
 बाहिरानि आयतनानि दुतियो अन्तो; सक्कायो एको अन्तो, सक्काय-
 समुदयो दुतियो अन्तो । पणिघि वुच्चति तण्हा । यो रागो सारागो 20
 ...पे०... अभिज्झा लोभो अकुसलमूलं ।

भवाभवाया ति । भवाभवाय कम्मभवाय पुनब्भवाय काम-
 भवाय, कम्मभवाय कामभवाय पुनब्भवाय रूपभवाय, कम्मभवाय रूप-

१ निव्यायति - स्या० । २ अन्ता - स्या० । ३ अतीतं - स्या० ।

- भवाय पुनर्भवाय अरूपभवाय, कम्मभवाय अरूपभवाय पुनर्भवाय पुन-
 पुनभवाय पुनपुनगतिया पुनपुनउपपत्तिया पुनपुनपटिसन्धिया पुन-
 पुनअत्तभावाभिनिब्बत्तिया। इधा ति। सकत्तभावो। हुरा ति। परत्त-
 भावो। इधा ति। सकरूपवेदनासञ्जासङ्खारविञ्जाणं। हुरा ति। पर-
 5 रूपवेदनासञ्जासङ्खारविञ्जाणं। इधा ति। छ अज्झत्तिकानि आयत-
 नानि। हुरा ति। छ बाहिरानि आयतनानि। इधा ति। मनुस्सलोको।
 B. 85 हुरा ति। देवलोको। इधा ति। कामघातु। हुरा ति। रूपघातु अरूपघातु।
 इधा ति। कामघातु रूपघातु। हुरा ति। अरूपघातु। यस्सूभयन्ते पणिघीघ
 नत्थि भवाभवाय इध वा हुरं वा ति। यस्स उभो अन्ते च भवाभवाय च
 10 इध हुरं च पणिघि तण्हा नत्थि न सन्ति न संविज्जन्ति नुपलब्भन्ति^१,
 R. 110 पहीना समुच्छिन्ना वूपसन्ता पटिपस्सद्धा अभब्बुप्पत्तिका आणगिगना
 दद्धा ति - यस्सूभयन्ते पणिघीघ नत्थि भवाभवाय इध वा हुरं वा।

निवेसना तस्स न सन्ति केची ति। निवेसना ति। द्वे निवेसना -
 तण्हानिवेसना च दिट्ठिनिवेसना च...पे० ..अयं तण्हानिवेसना ..पे०...अयं
 15 दिट्ठिनिवेसना। तस्सा ति। अरहतो खीणासवस्स। निवेसना तस्स न सन्ति
 केची ति। निवेसना तस्स न सन्ति केचि नत्थि न सन्ति न संविज्जन्ति
 नुपलब्भन्ति, पहीना समुच्छिन्ना वूपसन्ता पटिपस्सद्धा अभब्बुप्पत्तिका
 आणगिगना दद्धा ति - निवेसना तस्स न सन्ति केचि।

धम्मसेसु निच्छेय्य समुग्गाहीतं ति। धम्मसेसु ति। द्वासट्ठिया दिट्ठि-
 20 गतेसु। निच्छेय्या ति। निच्छित्त्वा विनिच्छित्त्वा विचिन्त्वा पवि-
 चिन्त्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा। समुग्गाहीतं^१
 ति^१। ओधिग्गाहो बिलग्गाहो वरग्गाहो कोट्टासग्गाहो उच्चयग्गाहो समु-
 च्चयग्गाहो, "इदं सच्चं तच्छं तथं भूतं याथावं अविपरीतं" ति गहितं
 परामट्ठं अभिनिविट्ठं अज्झोसितं अधिमुत्तं नत्थि न सन्ति न संविज्जन्ति
 25 नुपलब्भन्ति, पहीनं समुच्छिन्नं वूपसन्तं पटिपस्सद्धं अभब्बुप्पत्तिकं आण-
 गिगना दद्धं ति - धम्मसेसु निच्छेय्य समुग्गाहीतं। तेनाह भगवा -

"यस्सूभयन्ते पणिघीघ नत्थि,
 भवाभवाय इध वा हुरं वा।

१. नुपलब्भन्ति - सी०; एवमुपरि पि। २-२ स्या० पोत्यके न विस्सति।

निवेशना तस्स न सन्ति केचि,
धम्मसे सु निच्छेय्य समुग्गहीतं" ति ॥

३७. तस्सीध दिट्ठे व सुते मुते वा,
पकप्पिता नत्थि अणू पि सञ्जा ।
तं ब्राह्मणं दिट्ठिमनादियानं,
केनीध लोकास्मि' विकप्पयेय्य ॥

तस्सीध दिट्ठे व सुते मुते वा पकप्पिता नत्थि अणू पि सञ्जा ति ।
तस्सा ति । अरहतो खीणासवस्स । तस्स दिट्ठे वा दिट्ठसुद्धिया वा सुते
वा सुतसुद्धिया वा मुते वा मुतसुद्धिया वा सञ्जापुब्बङ्गमता सञ्जाविक-
प्पयेय्यता' सञ्जाविग्गहेन सञ्जाय उट्ठपिता' समुद्धपिता' कप्पिता पक-
प्पिता सङ्घता अभिसङ्घता सण्ठपिता, दिट्ठि नत्थि न सन्ति न संविज्जन्ति
नुपलब्भन्ति, पहीना समुच्छिन्ना वूपसन्ता पटिपस्सद्धा अभब्बुप्पत्तिका
आणग्गिना दङ्गा ति - तस्सीध दिट्ठे व सुते मुते वा पकप्पिता नत्थि
अणू पि सञ्जा ।

तं ब्राह्मणं दिट्ठिमनादियानं ति । ब्राह्मणो ति । सत्तन्नं धम्मानं
बाहितत्ता ब्राह्मणो - सक्कायदिट्ठि बाहिता होति ...पे०... असितो तादि
पवुच्चते स ब्रह्मा । तं ब्राह्मणं दिट्ठिमनादियानं ति । तं ब्राह्मणं दिट्ठिमना-
दियन्तं अगण्हन्तं अपरामसन्तं अनभिनिसन्तं ति - तं ब्राह्मणं दिट्ठिमना-
दियानं ।

केनीध लोकास्मि विकप्पयेय्या ति । कप्पा ति । द्वे कप्पा - तण्हा-
कप्पो च दिट्ठिकप्पो च ...पे०... अयं तण्हाकप्पो ...पे०... अयं दिट्ठिकप्पो ।
तस्स तण्हाकप्पो पहीनो, दिट्ठिकप्पो पटिनिस्सट्ठो । तण्हाकप्पस्स पही-
नत्ता, दिट्ठिकप्पस्स पटिनिस्सट्ठत्ता केन रागेन कप्पेय्य केन दोसेन कप्पेय्य.
केन मोहेन कप्पेय्य केन मानेन कप्पेय्य काय दिट्ठिया कप्पेय्य केन उद्ध-
च्चेन कप्पेय्य काय विचिकिच्छाय कप्पेय्य केहि अनुसयेहि कप्पेय्य -
रत्तो ति वा दुट्ठो ति वा मूळ्हो ति वा विनिबद्धो ति वा परामट्ठो
ति वा विक्खेपगतो ति वा अनिट्ठङ्गतो ति वा थामगतो ति वा ।
ते अभिसङ्घारा पहीना । अभिसङ्घारानं पहीनत्ता गतियो केन कप्पेय्य -

१. लोकास्मि - स्या० । २. सञ्जाविकप्पयता - सी०; ० धिपतेय्यता - स्या० । ३. उट्ठ-
पिता - स्या० । ४. स्या० पोत्थके नत्थि ।

B. ३६

R. 111

5

10

15

20

25

१. 112

नेरयिको ति वा तिरच्छानथोनिको ति वा पेट्तिविसयिको ति वा ममुस्सो
ति वा देवो ति वा रूपी ति वा अरूपी ति वा सञ्जी ति वा असञ्जी ति
वा नेवसञ्जीनासञ्जी ति वा । सो हेतु नत्थि पच्चयो नत्थि कारणं
नत्थि, येन कप्पेय्य विकप्पेय्य विकप्पं आपज्जेय्य । लोकास्मि ति ।
५ अपायलोके ... पे० ... आयतनलोके ति - केनीघ लोकास्मिं विकप्पेय्य ।
तेनाह भगवा -

“तस्सीघ दिट्ठे व सुते मुत्ते वा,
पकप्पिता नत्थि अणू पि सञ्जा ।

10

तं ब्राह्मणं दिट्ठिमनादियानं,
केनीघ लोकास्मिं विकप्पयेय्या” ति ॥

B. 87

३८. न कप्पयन्ति नं पुरेक्खरोन्ति,
धम्मा पि तेसं न पटिच्छितासे ।
न ब्राह्मणो सीलवतेन नेय्यो,
पारङ्गतो न पच्चेति तादी ॥

15

न कप्पयन्ति न पुरेक्खरोन्ती ति । कप्पाति । द्वे कप्पा - तण्हाकप्पो
च दिट्ठिकप्पो च पे० .. अयं तण्हाकप्पो पे० . अयं दिट्ठिकप्पो । कतमो
तण्हाकप्पो ? यावता तण्हासङ्घातेन सीमकतं मरियादिकतं ओधिकत
परियन्तकतं परिग्गहितं ममायितं - “इदं ममं, एतं ममं, एतकं मम, एत्तावता
ममं, मम रूपा सद्दा गन्धा रसा फोट्ठब्बा, अत्थरणा पावुरणा दासिदासा
अजेळका कुक्कुटसूकरा हत्थिगवास्सवळवा खेतं वत्थु हिरञ्जं सुवण्णं
गामनिगमराजधानियो रट्ठं च जनपदो च कोसो च कोट्टागारं च, केवल
पि महापथविं तण्हावसेन ममायति, यावता अट्टसततण्हाविचरितं - अय
तण्हाकप्पो । कतमो दिट्ठिकप्पो ? वीसतिवत्थुका सक्कायदिट्ठि, दस-
वत्थुका मिच्छादिट्ठि, दसवत्थुका अन्तग्गाहिकादिट्ठि, या एवरूपा दिट्ठि
दिट्ठिगतं दिट्ठिगहनं दिट्ठिकन्तारं दिट्ठिविसूकायिकं दिट्ठिविप्फन्दिंतं दिट्ठि-
सञ्जोजनं गाहो पटिग्गाहो अभिनिवेशो परामासो कुम्मग्गो मिच्छापथो
मिच्छत्तं तित्थायतनं विपरियासग्गाहो विपरीतग्गाहो विपरलासग्गाहो
मिच्छागाहो, अयाथावकास्मि याथावकं ति गाहो, यावता द्वासट्ठि दिट्ठि-

B 118

25

गतानि— अयं दिट्टिकप्पो । तेसं तण्हाकप्पो पहीनो, दिट्टिकप्पो पट्टिनिस्सट्टो । तण्हाकप्पस्स पहीनत्ता, दिट्टिकप्पस्स पट्टिनिस्सट्टत्ता तण्हाकप्पं वा दिट्टिकप्पं वा न कप्पेन्ति न जनेन्ति न सञ्जनेन्ति न निब्बत्तेन्ति न अभिनिब्बत्तेन्ती ति — न कप्पयन्ति ।

न पुरेक्खारोन्ती ति । पुरेक्खारा ति । द्वे पुरेक्खारा — तण्हा- 5
पुरेक्खारो च दिट्टिपुरेक्खारो च...पे०...अयं तण्हापुरेक्खारो...पे०...अयं
दिट्टिपुरेक्खारो । तेसं तण्हापुरेक्खारो पहीनो, दिट्टिपुरेक्खारो पट्टि-
निस्सट्टो । तण्हापुरेक्खारस्स पहीनत्ता, दिट्टिपुरेक्खारस्स पट्टिनिस्सट्टत्ता
न तण्हं वा न दिट्टि वा पुरतो कत्वा चरन्ति न तण्हाधजा न तण्हाकेतू न
तण्हाधिपतेय्या न दिट्टिधजा न दिट्टिकेतू न दिट्टाधिपतेय्या । न तण्हाय 10
वा न दिट्टिया वा परिवारेत्वा चरन्ती ति — न कप्पयन्ति न पुरेक्ख-
रोन्ति ।

धम्मा पि तेसं न पट्टिच्छितासे ति । धम्मा वुच्चन्ति द्वासट्ठि
दिट्टिगतानि । तेसं ति । तेसं अरहन्तानं खीणासवान । न पट्टिच्छितासे ति ।
“सस्सतो लोको, इदमेव सच्चं मोघमञ्जं” ति न पट्टिच्छितासे । “अस- 15
स्सतो लोको ... अन्तवा लोको ... अनन्तवा लोको ... तं जीवं तं सरीरं
. अञ्जं जीवं अञ्जं सरीरं ... होति तथागतो परं मरणा ... न होति
तथागतो परं मरणा . होति च न च होति तथागतो परं मरणा ...
नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा, इदमेव सच्चं मोघमञ्जं” ति
न पट्टिच्छितासे ति — धम्मा पि तेसं न पट्टिच्छितासे । 20

न ब्राह्मणो सीलवतेन नेय्यो ति । ना ति । पट्टिक्खेपो । ब्राह्मणो
ति । सत्तन्नं धम्मानं बाह्तित्ता ब्राह्मणो — सक्कायदिट्टि बाह्तिता होति
...पे० . असितो तादि वुच्चते स ब्रह्मा । न ब्राह्मणो, सीलवतेन नेय्यो ति ।
ब्राह्मणो सीलेन वा वतेन वा सीलवतेन वा न यायति न निय्यति न
बुद्ध्यति न संहरीयती ति — न ब्राह्मणो सीलवतेन नेय्यो । 25

पारङ्गतो न पच्चति तादी ति । पारं वुच्चति अमतं निब्बानं ।
यो सो सब्बसङ्खारसमथो सब्बूपधिपट्टिनिस्सगो तण्हक्खयो विरागो
निरोधो निब्बान । सो पारङ्गतो पारप्पत्तो अन्तगतो अन्तप्पत्तो कोटि-
गतो कोटिप्पत्तो (वित्थारो) जातिमरणसंसारो, नत्थि तस्स पुनत्त्वो

१ ते तण्हाकप्प — सी० । २ परिवारिक्खा — स्या० । ३-३ ओ पारगतो — स्या० ।

ति - पारङ्गतो । न पच्चेती ति । सोतापत्तिमग्नेन ये किलेसा पहीना, ते किलेसे न पुनेति न पच्चेति न पच्चागच्छति । सकदागामिमग्नेन ये किलेसा पहीना, ते किलेसे न पुनेति न पच्चेति न पच्चागच्छति । अना-
 5 गामिमग्नेन ये किलेसा पहीना, ते किलेसे न पुनेति न पच्चेति न पच्चागच्छति । अरहत्तमग्नेन ये किलेसा पहीना, ते किलेसे न पुनेति न पच्चेति न पच्चागच्छती ति - पारङ्गतो न पच्चेति । तादी ति । अरहा पञ्चहाकारेहि तादी - इट्टानिट्ठे तादी, चत्तावी ति तादी, तिण्णावी ति तादी, मुत्तावी ति तादी, तंनिद्देशा तादी ।

कथं अरहा इट्टानिट्ठे तादी ? अरहा लाभे पि तादी, अलाभे पि
 10 तादी, यसे पि तादी, अयसे पि तादी, पसंसाय पि तादी, निन्दाय पि तादी, सुखे पि तादी, दुक्खे पि तादी । एकच्चे^१ वाहं^२ गन्वेन छिमेय्युं, एकच्चे वाहं वासिया तच्छेय्युं - अमुस्मि नत्थि रागो, अमुस्मि नत्थि पटिधं, अनुनयपटिधविप्पहीनो उग्घातिनिघातिवीतिवत्तो^३ अनुरोध-
 B. 89 विरोधसमतिक्कन्तो । एवं अरहा इट्टानिट्ठे तादी ।

. 116 16 कथं अरहा चत्तावी ति तादी ? अरहत्तो रागो चत्तो वन्तो मुत्तो पहीनो पटिनिस्सट्ठो । दोसो .. मोहो .. कोधो ... उपनाहो ... मक्खो ... पळासो . इस्सा ... मच्छरिय ... माया ... साठेय्यं .. थम्मो... सारम्भो .. मानो .. अतिमानो ... मदो . पमादो ... सव्वे किलेसा ... सव्वे दुच्चरिता ... सव्वे दरथा .. सव्वे परिळाहा ... सव्वे सन्तापा ...
 20 सव्वाकुसलाभिसङ्गारा चत्ता वन्ता मुत्ता पहीना पटिनिस्सट्ठा । एवं अरहा चत्तावी ति तादी ।

कथं अरहा तिण्णावी ति तादी ? अरहा कामोधं तिण्णो भवोधं तिण्णो द्विट्ठोधं तिण्णो अविज्जोधं तिण्णो सव्वं संसारपथं तिण्णो उत्तिण्णो नित्तिण्णो अतिक्कन्तो समतिक्कन्तो वीतिवत्तो । सो वुट्ठवासो
 25 चिण्णचरणो जातिमरणसंसारो, नत्थि तस्स पुनवभवो ति । एवं अरहा तिण्णावी ति तादी ।

कथं अरहा मुत्तावी ति तादी ? अरहत्तो रागा चित्तं मुत्तं विमुत्तं सुविमुत्तं, दोसा चित्तं मुत्तं विमुत्तं सुविमुत्तं, मोहा चित्तं मुत्तं विमुत्तं

१. एकच्चे - सी०, म्या० । २ अहं - सी०; एवमुपरि पि । ३. ० निघाति० - स्या० ।

सुविमुत्तं, कोषा ... उपनाहा ... मक्खा ... पळासा ... इस्साय ... मच्छरिया ...
 मायाय ... साठेय्या ... थम्भा ... सारम्भा ... माना ... अतिमाना ... मदा ...
 पमादा ... सब्बकिलेसेहि ... सब्बदुच्चरितेहि ... सब्बदरथेहि ... सब्बपरि-
 ळाहेहि ... सब्बसन्तापेहि ... सब्बाकुसलाभिसङ्खारेहि चित्तं मुत्तं विमुत्तं
 सुविमुत्तं । एवं अरहा मुत्तावी ति तादी ।

कथं अरहा तंनिर्देशा तादी ? अरहा सीले सति सीलवा ति
 तंनिर्देशा तादी; सद्धाय सति सद्धो ति तं निर्देशा तादी; वीरिये सति
 वीरियवा ति तंनिर्देशा तादी; सतिथा सति सतिमा ति तंनिर्देशा तादी;
 समाधिम्हि^१ सति समाहितो ति तंनिर्देशा तादी; पञ्जाय सति पञ्चवा
 ति तंनिर्देशा तादी; विज्जाय सति तेविज्जो ति तंनिर्देशा तादी;
 अभिञ्जाय सति छळमिञ्जो ति तंनिर्देशा तादी । एवं अरहा तंनिर्देशा
 तादी ति - पारङ्गतो न पच्चेति तादी । तेनाह भगवा -

“न कप्पयन्ति न पुरेक्खरोन्ति,
 धम्मा पि तेसं न पटिच्छितासे ।
 न ब्राह्मणो सीलवतेन नेय्यो,
 पारङ्गतो न पच्चेति तादी” ति ॥

परमद्रुकसुत्तनिर्देशो पञ्चमो ।

६. जरासुत्तनिर्देशो

अयं जरासुत्तनिर्देशं वक्खति^१ -

३९. अप्पं वत जीवितं इदं,
 ओरं वत्ससता पि भिय्यति^२ ।
 थो चे पि अत्तिच्च जीवति,
 अथ खो सो जरसा पि भिय्यति ॥

अप्पं वत जीवितं इदं ति । जीवितं ति । आयु ठिति यपना यापना
 इरियना वत्तना पालना जीवितं जीवितिन्द्रियं । अपि च, द्वीहि कारणेहि
 अप्पकं जीवितं थोकं जीवितं - ठितिपरित्ताय वा अप्पकं जीवितं,
 सरसपरित्ताय वा अप्पकं जीवितं । कथं ठितिपरित्ताय वा अप्पकं

१. समाधिस्मि - सी०, त्या० । २-२. त्या० पोत्यके नत्थि । ३. भीयति - सी० ।
 म० नि०-१३

जीवितं ? अतीते चित्तक्वक्षणे जीवित्य, न जीवति न जीविस्सति; अना-
गते चित्तक्वक्षणे जीविस्सति, न जीवति न जीवित्य; पच्चुप्पन्ने चित्त-
क्वक्षणे जीवति, न जीवित्य न जीविस्सति ।

- जीवितं अत्तभावो च, सुखदुक्खा च केवला ।
 ४ एकचित्तसमायुत्ता, लहुसो वत्तते' खणो' ॥
 चुल्लासीतिसहस्सानि, कप्पा तिट्ठन्ति ये मरु ।
 न त्वेव ते पि जीवन्ति, द्वीहि चित्तेहि संयुता' ॥
 B. 118 ये निरुद्धा मरन्तस्स, तिट्ठमानस्स वा इध ।'
 सव्वे पि' सदिसा खन्धा, गता अप्पटिसन्धिका ॥
 अनन्तरा च ये भग्गा, ये च भग्गा अनागता ।
 10 तदन्तरे निरुद्धानं, वेसम्मं नत्थि लक्खणे ॥
 अनिब्बत्तेन न जातो, पच्चुप्पन्नेन जीवति ।
 चित्तभग्गा मतो लोको, पञ्जत्ति परमत्थिया ॥
 B. 01 यथा निन्ना पवत्तन्ति, छन्देन परिणामिता ।
 15 अच्छिन्नधारा वत्तन्ति, सत्तायतनपच्चया ॥
 अनिधानगता भग्गा, पुञ्जो नत्थि अनागते ।
 निब्बत्ता ये च तिट्ठन्ति, आरगगे सासपूपमा ॥
 निब्बत्तानं च धम्मामं, भङ्गो नेसं पुरक्खतो ।
 पलोकधम्मा तिट्ठन्ति, पुराणेहि अमिस्सिता ॥
 20 अदस्सनतो आयन्ति, भङ्गा गच्छन्ति दस्सनं ।
 विज्जुप्पादो व आकासे, उप्पज्जन्ति वयन्ति चा ति ॥

एवं ठित्तिपरित्तताय अप्पकं जीवितं ।

- कथं सरसपरित्तताय अप्पकं जीवितं ? अस्सासूपनिबद्धं जीवितं,
 पस्सासूपनिबद्धं जीवितं, अस्सासपस्सासूपनिबद्धं जीवितं, महाभूतूप-
 25 निबद्धं जीवितं, कबळीकाराहारूपनिबद्धं जीवितं, उस्सूपनिबद्धं जीवितं,
 विञ्जाणूपनिबद्धं जीवितं । मूलं पि इमेसं दुब्बलं, पुब्बहेतू पि इमेसं

१-१ वत्तित्त्वणो - स्या० । २ समाहिता - सी०, स्या० । ३. व - स्या० । ४
 वेसम्म - स्या०

दुब्बला, ये पच्चया ते पि दुब्बला, ये पि पभाविका ते पि दुब्बला, सहभू पि इमेसं दुब्बला, सम्पयोगा पि इमेसं दुब्बला, सहजा पि इमेसं दुब्बला, या पि पयोजिका सा पि दुब्बला । अञ्जमञ्जं इमे निच्चदुब्बला, अञ्जमञ्जं अनवट्टिता इमे । अञ्जमञ्जं परिपातयन्ति इमे, अञ्जमञ्जस्स हि नत्थि तायिता, न चा पि ठपेन्ति अञ्जमञ्जं इमे । यो पि निब्बत्तो सो न विज्जति । 5

R. 110

न च केनचि कोचि हायति,
गन्धब्बा^१ च इमे हि सब्बसो ।
पुरिमेहि पभाविका इमे,
ये पि पभाविका ते पुरे मता ।
पुरिमा पि च पच्छिमा पि च,
अञ्जमञ्जं न कदाचि मद्दससू ति ॥

10

एवं सरसपरित्तताय अप्पकं जीवितं ।

अपि च, चातुमहाराजिकानं^१ देवानं जीवितं उपादाय मनुस्सानं अप्पकं जीवितं परित्तं^२ जीवितं थोकं जीवितं खणिकं जीवितं लहुकं जीवितं इत्तरं जीवितं अनद्धनीयं जीवितं नचिरट्टितिकं जीवितं । तावतिसानं देवानं ...पे०... यामानं देवानं... तुसितानं देवानं ... निम्मानरतीनं देवानं ... परनिम्मित्तवसवत्तीनं देवानं... ब्रह्मकायिकानं देवानं जीवितं उपादाय मनुस्सानं अप्पकं जीवितं परित्तं जीवितं थोकं जीवितं खणिकं जीवितं लहुकं जीवितं इत्तरं जीवितं अनद्धनीयं जीवितं नचिरट्टितिकं जीवितं । वृत्तं हेतं भगवता — “अप्पमिदं, भिक्खवे, मनुस्सानं आयु, गमनियो सम्परायो, मन्ताय बोद्धब्बं, कत्तब्बं कुसलं, चरित्तब्बं ब्रह्मचरियं, नत्थि जातस्स अमरणं । यो, भिक्खवे, चिरं जीवति, सो वस्ससत्तं अप्पं वा भिय्यो ।

15

B. 92

“अप्पमायु मनुस्सानं, हीळेय्यं नं सुपोरिसो ।

चरेय्यादित्तसीसो व, नत्थि मच्चुस्सनागमो ॥

25

“अच्चयन्ति अहोरत्ता, जीवितं उपरुज्झति ।

आयु खिय्यति मच्चानं, कुल्लदीनं व ओदकं” ति ॥

१ भङ्गब्बा—स्या० । २ चातुमहा०—सी०, स्या० । ३. परित्तकं—स्या०; एवमुपरि पि ।

B. 120

अप्यं वत जीवितं इदं ।

ओरं वस्ससता पि मिध्यती ति । कललकाले पि चवति मरति
 अन्तरघायति विप्पलुज्जति, अब्बुदकाले पि चवति मरति अन्तरघायति
 विप्पलुज्जति, पेसिकाले पि चवति मरति अन्तरघायति विप्पलुज्जति,
 5 घनकाले पि चवति मरति अन्तरघायति विप्पलुज्जति, पसाखकाले' पि
 चवति मरति अन्तरघायति विप्पलुज्जति, जातमत्तो पि चवति मरति
 अन्तरघायति विप्पलुज्जति, सूतिघरे' पि चवति मरति अन्तरघायति
 विप्पलुज्जति, अट्टमासिको' पि चवति मरति अन्तरघायति विप्पलुज्जति,
 मासिको पि चवति मरति अन्तरघायति विप्पलुज्जति, द्वेमासिको' पि..
 10 तेमासिको पि ... चतुमासिको पि ... पञ्चमासिको पि चवति मरति
 अन्तरघायति विप्पलुज्जति, छमासिको पि ... सत्तमासिको पि ... अट्ट-
 मासिको पि ... नवमासिको पि . दसमासिको पि ..संबच्छरिको पि चवति
 मरति अन्तरघायति विप्पलुज्जति, द्वेवस्सिको पि तिवस्सिको पि ..
 चतुवस्सिको पि .. पञ्चवस्सिको पि .. छवस्सिको पि.. सत्तवस्सिको
 15 पि ... अट्टवस्सिको पि . नववस्सिको पि ... दसवस्सिको पि .. वीसति-
 वस्सिको पि ... तिसवस्सिको पि .. चत्तारीसवस्सिको पि .. पञ्चास-
 वस्सिको पि ... सट्ठिवस्सिको पि ... सत्ततिवस्सिको पि . असीतिवस्सिको
 पि ... नव्वुतिवस्सिको पि चवति मरति अन्तरघायति विप्पलुज्जती
 ति - ओरं वस्ससता पि मिध्यति ।

B. 93

20

यो चे पि अतिच्च जीवती ति । यो वस्ससतं अतिक्कमित्वा
 जीवति सो एकं वा वस्सं जीवति, द्वे वा वस्सानि जीवति, तीणि वा
 वस्सानि जीवति, चत्तारि वा वस्सानि जीवति, पञ्च वा वस्सानि जीवति
 ...पे०... दस वा वस्सानि जीवति, वीसति वा वस्सानि जीवति, तिसं वा
 वस्सानि जीवति, चत्तारीसं वा वस्सानि जीवती ति - यो चे पि अतिच्च
 25 जीवति । अथ खो सो जरसा पि मिध्यती ति । यदा जिण्णो होति बुद्धो
 B. 121 महल्लको; अट्टगतो वयोअनुप्पत्तो खण्डदन्तो पलितकेसो विलूनं खलित-
 सिरो बलिनं' तिलकाहतगतो वद्धो भोग्गो दण्डपरायणो, सो जराय
 पि चवति मरति अन्तरघायति विप्पलुज्जति, नत्थि मरणम्हा मोक्खो ।

१. पञ्चसाख० - स्या० । २. पसूति० - स्या० । ३. अट्टमासिको - स्या० । ४. द्विमा-
 सिको - स्या०; एवमुपरि पि । ५. बल्लीन - स्या० ।

फलानमिव पक्कानं, पातो पतनतो^१ भयं ।
 एवं जातान मच्चानं, निच्चं मरणतो भयं ॥
 यथा पि कुम्भकारस्स, कता मत्तिकभाजना^२ ।
 सब्बे भेदनपरियन्ता^३, एवं मच्चान जीवितं ॥
 दहरा च महन्ता च, ये बाला ये च पण्डिता ।
 सब्बे मच्चुवसं यन्ति, सब्बे मच्चुपरायना ॥ 5
 तेसं मच्चुपरेतानं, गच्छतं परलोकतो ।
 न पिता तायते पुत्तं, वाती वा पन वातके ॥
 पेक्खतञ्जेव वातीनं, पस्स लालप्पतं पुथुं^४ ।
 एकमेको व मच्चानं, गोवज्जो विय निव्यति । 10
 एवमब्भाहतो लोको, मच्चुना च जराय चा ति ॥

अय खो सो जरसा पि मिव्यति । तेनाह भगवा -

“अप्यं वत जीवितं इदं,
 ओरं वस्ससता पि मिव्यति ।
 यो चे पि अतिच्च जीवितं, 15
 अथ खो सो जरसा पि मिव्यती” ति ॥

४०. सोचन्ति जना ममायिते,
 न हि सन्ति निच्चा परिग्गहा ।
 विनाभावं सन्तमेविदं,
 इति दिस्वा नागारमावसे ॥ 20

सोचन्ति जना ममायिते ति । जना ति । खत्तिया च ब्राह्मणा च
 वेस्सा च सुहा च गहट्ठा च पब्बजिता च देवा च मनुस्सा च । समत्ता ति ।
 द्वे ममत्ता - तण्हाममत्तं च दिट्ठिममत्तं च ...पे०... इदं तण्हाममत्तं ...पे०...
 इदं दिट्ठिममत्तं । ममायितं वत्थुं अच्छेदसद्धिनो पि सोचन्ति, अच्छिज्जन्ते
 पि सोचन्ति, अच्छिन्ने पि सोचन्ति । ममायितं वत्थु विपरिणामसद्धिनो 25
 पि सोचन्ति, विपरिणामन्ते पि सोचन्ति, विपरिणते पि सोचन्ति

१. पततो - सी० । २. मत्तिकभाजन - सी० । ३. भेदनपरियन्तं - सी०; भेद-
 परियन्ता - स्या० । ४. पुथु - स्या० ।

किलमन्ति परिदेवन्ति उरत्तालि कन्दन्ति सम्मोह आपज्जन्ती ति - सोचन्ति जना ममायिते ।

न हि सन्ति निच्चा परिग्गहा ति । द्वे परिग्गहा - तण्हापरि-
ग्गहो च दिट्ठिपरिग्गहो च . पे०... अयं तण्हापरिग्गहो . पे०... अयं दिट्ठि-
परिग्गहो । तण्हापरिग्गहो अनिच्चो सङ्गतो पटिच्चसमुप्यन्नो खयधम्मो
वयधम्मो विरागधम्मो निरोधधम्मो विपरिणामधम्मो । दिट्ठिपरिग्गहो
पि अनिच्चो सङ्गतो पटिच्चसमुप्यन्नो खयधम्मो वयधम्मो विरागधम्मो
निरोधधम्मो विपरिणामधम्मो । वुत्तं हेतं भगवता - "पस्सथ नो तुम्हे,
भिक्खवे, तं परिग्गहं उवायं परिग्गहो निच्चो ध्रुवो सस्सतो अविपरिणाम-
धम्मो सस्सतिसमं तथेव ठस्सती" ति ?

"नो हेतं, भन्ते" ।

"साधु, भिक्खवे ! अहं पि खो एतं, भिक्खवे, परिग्गहं न
समनुपस्साभि, उवायं परिग्गहो निच्चो ध्रुवो सस्सतो अविपरिणामधम्मो
सस्सतिसमं तथेव ठस्सती" ति । परिग्गहा निच्चा ध्रुवा सस्सता अवि-
परिणामधम्मा नत्थि न सन्ति न संविज्जन्ति न' लब्भन्ती' ति - न हि
सन्ति निच्चा परिग्गहा ।

विनाभावं सन्तमेविदं ति । नानाभावे विनाभावे अञ्जथाभावे
सन्ते संविज्जमाने उपलब्धिमाने । वुत्तं हेतं भगवता - "अल, आनन्द !
मा सोचि मा परिदेवि । ननु एतं, आनन्द, मया पटिक्कच्चेव' अक्खात -
सब्बहेव पियेहि मनापेहि नानाभावो विनाभावो अञ्जथाभावो । त
कुतेत्थ, आनन्द, लब्भा - यं तं जातं भूतं सङ्गतं पलोकधम्मं तं वत मा
पलुज्जी' ति ! नेतं ठानं विज्जति । पुरिमानं पुरिमानं सन्धानं धातूनं
आयतनानं विपरिणामञ्जथाभावो पच्छिमा पच्छिमा सन्धा च धातुयो
च आयतनानि च पवत्तन्ती" ति - विनाभावं सन्तमेविदं ।

इत्ति दिस्वा नागारभावसे ति । इती ति । पदसन्धि पदसंसगो
पदपारिपूरो अक्खरसमवायो ब्यञ्जनसिलिट्ठता पदानुपुब्बतापेतं । इती
ति । इत्ति दिस्वा पस्सित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं
कत्वा ममत्तेसू ति - इत्ति दिस्वा । नागारभावसे ति । सब्बं धरणवास-

१-१. नूपलब्भन्ती - सी०, स्या० । २ पटिक्कच्चेव - सी० । ३ पदानुपुब्बता नामेत -
सी० ; पदानुपुब्बतामेत - स्या० ।

पलिबोधं छिन्दित्वा पुत्तदारपलिबोधं छिन्दित्वा आतिपलिबोधं छिन्दित्वा
 मित्तामच्चपलिबोधं छिन्दित्वा सन्निधिपलिबोधं छिन्दित्वा केसमस्सुं
 ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पब्ब-
 जित्वा अकिञ्चनभावं' उपगन्त्वा एको चरेय्य विहरेय्य इरियेय्य वत्तेय्य
 पालेय्य यपेय्य थापेय्या ति—इति दिस्वा नागारमावसे। तेनाह भगवा— 5

“सोचन्ति जना ममायिते,
 न हि सन्ति निच्चा परिगहा।
 विनाभावं सन्तमेविदं,
 इति दिस्वा नागारमावसे” ति।

४१. मरणेन पि तं पहीयति 10

यं पुरिसो ममिदं ति मञ्जति।
 एतं पि विदित्वान' पण्डितो,
 न ममत्ताय नमेश्च मामको॥

मरणेन पि तं पहीयती ति। मरणं ति। या तेसं तेसं सत्तानं
 तम्हा तम्हा सत्तनिकाया चुति चवनता भेदो अन्तरघानं मच्चु मरणं 15
 कालंकिरिया खन्धानं भेदो कळेवरस्स' निक्खेपो जीवित्तिन्द्रियस्सु-
 पच्छेदो। तं ति। रूपगतं वेदनागतं सञ्जागतं सङ्खारगतं विञ्जाण-
 गतं। पहीयती ति। पहीयति जहीयति विजहीयति अन्तरघायति
 विप्पलुज्जति। भासितं पि हेतं—

“पुब्बेव मच्चं विजहन्ति भोगा,
 मच्चो व ने पुब्बतरं जहाति।
 असस्सता भोगिनो कामकामी,
 तस्मा न सोचामहं सोककाले॥

“उदेति आपूरति वेति चन्दो,
 अत्तं गमेत्वान पलेति सूरियो।
 विदिता मया सत्तुकलोकधम्मा,
 तस्मा न सोचामहं सोककाले” ति॥

मरणेन पि तं पहीयति।

१. अकिञ्चन—स्या०। २-२ एतं दिस्वान—सी०; एत पि विदित्वा—स्या०;
 एवमुपरि पि। ३ कळेवरस्स—सी०। ४ अत्यं—सी०, स्या०।

यं पुरिसो ममिदं ति मञ्जती ति । यं ति । रूपगतं वेदनागतं सञ्जागतं सङ्घारगतं विञ्जाणगतं । पुरिसो ति । सङ्घा समञ्जा पञ्चत्ति बोहारो' नामं नामकम्मं नामधेय्यं निरुत्ति व्यञ्जनं अभिलापो । ममिदं ति मञ्जती ति । तण्हामञ्जनाय मञ्जति, दिट्ठिमञ्जनाय

5 मञ्जति, मानमञ्जनाय मञ्जति, किलेसमञ्जनाय मञ्जति, दुच्चरित-मञ्जनाय मञ्जति, पयोगमञ्जनाय मञ्जति, विपाकमञ्जनाय मञ्जती ति -य पुरिसो ममिदं ति मञ्जति ।

एतं पि विदित्वान पण्डितो ति । एत आदीनच त्वा जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत क्त्वा भभत्तेसु

10 ति, एतं पि विदित्वा पण्डितो धीरो' पण्डितो पञ्चवा' बुद्धिमा वाणी विभावी मेधावी ति -एतं पि विदित्वान पण्डितो ।

R 125

न ममत्ताय नमेथ मामको ति । ममत्ता ति । द्वे ममत्ता -तण्हाममत्तं च दिट्ठिममत्तं च...पे०... इदं तण्हाममत्तं..पे०... इदं दिट्ठिममत्तं । मामको ति । बुद्धमामको धम्ममामको सङ्घमामको । सो

15 भगवन्तं ममायति, भगवा त पुग्गलं परिग्गण्हाति । वुत्तं हेतं भगवता - 'ये ते, भिक्खवे, भिक्खू कुहा थद्धा लपा सिङ्गी' उन्नळा असमाहिता, न मे ते, भिक्खवे, भिक्खू मामका, अपगता च ते, भिक्खवे, भिक्खू इमस्मा धम्मविनया । न च ते इमस्मि धम्मविनये वुद्धिं विरूळिहं वेपुल्लं आपज्जन्ति । ये च खो ते, भिक्खवे, भिक्खू

20 निक्कुहा निल्लपा धीरा अत्थद्धा सुसमाहिता, ते खो मे, भिक्खवे, भिक्खू मामका, अनपगता च ते, भिक्खवे, भिक्खू इमस्मा धम्मविनया । ते च इमस्मिं धम्मविनये वुद्धिं विरूळिहं वेपुल्लं आपज्जन्ति' ।

B. 97

26

कुहा थद्धा लपा सिङ्गी, उन्नळा असमाहिता ।

न ते धम्मे विरूहन्ति, सम्मासम्बुद्धदेसिते ॥

निक्कुहा निल्लपा धीरा, अत्थद्धा सुसमाहिता ।

ते वे धम्मे विरूहन्ति, सम्मासम्बुद्धदेसिते ॥

न ममत्ताय नमेथ मामको ति । मामको तण्हाममत्तं पहाय दिट्ठिममत्तं पटिनिस्सज्जित्वा ममत्ताय न नमेय्य न ओचमेय्य, न

१ लोकबोहारो - स्या० । २-२ स्या० पोत्यके नत्वि । ३ सङ्गी - स्या० ।

तंनिन्नो अस्स न तप्पोणो न तप्पभारो न तदधिमुत्तो न तदधि-
पत्तेय्यो ति - न ममत्ताय नमेथ मामको। तेनाह भगवा -

“भरणेन पि तं पहीयति,
यं पुरिसो ममिदं ति मञ्जति।
एतं पि विदित्वान पण्डितो,
न ममत्ताय नमेथ मामको” ति ॥

5

४२. सुपिनेन यथा पि सङ्गतं,
पटिबुद्धो पुरिसो न पस्सति।
एवं पि पियायितं जनं,
पेतं कालङ्कतं न पस्सति ॥

R. 128

19

सुपिनेन यथा पि सङ्गतं ति। सङ्गतं समागतं समाहितं
सन्निपतितं ति - सुपिनेन यथा पि सङ्गतं। पटिबुद्धो पुरिसो न
पस्सती ति। यथा पुरिसो सुपिनगतो चन्दं पस्सति, सूरियं पस्सति,
महासमुद्दं पस्सति, सिनेरं^१ पब्बतराजानं^२ पस्सति, हत्थिं पस्सति,
अस्सं पस्सति, रथं पस्सति, पत्तिं पस्सति, सेनाब्यूहं पस्सति, आराम- 15
रामणेय्यकं पस्सति, वनरामणेय्यकं ... भूमिरामणेय्यकं ... पोक्खरणी-
रामणेय्यकं पस्सति; पटिबुद्धो न किञ्चि पस्सती ति - पटिबुद्धो
पुरिसो न पस्सति।

एवं पि पियायितं जनं ति। एवं ति। ओपम्मसम्पटिपादनं^३।
पियायितं जनं ति। ममायितं जनं मातरं वा पितरं वा भातरं वा 20
भगिनिं वा पुत्तं वा धीतरं वा मित्तं वा अमच्चं वा वातिं^४ वा
सालोहितं^५ वा ति - एवं पि पियायितं जनं।

पेतं कालङ्कतं न पस्सती ति। पेतो वुच्चति मतो। कालङ्कतं
न पस्सति न दक्खति नाधिगच्छति न विन्दति न पटिलभती ति -
पेतं कालङ्कतं न पस्सति। तेनाह भगवा -

B. 98

25

“सुपिनेन यथा पि सङ्गतं,
पटिबुद्धो पुरिसो न पस्सति।

१ कालकतं - सी०, स्या०; एवमुपरि पि। २-२. सिनेस्यव्वतराजं - स्या०। ३.
०पादना - स्या०। ४-४. वातिसालोहितं - सी०, स्या०।
म० नि० - १४

एवं पि पियायितं जनं,
पेतं कालङ्कृतं न पस्सती” ति ॥ ।

B. 127

४३. दिट्ठा पि सुता पि ते जना,
येसं नाममिदं पवुच्चति ।
नामयेवावसिस्सति,^१
अक्खेय्यं पेतस्स जन्तुनो ॥

8

दिट्ठा पि सुता पि ते जना ति । दिट्ठा ति । ये चक्खुविञ्जा-
णाभिसम्भूता । सुता ति । ये सोतविञ्जाणाभिसम्भूता । ते जना ति ।
खत्तिया च ब्राह्मणा च वेस्सा च सुद्धा च गहट्ठा च पव्वजिता च
10 देवा च मनुस्सा चा ति — दिट्ठा पि सुता पि ते जना ।

येसं नाममिदं पवुच्चती ति । येसं ति । येस खत्तियान
ब्राह्मणानं वेस्सानं सुद्धानं गहट्ठानं पव्वजितानं देवान मनुस्सानं ।
नामं ति । सङ्घा समञ्जा पञ्चत्ति बोहारो नामं नामकम्मं नामयेय्यं
निरुत्ति व्यञ्जनं अभिलापो । पवुच्चती ति । वुच्चति पवुच्चति
15 कथीयति भणीयति दीपीयति बोहरीयती ति — येसं नाममिदं
पवुच्चति ।

नामयेवावसिस्सति अक्खेय्यं ति । रूपगत वेदनागत सञ्जागतं
सङ्घारगत विञ्जाणगतं पहीयति जहीयति विजहीयति अन्तरघायति
विप्पलुज्जति, नामं एवावसिस्सति । अक्खेय्यं ति । अक्खातु कथेतु
20 भणितुं दीपयितुं बोहरितुं ति — नामयेवावसिस्सति अक्खेय्यं । पेतस्स
जन्तुनो ति । पेतस्सा ति । मतस्स कालङ्कृतस्स । जन्तुनो ति । सत्तस्स
नरस्स मानवस्स पोसस्स पुग्गलस्स जीवस्स जागुस्स जन्तुस्स इन्द-
गुस्स^१ मनुजस्सा ति — पेतस्स^१ जन्तुनो । तेनाह भगवा —

B. 99

“दिट्ठा पि सुता पि ते जना,
येसं नाममिदं पवुच्चति ।
नामयेवावसिस्सति,
अक्खेय्यं पेतस्स जन्तुनो” ति ॥

25

१. नाममेवा० — सी०, स्या० । २. हिन्दगुस्स इन्दगुस्स — सी० । ३. अक्खेय्यं पेतस्स —
सी०, स्या० ।

४४. सोकप्परिदेवमच्छरं,
न पजहन्ति गिद्धा ममायिते।
तस्मा मुनयो परिग्गहं,
हित्वा अचरिंसु खेमदस्सिनो ॥

सोकप्परिदेवमच्छरं न पजहन्ति गिद्धा ममायिते ति। सोको 5
ति। आतिव्यसनेन वा फुट्टस्स भोगव्यसनेन वा फुट्टस्स रोगव्यसनेन
वा फुट्टस्स सीलव्यसनेन वा फुट्टस्स दिट्ठिव्यसनेन वा फुट्टस्स अञ्ज-
तरञ्जतरेन^१ व्यसनेन समन्नागतस्स अञ्जतरञ्जतरेन दुक्खधम्मने
फुट्टस्स सोको सोचना सोचित्तं अन्तोसोको अन्तोपरिसोको अन्तो-
दाहो अन्तोपरिदाहो चेतसो परिज्जायना दोमनस्सं सोकसल्लं। 10
परिदेवो ति। आतिव्यसनेन वा फुट्टस्स ...पे०...दिट्ठिव्यसनेन वा
फुट्टस्स अञ्जतरञ्जतरेन व्यसनेन समन्नागतस्स अञ्जतरञ्जतरेन
दुक्खधम्मने फुट्टस्स आदेवो परिदेवो आदेवना परिदेवना आदेवित्तं
परिदेवित्तं वाचा पलापो विप्पलापो लालप्पो लालप्पायना लाल-
प्पायित्तं। मच्छरियं ति। पञ्च मच्छरियाणि - आवासमच्छरियं, 15
कुलमच्छरियं, लाभमच्छरियं, वण्णमच्छरियं, धम्ममच्छरियं। यं
एवरूपं मच्छरियं मच्छरायना मच्छरायित्तं वेविच्छं कदरियं
कट्टकञ्चुकता अग्गहित्तं चित्तस्स - इदं वुच्चति मच्छरियं। अपि च,
खन्धमच्छरियं पि मच्छरियं, धातुमच्छरियं पि मच्छरियं, आयतन-
मच्छरियं पि मच्छरियं गाहो - इदं वुच्चति मच्छरियं। गोधो वुच्चति 20
तण्हा। यो रागो सारागो ...पे०... अभिज्जा लोभो अकुसलमूलं।
ममत्ता ति। द्वे ममत्ता - तण्हाममत्तं च दिट्ठिममत्तं च ...पे०... इदं
तण्हाममत्तं...पे०... इदं दिट्ठिममत्तं। ममायितं वत्थुं अच्छेदसङ्घिनो
पि सोचन्ति, अच्छिज्जन्ते पि सोचन्ति, अच्छिन्ने पि सोचन्ति,
ममायितं वत्थुं विपरिणामसङ्घिनो पि सोचन्ति, विपरिणामन्ते पि 25
सोचन्ति, विपरिणते पि सोचन्ति, ममायितं वत्थुं अच्छेदसङ्घिनो
पि परिदेवन्ति, अच्छिज्जन्ते पि परिदेवन्ति, अच्छिन्ने पि परिदेवन्ति।
ममायितं वत्थुं विपरिणामसङ्घिनो पि परिदेवन्ति, विपरिणामन्ते पि
परिदेवन्ति, विपरिणते पि परिदेवन्ति। ममायितं वत्थुं रक्खन्ति

गोपेन्ति परिग्गहन्ति ममायन्ति मच्छरायन्ति; ममायितस्मिं वत्थुस्मिं सोकं न जहन्ति, परिदेवं न जहन्ति, मच्छरियं न जहन्ति, गेधं न जहन्ति नप्पजहन्ति न विनोदेन्ति न व्यन्तिं करोन्ति न अनभावं गमेन्ती ति—सोकप्परिदेवमच्छरं^१ नप्पजहन्ति गिद्धा ममायिते।

- 5 तस्मा मुनयो परिग्गहं हित्वा अचरिंसु खेमदस्सिनो ति। तस्मा ति। तस्मा तंकारणा तंहेतु तप्पच्चया तंनिदाना एतं आदीनवं सम्पस्समाना ममत्तेसू ति—तस्मा। मुनयो ति। मोनं वुच्चति आणं। या पञ्चा पजानना ...पे०... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिट्ठि। तेन आणेन समन्नागता मुनयो मोनप्पत्ता। तीणि मोनेय्यानि—काय-
- 10 मोनेय्यं, वचीमोनेय्यं, मनोमोनेय्यं ...पे०... सङ्गजालमतिच्च सो मुनि। परिग्गहो ति। द्वे परिग्गहा—तण्हापरिग्गहो च दिट्ठिपरिग्गहो च ...पे०... अयं तण्हापरिग्गहो . पे०... अयं दिट्ठिपरिग्गहो। मुनयो तण्हापरिग्गहं परिच्चजित्वा दिट्ठिपरिग्गहं पटिनिस्सज्जित्वा चजित्वा पजहित्वा विनोदेत्वा व्यन्तिं करित्वा अनभावं गमेत्वा अचरिंसु
- R. 180 15 विहरिंसु इरियंसु वत्तिंसु पार्लिसु यपिसु यापिसु। खेमदस्सिनो ति। खेमं वुच्चति अमतं निब्बानं। यो सो सब्बसङ्खारसमथो सब्बूपधिपटिनिस्सग्गो तण्हक्खयो विरागो निरोधो निब्बानं। खेमदस्सिनो ति। खेमदस्सिनो ताणदस्सिनो लेणदस्सिनो सरणदस्सिनो अभयदस्सिनो अच्चुतदस्सिनो अमतदस्सिनो निब्बानदस्सिनो ति—तस्मा मुनयो
- 20 परिग्गहं हित्वा अचरिंसु खेमदस्सिनो। तेनाह भगवा—

“सोकप्परिदेवमच्छरं,
न जहन्ति गिद्धा ममायिते।
तस्मा मुनयो परिग्गहं,
हित्वा अचरिंसु खेमदस्सिनो” ति॥

- 25 ४५. पतिलीनचरस्स भिक्खुनो,
भजमानस्स विवित्तमासनं।
सामग्गियमाहु तस्स तं,
यो अत्तानं भवने न दस्सये॥

पतिलीनचरस्स भिक्खुनो ति । पतिलीनचरा वुच्चन्ति सत्त
 सेक्खा । अरहा पतिलीनो । किंकारणा पतिलीनचरा वुच्चन्ति सत्त
 सेक्खा ? ते ततो ततो चित्तं पतिलीनेन्ता पतिकुटेन्ता पतिवट्टेन्ता
 सन्निरुद्धन्ता^१ सन्निगण्हन्ता सन्निवारेन्ता रक्खन्ता गोपेन्ता चरन्ति
 विचरन्ति^२ विहरन्ति इरियन्ति वत्तेन्ति पालेन्ति यपेन्ति यापेन्ति,^५
 चक्खुद्वारे चित्तं पतिलीनेन्ता पतिकुटेन्ता^३ पतिवट्टेन्ता सन्निरुद्धन्ता
 सन्निगण्हन्ता सन्निवारेन्ता रक्खन्ता गोपेन्ता चरन्ति विचरन्ति विह-
 रन्ति इरियन्ति वत्तेन्ति पालेन्ति यपेन्ति यापेन्ति, सोतद्वारे चित्तं
 ...पे० .. धानद्वारे चित्तं ... जिब्हाद्वारे चित्तं ... कायद्वारे चित्तं...मनोद्वारे
 चित्तं पतिलीनेन्ता पतिकुटेन्ता पतिवट्टेन्ता सन्निरुद्धन्ता सन्निगण्हन्ता^{१०}
 सन्निवारेन्ता रक्खन्ता गोपेन्ता चरन्ति विचरन्ति विहरन्ति इरियन्ति
 वत्तेन्ति पालेन्ति यपेन्ति यापेन्ति । यथा कुक्कुटपत्तं वा न्हारुदद्दुलं^४
 वा अग्निभिह् पक्खित्तं^५ पतिलीयति पतिकुटति पतिवट्टति न सम्प-
 सारियति; एवमेव ततो ततो चित्तं पतिलीनेन्ता पतिकुटेन्ता पति-
 वट्टेन्ता सन्निरुद्धन्ता सन्निगण्हन्ता सन्निवारेन्ता रक्खन्ता गोपेन्ता^{१५}
 चरन्ति विचरन्ति विहरन्ति इरियन्ति वत्तेन्ति पालेन्ति यपेन्ति
 यापेन्ति, चक्खुद्वारे चित्तं ... सोतद्वारे चित्तं ... धानद्वारे चित्तं ... जिब्हाद्वारे
 चित्तं ... कायद्वारे चित्तं ... मनोद्वारे चित्तं पतिलीनेन्ता पतिकुटेन्ता
 पतिवट्टेन्ता सन्निरुद्धन्ता सन्निगण्हन्ता सन्निवारेन्ता रक्खन्ता गोपेन्ता
 चरन्ति विचरन्ति विहरन्ति इरियन्ति वत्तेन्ति पालेन्ति यपेन्ति^{२०}
 यापेन्ति । तंकारणा पतिलीनचरा वुच्चन्ति सत्त सेक्खा । भिक्खुनो
 ति । पुथुज्जनकल्याणकस्स^६ वा भिक्खुनो सेक्खस्स वा भिक्खुनो
 ति - पतिलीनचरस्स भिक्खुनो ।

B. 101

B. 131

भजमानस्स विवित्तमासनं ति । आसनं वुच्चति यत्थ
 निसीदन्ति^१ - मञ्चो पीठं भिसि तट्टिका चम्मखण्डो तिणसन्थारो^२
 पण्णसन्थारो पलालसन्थारो । तं आसनं असप्पायरूपदस्सनेन रित्तं
 विवित्तं पविवित्तं, असप्पायसदस्सवनेन रित्तं विवित्तं पविवित्तं,

१. सन्निरुद्धेन्ता - सी० । २. सी०, स्या० पोत्यकेसु नत्थि । ३. पतिकुटेन्ता - स्या० ।
 ४. न्हारुदद्दुलं - सी०; न्हारुदद्दुलं - स्या० । ५. पक्खित्तं होति - स्या० । ६. कल्याणपुथुज्ज-
 नस्स - स्या० । ७. निसीदति - स्या० ।

असप्पायगन्धघायनेन ... असप्पायरससायनेन ... असप्पायफोटुब्बफूसनेन ...
असप्पायेहि पञ्चहि कामगुणेहि रिक्तं विवित्तं पविवित्तं। तं विवित्तं
आसनं भजतो सम्भजतो सेवतो निसेवतो संसेवतो पटिसेवतो ति-
भजमानस्स विवित्तमासनं ।

- B 102 5 सामग्गियमाहु तस्स तं यो अत्तानं भवने न दस्सये ति।
सामग्गिय। ति। तिस्सो सामग्गियो - गणसामग्गी, धम्मसामग्गी,
अनभिनिब्बत्तिसामग्गी। कतमा गणसामग्गी? बहु चे पि भिक्खू
R 182 समग्गा सम्मोदमाना अविदमाना खीरोदकीभूता अञ्जमञ्ज
पियचक्खूहि सम्पस्सन्ता विहरन्ति - अथ गणसामग्गी। कतमा
10 धम्मसामग्गी? चत्तारो सतिपट्टाना, चत्तारो सम्मप्पधाना, चत्तारो
इद्धिपादा, पञ्चिन्द्रियानि, पञ्च बलानि, सत्त बोज्झङ्गा, अरियो
अट्टिङ्गिको मग्गो। ते एकतो पक्खन्दन्ति पसीदन्ति सम्पतिट्ठन्ति
विमुच्चन्ति; न तेसं धम्मानं विवादो पविवादो^१ अत्थि - अयं धम्म-
सामग्गी। कतमा अनभिनिब्बत्तिसामग्गी? बहु चे पि भिक्खू अनु-
15 पादिसेसाय निब्बानधातुया परिनिब्बायन्ति, न तेसं^२ निब्बानधातुया
ऊनत्तं^३ वा पुण्णत्तं वा पञ्जायति - अयं अनभिनिब्बत्तिसामग्गी। भवने
ति। नेरयिकानं निरयो भवनं, तिरच्छानयोनिकानं तिरच्छानयोनि
भवनं, पेत्तिविसयिकानं पेत्तिविसयो भवनं, मनुस्सानं मनुस्सलोको
भवनं, देवानं देवलोको भवनं। सामग्गियमाहु तस्स तं यो अत्तानं
20 भवने न दस्सये ति। तस्सेसा सामग्गी एतं छसं एतं पतिरूपं एतं
अनुच्छविकं एतं अनुलोमं, यो एवं पटिच्छन्ने^४ निरये अत्तानं न
दस्सेय्य, तिरच्छानयोनियं^५ अत्तानं न दस्सेय्य, पेत्तिविसये अत्तानं
न दस्सेय्य, मनुस्सलोके अत्तानं न दस्सेय्य, देवलोके अत्तानं न
दस्सेय्या ति एवमाहंसु एवं कथेन्ति एवं भणन्ति एवं दीपयन्ति
25 एवं वोहरन्ती ति - सामग्गियमाहु तस्स तं यो अत्तानं भवने न
दस्सये। तेनाह भगवा -

“पतिलानचरस्स भिक्खुनो,
भजमानस्स विवित्तमासनं ।

१. विष्यवादो - स्या०। २. तेन - सी०। ३. ओनत्तं - स्या०। ४. पटिपन्नो -
स्या०। ५. ० योनिया - सी०, स्या०।

सामग्गियमाहु तस्स तं,
यो अत्तानं भवने न दस्सये' ति ॥

४६. सब्बत्थ मुनी अनिस्सितो,

R. 133

न पियं कुब्बति नो पि अप्पियं ।

तस्मिं परिवेवमच्छरं,

5

पण्णे वारि यथा न लिम्पति ॥

सब्बत्थ मुनी अनिस्सितो ति । सब्बं वुच्चति द्वादसायतनानि
- चक्खुं चैव रूपा च, सोतं च सद्दा च, घानं च गन्धा च, जिह्वा च
रसा च, कायो च फोटुब्बा च, मनो च धम्मा च । मुनी ति । मोनं
वुच्चति आणं ... पे०... सङ्गज्जालभतिच्च सो मुनि । अनिस्सितो ति । द्वे 10
निस्सया - तण्हानिस्सयो च दिट्ठिनिस्सयो च ... पे०... अयं तण्हानिस्सयो
... पे०... अयं दिट्ठिनिस्सयो । मुनि तण्हानिस्सयं पहाय दिट्ठिनिस्सयं
पटिनिस्सज्जित्वा चक्खुं अनिस्सितो सोतं अनिस्सितो घानं अनिस्सितो
जिह्वं अनिस्सितो कायं अनिस्सितो मनं अनिस्सितो रूपे ... सद्दे
... गन्धे ... रसे ... फोटुब्बे ... धम्मे ... कुलं ... गणं ... आवासं ... 15
लाभं ... यसं ... पसंसं ... सुखं ... चीवरं ... पिण्डपातं ... सेनासनं ...
गिलानपच्चयभेसज्जपरिकवारं ... कामघातुं ... रूपघातुं ... अरूपघातुं
... कामभवं ... रूपभवं ... अरूपभवं ... सञ्जाभवं ... असञ्जाभवं ...
नेवसञ्जानासञ्जाभवं ... एकवोकारभवं ... चतुवोकारभवं ... पञ्च-
वोकारभवं ... अतीतं ... अनागतं ... पञ्चुप्पन्नं ... दिट्ठं ... सुतं ... मुतं 20
... विञ्जातं ... सब्बे धम्मे अनिस्सितो अनल्लीनो अनुपगतो अनज्झो-
सितो अनधिमुत्तो निक्खन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसञ्जुत्तो विमरिया-
दिकतेने चेतसा विहरती ति - सब्बत्थ मुनि अनिस्सितो ।

न पियं कुब्बति नो पि अप्पियं ति । पिया ति । द्वे पिया - सत्ता
वा सङ्कारा वा । कतमे सत्ता पिया ? इद्य यस्स ते होत्ति अत्थकामा 25
हितकामा फासुकामा योगक्खेमकामा माता वा पिता वा भाता वा
भगिनी वा पुत्ता वा धीतरा वा मित्ता वा अमच्चा वा वाती वा
सालोहिता वा - इमे सत्ता पिया । कतमे सङ्कारा पिया ? मनापिका

R. 134

१. असनिस्सितो - स्या० । २. अनज्झोसितो - सी० । ३. पुत्तो - सी०, स्या० ।

४. धीता - सी०, स्या० ।

रूपा मनापिका सद्वा मनापिका गन्धा मनापिका रसा मनापिका
 फोट्टुब्बा—इमे सङ्खारा पिया। अप्पिया ति। द्वे अप्पिया—सत्ता वा
 सङ्खारा वा। कतमे सत्ता अप्पिया? इध यस्स ते होन्ति अनत्थकामा
 अहितकामा अफासुकामा अयोगक्खेमकामा जीविता वीरोपेतुकामा —
 5 इमे सत्ता अप्पिया। कतमे सङ्खारा अप्पिया? अमनापिका रूपा
 अमनापिका सद्वा अमनापिका गन्धा अमनापिका रसा अमनापिका
 फोट्टुब्बा—इमे सङ्खारा अप्पिया। न पियं कुब्बति नो पि अप्पियं
 ति। “अयं मे सत्तो पियो, इमे च’ सङ्खारा मनापा” ति रागवसेन
 पियं न करोति; “अयं मे सत्तो अप्पियो, इमे च’ सङ्खारा अमनापा”
 B 104 10 ति पटिघवसेन अप्पियं न करोति न जनेति न सञ्जनेति न
 निब्बत्तेति नाभिनिब्बत्तेती ति—न पियं कुब्बति नो पि अप्पियं।

तस्मिं परिदेवमच्छरं पण्णे वारि यथा न लिम्पती ति। तस्मिं
 ति। तस्मिं पुगले अरहन्ते खीणासवे। परिदेवो ति। आतिव्यसनेन’
 वा फुट्टस्स भोगव्यसनेन वा फुट्टस्स रोगव्यसनेन वा फुट्टस्स सीलव्य-
 15 सनेन वा फुट्टस्स दिट्ठिव्यसनेन वा फुट्टस्स अञ्जतरञ्जतरेन व्यसनेन
 समन्नागतस्स अञ्जतरञ्जतरेन’ दुक्खधम्मनेन फुट्टस्स आदेवो परिदेवो
 आदेवना परिदेवना आदेवितत्तं परिदेवितत्तं वाचा पलापो विप्पलापो
 लालप्पो लालप्पायना लालप्पायितत्तं। मच्छरियं ति। पञ्च मच्छ-
 रियानि—आवासमच्छरियं, कुलमच्छरियं, लाभमच्छरियं, वण्ण-
 20 मच्छरियं, धम्ममच्छरियं। यं एवरूपं मच्छरियं मच्छरायना
 मच्छरायितत्तं वेविच्छं कदरियं कटुकञ्चुकता’ अगगहितत्तं चित्तस्स—
 इदं वुच्चति मच्छरियं। अपि च, खन्धमच्छरियं पि मच्छरियं,
 धातुमच्छरियं पि मच्छरियं, आयतनमच्छरियं पि मच्छरियं गाहो—
 B 185 इदं वुच्चति मच्छरियं।

23 पण्णे वारि यथा न लिम्पती ति। पण्णं वुच्चति पडुमपत्तं।
 वारि वुच्चति उदकं। यथा वारि पडुमपत्तं न लिम्पति न पलिम्पति’
 न उपलिम्पति अलित्तं अपलित्तं’ अनुपलित्तं, एवमेव’ तस्मिं पुगले

१. च मे—सी०, स्या०। २. सी० पोत्यके नत्थि, च मे—स्या०। ३. स्या० पोत्यके
 नत्थि। ४. आतिव्यसनेन—सी०। ५. ० तरेन वा—स्या०। ६. कटुकञ्चुकता—स्या०।
 ७. सी० पोत्यके नत्थि। ८. पडुमपत्ते—सी०, स्या०। ९. सलिम्पति—सी०, स्या०। १०.
 असलित्तं—सी०, स्या०। ११. एवमेव—सी०।

अरहन्ते खीणासवे परिदेवो^१ मच्छरियं च न लिम्पति न पलिम्पति
 न उपलिम्पति अलित्तं^२ अपलित्तं अनुपलित्तं। सो च पुग्गलो
 अरहन्तो^३ तेहि किलेसेहि न लिम्पति न पलिम्पति न उपलिम्पति
 अलित्तो अपलित्तो अनुपलित्तो निक्खन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विस-
 ञ्चुत्तो विमरियादिकतेन^४ चेतसा विहरती ति - तस्मिं परिदेवमच्छरं^५
 पण्णे वारि यथा न लिम्पति। तेनाह भगवा -

“सब्बत्थ मुनी अनिस्सितो,
 न पियं कुब्बति नो पि अप्पियं।
 तस्मिं परिदेवमच्छरं,
 पण्णे वारि यथा न लिम्पती” ति ॥

10

४७. उदबिन्दु यथा पि पोक्खरे,
 पदुमे वारि यथा न लिम्पति।
 एवं मुनि नोपलिम्पति,
 यदिदं विट्ठसुतमुत्तेसु^६ वा ॥

उदबिन्दु यथा पि पोक्खरे ति। उदबिन्दु वुच्चति उदकथेवो।^७
 पोक्खरं वुच्चति पदुमपत्तं। यथा उदबिन्दु^८ पदुमपत्ते न लिम्पति न
 पलिम्पति न उपलिम्पति अलित्तं अपलित्तं अनुपलित्तं ति - उदबिन्दु
 यथा पि पोक्खरे। पदुमे वारि यथा न लिम्पती ति। पदुमं वुच्चति
 पदुमपुष्फं। वारि वुच्चति उदकं। यथा वारि पदुमपुष्फं न लिम्पति
 न पलिम्पति न उपलिम्पति अलित्तं अपलित्तं अनुपलित्तं ति - पदुमे^९
 वारि यथा न लिम्पति।

B. 105

एवं मुनि नोपलिम्पति यदिदं विट्ठसुतमुत्तेसु वा ति। एवं ति।
 ओपम्मसम्पटिपादनं^{१०}। मुनी ति। मोनं वुच्चति वाणं...पे०...सङ्गजाल-
 मतिच्च^{११} सो मुनि। लेपा ति। द्वे लेपा - तण्हालेपो च दिट्ठिलेपो च...पे०...
 अयं तण्हालेपो...पे०...अयं दिट्ठिलेपो। मुनि तण्हालेपं पहाय दिट्ठिलेपं^{१२}
 पटिनिस्सज्जित्वा दिट्ठे न लिम्पति, सुत्ते न लिम्पति, मूत्ते न लिम्पति,
 विञ्जाते न लिम्पति न पलिम्पति न उपलिम्पति अलित्तो अपलित्तो

R. 130

१ परिदेवो च - सी०, स्या०। २ अलित्तो - सी०; एवमुपरि पि। ३ सी०, स्या०
 पोत्थकेसु नत्थि। ४ विमरियादीकतेन - सी०। ५ विट्ठसुत्ते मुत्तेसु - सी०; विट्ठसुत्तं मुत्तेसु -
 स्या०। ६ उदकविन्दु - स्या०। ७ ० सम्पटिपादना - स्या०। ८ सङ्गमतिच्च - सी०।
 म० नि० - १५

अनुपलित्तो निक्खन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसञ्जुत्तो विमरियादिकतेन
चेत्तासा विहरती ति - एवं मुनि नोपलिम्पति यदिदं दिट्ठसुतमुत्तेसु वा ।
तेनाह भगवा -

५ "उदबिन्दु यथा पि पोक्खरे,
पट्टमे वारि यथा न लिम्पति ।
एवं मुनि नोपलिम्पति,
यदिदं दिट्ठसुतमुत्तेसु वा" ति ॥

४८. धोनो न हि तेन मञ्जति,
यदिदं दिट्ठसुतमुत्तेसु वा ।
१० नाञ्जेन विसुद्धिमिच्छति,
न हि सो रज्जति नो विरज्जति ॥

धोनो न हि तेन मञ्जति यदिदं दिट्ठसुतमुत्तेसु वा ति । धोनो
ति । धोना वुच्चति पञ्जा । या पञ्जा पजानना ... पे० ... अमोहो धम्म-
विचयो सम्मादिट्ठि । किंकारणा धोना वुच्चति पञ्जा ? ताय पञ्जाय
१५ कायदुच्चरितं धुतं च धोतं च सन्धोतं च निद्धोतं च, वचीदुच्चरित
मनोदुच्चरितं धुतं च धोतं च सन्धोतं च निद्धोतं च, रागो धुतो च धोतो
च सन्धोतो च निद्धोतो च, दोसो ... मोहो ... कोधो ... उपनाहो .
मक्खो . पळासो ... इस्सा ... मच्छरियं ... माया ... साठेय्य .. थम्भो
सारम्भो .. मानो ... अतिमानो .. मदो ... पमादो ... सब्बे किलेसा ... सब्बे
१३७ २० दुच्चरिता ... सब्बे दरथा .. सब्बे परिळाहा ... सब्बे सन्तापा .. सब्बा-
कुसलाभिसङ्गारा धुता च धोता च सन्धोता च निद्धोता च । त-
कारणा धोना वुच्चति पञ्जा ।

१०६ अथ वा, सम्मादिट्ठिया मिच्छादिट्ठि धुता च धोता च सन्धोता
च निद्धोता च, सम्मासङ्कप्पेन मिच्छासङ्कप्पो धुतो च धोतो च सन्धोतो
२५ च निद्धोतो च, सम्मावाचाय मिच्छावाचा धुता' च ... सम्माकम्मन्तेन
मिच्छाकम्मन्तो धुतो च ... सम्माआजीवेन मिच्छाआजीवो धुतो च
सम्मावायामेन मिच्छावायामो धुतो च ... सम्मासतिया मिच्छासति
धुता च ... सम्मासमाधिना मिच्छासमाधि धुतो च ... सम्मावाणेन

१ धुता च धोता च - सी०; एवमुपरि पि ।

मिच्छात्राणं धुतां च ... सम्माविमुत्तिया मिच्छाविमुत्ति धुतां च धोता च
सन्धोता च निद्धोता च ।

अथ वा, अरियेन अट्टङ्गिकेन मग्गेन सब्बे किलेसा ... सब्बे
दुच्चरिता ... सब्बे दरथा ... सब्बे परिळाहा ... सब्बे सन्तापा ... सब्बाकु-
सलाभिसङ्घारा धुता च धोता च सन्धोता च निद्धोता च । अरहा इमेहि ⁵
धोनेहि' धम्मेहि उपेतो समुपेतो उपगतो' समुपगतो' उपपन्नो समुपपन्नो
समन्नागतो । तस्मा अरहा धोतो । सो धुतरागो धुतपापो धुतकिलेसो
धुतपरिळाहो ति - धोतो ।

धोतो न हि तेन मञ्जति यदिदं दिट्ठसुत्तमुत्तेसु वा ति । धोतो
दिट्ठ न मञ्जति, दिट्ठस्मिं न मञ्जति, दिट्ठतो न मञ्जति, दिट्ठा' मे ति न ¹⁰
मञ्जति, सुतां न मञ्जति, सुतस्मिं न मञ्जति, सुततो न मञ्जति, सुतां
मे ति न मञ्जति; मुतां न मञ्जति, मुतस्मिं न मञ्जति, मुततो न
मञ्जति, मुतां मे ति न मञ्जति; विञ्जातां न मञ्जति, विञ्जातस्मिं न
मञ्जति, विञ्जाततो न मञ्जति, विञ्जातां मे ति न मञ्जति । वुत्तां पि'
हेतां भगवता - "अस्मी' ति', भिक्खवे, मञ्जितमेतां, अयमहमस्मी" ति' ¹⁵
मञ्जितमेतां, भविस्सं ति मञ्जितमेतां, न भविस्सं ति मञ्जितमेतां,
रूपी भविस्सं ति मञ्जितमेतां, अरूपी भविस्सं ति मञ्जितमेतां,
सञ्जी भविस्सं ति मञ्जितमेतां, असञ्जी भविस्सं ति मञ्जित-
मेतां, नेवसञ्जीनासञ्जी भविस्सं ति मञ्जितमेतां । मञ्जितं,
भिक्खवे, रोगो', मञ्जितं गण्डो, मञ्जितं सल्लं, मञ्जितं उपह्वो । ²⁰
तस्मातिह, भिक्खवे, अमञ्जमानेन चेतसा विहरिस्सामा ति, एवं हि
वो, भिक्खवे, सिक्खितव्वं" ति - धोतो न हि तेन मञ्जति यदिदं
दिट्ठसुत्तमुत्तेसु वा ।

R. 138

नाञ्जेन विसुद्धिमिच्छती ति । धोतो अञ्जेन असुद्धिमग्गेन
मिच्छापटिपदाय अनिय्यानिकपथेन अञ्जत्र सतिपट्टानेहि अञ्जत्र सम्म-
प्पधानेहि अञ्जत्र इद्धिपादेहि अञ्जत्र इन्द्रियेहि अञ्जत्र बलेहि अञ्जत्र ²⁵
बोज्झङ्गेहि अञ्जत्र अरिया अट्टङ्गिका मग्गा सुद्धिं विसुद्धिं परिसुद्धिं

B. 107

१. धोनेभ्येहि - स्या० । २. उपागतो - सी० । ३. समुपागतो - सी० । ४. दिट्ठ -
सी०, स्या० । ५. स्या० पौत्थके नत्थि । ६-६. अस्मिन्ति - सी० । ७-७. अयमहमस्मिन्ति -
सी०; अनस्मी ति - स्या० । ८. मञ्जितं हि - सी० । ९. रागो - सी० ।

मुक्तिं विमुक्तिं परिमुक्तिं न इच्छति न सादियति न पत्येति न पिहेति
नाभिजप्पती ति - नाञ्जेन विसुद्धिमिच्छति ।

न हि सो रज्जति नो विरज्जती ति । सब्बे बालपुथुज्जना
रज्जन्ति, पुथुज्जनकल्याणकं उपादाय सत्त सेक्खा विरज्जन्ति; अरहा नेव
रज्जति नो विरज्जति । विरत्तो सो खया रागस्स वीतरागत्ता, खया
दोसस्स वीतदोसत्ता, खया मोहस्स वीतमोहत्ता । सो वुट्ठवासो च्छिण्ण-
चरणो ...पे०... जातिजरामरणसंसारो, नत्थि तस्स पुनब्भवो ति - न हि
सो रज्जति नो विरज्जति । तेनाह भगवा -

“धो नो न हि तेन मञ्जति,
यदिदं दिट्ठसुतमुत्तेसु वा ।
नाञ्जेन विसुद्धिमिच्छति,
न हि सो रज्जति नो विरज्जती” ति ॥

जरसुत्तनिद्देशो छट्ठो ।

७. तित्समेत्तेव्यसुत्तनिद्देशो

अथ तित्समेत्तेव्यसुत्तनिद्देशं वक्खति -

R. 139

15

४९. मेथुनमनुयुत्तस्स, (इच्छायस्मा तित्सो मेत्तेव्यो')

विघातं ब्रूहि मारिस ।

सुत्त्वान तव सासनं, विवेके सिक्खिस्सामसे ॥

B 109

20

मेथुनमनुयुत्तस्सा ति । मेथुनधम्मो नाम यो सो असद्धम्मो
गामधम्मो वसलधम्मो दुट्ठुल्लो ओदकन्तिको रहस्सो द्वयद्वयसमापत्ति ।
क्किंकारणा वुच्चति मेथुनधम्मो ? उभिन्नं रत्तानं सारत्तानं अवस्सुत्तानं
परियुट्ठितानं परियादिन्नचित्तानं उभिन्नं सदिसानं धम्मो ति - तंकारणा
वुच्चति मेथुनधम्मो । यथा उभो कलहकारका मेथुनका ति वुच्चन्ति,
उभो भण्डनकारका मेथुनका ति वुच्चन्ति, उभो भस्सकारका मेथुनका
ति वुच्चन्ति, उभो विवादकारका मेथुनका ति वुच्चन्ति, उभो अधि-
करणकारका मेथुनका ति वुच्चन्ति, उभो वादिनो मेथुनका ति
वुच्चन्ति, उभो सल्लापका मेथुनका ति वुच्चन्ति; एवमेवं उभिन्नं

25

रत्तानं सारत्तानं अवस्सुतानं परियुद्धितानं परियादिन्नचित्तानं उभिन्नं
सदिसानं धम्मो ति - तंकारणा वुच्चति मेथुनधम्मो ।

मेथुनमनुयुत्तस्सा ति । मेथुनधम्मो युत्तस्स पयुत्तस्स आयुत्तस्स
समायुत्तस्स तच्चरितस्स तब्बहुलस्स तग्गरुक्कस्स तन्निन्नस्स तप्पोणस्स
तप्पभारस्स तदधिमुत्तस्स तदधिपतेय्यस्सा^१ ति - मेथुनमनुयुत्तस्स । 5

इच्चायस्मा तित्तसो मेत्तेय्यो ति । इच्चा ति । पदसन्धि पदसंसगो
पदपारिपूरी अक्खरसमवायो व्यञ्जनसिलिट्ठता पदानुपुव्वतापेतं^२ -
इच्चा ति । आयस्मा ति । पियवचनं गरुवचनं सगारववचनं सप्पतित्तस-
वचनमेतं - आयस्मा ति । तित्तसो ति । तस्स थेरस्स नामं सङ्घा
समञ्जा पञ्जति बोहारो नामं नामकम्मं नामधेय्यं निरुत्ति व्यञ्जनं 10
अभिलापो । मेत्तेय्यो ति । तस्स थेरस्स गोत्तं सङ्घा समञ्जा पञ्जति
बोहारो ति - इच्चायस्मा तित्तसो मेत्तेय्यो ।

R. 140

विघातं ब्रूहि मारिसा ति । विघातं ति^३ । विघातं उपघातं
पीळनं घट्टनं उपह्वं उपसगं ब्रूहि आचिक्ख देसेहि पञ्जपेहि^४ पट्टपेहि विवर
विभज उत्तानीकरोहि पकासेहि । मारिसा ति । पियवचनं गरुवचनं 15
सगारववचनं सप्पतित्तसवचनमेतं मारिसा ति - विघातं ब्रूहि मारिस ।

सुत्त्वान तव सासनं ति । तुय्हं वचनं व्यप्पथं देसनं अनुसासनं^५
अनुसिट्ठि सुत्वा सुणित्वा-उग्गहेत्वा^६ उपधारयित्वा उपलक्खयित्वा ति -
सुत्त्वान तव सासनं ।

विवेके सिक्खिस्सामसे ति । विवेको ति । तयो विवेका - काय- 20
विवेको, चित्तविवेको, उपधिविवेको । कतमो कायविवेको ? इध भिक्खु
विवित्तं सेनासनं भजति अरञ्जं रुक्खमूलं पव्वतं कन्दरं गिरिगुहं सुसानं
वनपत्थं अब्भोकासं पलासपुञ्जं^७ । कायेन^८ विवित्तो विहरति । सो एको
गच्छति, एको तिट्ठति, एको निसीदति, एको सेय्यं कप्पेति, एको गामं
पिण्डाय पविसति, एको पटिक्कमति, एको र्हो निसीदति, एको चङ्कमं 25
अधिट्ठाति, एको चरति, एको विहरति इरियति वत्तति पालेति यपेति
यापेति - अयं कायविवेको ।

B. 109

१. तदधिपतेय्यस्सा - स्या० । २. पदानुपुव्वता नामेतं - सी०; पदानुपुव्वतामेतं -
स्या० । ३-३. स्या० पोत्यके नत्थि । ४. पञ्जपेहि - स्या० । ५. स्या० पोत्यके नत्थि ।
६. उग्गहित्वा - स्या० । ७. पलालपुञ्जं - सी०, स्या० । ८. कायेन च - स्या० ।

B. 141

- कतमो चित्तविवेको ? पठमं भ्रानं समापन्नस्त नीवरणेहि चित्तं विवित्तं होति, द्रुतियं भ्रानं समापन्नस्त वितक्कविचारेहि चित्तं विविन्नं होति, ततियं भ्रानं समापन्नस्त पीतिया चित्तं विवित्तं होति, चतुत्थं भ्रानं सनापन्नस्त सुखद्रुक्खेहि चित्तं विवित्तं होति, आकासानञ्चायतनं सना-
- 5 पन्नस्त रूपसञ्जाय पटिघसञ्जाय नानत्तसञ्जाय चित्तं विवित्तं होति विञ्जाणञ्चायतनं समापन्नस्त आकासानञ्चायतनसञ्जाय चित्तं विविन्नं होति, आकिञ्चञ्चायतनं समापन्नस्त विञ्जाणञ्चायतनसञ्जाय चित्तं विवित्तं होति, नेवसञ्जानासञ्जायतनं समापन्नस्त आकिञ्चञ्चायतनसञ्जाय चित्तं विवित्तं होति, सौतापन्नस्त सक्कायदिट्ठिया विचिकिञ्छाण
- 10 सीलव्वतपरामासा दिट्ठानुसया विचिकिञ्छानुसया तदेकट्ठेहि च किलेसेहि चित्तं विवित्तं होति, सकदागानिस्त ओळारिका कामरागसञ्जोज्जा पटिघसञ्जोज्जा ओळारिका कामरागानुसया पटिघानुसया तदेकट्ठेहि च किलेसेहि चित्तं विवित्तं होति, अदागामिस्त अनुसहगता कानरागसञ्जोज्जा पटिघसञ्जोज्जा अनुसहगता कानरागानुसया पटिघानुसया
- 15 तदेकट्ठेहि च किलेसेहि चित्तं विवित्तं होति, अरहूतो रूपरागा अरूपरागा नाना उद्धच्चा अविज्जाय मानानुसया भवरगानुसया अविज्जानुसया तदेकट्ठेहि च किलेसेहि वहिद्धा च सब्बनिमित्तेहि चित्तं विवित्तं होति - अयं चित्तविवेको ।

- कतनो उपविवेको ? उपधि वुच्चन्ति किलेस्ता च खण्ण
- 20 च अभिसङ्कारा च । उपधिविवेको वुच्चति अमतं निव्वानं । यो सो सब्बसङ्कारसनथो सब्बपधिपटिनिस्सग्गो' तण्हक्कयो विरागो निरोज्जे निव्वानं - अयं उपधिविवेको । कायविवेको च विवेकट्ठकायानं' नेक्खम्माभिरतानं ; चित्तविवेको च परिसुद्धचित्तानं परमवोदानपत्तानं' : उपधिविवेको च निरूपधीनं' पुग्गलानं विसङ्कारगतानं । विवेके सिक्खित्तामत्ते
- 25 ति । सो थेरो पकतिया सिक्खित्तसिक्खो । अपि च, धम्मदेसनं' उपादायं धम्मदेसनं' सावेत्तो' एवमाह - विवेके सिक्खित्तामत्ते ति । तेनाह थेरो तित्त्समेत्तेय्यो' -

१. सव्वं - स्या० । २. वुक्कट्ठकायानं - स्या० । ३. ० बोदानपत्तानं - सी०, स्या० । ४. निरूपधीनं - सी० । ५-५. स्या० षोत्थके नत्थि । ६. सावेत्तो - सी०, स्या० । ७. तित्त्सो नेत्तेय्यो - सी०, स्या० ।

“मेथुनमनुयुत्तस्स, (इच्चायस्मा तिस्सो मेत्तेव्यो)

B. 110

विघातं ब्रूहि मारिस्स।

सुत्वान तव सासनं, विवेके सिक्खिस्सामसे” ति ॥

५०. मेथुनमनुयुत्तस्स, (मेत्तेव्या ति भगवा)

R. 142

मुस्सते वा पि सासनं।

5

मिच्छा च पटिपज्जति, एतं तस्मिं अनारियं ॥

मेथुनमनुयुत्तस्सा ति । मेथुनधम्मो नाम यो सो असद्धम्मो गाम-
धम्मो वसलधम्मो दुट्ठुल्लो ओदकन्तिको रहस्सो द्वयंद्यसमापत्ति ।
किंकारणा वुच्चति मेथुनधम्मो ? उभिन्नं रत्तानं सारत्तानं अवस्सुतानं
परियुट्ठितानं परियादिन्नचित्तानं उभिन्नं सदिसानं धम्मो ति—तंकारणा 10
वुच्चति मेथुनधम्मो । यथा उभो कलहकारका मेथुनका ति वुच्चन्ति,
उभो भण्डनकारका मेथुनका ति वुच्चन्ति, उभो भस्सकारका मेथुनका
ति वुच्चन्ति, उभो विवादकारका मेथुनका ति वुच्चन्ति, उभो अधि-
करणकारका मेथुनका ति वुच्चन्ति, उभो वादिनो मेथुनका ति वुच्चन्ति,
उभो सल्लापका मेथुनका ति वुच्चन्ति ; एवमेव उभिन्नं रत्तानं सारत्तानं 16
अवस्सुतानं परियुट्ठितानं परियादिन्नचित्तानं उभिन्नं सदिसान धम्मो ति
—तंकारणा वुच्चति मेथुनधम्मो ।

मेथुनमनुयुत्तस्सा ति । मेथुनधम्मो युत्तस्स पयुत्तस्स आयुत्तस्स
समायुत्तस्स तच्चरितस्स तब्बहुलस्स तग्गसकस्स तन्नित्तस्स तप्पोणस्स
तप्पभारस्स तदधिमुत्तस्स तदधिपतेव्यस्सा ति — मेथुनमनुयुत्तस्स । 20

मेत्तेव्या ति । भगवा तं थेरं गोत्तेन आलपति । भगवा ति । शारवा-
धिवचनं । अपि च, भग्गरागो ति भगवा, भग्गदोसो ति भगवा, भग्गमोहो
ति भगवा, भग्गमानो ति भगवा, भग्गदिट्ठी ति भगवा, भग्गकण्डको^१ ति
भगवा, भग्गकिल्लेसो ति भगवा, भजि विभजि पविभजि^२ धम्मरतनं ति
भगवा, भवानं अन्तकरो ति भगवा, भावितकायो भावितसीलो भावित- 25
चित्तो भावितपञ्जो ति भगवा, भजि वा भगवा अरञ्जवनपत्थानि^३
पत्तानि सेनासनानि अप्पसद्धानि अप्पनिग्घोसानि विजनवातानि मनुस्स-
राहस्सेय्यकानि^४ पटिसल्लानसारुप्पानी^५ ति भगवा, भागी वा भगवा

B. 111

R. 143

१ भग्गकण्डको—सी०, स्या० । २ पटिविभजि—स्या० । ३ अरञ्जे वनपत्थानि—
सी० । ४ मनुस्सराहसेय्यकानि—सी०, स्या० । ५ ० सारुप्पानी—स्या० ।

चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपञ्चयभेसज्जपरिक्खारानं ति भगवा,
 भागी वा भगवा अत्थरसस्स धम्मरसस्स^१ विमुत्तिरसस्स अधिसीलस्स
 अधिचित्तस्स अधिपञ्चाया ति भगवा, भागी वा भगवा चतुन्नं ज्ञानानं
 चतुन्नं अप्पमञ्चानं चतुन्नं अरूपसमापत्तीनं ति भगवा, भागी वा भगवा
 5 अट्टन्नं विमोक्खानं अट्टन्नं अभिभायतनानं नवन्नं अनुपुब्बविहारसमा-
 पत्तीनं ति भगवा, भागी वा भगवा दसन्नं सञ्जाभावानानं दसन्नं कसिण-
 समापत्तीनं आनापानस्सतिसमाधिस्स असुभसमापत्तिया ति भगवा, भागी
 वा भगवा चतुन्नं सतिपट्टानानं चतुन्नं सम्मप्पघानानं चतुन्नं इद्धिपादानं
 पञ्चन्नं इन्द्रियानं पञ्चन्नं बलानं सत्तन्नं बोक्कञ्जानं अरियस्स अट्टिञ्जकस्स
 10 मग्गस्सा ति भगवा, भागी वा भगवा दसन्नं तथागतबलानं चतुन्नं वेसा-
 रज्जानं चतुन्नं पटिसम्भिदानं छन्नं अभिञ्चानं^३ छन्नं बुद्धधम्मानं ति
 भगवा । भगवा ति नेतं नामं मातरा कतं, न पितरा कतं, न मातरा कतं,
 न भगिनिया कतं, न मित्तामच्चेहि कतं, न जातिसालोहितेहि कतं
 न समणब्राह्मणेहि कतं, न देवताहि कतं । विमोक्खन्तिकमेतं बुद्धानं
 15 भगवन्तानं बोधिया मूले सह सब्बञ्चुतञ्चाणस्स^४ पटिलाभा सञ्चिका
 पञ्चत्ति यदिदं भगवा ति - मेत्तेय्या ति भगवा ।

मुस्सते वा पि सासनं ति । द्वीहि कारणेहि सासनं मुस्सति -
 परियत्तिसासनं पि मुस्सति, पटिपत्तिसासनं पि मुस्सति । कतमं परियत्ति-
 सासनं ? यं तस्स परियापुटं^५ - सुत्तं गेय्यं वेय्याकरणं गाथा उदानं इति-
 20 वुत्तकं जातकं अब्भुतधम्मं वेदल्लं - इदं परियत्तिसासनं । तं पि मुस्सति
 सम्मुस्सति^६ पमुस्सति सम्पमुस्सति परिबाहिरो होती ति - एवं पि
 मुस्सते वा पि सासनं ।

B 144

कतमं पटिपत्तिसासनं ? सम्मापटिपदा अनुलोमपटिपदा
 अपञ्चनीकपटिपदा अन्वत्थपटिपदा धम्मानुधम्मपटिपदा सीलेसु परिपूर-
 25 कारिता^७ इन्द्रियेसु गुत्तद्वारता भोजने मत्तञ्चुता जागरियानुयोगो सति-
 सम्पजञ्ज चत्तारो सतिपट्टाना चत्तारो सम्मप्पघाना चत्तारो इद्धिपादा
 पञ्चिन्द्रियानि पञ्चबलानि सत्त बोक्कञ्जा अरियो अट्टिञ्जको मग्गो -

१ सी० पोत्थके नस्सि । २. अभिञ्चाणान-सी० । ३ सब्बञ्चुतवाणस्स-सी०,
 स्या० । ४ परियापुणन-सी० । ५ अब्भुतधम्मं-स्या० । ६ परिमुस्सति-स्या०; एवमुपरि
 पि । ७. परियुरिकारिता-स्या० ।

इदं पटिपत्तिसासनं । तं पि मुस्सति सम्मुस्सति पमुस्सति सम्पमुस्सति परिबाह्हिरो होती ति । एवं पि मुस्सते वा पि सासनं ।

मिच्छा च पटिपज्जती ति । पाणं पि हूनति, अदिन्नं पि आदियति, सन्धिं पि छिन्दति, निल्लोपं पि हरति, एकागारिकं पि करोति, परिपन्थे पि तिट्ठति, परदारं पि गच्छति, मुसा पि भणती ति - मिच्छा च पटिपज्जति । 5

एतं तस्मिं अनारियं ति । एतं तस्मिं पुग्गले अनरियधम्मो बाल-धम्मो मूळहधम्मो अञ्जाणधम्मो अमराविकखेपधम्मो, यदिदं मिच्छा-पटिपदा ति - एतं तस्मिं अनारियं । तेनाह भगवा -

‘‘मेथुनमनुयुत्तस्स, (मेत्तेय्या’ ति भगवा)

मुस्सते वा पि सासनं ।

मिच्छा च पटिपज्जति, एतं तस्मिं अनारियं’’ ति ॥ 10

५१. एको पुब्बे चरित्वान, मेथुनं यो निसेवति ।

यानं भन्तं व तं लोके, हीनमाहु पुथुज्जनं ॥

एको पुब्बे चरित्वाना ति । द्वीहि कारणेहि एको पुब्बे चरित्वान -पब्बज्जासङ्घातेन वा गणाववस्सग्गट्ठेन वा । कथं पब्बज्जासङ्घातेन एको पुब्बे चरित्वान ? सब्बं घरावासपलिबोधं’ छिन्दित्वा पुत्तदार-पलिबोधं छिन्दित्वा जातिपलिबोधं छिन्दित्वा भित्तामच्चपलिबोधं छिन्दित्वा सन्निधिपलिबोधं छिन्दित्वा केसमस्सुं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पब्बजित्वा अकिञ्चनभावं’ उपगन्त्वा एको चरति विहरति इरियति वत्तति पालेति यपेति यापेति । एवं पब्बज्जासङ्घातेन एको पुब्बे चरित्वान । 20 R. 145

कथं गणाववस्सग्गट्ठेन एको पुब्बे चरित्वान ? सो एवं पब्बजितो समानो एको अरञ्जवनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवति अप्प-सहानि अप्पनिग्घोसानि विजनवातानि मनुस्सराहस्सेय्यकानि पटि-सल्लानसारुप्पानि । सो एको गच्छति, एको तिट्ठति, एको निसीदति, एको सेय्यं कप्पेति, एको गामं पिण्डाय पविसति, एको पटिक्कमति, एको रहो निसीदति, एको चङ्कमं अधिट्ठाति, एको चरति विहरति इरि-

१ मेत्तेय्या - म० । २ ० पलिबोधं - सी०, एवमुपरि पि । ३. भाकिञ्च-नभावं - स्या० ।

यति वत्तति पालेति यपेति यापेति । एवं गणाववस्सग्गहेन एको पुब्बे चरित्त्वान ।

B. 113

मेथुनं यो निसेवती ति । मेथुनधम्मो नाम यो सो असद्धम्मो ...पे०...तंकारणा वुच्चति मेथुनधम्मो । मेथुन यो निसेवती ति । यो^१ अपरेन समयेन बुद्ध धम्मं सङ्घं सिक्खं पच्चक्खाय हीनायावत्तित्वा मेथुनं धम्मं सेवति निसेवति ससेवति पटिसेवती ति - मेथुनं यो निसेवति ।

यानं भन्तं व तं लोके ति । यानं ति । हृत्थियानं अस्सयानं गोयान अजयानं मेण्डयानं^२ ओट्टयान खरयान भन्त अदन्तं अकारित अविनीतं उप्पथ गण्हाति, विसम खाणु पि पासाणं पि अभिरुहति,^३ यानं^४ पि^५ आरोहनकं पि^६ भञ्जति^७, पपाते पि पपतति । यथा त भन्त यान अदन्तं अकारित अविनीत उप्पथ गण्हाति; एवमेव सो विब्भन्तको भन्तयानपटिभागो उप्पथं गण्हाति, मिच्छादिट्ठि गण्हाति...पे० । मिच्छा-सर्माधि गण्हाति । यथा त भन्त यानं अदन्त अकारित अविनीत विसम खाणु पि पासाणं पि अभिरुहति, एवमेव सो विब्भन्तको भन्तयानपटि-
भागो विसम कायकम्मं अभिरुहति, विसम वचीकम्म अभिरुहति, विसम मनोकम्म अभिरुहति, विसम पाणातिपातं अभिरुहति, विसमं अदिन्ना-दानं अभिरुहति, विसम कामेसु मिच्छाचार अभिरुहति, विसम मुसावाव अभिरुहति, विसमं पिसुणवाच अभिरुहति, विसम फरुसवाच अभि-
रुहति, विसम सम्फप्पलाप अभिरुहति, विसमं अभिज्झ अभिरुहति,
विसम व्यापादं अभिरुहति, विसम मिच्छादिट्ठि अभिरुहति, विसमे सङ्कारे अभिरुहति, विसमे पञ्च कामगुणे अभिरुहति, विसमे नीवरणे^८ अभिरुहति । यथा तं भन्तं यानं अदन्त अकारित अविनीत यान पि आरोहनकं पि भञ्जति, एवमेव सो विब्भन्तको भन्तयानपटिभागो निरये अत्तानं भञ्जति, तिरच्छानयोनियं^९ अत्तान भञ्जति, पेत्तिविसये अत्तानं भञ्जति, मनुस्सलोके अत्तानं भञ्जति, देवलोके अत्तान भञ्जति । यथा तं भन्तं यानं अदन्त अकारितं अविनीत पपाते पपतति, एवमेव सो विब्भन्तको भन्तयानपटिभागो जातिपपातं^{१०} पि^{११} पपतति, जरापपात पि

R. 146

१. सो - स्या० । २. मेण्डकयान - स्या० । ३. अभिरुहति - सी०, स्या०, एवमुपरि पि । ४-५ स्या० पोत्थके नत्थि । ५-५ विभञ्जति - सी० । ६ पञ्च नीवरणे - सी० । ७. ० योनिया - स्या० । ८-८ जातिपपातमिहिपि - स्या०; एवमुपरि पि ।

पपतति, व्याधिपपातं पि पपतति, मरणपपातं पि पपतति, सोकपरिदेव-
दुक्खदोमनस्सुपायासपपातं पि पपतति। लोके ति। अपायलोके मनुस्स-
लोके ति—यानं भन्तं व तं लोके।

हीनमाहु पुथुज्जनं ति। पुथुज्जना ति। केनट्टेन पुथुज्जना ? पुथु
किलेसे जनेन्ती ति पुथुज्जना, पुथु अविहतसक्कायदिट्ठिका ति पुथुज्जना, 5
पुथु सत्थारानं मुखुल्लोकिका ति पुथुज्जना, पुथु सव्वगतीहि अवुट्ठिता' ति'
पुथुज्जना, पुथु नानाभिसह्वारे' अभिसह्वरोन्ती ति पुथुज्जना, पुथु B. 114
नानाओघेहि बुद्ध्यन्ती ति पुथुज्जना, पुथु नानासन्तापेहि सन्तपन्ती ति
पुथुज्जना, पुथु नानापरिच्छाहेहि परिदय्हन्ती ति पुथुज्जना, पुथु पञ्चसु
कामगुणेषु रत्ता गिद्धा गधिता' मुच्छिता अज्झोसन्ना' लग्गा लग्गिता 10
पल्लिबुद्धा ति पुथुज्जना, पुथु पञ्चहि नीवरणेहि आवुता निवुता ओवुता'
पिहिता पटिच्छन्ना पटिकुज्जिता ति पुथुज्जना। हीनमाहु पुथुज्जनं ति।
पुथुज्जनं हीनं निहीनं ओमकं लामकं छतुक्कं' परित्तं ति एवमाहुंसु'
एवं कथेन्ति एवं भणन्ति एवं दीपयन्ति एवं बोहरन्ती ति—हीनमाहु
पुथुज्जनं। तेनाह भगवा— 15

“एको पुब्बे चरित्वान, मेथुनं यो निसेवति।

यानं भन्तं व तं लोके, हीनमाहु पुथुज्जनं” ति॥

५२. यसो कित्ति च या पुब्बे, हायते वा पि तस्स सा।

एतं पि दिस्वा सिक्खेथ, मेथुनं विप्पहातवे॥

यसो कित्ति च या पुब्बे हायते वा पि तस्स सा ति। कतमो यसो ? 20
इधेकच्चो पुब्बे समणभावे सक्कतो होति गरुक्कतो मानितो पूजितो अप-
चित्तो लामी चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारानं—
अयं यसो। कतमा कित्ति ? इधेकच्चो पुब्बे समणभावे कित्तविष्णगतो
होति पण्डितो वियत्तो मेधावी बहुस्सुतो चित्तकथी कल्याणपटिभानो—
सुत्तन्तिको ति वा विनयधरो ति वा धम्मकथिको ति वा आर- 25
ञ्जिको ति वा पिण्डपातिको ति वा पंसुकूलिको ति वा तेची-
वरिको ति वा सपदानचारिको ति वा खलुपच्छाभतिको ति वा

१-१ आवुटाति—स्या०। २. ०सह्वारेहि—स्या०। ३ गधिता—सी०। ४. अज्झो-
पन्ना—सी०, स्या०। ५ ओफुटा—स्या०। ६ जतुक्कं—सी०, स्या०। ७ एवमाहु एवमाहुंसु-
स्या०। ८ कित्ति—स्या०, एवमुपरि पि।

नेसज्जिको ति वा यथासन्थतिको ति वा पठमस्स भानस्स लाभो ति वा दुतियस्स भानस्स लाभो ति वा ततियस्स भानस्स लाभो ति वा चतुत्थस्स भानस्स लाभो ति वा आकासानञ्चायतनसमापत्तिया लाभो ति वा विञ्जाणञ्चायतनसमापत्तिया लाभो ति वा आक्किञ्चायतनसमापत्तिया लाभो ति वा नेवसञ्जानासञ्चायतनसमापत्तिया लाभो ति वा, अयं कित्ति ति - यसो कित्ति च या पुब्बे ।

B 116

हायते वा पि तस्स सा ति । तस्स अपरेण समयेण वुद्धं धम्मं सङ्घं सिक्खं पच्चक्खाय हीनायावत्तस्स सो च यसो सा च कित्ति हायति परिहायति परिघंसति परिपतति अन्तरधायति विप्पलुज्जती ति - यसो कित्ति च या पुब्बे हायते वा पि तस्स सा ।

R. 148

10

एतं पि दिस्वा सिक्खेथ मेथुनं विप्पहातवे ति । एतं ति । पुब्बे

समणभावे यसो^१ कित्ति च, अपरभागे वुद्धं धम्मं सङ्घं सिक्खं पच्चक्खाय हीनायावत्तस्स अयसो च अकित्ति च; एतं सम्पत्ति विपातं । दिस्वा ति । पस्सित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा ति - एतं पि दिस्वा । सिक्खेथा ति । तिस्सो सिक्खा - अधिसीलसिक्खा, अधिचित्तसिक्खा, अधिपञ्जासिक्खा । कतमा अधिसीलसिक्खा ? इध भिक्खु सीलवा होति, पात्तिमोक्खसंवरसंबुतो विहरति आचारगोचरसम्पन्नो अणुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु । खुद्दको सीलक्खन्धो, महन्तो सीलक्खन्धो । सीलं पतिट्ठा आदि चरणं संयमो संवरो मुखं पमुखं कुसलानं धम्मानं समापत्तिया - अय अधिसीलसिक्खा ।

20

कतमा अधिचित्तसिक्खा ? इध भिक्खु विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्कं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं भानं उपसम्पज्ज विहरति ...पे०... दुतियं भानं ... ततियं भानं .. चतुत्थं भानं उपसम्पज्ज विहरति - अयं अधिचित्तसिक्खा ।

25

कतमा अधिपञ्जासिक्खा ? इध भिक्खु पञ्जवा होति उदय-त्थगामिनिया पञ्जाय समन्नागतो^१ अरियाय निब्बेधिकाय सम्मा दुक्ख-क्खयगामिनिया । सो इदं दुक्खं ति यथाभूतं पजानाति, अयं दुक्ख-समुदयो ति यथाभूतं पजानाति, अयं दुक्खनिरोधो ति यथाभूतं

१. यतो च - स्या० । २. समन्नागतो होति - सी० ।

पजानाति, अयं दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा ति यथाभूतं पजानाति, इमे आसवा ति यथाभूतं पजानाति, अयं आसवसमुदयो ति यथाभूतं पजानाति, अयं आसवनिरोधो ति यथाभूतं पजानाति, अयं आसवनिरोधगामिनी पटिपदा ति यथाभूतं पजानाति -अयं अधिपञ्जासिक्खा । मेथुनधम्मो' नाम यो सो असद्धम्मो...पे०... तंकारणा वुच्चति मेथुनधम्मो । 8

R. 140

B. 116

एतं पि दिस्वा सिक्खेथ मेथुनं विप्पहातवे ति । मेथुनधम्मस्स पहानाय वूपसभाय पटिनिस्सग्गाय पटिपस्सद्धिया अधिसीलं पि सिक्खेय्य, अधिचित्तं पि सिक्खेय्य, अधिपञ्जं पि सिक्खेय्य । इमा तिस्सो सिक्खायो' आवज्जन्तो सिक्खेय्य, जानन्तो सिक्खेय्य, पस्सन्तो सिक्खेय्य, पच्चवेक्खन्तो सिक्खेय्य, चित्तं अधिट्टुहन्तो सिक्खेय्य, सद्धाय अधिमुच्चन्तो सिक्खेय्य, विरियं'पग्गहन्तो सिक्खेय्य, सति उपट्टपेन्तो सिक्खेय्य, चित्तं समादहन्तो सिक्खेय्य, पञ्जाय पजानन्तो सिक्खेय्य, अभिञ्जेय्यं अभिजानन्तो सिक्खेय्य, परिञ्जेय्यं परिजानन्तो सिक्खेय्य, पहातब्बं पजहन्तो सिक्खेय्य, भावेतब्बं भावेन्तो सिक्खेय्य, सच्छिकातब्बं सच्छिकरोन्तो सिक्खेय्य आचरेय्य समाचरेय्य समादाय वत्तेय्या ति -एतं पि दिस्वा सिक्खेथ मेथुनं विप्पहातवे । तेनाह भगवा - 16

“यसो किति च या पुब्बे, हायते वा पि तस्स सा ।
एतं पि दिस्वा सिक्खेथ, मेथुनं विप्पहातवे” ति ॥

५३. सङ्कप्पेहि परेतो सो, कपणो विय भायति ।
सुत्वा परेसं निग्घोसं, मळकु होति तथाविधो ॥ 20

सङ्कप्पेहि परेतो सो कपणो विय भायती ति । कामसङ्कप्पेन व्यापादसङ्कप्पेन विहिंसासङ्कप्पेन दिट्ठिसङ्कप्पेन फुट्टो परेतो समोहितो समन्नागतो पिहितो' कपणो विय मन्दो विय मोमूहो विय भायति पज्जायति निज्जायति अपज्जायति' । यथा उलूको रक्खसाखायं मूसिकं मगयमानो' भायति पज्जायति निज्जायति अपज्जायति, यथा कोत्थु नदी-तारे मच्छे मगयमानो भायति पज्जायति निज्जायति अपज्जायति, 25

१. मेथुनन्ति मेथुनधम्मो-स्या० । २. सिक्खा-स्या० । ३. वीरियं-म० । ४. स्या० पौत्यके नत्थि । ५. अवज्जायति-स्या० । ६. मगयमानो-स्या०; एवमुपरि पि । ७. अवज्जायति-दो० ।

B. 160

यथा विळारो^१ सन्धिसमलसङ्कटिरे^२ मूसिकं मगयमानो भायति पज्भायति निज्भायति अपज्भायति, यथा गद्रभो वहञ्छन्नो सन्धिसमलसङ्कटिरे^३ भायति पज्भायति निज्भायति अपज्भायति, एवमेव सो विबन्तको कामसङ्कप्पेन व्यापादसङ्कप्पेन विहिसासङ्कप्पेन दिट्ठिसङ्कप्पेन फुट्ठो परेतो समोहितो समन्नागतो पिहितो कपणो विय मन्दो विय मोमूहो विय ज्ञायति पज्भायति निज्भायति अपज्भायती ति - सङ्कप्पेहि परेतो सो कपणो विय भायति ।

B. 117

सुत्वा परेसं निग्घोसं मड्कु होति तथाविधो ति । परेसं ति । उपज्भाया^४ वा आचरिया वा^५ समानुपज्भायका वा समानाचरिया वा मित्ता वा सन्दिट्ठा वा सम्भत्ता वा सहाया वा चोदेन्ति - "तस्स ते, आवुसो, अलाभा, तस्स ते दुल्लद्धं, यं त्वं एवरूपं उळारं सत्थारं लभित्वा एवं स्वाक्खाते धम्मविनये पब्बजित्वा एवरूपं अरियगणं लभित्वा हीनस्स^६ मेथुनधम्मस्स कारणा बुद्धं धम्मं सङ्गं सिक्खं पच्चक्खाय हीनायावत्तोसि । सद्धा पि नाम ते नाहोसि कुसलेसु धम्मेसु, हिरी^७ पि नाम ते नाहोसि कुसलेसु धम्मेसु, ओत्तप्पं पि नाम ते नाहोसि कुसलेसु धम्मेसु, वीरियं पि नाम ते नाहोसि कुसलेसु धम्मेसु, सति पि नाम ते नाहोसि कुसलेसु धम्मेसु, पञ्जा पि नाम ते नाहोसि कुसलेसु धम्मेसु" ति । तेसं वचनं ब्यप्पथं देसनं अनुसासनं अनुसिट्ठि सुत्वा सुणित्वा उग्गहेत्वा उपधारयित्वा उपलक्खयित्वा मड्कु होति, पीळितो^८ घट्टितो व्याधितो^९ दोमनस्सितो होति । तथाविधो ति । तथाविधो तादिसो तस्सण्ठितो तप्पकारो तप्पटिभागो । यो सो विबन्तको ति - सुत्वा परेसं निग्घोसं मड्कु होति तथाविधो । तेनाह मगवा -

B. 161

20

“सङ्कप्पेहि परेतो सो, कपणो विय भायति ।
सुत्वा परेसं निग्घोसं, मड्कु होति तथाविधो” ति ॥

25

५४. अथ सत्थानि कुरते, परवादेहि चोदितो ।
एस खवस्स महाग्घो, भोसवज्जं पगाहत्ति ॥

१ विळारो - स्या० । २ सन्धिसमलसङ्कटिरे - सी० । सन्धिसमलसङ्कटिरे - स्या०, रो० । ३-३. उपज्भायका वा आचरिया वा - स्या० । ४ अरियगण - सी० । ५ पि तस्स - सी० । ६ हिरी - स्या० । ७ स्या० पोत्यके न विस्सति । ८ पीळितो - सी० । ९ व्यथितो - स्या० ।

अथ सत्यानि कुस्ते परवादेहि चोदितो ति। अथा ति। पद-
सन्धि पदसंसर्गो पदपारिपूरी अक्खरसमवायो व्यञ्जनसिलिट्ठता^१ पदानु-
पुब्बतापेतं^२— अथा ति। सत्थानीति। तीणि सत्थानि— कायसत्थं, वची-
सत्थं, मनोसत्थं। तिविधं कायदुच्चरितं कायसत्थं, चतुब्बिधं वचीदुच्चरितं
वचीसत्थं, तिविधं मनोदुच्चरितं मनोसत्थं। परवादेहि चोदितो ति। 5
उपज्जायेहि^३ वा आचरियेहि वा समानुपज्जायकेहि^४ वा समानाचरिय-
केहि वा मितेहि वा सन्दिट्ठेहि वा सम्भत्तेहि वा सहायेहि वा चोदितो
सम्पजानमुसा भासति। “अभिरतो अहं, भन्ते, अहोसिं पब्बज्जाय। माता
मे पोसेतब्बा, तेनमिह विब्भन्तो” ति भणति। “पिता मे पोसेतब्बो,
तेनमिह विब्भन्तो” ति भणति। “भाता मे पोसेतब्बो ... भगिनी मे पोसे- 10
तब्बा ... पुत्तो मे पोसेतब्बो ... धीता मे पोसेतब्बा ... मित्ता मे पोसेतब्बा ..
अमच्चा मे पोसेतब्बा .. वातका मे पोसेतब्बा...सालोहिता मे पोसेतब्बा,
तेनमिह विब्भन्तो” ति भणति। वचीसत्थं करोति सङ्करोति^५ जनेति
सञ्जनेति निब्बत्तेति अभिनिब्बत्तेती ति—अथ सत्थानि कुस्ते पर-
वादेहि चोदितो। 15

B. 118

15

एस ख्वस्स महागोघो^६ ति। एसो तस्स^७ महागोघो महावनं महा-
गहनं महाकन्तारो महाविसमो महाकुटिलो महापङ्को महापलिपो महा-
पलिबोघो महाबन्धनं, यदिदं सम्पजानमुसावादो ति—एस ख्वस्स
महागोघो।

B. 162

मोसवज्जं पगाहती ति। मोसवज्जं वुच्चति मुसावादो। इधे- 20
कच्चो सभग्गतो वा परिसग्गतो वा आतिमज्जगतो वा पूगमज्जगतो वा
राजकुलमज्जगतो वा अभिनीतो सन्धिपुट्ठो—“एहम्भो^८ पुरिस, यं
जानासि तं वदेही” ति, सो अजानं वा आह—“जानामी” ति, “जान”
वा आह—“न जानामी” ति, अपस्सं वा आह—“पस्सामी” ति, पस्सं
वा आह—“न पस्सामी” ति। इति अत्तहेतु वा परहेतु वा* आमिस- 25
किञ्चिक्खहेतु वा सम्पजानमुसा भासति—इदं वुच्चति मोसवज्जं।

१ ° सिलिट्ठिता—सी०। २ ° पुब्बता नामेत—सी०; ° पुब्बतामेत—स्या०।
३ ° उपज्जायकेहि—स्या०, एवमुपरि पि। ४. ° पज्जायेहि—सी०। ५ ° स्या० पोत्यके नत्थि।
६ ° महागोघो—सी०। ७ ° खो अस्स—स्या०, रो०, खो तस्स—सी०। ८. ° एहि भो—स्या०।
* धनहेतु वा इति सी० पोत्यके अधिको पाठो विस्सति।

अपि च, तीहाकारेहि मुसावादो होति । पुब्बेवस्स होति -
 “मुसा भणित्सं” ति, भणन्तस्स होति - “मुसा भणामी” ति, भणितस्स
 होति - “मुसा मया भणितं” ति । इमेहि तीहाकारेहि मुसावादो होति ।
 अपि च, चतूहाकारेहि मुसावादो होति । पुब्बेवस्स होति - “मुसा
 ५ भणित्सं” ति, भणन्तस्स होति - “मुसा भणामी” ति, भणितस्स होति -
 “मुसा मया भणितं” ति, विनिधाय दिट्ठिं । इमेहि चतूहाकारेहि मुसा-
 वादो होति । अपि च, पञ्चहाकारेहि ... छहाकारेहि ... सत्तहाकारेहि..
 अट्ठहाकारेहि मुसावादो होति । पुब्बेवस्स होति - “मुसा भणित्सं”
 ति, भणन्तस्स होति - “मुसा भणामी” ति, भणितस्स होति - “मुसा
 १० मया भणितं” ति, विनिधाय दिट्ठिं, विनिधाय खन्तिं, विनिधाय र्चिं,
 विनिधाय सञ्जं, विनिधाय भावं । इमेहि अट्ठहाकारेहि मुसावादो होति ।
 मोसवज्जं पगाहती ति । मोसवज्जं पगाहति ओगाहति अज्जोगाहति
 पविसती ति - मोसवज्जं पगाहति । तेनाह भगवा -

B. 119

B. 168

“अथ सत्थानि कुस्ते, परवादेहि चोदितो ।
 १५ एस ख्वस्स महागेधो, मोसवज्जं पगाहती” ति ॥

५५. पण्डितो ति समञ्जातो, एकच्चरियं^१ अधिट्ठितो ।
 स^१ चा पि^१ मेथुने युत्तो, मन्दो व परिकिस्सति ॥

पण्डितो ति समञ्जातो ति । इधेकच्चो पुब्बे समणभावे कित्ति
 वण्णगतो होति - “पण्डितो वियत्तो मेधावी बहुस्सुतो चित्तकथी
 २० कल्याणपटिभानो सुत्तन्तिको ति वा विनयधरो ति वा धम्मकथिको ति
 वा . पे०... नेवसञ्जानासञ्जायतनसमापत्तिया लाभी” ति वा । एवं
 जातो होति पञ्जातो^१ समञ्जातो होती ति - पण्डितो ति समञ्जातो ।

एकच्चरियं अधिट्ठितो ति । द्वीहि कारणेहि एकच्चरिय अधि-
 ट्ठितो - पब्बज्जासङ्घातेन वा गणाववस्सग्गट्ठेन वा । कथं पब्बज्जा-
 २५ सङ्घातेन एकच्चरियं अधिट्ठितो ? सब्बं घरावासपल्लिबोधं छिन्दित्वा
 ..पे०... एवं पब्बज्जासङ्घातेन एकच्चरियं अधिट्ठितो । कथं गणा-
 ववस्सग्गट्ठेन एकच्चरियं अधिट्ठितो ? सो एवं पब्बजितो समानो

१ एकच्चरियं - सी०, स्या०, एवमुपरि पि । २-२. अथापि - स्या०, रो० । ३
 सञ्जातो - स्या० ।

एको अरञ्जवनपत्थानि पन्तानि ...पे०... एवं गणाववस्सगट्टेन
एकच्चरियं अधिट्ठितो ति - एकच्चरियं अधिट्ठितो ।

स चा पि मेथुने युत्तो ति । मेथुनधम्मो नाम यो सो असद्धम्मो
गामधम्मो ...पे०... तंकारणा वुच्चति मेथुनधम्मो । स चा पि मेथुने
युत्तो ति । सो अपरेन समयेन बुद्धं धम्मं सच्चं सिक्खं पच्चक्खाय 5
हीनायावत्तित्वा मेथुनधम्मे युत्तो पयुत्तो आयुत्तो समायुत्तो ति - स चा
पि मेथुने युत्तो ।

मन्दो व परिकिस्सती ति । कपणो विय मन्दो विय^१ मोमूहो विय
किस्सति परिकिस्सति परिकिलिस्सति । पाणं पि हनति, अदिक्खं पि आदि- R. 154
यति, सन्धि पि छिन्दति, निल्लोपं पि हरति, एकागारिकं पि करोति, 10
परिपन्थे पि तिट्ठति, परदारं पि गच्छति, मुसा पि भणति । एवं पि किस्सति
परिकिस्सति परिकिलिस्सति । तमेनं राजानो गहेत्वा विविधा कम्म-
कारणा कारेन्ति - कसाहि पि ताळेन्ति, वेत्तेहि पि ताळेन्ति, अद्धदण्डकेहि 15
पि ताळेन्ति, हत्थं पि छिन्दन्ति, पादं पि छिन्दन्ति, हत्थपादं पि छिन्दन्ति,
कण्णं पि छिन्दन्ति, नासं पि छिन्दन्ति, कण्णनासं पि छिन्दन्ति, बिलङ्ग- 15
थालिकं पि करोन्ति, सङ्खमुण्डिकं पि करोन्ति, राहुमुखं पि करोन्ति,
जोतिमालिकं पि करोन्ति, हत्थपज्जोतिकं पि करोन्ति, एरकवत्तिकं पि
करोन्ति, चिरकवासिकं पि करोन्ति, एणेय्यकं पि करोन्ति, बळिस-
मंसिकं पि करोन्ति, कहापणिकं पि करोन्ति, खारापत्तच्छिकं पि करोन्ति,
पलिघपरिवत्तिकं पि करोन्ति, पलालपीठकं^२ पि करोन्ति, तत्तेन पि तेलेन 20
ओसिञ्चन्ति, सुनखेहि पि खादापेन्ति, जीवन्तं पि सूले उत्तासेन्ति,
असिना पि सीसं छिन्दन्ति । एवं पि किस्सति परिकिस्सति परि-
किलिस्सति ।

अथ वा, कामतण्हाय अभिमूतो परियादिन्नचित्तो भोगे परि-
येसन्तो नावाय महासमुद्धं पक्खन्दति, सीतस्स पुरक्खतो उण्हस्स 25
पुरक्खतो ङंसमकसवातात्तपसरीसपसम्फस्सेहि^३ पीळियमानो^४ खुप्पिपा-
साय^५ मिथ्यमानो^६ तिगुम्बं^७ गच्छति, तक्कोलं गच्छति, तक्कसीलं

१ स्या० पोत्यके न विस्सति । २. ० पिट्टिकं - सी० । ३. ० सिरिसप० - सी०,
स्या०; एवमुपरि पि । ४. रिस्समानो पीळियमानो - स्या० । ५. खुप्पिपासाहि - सी० । ६.
मीयमानो - सी०; स्या० पोत्यके नत्वि । ७ गुम्बं - स्या० ।
म० नि० - १७

गच्छति, कालमुखं गच्छति, पुरपूरं गच्छति, वेसुङ्गं गच्छति, वेरापथ
 गच्छति, जवं गच्छति, तामलिं गच्छति, वङ्गं गच्छति, एलवन्धनं
 गच्छति, सुवण्णकूटं गच्छति, सुवण्णभूमि गच्छति, तम्बपिण्णं गच्छति,
 सुप्पादकं गच्छति, भास्कच्छं गच्छति, सुरट्टं गच्छति, भङ्गलोकं
 5 गच्छति, भङ्गणं गच्छति, सरमतं गणं गच्छति, योनं गच्छति,
 परमयोनं गच्छति, विनकं गच्छति, मूलपदं गच्छति, मस्कन्तारं
 गच्छति, जण्णुपथं गच्छति, अजपथं गच्छति, मेण्डपथं गच्छति, सद्धकूपथ
 गच्छति, छत्तपथ गच्छति, वंसपथं गच्छति, सकुणपथं गच्छति,
 मूसिकपथं गच्छति, दरिपथं गच्छति, वेत्ताचारं गच्छति। एवं पि
 10 किस्सति परिकिस्सति परिकिलिस्सति।

गवेसन्तो न विन्दति, अलाभमूलक पि दुक्ख दोमनस्स पटि-
 सवेदेति। एवं पि किस्सति परिकिस्सति परिकिलिस्सति।

गवेसन्तो विन्दति, लद्धा पि आरक्खमूलकं पि दुक्ख दोमनस्स
 पटिसवेदेति — “किन्ति मे भोगे नेव राजानो हरेय्यु, न चोरा हरेय्यु, न
 15 अग्गी दहेय्यु”, न उदक वहेय्य, न अपिया दाययादा हरेय्यु” ति। तस्स एवं
 1 आरक्खतो गोपयतो ते भोगा विप्पलुज्जन्ति। सो विप्पयोगमूलकपि
 दुक्खं दोमनस्सं पटिसवेदेति। एव पि किस्सति परिकिस्सति परि-
 किलिस्सती ति — स चा पि मेथुने युत्तो मन्दो व परिकिस्सति।
 तेनाह भगवा —

20 “पण्डितो ति समञ्जातो, एकच्चरिय अधिट्ठितो।
 स चा पि मेथुने युत्तो, मन्दो व परिकिस्सती” ति ॥

१. परम्मूख-सी०, मरणपार-स्या०। २. कर्मलि-स्या०, तमलि-रो०।
 ३. वङ्ग-स्या०। ४. जलवन-सी०, एलवदन-स्या०, रो०। ५. तम्बपणि-म०।
 ६. सुप्पारकं-सी०; सुप्पार-स्या०, रो०। ७. मस्क-स्या०; भस्कच्छ-रो०।
 ८. सुरट्ट-स्या०। ९. सङ्गलोकं-सी०; अङ्गणक-स्या०, रो०। १०. सकुणपथ
 गच्छति इति सी० पोत्यके अधिको पाठो दिस्सति। ११. सङ्गण-सी०, गङ्गण-स्या०, रो०।
 १२-१२. पदपतङ्गं-सी०; परमपङ्गण-स्या०, रो०। १३. पिन-स्या०। १४. नक्क-
 सी०, अल्लसन्धं-स्या०, रो०। १५-१५. स्या०, रो० पोत्यकेषु नत्थि। १६-१६. सी० पोत्यके
 नत्थि। १७. वेत्ताधार-स्या०, रो०। १८-१८. पखिसन्तो न लभति-स्या०, रो०; एवमुपरि
 पि। १९. न विन्दति-सी०। २०. च-सी०, स्या० रो०। २१. दहेय्य-सी०, दहेय्य-
 स्या०, रो०। २२. अपिया-सी०, स्या०, रो०। २३. रक्खतो-स्या०, रो०। २४. स्या०
 पोत्यके नत्थि। २५. स्या० पोत्यके नत्थि।

५६. एतमादीनवं अत्वा, मुनि पुब्बापरे इध ।
एकच्चरियं दळ्हं कथिरा, न निसेवेथ मेथुनं ॥

एतमादीनवं अत्वा मुनि पुब्बापरे इधा ति । एतं ति । पुब्बे समण-
भावे यसो च कित्ति च, अपरभागे बुद्धं धम्मं सङ्खं सिक्खं पच्चक्खाय हीना-
यावत्तस्स अयसो च अकित्ति च ; एतं सम्पत्तिं विपत्तिं च' । अत्वा ति । 6
जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा । मुनी ति ।
मोनं वुच्चति जाणं । या पञ्जा पजानना...पे०... सङ्गजालमतिच्च सो
मुनि । इधा ति । इमिस्सा दिट्ठिया इमिस्सा खन्तिया इमिस्सा रुचिया
इमिस्सि आदाये इमिस्सि धम्मं इमिस्सि विनये इमिस्सि धम्मविनये इमिस्सि
पावचने इमिस्सि ब्रह्मचरिये इमिस्सि सत्थुसासने इमिस्सि अत्तभावे इमिस्सि 10
मनुस्सलोके ति - एतमादीनवं अत्वा मुनि पुब्बापरे इध ।

एकच्चरियं दळ्हं कथिरा ति । द्वीहि कारणेहि एकच्चरियं दळ्हं
करेय्य - पब्बज्जासङ्घातेन वा गणाववस्सगट्ठेन वा । कथं पब्बज्जा-
सङ्घातेन एकच्चरियं दळ्हं करेय्य ? सब्बं धरावासपल्लिबोधं छिन्दित्वा 15
पुत्तदारपल्लिबोधं छिन्दित्वा मातिपल्लिबोधं छिन्दित्वा भित्तामच्चपल्लि-
बोधं छिन्दित्वा सन्निधिपल्लिबोधं' छिन्दित्वा' केसमस्सुं ओहारेत्वा
कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्सा अनगारियं पब्बजित्वा अकि-
ञ्चनभावं उपगन्त्वा एको चरेय्य विहरेय्य इरियेय्य' वत्तेय्य पालेय्य
यपेय्य यापेय्य । एवं पब्बज्जासङ्घातेन एकच्चरियं दळ्हं करेय्य । R. 167

कथं गणाववस्सगट्ठेन एकच्चरियं दळ्हं करेय्य ? सो एवं 20
पब्बजित्तो समानो एको अरञ्चवनपत्थानि पन्तानि सेनासानानि पट्टि-
सेवेय्य अप्पसट्ठानि अप्पनिग्घोसानि विजनवातानि मनुस्सराहस्सेय्यकानि
पटिसल्लानसारप्पानि । सो एको गच्छेय्य, एको तिट्ठेय्य, एको निसी-
देय्य, एको सेय्यं कप्पेय्य, एको गामं पिण्डाय पविसेय्य, एको पटिवक्कमेय्य,
एको र्हो निसीदेय्य, एको चङ्कमं अधिट्ठेय्य, एको चरेय्य विहरेय्य 25
इरियेय्य वत्तेय्य पालेय्य यपेय्य यापेय्य । एवं गणाववस्सगट्ठेन
एकच्चरियं दळ्हं करेय्या ति - एकच्चरियं दळ्हं करेय्य, थिरं' करेय्य,

१ सी०, स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि । २-२ सी० पोत्यके नत्थि । ३ सी० पोत्यके
नत्थि । ४ विरियं - सी० ।

दळ्हं समादानो अस्स, अवद्धितसमादानो अस्स कुसलेसु धम्मेषू ति -
एकच्चरियं दळ्हं कयिरा ।

न निसेवेथ मेथुनं ति । मेथुनधम्मो नाम यो सो असद्धम्मो गाम-
धम्मो ...पे०... तंकारणा वुच्चति मेथुनधम्मो । मेथुनधम्मं न सेवेथ्य न
६ निसेवेथ्य न संसेवेथ्य न पटिसेवेथ्य न^१ चरेथ्य न समाचरेथ्य न समादाय
वत्तेय्या^२ ति - न निसेवेथ मेथुनं । तेनाह भगवा -

“एतमादीनवं अत्वा, मुनि पुब्बापरे इध ।
एकच्चरियं दळ्हं कयिरा, न निसेवेथ मेथुन” ति ॥

५७. विवेकञ्जेव सिक्खेथ, एतं अरियानमुत्तमं ।

१० न तेन सेट्ठो मञ्जेथ, स वे निब्बानसन्तिके ॥

विवेकञ्जेव सिक्खेथा ति । विवेको ति । तयो विवेका - काय-
विवेको, चित्तविवेको, उपधिविवेको । कतमो कायविवेको ... पे० ...
अयं उपधिविवेको । कायविवेको च विवेकट्टकायानं^१ नेक्खम्माभिरतानं ।
चित्तविवेको च परिसुद्धचित्तानं परमवोदानप्पत्तानं । उपधिविवेको च
१५ निरूपधीनं पुग्गलानं विसङ्खारगतानं । सिक्खा ति । तिस्सो सिक्खा
- अधिसीलसिक्खा, अधिचित्तसिक्खा, अधिपञ्जासिक्खा ... पे० .. अयं
अधिपञ्जासिक्खा । विवेकञ्जेव सिक्खेथा ति । विवेकञ्जेव सिक्खेथ्य
आचरेथ्य समाचरेथ्य समादाय वत्तेय्या ति - विवेकञ्जेव सिक्खेथ ।

एतं अरियानमुत्तमं ति । अरिया वुच्चन्ति बुद्धा च बुद्धसावका
२० च पच्चेकबुद्धा च । अरियानं एतं अगं सेट्ठं विसिट्ठं पामोक्खं
उत्तमं पवरं यदिदं विवेकचरिया ति - एतं अरियानमुत्तमं ।

न तेन सेट्ठो मञ्जेथा ति । कायविवेकचरियाय उज्झति न
करेथ्य, उज्झमं न करेथ्य, मानं न करेथ्य, थामं^१ न करेथ्य^२, थम्मं न करेथ्य,
न तेन मानं जनेथ्य, न तेन थद्धो अस्स पत्थद्धो पग्गहितसिरो ति - न
२५ तेन सेट्ठो मञ्जेथ ।

स वे निब्बानसन्तिके ति । सो निब्बानस्स सन्तिके सामन्ता
आसन्ने अबिदूरे उपकट्ठे ति - स वे निब्बानसन्तिके । तेनाह भगवा -

१-१. स्या० पोत्यके नत्थि । २. वूपकट्टकायानं - स्या०, रो० । ३-३ स्या०, रो०
पोत्यकेमु नत्थि ।

“विवेकञ्चेव सिक्खेथ, एतं अरियानमुत्तमं ।
न तेन सेट्ठो मञ्जेथ, स वे निब्बानसन्तिके” ति ॥

५८. रिक्तस्स मुनिनो चरतो, कामेसु अनपेक्खिनो ।
ओघतिण्णस्स पिह्यन्ति, कामेसु गघिता पजा ॥

रिक्तस्स मुनिनो चरतो ति । रिक्तस्स^१ विवित्तस्स पविवित्तस्स, 5 R 169
कायदुच्चरितेन रिक्तस्स विवित्तस्स पविवित्तस्स । वच्चीदुच्चरितेन ...
मनोदुच्चरितेन ... रागेन ... दोसेन ... मोहेन ... कोधेन ... उपनाहेन ...
मक्खेन ... पळासेन ... इस्साय ... मच्छरियेन ... मायाय ... साठेय्येन ...
थम्भेन ... सारम्भेन ... मानेन ... अतिमानेन ... मदेन ... पमादेन ... सब्बकिले-
सेहि ... सब्बदुच्चरितेहि ... सब्बदरथेहि ... सब्बपरिळाहेहि ... सब्बसन्तापेहि 10
... सब्बाकुसलाभिसङ्खारेहि^२ रिक्तस्स विवित्तस्स पविवित्तस्स । मुनिनो
ति । मोनं वुच्चति वाणं ... पे० ... सङ्गजालमतिच्च सो मुनि । चरतो
ति । चरतो विहरतो इरियतो वत्ततो पालयतो यपयतो^३ यापयतो ति -
रिक्तस्स मुनिनो चरतो ।

कामेसु अनपेक्खिनो ति । कामा ति । उदानतो द्वे कामा - 15
वत्थुकामा च किलेसकामा च ... पे० ... इमे वुच्चन्ति वत्थुकामा ... पे० ... इमे
वुच्चन्ति किलेसकामा । वत्थुकामे परिजानित्वा किलेसकामे पहाय पज-
हित्वा विनोदेत्वा व्यन्ति^४ करित्वा^५ अनभावं गमेत्वा कामेसु अनपेक्खमानो
चत्तकामो वन्तकामो मुत्तकामो पहीनकामो पटिनिस्सट्टकामो, वीतरागो^६
चत्तरागो वन्तरागो मुत्तरागो पहीनरागो पटिनिस्सट्टरागो निच्छातो 20
निब्बुतो सीतिभूतो सुखप्पटिसंवेदी ब्रह्मभूतेन अत्तना विहरती ति -
कामेसु अनपेक्खिनो ।

ओघतिण्णस्स पिह्यन्ति कामेसु गघिता पजा ति । पजा ति ।
सत्ताधिवचनं । पजा कामेसु रत्ता गिद्धा गघिता मुच्छिता अज्जभोसत्ता^७
लम्मा लम्गिता पल्लिबुद्धा । ते^८ कामोधं तिण्णस्स भवोधं तिण्णस्स विट्ठोघं 25
तिण्णस्स अविज्जोधं तिण्णस्स सब्बसङ्खारपथं^९ तिण्णस्स उत्तिण्णस्स

१. रिक्तस्सा ति रिक्तस्स - स्या०, रो० । २. सब्बकुसला० - सी० । ३. यपतो - सी० ।
४-५. व्यन्तीकरित्वा - सी०, स्या०, रो०; एवमुपरि पि । ५. स्या० पोत्यके नत्थि । ६. अज्जो-
पत्ता - सी०, स्या०, रो०; एवमुपरि पि । ७. ता - स्या०, रो० । ८. सब्बसंसारपथं -
सी०, स्या० ।

B. 124,
R. 100

- नित्तिष्णस्स अतिक्कन्तस्स समतिक्कन्तस्स वीतिवत्तस्स पारं गतस्स पारं
 पत्तस्स अन्तं गतस्स अन्तं पत्तस्स कोटिं गतस्स कोटिं पत्तस्स परियन्तं
 गतस्स परियन्तं पत्तस्स बोसानं गतस्स बोसानं पत्तस्स ताणं गतस्स ताणं
 पत्तस्स लेणं गतस्स लेणं पत्तस्स सरणं गतस्स सरणं पत्तस्स अभयं
 5 गतस्स अभयं पत्तस्स अञ्चुतं गतस्स अञ्चुतं पत्तस्स अमतं गतस्स
 अमतं पत्तस्स निब्बानं गतस्स निब्बानं पत्तस्स इच्छन्ति सादि-
 यन्ति पत्थयन्ति पिहयन्ति अभिजप्पन्ति । यथा^१ इणायिका आनण्यं
 पत्थेन्ति पिहयन्ति, यथा आवाधिका आरोग्यं पत्थेन्ति पिहयन्ति,
 यथा बन्धनवद्धा^२ बन्धनमोक्खं पत्थेन्ति पिहयन्ति, यथा दासा भुजिस्सं
 10 पत्थेन्ति पिहयन्ति, यथा कन्तारद्धानपक्खन्दा^३ खेमन्तभूमिं पत्थेन्ति
 पिहयन्ति; एवमेवं पजा कामेसु रत्ता गिद्धा गधिता मुञ्छिता अज्झोसन्ना
 लग्गा लग्गिता पल्लिवुद्धा ते कामोधं तिष्णस्स भवोधं तिष्णस्स ..पे०...
 निब्बानं गतस्स निब्बानं पत्तस्स इच्छन्ति सादियन्ति पत्थयन्ति पिह-
 यन्ति अभिजप्पन्ती ति - ओधतिष्णस्स पिहयन्ति कामेसु गधिता पजा ।
 15 तेनाह भगवा -

“रित्तस्स मुनिनो चरतो, कामेसु अनपेक्खिनो ।

ओधतिष्णस्स पिहयन्ति, कामेसु गधिता पजा” ति ॥

तिस्सभेत्थेय्यसुत्तनिर्देशो सत्तभो ।

८. पसूरसुत्तनिर्देशो

अथ^१ पसूरसुत्तनिर्देशं वक्खति^२ -

R. 101

20

५९. इधेव सुद्धिं इति वादयन्ति,
 नाञ्जेसु धम्मसेसु विसुद्धिमाहु ।
 यं निस्सिता तत्थ सुभं^३ वदानां,
 पच्चकेसञ्चेसु पुथू निविट्ठा ॥

इधेव सुद्धिं इति वादयन्ती ति । इधेव सुद्धिं विसुद्धिं परिसुद्धिं
 मुत्ति विमुत्तिं परिमुत्तिं वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ति ।

१ यथा नाम - सी० । २. बन्धनवद्धा - स्या०, रो० । ३. ० पक्खन्ना - सी०, स्या०
 रो० । ४-४. स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि; एवमुपरि पि । ५-५. सुभावदाना - स्या०, रो० ।

“सस्सतो लोको, इदमेव सच्चं मोघमञ्जं” ति सुद्धि विसुद्धि परिसुद्धि मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ति । “असस्सतो लोको ... अन्तवा लोको... अनन्तवा लोको ... तं जीवं तं सरीरं ... अञ्जं जीवं अञ्जं सरीरं ... होति तथागतो परं मरणा ... न होति तथागतो परं मरणा . . होति च न च होति तथागतो परं मरणा ... नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा, इदमेव सच्चं मोघमञ्जं” ति सुद्धि विसुद्धि परिसुद्धि मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ती ति - इधेव सुद्धि इति वादयन्ति ।

B 125

5

नाञ्जेसु धम्मेषु विसुद्धिमाहू ति । अत्तनो सत्थारं धम्मक्खानं गणं दिट्ठि पटिपदं मगं ठपेत्वा सब्बे परवादे खिपन्ति उक्खिपन्ति परिक्खिपन्ति । “सो सत्था न सब्बञ्जू, धम्मो न स्वाक्खातो, गणो न सुप्पटिपन्नो, दिट्ठि न भट्ठिका, पटिपदा न सुपञ्जत्ता, मग्गो न निव्यानिको, नत्थेत्य सुद्धि वा विसुद्धि वा परिसुद्धि वा मुत्ति वा विमुत्ति वा परिमुत्ति वा, न तत्थ सुज्झन्ति वा विसुज्झन्ति वा परिसुज्झन्ति वा मुच्चन्ति वा विमुच्चन्ति वा परिमुच्चन्ति वा, हीना निहीना ओमका लामका छतुक्का' परित्ता” ति - एवमाहंसु एवं वदन्ति एवं कथेन्ति एवं भणन्ति एवं दीपयन्ति एव वोहरन्ती ति - नाञ्जेसु धम्मेषु विसुद्धिमाहू ।

10

R. 162

15

यं निस्सिता तत्थ सुभं वदाना ति । यं निस्सिता ति । यं सत्थारं धम्मक्खानं गणं दिट्ठि पटिपदं मगं निस्सिता आनिस्सिता' अल्लीना उपगता अज्झोसिता अधिमुत्ता । तत्था ति । सकाय दिट्ठिया सकाय खन्तिया सकाय रुचिया सकाय लद्धिया । सुभं वदाना ति । सुभवादा सोभनवादा पण्डितवादा थिरवादा' नायवादा' हेतुवादा लक्खणवादा कारणवादा ठानवादा सकाय लद्धिया ति - यं निस्सिता तत्थ सुभं वदाना ।

20

पच्चेकसच्चेसु पुयू निविट्ठा ति । पुयू समणन्नाहाणा पुयू पच्चेकसच्चेसु निविट्ठा पतिट्ठिता अल्लीना उपगता अज्झोसिता अधिमुत्ता । “सस्सतो लोको, इदमेव सच्चं मोघमञ्जं” ति निविट्ठा पतिट्ठिता

१-२ जलुक्का - सी०, स्या०, रो०, एवमुपरि पि । २ पतिट्ठिता - सी०, सविस्सिता - स्या०, रो० । ३. धीरवादा - स्या०, रो० । ४. नाणवादा - स्या०, रो० ।

अल्लीना उपगता^१ अञ्जोसिता अधिमुत्ता । “असस्सतो लोको...पे० .
नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा, इदमेव सच्चं मोघमञ्जं”
ति निविट्ठा पतिट्ठिता अल्लीना उपगता अञ्जोसिता अधिमुत्ता ति -
पच्चेकसच्चेसु पुथू निविट्ठा । तेनाह भगवा -

B. 126 5

“इधेव सुद्धि इति वादयन्ति,
नाञ्जेसु धम्मेसु विसुद्धिमाहु ।
यं निस्सिता तत्थ सुभं वदाना,
पच्चेकसच्चेसु पुथू निविट्ठा” ति ॥

R 103

10

६०. ते वादकामा परिसं विगय्ह,
बालं दहन्ती मिथु अञ्जमञ्जं ।
वदन्ति ते अञ्जसिता कथोज्जं,
पसंसकामा कुसलावदाना ॥

ते वादकामा परिसं विगय्ह ति । ते वादकामा ति । ते वाद-
कामा वादत्थिका वादाधिप्पाया वादपुरेक्खारा वादपरियेसन
१५ चरन्ता । परिसं विगय्ह ति । खत्तियपरिसं ब्राह्मणपरिसं गहपतिपरिस
समणपरिसं विगय्ह ओगय्ह अञ्जोगाहेत्वा^२ पविसित्वा ति - ते
वादकामा परिसं विगय्ह ।

बालं दहन्ती मिथु अञ्जमञ्जं ति । मिथू ति । द्वे जना द्वे
कलहकारका द्वे भण्डनकारका द्वे भस्सकारका द्वे विवादकारका द्वे
२० अधिकरणकारका द्वे वादिनो द्वे सल्लापका; ते अञ्जमञ्जं बालतो^३
हीनतो निहीनतो ओमकतो लामकतो छतुक्कतो परित्ततो दहन्ति
पस्सन्ति दक्खन्ति ओलोकेन्ति निज्झायन्ति उपपरिक्खन्ती ति - बालं
दहन्ती मिथु अञ्जमञ्जं ।

वदन्ति ते अञ्जसिता कथोज्जं ति । अञ्जं सत्थारं धम्मक्खानं
२५ गण दिट्ठि पटिपदं मगं निस्सिता आनिस्सिता अल्लीना उपगता अञ्जो-
सिता अधिमुत्ता । कथोज्जं वुच्चति कलहो भण्डनं विग्गहो विवादो
मेधगं । अथ वा, कथोज्जं ति । अनोजवन्ती निसाकथा^४ । कथोज्जं वदन्ति

१. उपगता - सी० । २ अञ्जोगहेत्वा - सी०, स्या०, रो० । ३. सी० पोत्यके तत्थि ।
४ साकथा - सी०, स्या०, रो० ।

कलहं वदन्ति भण्डनं वदन्ति विगहं वदन्ति विवादं वदन्ति मेघगं वदन्ति
कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्तीति — वदन्ति ते अञ्जसिता कथोज्जं ।

पसंसकामा कुसलावदानाति । पसंसकामाति । पसंसकामा
पसंसत्थिका पसंसाधिप्याया पसंसपुरेक्खारा पसंसपरियेसनं चरन्ता ।
कुसलावदानाति । कुसलावादा पण्डितवादा थिरवादा आयवादा हेतुवादा 5 R. 164
लक्षणावादा कारणवादा ठानवादा सकाय लद्धियाति — पसंसकामा
कुसलावदाना । तेनाह भगवा —

“ते वादकामा परिसं विगह्,
बालं दहन्ती मिथु अञ्जमञ्जं ।
वदन्ति ते अञ्जसिता कथोज्जं,
पसंसकामा कुसलावदाना”ति ॥

R. 127

10

६१. युत्तो कथायं परिसाय मज्जे,
पसंसमिच्छं विनिघाति होति ।
अपाहतस्मिं पन मङ्कु होति,
निन्दाय सो कुप्पति रन्धमेसी ॥

15

युत्तो कथायं परिसाय मज्जेति । खत्तियपरिसाय वा ब्राह्मण-
परिसाय वा गहपतिपरिसाय वा समणपरिसाय वा मज्जे अत्तनो कथायं
युत्तो पयुत्तो आयुत्तो समायुत्तो सम्पयुत्तो कथेतुंति — युत्तो कथायं
परिसाय मज्जे ।

पसंसमिच्छं विनिघाति होतीति । पसंसमिच्छंति । पसंसं 20
थोमनं कित्ति वण्णहारियं इच्छन्तो सादियन्तो पत्थयन्तो पिहयन्तो
अभिजप्पन्तो । विनिघाति होतीति । पुब्बेव सल्लापा कथंकथी विनि-
घाती होति । “जथो नु खो मे भविस्सति, पराजथो नु खो मे भविस्सति,
कथं निग्गहं करिस्सामि, कथं पटिकम्मं” करिस्सामि, कथं विसेसं करि-
स्सामि, कथं पटिविसेसं करिस्सामि, कथं आवेठियं करिस्सामि, कथं 25
निब्बेठियं करिस्सामि, कथं छेदं करिस्सामि, कथं मण्डलं करिस्सामी”
ति, एवं पुब्बेव सल्लापा कथंकथी विनिघाति होतीति — पसंसमिच्छं
विनिघाति होति ।

१. विनिघाति — सी०, स्या०, रो० । २. पटिकम्मं — स्या० । ३. आवेठियं — स्या०,
रो० । ४. निब्बेठियं — स्या०, रो०; एवमुपरि वि ।

R. 105

अपाहतस्मिं पन मडकु होती ति । ये ते पञ्चवीमंसका परिसा
 पारिसज्जा पासारिका, ते अपहरन्ति । “अत्यापगतं भणितं” ति अत्यतो
 अपहरन्ति, “व्यञ्जनापगतं भणितं” ति व्यञ्जनतो अपहरन्ति, “अत्य-
 व्यञ्जनापगतं भणितं” ति अत्यव्यञ्जनतो अपहरन्ति, “अत्यो ते
 5 दुघ्नीतो, व्यञ्जनं ते दुरोपितं, अत्यव्यञ्जनं ते दुघ्नीतं दुरोपितं, निग्गहो
 ते अकतो, पटिकम्मं ते दुक्कटं, विससो ते अकतो, पटिविससो ते दुक्कटो,
 आवेठिया ते अकता, निव्वेठिया ते दुक्कटा, छेदो ते अकतो, मण्डल ते
 दुक्कटं विसमकथं दुक्कथितं दुव्वभणितं दुल्लपितं दुरुत्तं दुव्वभासितं” ति
 B 128 अपहरन्ति । अपाहतस्मिं पन मडकु होती ति । अपाहतस्मि मडकु होती
 10 पीळितो घट्टितो व्याधितो दोमनस्सितो होती ति - अपाहतस्मि पन
 मडकु होती ।

निन्दाय सो कुप्पति रन्धमेसी ति । निन्दाय^१ गरहाय अकित्तिया
 अवण्णहारिकाय कुप्पति^२ व्यापज्जति पतिट्ठीयति, कोपं च दोस च
 अप्पच्चयं^३ च पालुकरोती ति - निन्दाय सो कुप्पति । रन्धमेसी ति^४ ।
 16 विरन्धमेसी अपरद्धमेसी^५ खलितमेसी गळितमेसी^६ विवरमेसी ति -
 निन्दाय सो कुप्पति रन्धमेसी । तेनाह भगवा -

“युत्तो कयायं परिसाय मज्जे,
 पसंसमिच्छं विनिघाति होति ।
 अपाहतस्मि पन मडकु होति,
 20 निन्दाय सो कुप्पति रन्धमेसी” ति ॥

R. 106

६२. यमस्स वादं परिहीनमाहु,
 अपाहतं पञ्चविमंसकासे^१ ।
 परिदेवति^२ सोचति हीनवादो,
 25 उपच्चगा मं ति अनुत्थुनाति ॥

यमस्स वादं परिहीनमाहु ति । यं तस्स^३ वाद हीनं
 25 निहीनं परिहीनं परिहापितं न परिपूरितं, एवमाहंसु एव कथेन्ति

१-१ सी० पोत्थके न विस्सति । २ निन्दायाति निन्दाय-स्वा०, रो० । ३ कुप्पती
 ति कुप्पति-स्वा०, रो० । ४ अपच्चयं-स्वा०, रो० । ५ ति रन्धमेसी-सी०, स्वा०, रो० ।
 ६ अपरद्धमेसी-स्वा०, रो० । ७ गळितमेसी घट्टितमेसी-सी० । ८ पञ्चविमंसकाये-
 स्वा०; ० काये-रो०; एवमुपरि पि । ९ परिदेवति-म०; परिदेवती-स्वा०, रो० ।
 १०. अस्स-सी० ।

एवं भणन्ति एवं दीपयन्ति एवं बोहरन्ती ति - यमस्स वादं परिहीनमाहु ।

अपाहृतं पञ्चविमंसकासे ति । ये ते पञ्चवीमंसका परिसा पारि-
सज्जा पासारिका, ते अपहरन्ति । “अत्यापगतं भणितं ” ति अत्यतो
अपहरन्ति, “व्यञ्जनापगतं भणितं” ति व्यञ्जनतो अपहरन्ति, “अत्य- 5
व्यञ्जनापगतं भणितं” ति अत्यव्यञ्जनतो अपहरन्ति, “अत्यो ते दुन्नीतो,
व्यञ्जनं ते दुरोपितं, अत्यव्यञ्जनं ते दुन्नीतं दुरोपितं, निग्गहो ते अकतो,
पटिकम्मं ते दुक्कटं, विसो ते अकतो, पटिविसो ते दुक्कटो, आवेठिया
ते अकता, निब्बेठिया ते दुक्कटा, छेदो ते अकतो, मण्डलं ते दुक्कटं
विसमकथं दुक्कथितं दुब्भणितं दुल्लपितं दुरुत्तं दुब्भासितं” ति, अप- 10
हरन्ती ति - अपाहृतं पञ्चविमंसकासे ।

परिदेवति सोचति हीनवादो ति । परिदेवती ति । “अञ्जं
मया आवज्जितं अञ्जं चिन्तितं अञ्जं उपधारितं* अञ्जं उपलक्खितं
सो महापक्खो महापरिसो महापरिवारो; परिसा' चायं वग्गा, न
समग्गा; समग्गाय परिसायं हेतुं कथासल्लापो पुन भञ्जिस्सामी” ति, 15
या' एवरूपा' वाच्चा पलापो विप्पलापो लालप्पो लालप्पायना लालप्पा-
यित्तं ति - परिदेवति । सोचती ति । “तस्स जयो” ति सोचति “मय्हं
पराजयो” ति सोचति, “तस्स लाभो” ति सोचति, “मय्हं अलाभो”
ति सोचति, “तस्स यसो” ति सोचति, “मय्हं अयसो” ति सोचति,
“तस्स पससा” ति सोचति, “मय्हं निन्दा” ति सोचति, “तस्स सुखं” 20
ति सोचति, “मय्हं दुक्खं” ति सोचति, “सो सक्कतो गरुक्कतो मानितो
पूजितो अपच्चितो लाभो चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्ज-
परिक्खारानं, अहमस्मि असक्कतो अगरुक्कतो अमानितो अपूजितो
अनपच्चितो न लाभो चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्ज-
परिक्खारानं” ति सोचति किलमति परिदेवति उरस्ताळि कन्दति 25
सम्मोहं आपज्जती ति - परिदेवति सोचति । हीनवादो ति । हीन-
वादो निहीनवादो परिहीनवादो परिहापितवादो न परिपूरवादो ति -
परिदेवति सोचति हीनवादो ।

B. 129

15

20

B. 167

25

१. पासायिका - स्या० । * 'अञ्जं उपलक्खितं' इति सी० पोत्यके अचिको पाठो
द्विस्तति । २-२. परिसायं - सी० । ३. स्या० पोत्यके नत्थि । ४. होतु - स्या० । ५-५.
यो एवरूपो - स्या० ।

उपच्चगा मं ति अनुत्थुनाती ति । सो मं वादेन वादं अच्चगा
उपच्चगा अतिवक्तो समतिवक्तो वीतिवक्तो ति । एवं पि उपच्चगा
मं ति । अथ वा, मं वादेन वादं अभिभवित्वा अज्ज्ञोत्थरित्वा परियादि-
यित्वा^१ मद्दयित्वा^२ चरति विहरति इरियति वत्तति पालेति यपेति थापेती
६ ति । एवं पि उपच्चगा मं ति । अनुत्थुना वृच्चति वाचा पलापो विष्प-
लापो लालप्पो लालप्पायना लालप्पायित्तं ति - उपच्चगा मं ति अनु-
त्थुनाति । तेनाह भगवा -

“यमस्स वादं परिहानमाहु,
अपाहृतं पञ्चविमसकासे ।
१० परिदेवति सोचति हीनवादो,
उपच्चगा मं ति अनुत्थुनाती” ति ॥

B. 130

६३. एते विवादा समणेषु जाता,
एतेसु उग्घातिनिघाति होति ।
एतं पि दिस्वा विरमे कथोज्जं,
१५ न हञ्जदत्थत्थि पसंसलाभा ॥

एते विवादा समणेषु जाता ति । समणा ति । ये केचि इतो
वहिद्धा परिव्वजूपगता^३ परिव्वजसमापन्ना^४ । एते दिट्ठिकलहा दिट्ठि-
भण्डना दिट्ठिविग्गहा दिट्ठिविवादा दिट्ठिमेघगा समणेषु जाता सञ्जाता
निव्वत्ता अभिनिव्वत्ता पातुभूता ति - एते विवादा समणेषु जाता ।

B. 108

२० एतेसु उग्घातिनिघाति होती ति । जयपराजयो होति, लाभा-
लाभो होति, यसायसो होति, निन्दापसंसा होति, सुखदुक्खं होति,
सोमनस्सदोमनस्सं होति, इट्ठानिट्ठं होति, अनुनयपटिष्ठं होति, उग्घा-
त्तितनिघात्तितं^५ होति, अनुरोधविरोधो होति, जयेन चित्तं उग्घात्तितं
होति पराजयेन चित्तं निग्घात्तितं^६ होति, लाभेन चित्तं उग्घात्तितं होति
२५ अलाभेन चित्तं निग्घात्तितं होति, यसेन चित्तं उग्घात्तितं होति अयसेन
चित्तं निग्घात्तितं होति, पसंसाय चित्तं उग्घात्तितं होति निन्दाय चित्तं

१. परियादयित्वा - स्या०; परियादित्वा - रो० । २. मद्दित्वा - स्या०, रो० । ३. परिव्वजूपगता - सी०, परिव्वजूपगता - स्या०, रो० । ४. परिव्वज० - सी०; परिव्वज-
जकसमापन्ना - स्या०, रो० । ५. उग्घातिनिघाति - सी०, स्या०, रो० । ६. निघात्तित - सी०,
रो०; एवमुपरि पि ।

निग्घातितं होति, सुखेन चित्तं उग्घातितं होति दुक्खेन चित्तं निग्घातितं होति, सोमनस्सेन चित्तं उग्घातितं होति दोमनस्सेन चित्तं निग्घातितं होति, उन्नत्तिया^१ चित्तं उग्घातितं होति ओनत्तिया^१ चित्तं निग्घातितं होती ति - एतेसु उग्घातिनिघाति होति ।

एतं पि दिस्वा विरमे कथोज्जं ति । एतं पि दिस्वा^१ ति । एतं ६
आदीनवं दिस्वा पस्सित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा^२ विभावयित्वा विभूतं
कत्वा दिट्ठिकलहेसु दिट्ठिभण्डनेसु दिट्ठिविग्गहेसु दिट्ठिविवादेसु दिट्ठि-
मेघगेसू ति - एतं पि दिस्वा । विरमे कथोज्जं ति । कथोज्जं वुच्चति कलहो
भण्डनं विग्गहो विवादो मेघगं । अथ वा, कथोज्जं ति । अनोजवन्ती^३
निसाकथा^४ । कथोज्जं न करेय्य, कलहं न करेय्य, भण्डनं न करेय्य, १०
विग्गहं न करेय्य, विवादं न करेय्य, मेघगं न करेय्य, कलहभण्डनविग्गह-
विवादमेघगं पजहेय्य विनोदेय्य व्यन्ति करेय्य अनभावं गमेय्य, कलह-
भण्डनविग्गहविवादमेघगा आरतो अस्स विरतो पटिविरतो निक्खन्तो
निस्सटो^५ विप्पयुत्तो विसञ्चुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहुरेय्या ति
- एतं पि दिस्वा विरमे कथोज्जं । १५

B. 181

न हञ्जदत्थत्थि पसंसलाभा ति । पसंसलाभा अञ्जो अत्थो
नत्थि अत्तत्थो वा परत्थो वा उभयत्थो वा दिट्ठघम्मिको वा अत्थो,
सम्परायिको वा अत्थो, उत्तानो वा अत्थो, गम्भीरो वा अत्थो, गूळहो वा २०
अत्थो, पटिच्छन्नो वा अत्थो, नेय्यो वा अत्थो, नीतो वा अत्थो, अनवज्जो
वा अत्थो, निक्किलेसो वा अत्थो, वोदानो वा अत्थो, परमत्थो वा अत्थो^६
नत्थि न^७ सन्ति^८ न संविज्जन्ति नुपलब्भन्ती^९ ति - न हञ्जदत्थत्थि
पसंसलाभा । तेनाह भगवा -

B. 189

“एते विवादा समणेसु जाता,
एतेसु उग्घातिनिघाति होति ।
एतं पि दिस्वा विरमे कथोज्जं,
न हञ्जदत्थत्थि पसंसलाभा” ति ॥ २५

१ उण्णतिया - स्या०, रो० । २ ओणत्तिया - स्या०, रो०; एवमुपरि पि । ३ सी०
पोत्यके नत्थि । ४ तिरयित्वा - स्या०, एवमुपरि पि । ५ अनोजवन्तिनी - सी० । ६ सा-
कथा - सी०, स्या०, रो० । ७ निस्सटो - स्या०, रो० । ८ सी० पोत्यके नत्थि । ९-१०.
स्या० पोत्यके नत्थि । १०. नुपलब्भन्ती - सी० ।

६४. पसंसितो वा पन तत्थ होति,
अक्खाय वादं परिसाय मज्जे।
सो' हस्सती' उन्नमती' च' तेन,
पप्पुय्य तमत्थं यथा मनो अहु॥

5 पसंसितो वा पन तत्थ होती ति । तत्था ति । सकाय दिट्ठिया सकाय खन्तिया सकाय रुचिया सकाय लद्धिया पसंसितो थोमितो कित्तितो वण्णितो होती ति - पसंसितो वा पन तत्थ होति ।

अक्खाय वादं परिसाय मज्जे ति । खात्तयपरिसाय वा ब्राह्मण-परिसाय वा गृहपतिपरिसाय वा समणपरिसाय वा मज्जे अत्तनो वादं
10 अक्खाय आचिक्खित्वा अनुवादं अक्खाय आचिक्खित्वा थम्मयित्वा ब्रूहयित्वा दीपयित्वा जोतयित्वा वोहरित्वा परिगण्हित्वा' ति - अक्खाय वादं परिसाय मज्जे ।

सो हस्सती उन्नमती च तेना ति । सो तेन जयत्येन तुट्ठो होति हट्ठो पहट्ठो अत्तमनो परिपुण्णसङ्कप्पो । अथ वा, दन्तविदंसकं हस-
B 132 15 मानो । सो हस्सती उन्नमती च तेना ति । सो तेन जयत्येन उन्नतो होति उन्नमो धजो सम्पग्गाहो केतुकम्यता चित्तस्सा ति - सो हस्सती उन्नमती च तेन ।

पप्पुय्य तमत्थं यथा मनो अहु ति । तं जयत्थं पप्पुय्य पापुणित्वा अधिगन्त्वा विन्दित्वा पटिलभित्वा । यथा मनो अहु ति । यथा मनो अहु,
20 यथा चित्तो अहु, यथा सङ्कप्पो अहु, यथा विञ्जाणो अहु ति - पप्पुय्य तमत्थं यथा मनो अहु । तेनाह भगवा -

“पसंसितो वा पन तत्थ होति,
अक्खाय वादं परिसाय मज्जे।
सो हस्सती उन्नमती च तेन,
25 पप्पुय्य तमत्थं यथा मनो अहु” ति ॥

६५. या उन्नती सास्स विघातभूमि,
मानातिमानं वदते पनेसो ।

१-१ सो त हसति - सी०, सो हस्सति - स्या०, रो० । २-२ उन्नमतिच्च - सी०;
उन्नमतिच्च - स्या०, रो० । ३ परिगण्हित्वा - सी० ।

एतं पि दिस्वा न विवादयेथ,
न हि तेन सुद्धिं कुसला वदन्ति ॥

या उन्नती सास्स विघातभूमि ति । या' उन्नति उन्नमो षजो
सम्पग्गाहो केतुकम्यता चित्तस्सा ति - या उन्नति । सास्स विघातभूमि
ति । सा तस्स विघातभूमि उपघातभूमि पीळनभूमि घट्टनभूमि उपद्दव- 5
भूमि उपसग्गभूमि ति - या उन्नती सास्स विघातभूमि ।

मानातिमानं वदते पनेसो ति । सो पुग्गलो मानं च वदति
अतिमानं च वदती ति - मानातिमानं वदते पनेसो ।

एतं पि दिस्वा न विवादयेथा ति । एतं आदीनवं दिस्वा
पस्सित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा दिट्ठिकल- 10
हेसु दिट्ठिभण्डनेसु दिट्ठिविग्गहेसु दिट्ठिविवादेसु दिट्ठिमेषु ति - एतं
पि दिस्वा । न विवादयेथा ति । न कलहं करेय्य न भण्डनं करेय्य
न विग्गहं करेय्य न विवादं करेय्य न मेधगं करेय्य, कलहभण्डन-
विग्गहविवादमेधगं पजहेय्य' विनोदेय्य व्यन्ति करेय्य अनभावं
गमेय्य, कलहभण्डनविग्गहविवादमेधगा आरतो अस्स विरतो पटि- 15
विरतो निक्खन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो' विसञ्जुत्तो विमरियादिकतेन
चेतसा विहरेय्या ति - एतं पि दिस्वा न विवादयेथ ।

B. 171

न हि तेन सुद्धिं कुसला वदन्ती ति । कुसला ति । ये ते
खन्धकुसला धातुकुसला आयतनकुसला पटिच्चसमुप्पादकुसला सति-
पट्टानकुसला सम्मप्पधानकुसला इद्धिपादकुसला इन्द्रियकुसला बल- 20
कुसला बोज्झकुसला मग्गकुसला फलकुसला निब्बानकुसला, ते
कुसला दिट्ठिकलहेन दिट्ठिभण्डनेन दिट्ठिविग्गहेन दिट्ठिविवादेन दिट्ठि-
मेषुनेन सुद्धिं विसुद्धिं परिसुद्धिं, मुत्तिं विमुत्तिं परिमुत्तिं न वदन्ति न
कथेन्ति न भणन्ति न दीपयन्ति न बोहरन्ती ति - न हि तेन सुद्धिं
कुसला वदन्ति । तेनाह भगवा -

B 138

25

“या उन्नती सास्स विघातभूमि,
मानातिमानं वदते' पनेसो ।

१ या ति या - सी० । २ जहेय्य - सी० । ३ विप्पमुत्तो - म० । ४ चरते -
सी० ।

एतं पि दिस्वा न विवादयेथ,
न हि तेन सुद्धिं कुसला वदन्ती' ति ॥

६६. सूरौ यथा राजखादाय' पुट्टो,
अभिगज्जमेति पटिसूरमिच्छं ।
येनेव सो तेन पलेहिं सूर,
पुब्बेव नत्थि यदिदं युधाय ॥

सूरौ यथा राजखादाय पुट्टो ति । सूरौ ति । सूरौ कीरो
विककन्तो अभीरू' अछम्भी अनुत्रासी अपलायी । राजखादाय पुट्टो
ति । राजखादनीयेन राजभोजनीयेन पुट्टो पोसितो अपादितो'
वङ्कितो' ति - सूरौ यथा राजखादाय पुट्टो ।

अभिगज्जमेति पटिसूरमिच्छं ति । सो गज्जन्तो उगज्जन्तो
अभिगज्जन्तो एति उपेति उपगच्छति पटिसूरं पटिपुरिसं पटिसत्तुं
पटिमल्लं इच्छन्तो मादियन्तो पत्थयन्तो पिहयन्तो अभिजप्पन्तो ति-
अभिगज्जमेति पटिसूरमिच्छं ।

१६ येनेव सो तेन पलेहिं सूरौ ति । येनेव सो दिट्ठिगतिको तेन
पलेहिं, तेन' वज, तेन गच्छ, तेन अतिककम', सो तुय्हं पटिसूरौ
पटिपुरिसो पटिसत्तु पटिमल्लो ति - येनेव सो तेन पलेहिं सूर ।

पुब्बेव नत्थि यदिदं युधाया ति । पुब्बेव बोधिया मूले ये
पटिसेनिकरा किलेसा पटिलोमकरा पटिकण्डककरा' पटिपक्खकरा ते
नत्थि न सन्ति न संविज्जन्ति नुपलब्भन्ति, पहीना समुच्छिन्ना वूप-
सन्ता पटिपस्सद्धा अभब्बुप्पत्तिका वाणगिना दङ्गा । यदिदं युधाया
ति । यदिदं युद्धत्थाय कलहत्थाय भण्डनत्थाय विगगहत्थाय विवाद-
त्थाय मेघगत्थाया ति - पुब्बेव नत्थि यदिदं युधाया । तेनाह भगवा -

“सूरौ यथा राजखादाय पुट्टो,
अभिगज्जमेति पटिसूरमिच्छं ।
येनेव सो तेन पलेहिं सूर,
पुब्बेव नत्थि यदिदं युधाया' ति ॥

१. राजखादाय - स्या०, रो०, एवमुपरि पि । २ अभिरु - स्या० । ३ अपादितो -
सी०, स्या०, रो० । ४ पटिपदितो वङ्कितो - स्या०, रो० । ५ तेनेव - स्या०, रो० । ६
अभिनकम - सी०, स्या०, रो० । ७ पटिकण्डककरा - सी०; पटिकण्डककरा - स्या०, रो० ।

६७. ये दिट्टिमुग्गय्ह विवादयन्ति,
इदमेव सच्चं ति च वादयन्ति^१ ।
ते त्वं वदस्सु न हि तेघ अत्थि,
वादम्हि जाते पटिसेनिकत्ता ॥

ये दिट्टिमुग्गय्ह विवादयन्ती ति । ये द्वासट्ठि दिट्ठिगतानं अञ्ज- 5 R. 173
तरञ्जतरं दिट्ठिगतं गहेत्वा गण्हित्वा उग्गण्हित्वा^२ परामसित्वा अभि-
निविसित्वा विवादयन्ति कलहं करोन्ति भण्डनं करोन्ति विग्गहं
करोन्ति विवादं करोन्ति, मेघगं करोन्ति—“न त्वं इमं धम्मविनयं
आजानासि, अहं इमं धम्मविनयं आजानामि, किं त्वं इमं धम्म-
विनयं आजानिस्ससि, मिच्छापटिपन्नो त्वमसि, अहमस्मि सम्मा- 10
पटिपन्नो, सहितं मे, अहसितं ते, पुरे वचनीयं पच्छा अवच, पच्छा
वचनीयं पुरे अवच, अधिचिण्णं ते विपरावत्तं, आरोपितो ते वादो,
निग्गहितो^३ त्वमसि^४, चर वादप्पमोक्खाय, निब्बेठेहि^५ वा सचे पहोसी”
ति—ये दिट्टिमुग्गय्ह विवादयन्ति ।

इदमेव सच्चं ति च वादयन्ती ति । “सस्सतो लोको, इद- 15
मेव सच्चं मोघमञ्जं” ति वादयन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति
बोहरन्ति; “असस्सतो लोको ...पे०... नेव होति न न होति तथागतो
परं मरणा, इदमेव सच्चं मोघमञ्जं” ति वादयन्ति कथेन्ति भणन्ति
दीपयन्ति बोहरन्ती ति—इदमेव सच्चं ति च वादयन्ति ।

ते त्वं वदस्सु न हि तेघ अत्थि वादम्हि जाते पटिसेनि- 20
कत्ता ति । ते त्वं दिट्ठिगतिके वदस्सु^६ वादेन^७ वादं^८, निग्गहेन^९ निग्गहं,^{१०}
पटिकम्मेलं^{११} पटिकम्मं^{१२}, विसेसेन विसेसं, पटिविसेसेन पटिविसेसं,
आवेठियाय आवेठियं, निब्बेठियाय निब्बेठियं, छेदेन छेदं, मण्डलेन
मण्डलं, ते तुय्हं पटिसुरा^{१३} पटिपुरिसा^{१४} पटिसत्तु पटिमल्ला ति—ते
त्वं वदस्सु न हि तेघ अत्थि । वादम्हि जाते पटिसेनिकत्ता ति । वादे 25
जाते सञ्जाते निब्बत्ते अभिनिब्बत्ते पातुभूतेयेव^{१५} पटिसेनिकत्ता पटि-

B. 195

26

१ वादयन्ति—रो०, एवमुपरि पि । २ उग्गण्हित्वा—स्या०, रो० । ३-३. निग्गही-
तोसि—सी०, निग्गहितीसि—स्या०, रो० । ४ निब्बेठेहि—स्या०, रो० । ५ वदस्सुवा—
सी० । ६-६. स्या० पोत्यके नत्थि । ७-७. विग्गहेन विग्गहं—सी० । ८-८ पटिकम्मेलं
पटिकम्म—स्या०, रो० । ९-९ पटिसुर पटिपुरिस—सी० । १० पातुभूतेये—स्या०, रो० ।
म० नि०-१९

R 174

लोभकत्ता पटिभण्डकत्ता पटिपक्खकत्ता कलहं करेय्युं भण्डन करेय्युं
विग्गहं करेय्युं विवादं करेय्युं मेधगं करेय्युं, ते नत्थि न सन्ति न संवि-
ज्जन्ति नुपलब्भन्ति, पहीना...पे०... बाणग्गिना दद्धा ति—ते त्वं वदस्सू
न हि तेघ अत्थि वादम्हि जाते पटिसेनिकत्ता। तेनाह भगवा—

5

“ये दिट्ठिमुग्गय्ह विवादयन्ति,
इदमेव सच्चं ति च वादयन्ति।
ते त्वं वदस्सू न हि तेघ अत्थि,
वादम्हि जाते पटिसेनिकत्ता” ति ॥

10

६८. विसेनिकत्वा पन ये चरन्ति,
दिट्ठीहि दिट्ठि अविरुज्जमाना।
तेसु त्वं किं लभेथ' पसूर,
येसीध नत्थि परमुग्गहीतं ॥

विसेनिकत्वा पन ये चरन्ती ति। सेना वुच्चति मारसेना।
कायदुच्चरितं मारसेना, वचीदुच्चरितं मारसेना, मनोदुच्चरितं मार-
सेना, लोभो मारसेना, दोसो मारसेना, मोहो मारसेना, कोधो ...
उपनाहो . मक्खो ... पळासो ... इस्सा ... मच्छरियं ... माया ...
साठेय्यं .. थम्भो ... सारम्भो . मानो ... अतिमानो ... मदो ... पमादो
.. सब्बे किलेसा ... सब्बे दुच्चरिता ... सब्बे दरथा ... सब्बे परिळाहा . .
सब्बे सन्तापा ... सब्बाकुसलाभिसङ्गारा मारसेना। वुत्तं हेतं भगवता—

20

“कामा ते पठमा सेना, द्रुतिया अरति वुच्चति ...पे०...।
न नं असुरो जिनाति, जेत्वा व' लभते सुखं” ति ॥

R. 175

यतो चतूहि अरियमग्गेहि सब्बा च मारसेना सब्बे च
पटिसेनिकरा किलेसा जिता च पराजिता' च' भग्गा विप्लुग्गा'
परम्मुखा, तेन वुच्चति' विसेनिकत्वा ति। ये ति। अरहन्तो खीणा-

B. 136

25

सवा। चरन्ती ति। चरन्ति विहरन्ति इरियन्ति वत्तेन्ति पालेन्ति
यपेन्ति यापेन्ती ति— विसेनिकत्वा पन ये चरन्ति।

१ करेय्य—सी०, एवमुपरि पि। २ किञ्च—सी०। ३ लभेथो—स्या०, रो०।
४. रागो—स्या०, रो०। ५ च—सी०, स्या०, रो०। ६-६ परिजिता—सी०। ७ विप्लुग्गा'
—स्या०। ८ वुच्चन्ति—स्या०, रो०।

दिट्टीहि दिट्ठि अविस्सज्जमाना ति । येसं' द्वासट्ठि' विट्ठि-
गतानि पहीनानि समुच्छिन्नानि वूपसन्तानि पटिपस्सद्धानि अभब्बु-
प्पत्तिकानि आणग्गिना दड्ढानि, ते दिट्टीहि दिट्ठि अविस्सज्जमाना
अप्पटिविस्सज्जमाना' अप्पहीयमाना' अप्पटिहज्जमाना अप्पटिहत-
माना ति - दिट्टीहि दिट्ठि अविस्सज्जमाना ।

6

तेसु त्वं किं लभेथ पसूरा ति । तेसु अरहन्तेसु खीणासवेसु
किं लभेथ पटिसूरं' पटिपुरिसं पटिसत्तुं पटिमल्लं ति - तेसु त्वं किं
लभेथ पसूर ।

येसीघ नत्थि परमुग्गहीतं ति । येसं अरहन्तानं खीणासवानं
“इदं परमं अगं सेट्ठं विसिट्ठं पामोक्खं उत्तमं पवरं” ति गहितं
परामट्ठं अभिनिविट्ठं' अज्जोसितं अधिमुत्तं, नत्थि न सन्ति न संवि-
ज्जन्ति नुपलम्भन्ति', पहीनं समुच्छिन्नं वूपसन्तं पटिपस्सद्दं अभब्बु-
प्पत्तिकं आणग्गिना दड्ढं ति - येसीघ नत्थि परमुग्गहीतं ।] तेनाह
भगवा -

10

“विसेनिकत्वा पन ये चरन्ति,
दिट्टीहि दिट्ठि अविस्सज्जमाना ।
तेसु त्वं किं लभेथ पसूर,
येसीघ नत्थि परमुग्गहीतं” ति ॥

15

६९. अथ त्वं पवितक्कमागमा',
मनसा दिट्ठिगतानि चिन्तयन्तो ।
घोनेन युगं समागमा,
न हि त्वं सक्खसि सम्पयातवे ॥

20

अथ त्वं पवितक्कमागमा ति । अथा ति । पदसन्धि पदसंसग्गो
पदपारिपूरी अक्खरसमवायो ब्यञ्जनसिलिट्ठता पदानुपुब्बतापेतं -
अथा ति । पवितक्कमागमा ति । तक्कन्तो' वितक्कन्तो सङ्कप्पेन्तो
“जयो नु खो मे भविस्सति, पराजयो नु खो मे भविस्सति, कथं

25

R. 176

१. तेसं - स्या० । २ द्वासट्ठि - सी० । ३-३. अघट्टियमाना - स्या०, रो० । ४
पटिसूर - स्या०, रो०, एवमुपरि पि । ५ स्या० पोत्थके नत्थि । ६ नुपलम्भन्ति - सी० ;
नुपलम्भति - स्या०, नुपलम्भति - रो० । ७ ० मागमा - सी० । ८ ० पुब्बतामेतं - सी०,
स्या०, रो० । ९ तक्कन्तो - स्या०, एवमुपरि पि ।

B. 187

निगहं करिस्सामि, कथं पटिकम्मं करिस्सामि, कथं विसेसं करि-
स्सामि, कथं पटिविसेसं करिस्सामि, कथं आवेठियं करिस्सामि,
कथं निब्बेठियं करिस्सामि, कथं छेदं करिस्सामि, कथं मण्डलं करि-
स्सामि” एवं तक्केन्तो वितक्केन्तो सङ्कप्पेन्तो आगतोसि उपगतोसि’
5 सम्पत्तोसि मया सिद्धि समागतोसी ति - अथ त्वं पवितक्कमागमा ।

मनसा दिट्ठिगतानि चिन्तयन्तो ति । मनो ति । यं चित्तं मनो
मानसं हृदयं पण्डरं, मनो मनायतनं मनिन्द्रियं विञ्जाणं विञ्जाण-
क्खन्धो तज्जा मनोविञ्जाणधातु । चित्तेन दिट्ठि’ चिन्तेन्तो विचिन्तेन्तो
“सस्सतो लोको” ति वा, “असस्सतो लोको” ति वा ... पे० ... ‘नेव
10 होति न न होति तथागतो परं मरणा” ति वा ति - मनसा दिट्ठि-
गतानि चिन्तयन्तो ।

धोनेन युगं समागमा न हि त्वं सक्खसि सम्पयातवे ति ।
धोना वुच्चति पञ्जा । या पञ्जा पजानना .. पे० ... अमोहो धम्म-
विचयो सम्मादिट्ठि । किंकारणा धोना वुच्चति पञ्जा ? ताय
15 पञ्जाय कायदुच्चरितं धुतं च धोतं च सन्धोतं च निद्धोतं च,
वचीदुच्चरितं .. पे० ... सब्बाकुसलाभिसङ्खारा धुता च धोता च
सन्धोता च निद्धोता च । अथ वा, सम्मादिट्ठिया भिच्छादिट्ठि .
सम्मासङ्कप्पेन भिच्छासङ्कप्पो ... पे० ... सम्माविमुत्तिया भिच्छाविमुत्ति
धुता च धोता च सन्धोता च निद्धोता च । अथ वा, अरियेन अट्ठ-
20 ङ्गकेन मग्गेन सब्बे किलेसा’ . सब्बे दुच्चरिता .. सब्बे दरथा .. सब्बे
परिळाहा ... सब्बे सन्तापा ... सब्बाकुसलाभिसङ्खारा धुता च धोता च
सन्धोता च निद्धोता च । भगवा इमेहि धोनेय्येहि धम्मोहि उपेतो
समुपेतो उपगतो’ समुपगतो उपपन्नो समुपन्नो समन्नागतो, तस्मा
भगवा धोनो । सो धुतरागो धुतपापो धुतकिलेसो धुतपरिळाहो ति
25 - धोनो ति ।

R 177

धोनेन युगं समागमा न हि त्वं सक्खसि सम्पयातवे ति ।
पसूरो परिब्बाजको न पटिबलो धोनेन बुद्धेन भगवता सिद्धि युगं
समागमं’ समागन्त्वा युगग्गाहं गण्हितुं’ साकच्छेतुं सत्तल्पितुं साकच्छं

१. उपागतोसि - स्या० रो०, एवमुपरि पि । २. दिट्ठिगतानं - स्या०; दिट्ठिगतानि -
रो० । ३. अङ्गसङ्घा - स्या०, रो० । ४. उपागतो - सी० । ५. समागमा - स्या०, रो० । ६
गण्हित्वा - म० ।

समापज्जितुं। तं किस्स हेतु? पसूरो परिब्बाजको हीनो निहीनो ओमको लामको छतुक्को परित्तो। सो हि भगवा अग्गो च सेट्ठो च विसिट्ठो च पामोक्खो च उत्तमो' च' पवरो च। यथा ससो न पटिबलो मत्तेन मातङ्गेन सद्धि युगं समागमं समागन्त्वा युगग्गाहं गण्हितुं; यथा कोत्थुको' न पटिबलो सीहेन मिगरञ्जा सद्धि युगं समागमं समागन्त्वा युगग्गाहं गण्हितुं; यथा वच्छको तरुणको धेनुपको न पटिबलो उसभेन चलककुना' सद्धि युगं समागमं समागन्त्वा युगग्गाहं गण्हितुं; यथा घट्ठो न पटिबलो गरुत्तेन वेनतेय्येन सद्धि युगं समागमं समागन्त्वा युगग्गाहं गण्हितुं; यथा चण्डालो न पटिबलो रञ्जा चक्कवत्तिना सद्धि युगं समागमं समागन्त्वा युगग्गाहं गण्हितुं; यथा पंसुपिसाचको न पटिबलो इन्देन देवरञ्जा सद्धि युगं समागमं समागन्त्वा युगग्गाहं गण्हितुं; एवमेव पसूरो परिब्बाजको न पटिबलो धोनेन बुद्धेन भगवता सद्धि युगं समागमं समागन्त्वा युगग्गाहं गण्हितुं साकच्छेतुं सल्लपितुं साकच्छं समापज्जितुं। तं किस्स हेतु? पसूरो परिब्बाजको हीनपञ्चो निहीनपञ्चो ओमकपञ्चो लामकपञ्चो छतुक्कपञ्चो परित्तपञ्चो। सो हि भगवा महापञ्चो पुथुपञ्चो हासपञ्चो जवनपञ्चो तिक्खपञ्चो निब्बेधिकपञ्चो, पञ्चापभेदकुसलो पभिन्न-बाणो अधिगतपटिसम्भियो, चतुवेसारज्जप्पत्तो दसबलधारी, पुरिसासमो पुरिससीहो पुरिसनागो पुरिसाजञ्चो पुरिसघोरय्हो, अनन्त-बाणो अनन्ततेजो अनन्तयसो अङ्को महद्धनो धनवा, नेता विनेता अनुनेता, पञ्चापेता' निज्जापेता पेक्खेता' पसादेता'। सो हि भगवा अनुप्पन्नस्स मग्गस्स उप्पादेता, असञ्जातस्स मग्गस्स सञ्जनेता, अनक्खातस्स मग्गस्स अक्खाता, मग्गञ्जू मग्गविदू मग्गकोविदो मग्गानुगा च पनस्स एतरहि सावका विहरन्ति पच्छा समन्नागत।

सो हि भगवा जानं जानाति पस्सं पस्सति, चक्खुभूतो बाणभूतो धम्मभूतो ब्रह्माभूतो, वत्ता पवत्ता अत्थस्स निज्जेता अमत्तस्स दाता धम्मस्सामी तथागतो; नत्थि तस्स भगवतो अञ्जात'

१-१ स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि। २ कोट्ठको-सी०, स्या०, रो०। ३ बलक्क-कुना-स्या०, रो०। ४ अट्ठो-स्या०; एवमुपरि पि। ५ सञ्जापेता-स्या०, रो०। ६ पेक्खता-स्या०, रो०। ७ पसारेता-स्या०, रो०। ८ अनञ्जातं-सी०; अजात-स्या०।

अदिदुं अविदितं असञ्चिकतं अफस्सितं^१ पञ्चाय । अतीतं अनागतं पञ्चुप्पन्नं उपादाय सब्बे धम्मा सब्बाकारेण बुद्धस्स भगवतो जाण-
मुखे आपाथं आगच्छन्ति । यं किञ्चि नेय्यं नाम अत्थि धम्मं^२ जानि-
तत्त्वं अत्तत्थो वा परत्थो वा उभयत्थो वा दिदुधम्मिको वा अत्थो,
५ सम्परायिको वा अत्थो, उत्तानो वा अत्थो, गम्भीरो वा अत्थो,
गूळ्हो वा अत्थो, पटिच्छन्नो वा अत्थो, नेय्यो वा अत्थो, नीतो वा
अत्थो, अनवज्जो वा अत्थो, निक्किलेसो वा अत्थो, बोदानो वा
अत्थो, परमत्थो वा अत्थो^३, सब्बं तं अन्तोबुद्धजाणे परिवत्तति ।

B. 130

सब्बं कायकम्मं बुद्धस्स भगवतो जाणानुपरिवत्ति^४, सब्बं
१० वचीकम्मं जाणानुपरिवत्ति, सब्बं मनोकम्मं जाणानुपरिवत्ति ।
अतीते बुद्धस्स भगवतो अप्पटिहत्तं जाणं, अनागते अप्पटिहत्तं जाणं,
पञ्चुप्पन्ने अप्पटिहत्तं जाणं, यावत्तकं नेय्यं^५ तावत्तकं जाणं, यावत्तकं
जाणं तावत्तकं नेय्यं, नेय्यपरियन्तिकं जाणं, जाणपरियन्तिकं नेय्यं, नेय्य
अतिक्कमित्वा जाणं नप्पवत्तति^६, जाणं अतिक्कमित्वा नेय्यपथो

B. 179

१५ नत्थि । अञ्जमञ्जपरियन्तद्वायिनो ते धम्मा । यथा द्वित्रं समुग्ग-
पटलानं सम्मा फुसितानं हेट्ठिमं समुग्गपटलं उपरिमं नातिवत्तति,
उपरिमं समुग्गपटलं हेट्ठिमं नातिवत्तति अञ्जमञ्जपरियन्तद्वायिनो,
एवमेव^७ बुद्धस्स भगवतो नेय्यं च जाणं च अञ्जमञ्जपरियन्त-
द्वायिनो, यावत्तकं नेय्यं तावत्तकं जाणं, यावत्तकं जाणं तावत्तकं
२० नेय्यं, नेय्यपरियन्तिकं जाणं, जाणपरियन्तिकं नेय्यं, नेय्यं अतिक्क-
मित्वा जाणं नप्पवत्तति, जाणं अतिक्कमित्वा नेय्यपथो नत्थि । अञ्ज-
मञ्जपरियन्तद्वायिनो ते धम्मा सब्बधम्मेषु बुद्धस्स भगवतो जाणं
पवत्तति ।

सब्बे धम्मा बुद्धस्स भगवतो आवज्जनपटिबद्धा आकङ्खपटिबद्धा
२५ मनसिकारपटिबद्धा चित्तुप्पादपटिबद्धा । सब्बसत्तेसु बुद्धस्स भगवतो
जाणं पवत्तति, सब्बेसं च^८ सत्तानं भगवा आसथं जानाति अनुसथं
जानाति चरितं जानाति अधिमुत्ति जानाति । अप्परजक्खे महा-

१ अफूसित—स्या० । २ स्या०, रो० पोत्यकेषु नत्थि । ३ स्या० पोत्यके नत्थि ।
४ ० परिवत्तति—स्या०, रो०, एवमुपरि पि । ५ नेय्य—सी०, एवमुपरि पि । ६ नप्प-
रिवत्तति—स्या०, रो० । ७ एवमेव—सी०, एवमुपरि पि । ८ स्या० पोत्यके नत्थि ।

रजक्खे तिविखन्दित्रये मुदिन्दित्रये स्वाकारे द्वाकारे सुविञ्जापये दुविञ्जा-
पये भब्बाभब्बे सत्ते पजानाति । सदेवको लोको समारको सन्नह्मको
सस्समणन्नाह्मणी पजा सदेवमनुस्सा अन्तोबुद्धवाणे परिवत्तति ।

यथा ये केचि मच्छकच्छपा अन्तमसो तिमितिमिङ्गलं
उपादाय अन्तोमहासमुद्दे परिवत्तन्ति, एवमेव सदेवको लोको समा- 5
रको सन्नह्मको सस्समणन्नाह्मणी पजा सदेवमनुस्सा अन्तोबुद्धवाणे
परिवत्तति । यथा ये केचि पक्खी अन्तमसो गरुळं वेनतेय्यं उपा-
दाय आकासस्स पदेसे परिवत्तन्ति; एवमेव ये पि ते सारिपुत्तसमा
पञ्चाय ते पि बुद्धवाणस्स पदेसे परिवत्तन्ति । बुद्धवाणं देवमनुस्सानं
पञ्चं फरित्वा अभिभवित्वा तिट्ठतियेव' । ये पि ते खत्तियपण्डिता 10
न्नाह्मणपण्डिता गह्मपतिपण्डिता समणपण्डिता निपुणा कतपरप्पवादा
वाल्लवेधिरूपा बोभिन्दन्ता मञ्जे चरन्ति पञ्चागतैन दिट्ठिगतानि, ते
पञ्हे' अभिसङ्खरित्वा अभिसङ्खरित्वा तथागते' उपसङ्कमित्वा पुच्छन्ति
गूळहानि' च पटिच्छन्नानि च' । कथिता विसज्जिता व' ते पञ्हा भगवता
होन्ति निट्ठिट्ठकारणा उपक्खित्तका च । ते भगवतो सम्पज्जन्ति । 15
अथ खो भगवा' व' तत्थ अतिरोचति यदिदं पञ्चाया ति - धोनेन
युगं समागमा न हि त्वं सक्खसि सम्पयातवे । तेनाह भगवा -

“अथ त्वं पवितक्कमागमा,
मनसा दिट्ठिगतानि चिन्तयन्तो ।
धोनेन युगं समागमा,
न हि त्वं सक्खसि सम्पयातवे” ति ॥

पसुरसुत्तनिद्देशो अट्टमो ।

९. मागण्डियसुत्तनिद्देशो

अथ मागण्डियसुत्तनिद्देशं वक्खति -

७०. दिस्वान तण्हं अरतिं रगं च,
नाहोसि छन्दो अपि मेथुनस्सिं ।

१ तिट्ठति - स्या०, रो० । २ पञ्हे - स्या० । ३ तथागतं - सी०, स्या०, रो० ।
४-४ स्या० पोत्यके न विस्सति । ५' च - स्या०, रो० । ६-६ भगवा - स्या०, रो० । ७ राग -
स्या०, रो०, एकमुपरि पि ।

किमेविदं मुत्तकरीसपुण्णं,
पादा पि नं सम्फुसितुं न इच्छे ॥

दिस्वान तण्हं अरतिं रगं च नाहोसि छन्दो अपि मेथुनस्मिं
ति। तण्हं च अरतिं च रगं च मारघीतरो दिस्वा पस्सित्वा
६ मेथुनघम्मे छन्दो वा रागो वा पेमं वा नाहोसी ति - दिस्वान तण्हं
अरतिं रगं च नाहोसि छन्दो अपि मेथुनस्मिं।

किमेविदं मुत्तकरीसपुण्णं पादा पि नं सम्फुसितुं न इच्छे
ति। किमेविदं सरीरं मुत्तपुण्णं करीसपुण्णं सेम्हपुण्णं रुहिरपुण्णं
अट्टिसङ्घातन्हारुसम्बन्धं^१ रुधिरमंसावलेपनं चम्माविनद्धं^२ छविया
१० पटिच्छन्नं छिद्दावच्छिदं उग्घरन्तं^३ पग्घरन्तं^४ किमिसङ्घनिसेवितं नाना-
कलिमलपरिपूरं पादेन अवकमितुं न इच्छेय्यं^५, कुतो पन संवासो वा
R 182 समागमो वा ति - किमेविदं मुत्तकरीसपुण्णं पादा पि नं सम्फुसितुं
न इच्छे। अनच्छरियं^६ चेतं मनुस्सो दिब्बे^७ कामे पत्थयन्तो
B 141 मानुसके कामे न इच्छेय्य, मानुसके वा कामे पत्थयन्तो दिब्बे कामे
१५ न इच्छेय्य। यं त्वं उभो पि न इच्छसि न सादियसि^८ न पत्थेसि
न पिहेसि नाभिजप्पसि, कि ते दस्सनं, कतमाय त्वं दिट्ठिया सम-
न्नागतो ति पुच्छती ति^९। तेनाह भगवा -

“दिस्वान तण्हं अरतिं रगं च,
नाहोसि छन्दो अपि मेथुनस्मिं।
२० किमेविदं मुत्तकरीसपुण्णं,
पादा पि नं सम्फुसितुं न इच्छे” ति ॥

७१. एतादिसं च्चे रतनं न इच्छसि,
नारिं नरिन्देहिं बहूहि पत्थितं।
दिट्ठिगतं सीलवतं नु जीवितं,
२५ भवूपपत्तिं च वदेसि कीदिसं ॥

१. रुधिरपुण्ण - सी०, स्या०, रो०। २ अट्टिसङ्घात० - सी०; अट्टिसङ्घातं० - स्या०,
रो०। ३ चम्माविनद्ध - स्या०; चम्माविनद्धं - सी०, रो०। ४-५ उग्घरिं पग्घरिं - स्या०;
उग्घरिं मग्घरिं - रो०। ५. इच्छेय्यं - स्या०, रो०। ६-७ स्या० पत्थेके तत्थि। ६ य
दिब्बे - सी०, रो०। ७ सादियति - सी०, एवमुपरि पि।

७२. इदं वदामी ति न तस्स होति, (भागण्डिया' ति भगवा)
 धम्मेसु^१ निच्छेय्य समुग्गहीतं ।
 पस्सं च दिट्ठीसु अनुग्गहाय,
 अज्झत्तसन्तिं पचिनं अदस्सं ॥

इदं वदामी ति न तस्स होती ति । इदं वदामी ति । इदं^५
 वदामि, एतं वदामि, एतकं वदामि, एत्तावता वदामि, इदं दिट्ठिगतं
 वदामि — “सस्सतो लोको” ति वा ...पे०... “नेव होति न न होति तथा-
 गतो परं मरणा” ति वा । न तस्स होती ति । न मय्हं होति, “एत्ता-
 वता' वदामी” ति न तस्स होती' ति — इदं वदामी ति न
 तस्स होति ।

भागण्डिया ति । भगवा तं ब्राह्मणं नामेन आलपति ।
 भगवा ति । गारवाधिवचनं...पे०...सच्छिका पञ्चत्ति यदिदं भगवा
 ति — भागण्डिया ति भगवा ।

धम्मेसु निच्छेय्य समुग्गहीतं ति । धम्मेसू ति । द्वासट्ठिया
 दिट्ठिगतेसु । निच्छेय्या ति । निच्छिनित्वा विनिच्छिनित्वा विचि-^{१५}
 नित्वा पविचिनित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं
 कत्वा, ओधिग्गाहो बिलग्गाहो वरग्गाहो कोट्टासग्गाहो उच्चय-
 ग्गाहो समुच्चयग्गाहो, “इदं सच्चं तच्छं तथं भूतं याथावं”
 अविपरीतं” ति गहितं परामट्ठं अभिनिविट्ठ अज्झोसितं अधिमुत्तं,
 नत्थि न सन्ति न संविज्जति नुपलब्भति, पहीनं समुच्छिन्नं वूप-^{२०}
 सन्त पटिपस्सद्धं अभब्बुप्पत्तिकं आणग्गिना दड्ढं ति — धम्मेसु
 निच्छेय्य समुग्गहीतं ।

पस्सं च दिट्ठीसु अनुग्गहाया ति । दिट्ठीसु आदीनवं
 पस्सन्तो दिट्ठियो न गण्हामि न परामसामि नाभिनिविसामि । अथ
 वा, न गण्हतब्बा न परामसितब्बा नाभिनिविसितब्बा ति । एवं^{२५}
 पि पस्सं च दिट्ठीसु अनुग्गहाय ।

अथ वा, “सस्सतो लोको, इदमेव सच्चं मोघमञ्जं” ति
 दिट्ठिगतमेतं दिट्ठिगहनं दिट्ठिकन्तारो दिट्ठिविसूकायिकं दिट्ठिविप्फ-

१ भागण्डिया — सी०, स्या०, रो० । २ न च धम्मेसु — सी० । ३-३ स्या० पीत्यके
 नत्थि । ४ यथाव — सी० । ५ ० गहण — रो० ।

न्दितं दिद्विसञ्जोजनं, सदुक्खं सविघातं सउपायासं सपरिळाहं, न निब्बिदायं न विरागाय न निरोधाय न उपसमाय न अभिञ्जाय न सम्बोधाय न निब्बानाय संवत्तती ति। दिद्वीसु आदीनवं पस्सन्तो दिद्वियो न गण्हामि न परामसामि नाभिनिविसामि।
 ६ अथ वा, न गण्हितब्बा न परामसितब्बा नाभिनिविसितब्बा ति। एवं पि पस्सं च दिद्वीसु अनुग्गहाय।

R. 184

अथ वा, "असस्सतो लोको, अन्तवा लोको, अनन्तवा लोको, तं जीवं तं सरीरं, अञ्जं जीवं अञ्जं सरीरं, होति तथागतो परं मरणा, न होति तथागतो परं मरणा, होति च न च होति
 10 तथागतो परं मरणा, नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा, इदमेव सच्चं मोघमञ्जं" ति दिद्विगतमेतं दिद्विगहनं दिद्विकन्तारो दिद्विविसूकायिकं दिद्विविप्फन्दितं दिद्विसञ्जोजनं, सदुक्खं सविघातं सउपायासं सपरिळाहं न निब्बिदाय न विरागाय न निरोधाय न उपसमाय न अभिञ्जाय न सम्बोधाय न निब्बानाय
 15 संवत्तती ति। दिद्वीसु आदीनवं पस्सन्तो दिद्वियो न गण्हामि न परामसामि नाभिनिविसामि। अथ वा, न गण्हितब्बा न परामसितब्बा नाभिनिविसितब्बा ति। एवं पि पस्सं च दिद्वीसु अनुग्गहाय।

अथ वा, इमा दिद्वियो एव गहिता एवं परामद्वा एवंगतिका
 20 भविस्सन्ति एवंअभिसम्पराया ति। दिद्वीसु आदीनवं पस्सन्तो दिद्वियो न गण्हामि न परामसामि नाभिनिविसामि। अथ वा, न गण्हितब्बा न परामसितब्बा नाभिनिविसितब्बा ति। एवं पि पस्सं च दिद्वीसु अनुग्गहाय।

B. 143

अथ वा, इमा दिद्वियो निरयसंवत्तनिका तिरच्छानयोनि-
 25 संवत्तनिका पेतविषयसंवत्तनिका ति। दिद्वीसु आदीनवं पस्सन्तो दिद्वियो न गण्हामि न परामसामि नाभिनिविसामि। अथ वा, न गण्हितब्बा न परामसितब्बा नाभिनिविसितब्बा ति। एवं पि पस्सं च दिद्वीसु अनुग्गहाय।

१ निब्बिदाय - स्या०, रो०। २-२ स्या०, रो० पेत्यकेसु तत्त्वा। ३. भवन्ति - स्या०। ४ पित्ति० - स्या०, रो०।

अथ वा, इमा दिट्ठियो अनिच्चा सङ्गता पटिच्चसमुप्पन्ना खयधम्मा वयधम्मा विरागधम्मा निरोधधम्मा ति । दिट्ठिसु आदीनवं पस्सन्तो दिट्ठियो न गण्हामि न परामसामि नाभिनिविसामि । अथ वा, न गण्हितब्बा न परामसितब्बा नाभिनिविसितब्बा ति । एवं पि पस्सं च दिट्ठिसु अनुग्गहाय ।

5

अज्झत्तसन्तिं पच्चिनं अदस्सं ति । अज्झत्तसन्तिं^१ अज्झत्तं रागस्स सन्तिं, दोसस्स सन्तिं, मोहस्स सन्तिं, कोधस्स ... उपनाहस्स ... मक्खस्स ... पळासस्स ... इस्साय ... मच्छरियस्स ... मायाय .. साठेय्यस्स ... थम्मस्स ... सारम्भस्स ... मानस्स ... अतिमानस्स ... मदस्स ... पमादस्स ... सब्बकिलेसानं ... सब्बदुच्चरितानं ... सब्बदरथानं ... 10
सब्बपरिळाहानं ... सब्बसन्तापानं ... सब्बाकुसलाभिःसङ्गारानं सन्ति उपसन्ति वूपसन्ति निब्बुति पटिपस्संदिं सन्ति^२ । पच्चिनं ति । पच्चिनन्तो विचिनन्तो पविचिनन्तो तुलयन्तो तीरयन्तो विभावयन्तो विभूतं करोन्तो, “सब्बे सङ्गारा अनिच्चा” ति पच्चिनन्तो विचिनन्तो पविचिनन्तो तुलयन्तो तीरयन्तो विभावयन्तो विभूतं करोन्तो, “सब्बे सङ्गारा 15
दुक्खा” ति ... “सब्बे धम्मा अनत्ता” ति पच्चिनन्तो विचिनन्तो पविचिनन्तो ... “यं किञ्चि समुदयधम्मं, सब्बं तं निरोधधम्मं” ति पच्चिनन्तो विचिनन्तो पविचिनन्तो तुलयन्तो तीरयन्तो विभावयन्तो विभूतं करोन्तो । अदस्सं ति । अदस्सं अर्दाक्ख अपस्सिं^३ पटिर्विज्झ ति —
अज्झत्तसन्तिं पच्चिनं अदस्सं । तेनाह भगवा —

20

“इदं वदामी ति न तस्स होति, (मागण्डिया ति भगवा)
धम्मेषु निच्छेय्य समुग्गहीतं ।
पस्सं च दिट्ठिसु अनुग्गहाय ।
अज्झत्तसन्तिं पच्चिनं अदस्सं” ति ॥

७३. विनिच्छया ग्रानि पकप्पितानि, (इति मागण्डियो)

25

ते वे मुनी ब्रूसि अनुग्गहाय ।
अज्झत्तसन्ती ति यमेतमत्थं,
कथं नु धीरोहि पवेदितं तं ॥

१. स्या० पोत्यके नत्थि । २. सी०, स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि । ३. पस्सि-
स्या०, रो० ।

R. 186

विनिच्छया यानि पकप्पितानी ति । विनिच्छया^१ वुच्चन्ति
द्वासट्ठि दिट्ठिगतानि दिट्ठिविनिच्छया । पकप्पितानी ति । कप्पिता
B. 144 पकप्पिता^२ अभिसङ्घता सण्ठपिता ति पि पकप्पिता । अथ वा,
अनिच्चा सङ्घता पटिच्चसमुप्पन्ना खयघम्मा वयघम्मा विरागघम्मा
5 निरोधघम्मा विपरिणामघम्मा ति पि पकप्पिता ति - विनिच्छया
यानि पकप्पितानि ।

इति मागण्डियो ति । इती ति । पदसन्धि पदसंसग्गो पद-
पारिपूरी अक्खरसमवायो व्यञ्जनसिलिट्ठता पदानुपुब्बतापेतं - इती
ति । मागण्डियो ति । तस्स ब्राह्मणस्स नामं सङ्घा समञ्जा
10 पञ्चत्ति^३ वोहारो - इति मागण्डियो ति ।

ते वे मुनी^४ ब्रूसि अनुग्गहाय अज्झत्तसन्ती ति यमेत-
मत्थं ति । ते वे ति । द्वासट्ठि दिट्ठिगतानि । मुनी ति । मोनं
वुच्चति आणं...पे०... सङ्गजालमतिच्च सो मुनी ति । अनुग्गहाया
ति । दिट्ठिसु आदीनवं पस्सन्तो दिट्ठियो न गण्हामि न परामसामि
15 नाभिनिविसामी ति च^५ भणसि^६, अज्झत्तसन्ती ति च भणसि ।
यमेतमत्थं ति । यं परमत्थं ति - ते वे मुनी ब्रूसि अनुग्गहाय
अज्झत्तसन्ती ति यमेतमत्थं ।

R. 187

कथं नु धीरेहि पवेदितं तं ति । कथं नू ति । पदं^७ संसय-
पुच्छा विमतिपुच्छा द्वेळहकपुच्छा अनेकंसपुच्छा, एवं नु खो ननु
20 खो किं नु खो कथं नु खो ति - कथं नु । धीरेही ति । धीरेहिं^८
पण्डितेहि पञ्चवन्तेहि बुद्धिमन्तेहि आणीहि विभावीहि मेघावीहि ।
पवेदितं ति । वेदितं पवेदितं आचिक्खितं देसितं पञ्चापितं^९ पट्ट-
पितं विवटं^{१०} विभत्तं^{११} उत्तानीकत्तं पकासितं ति - कथं नु धीरेहि
पवेदितं तं । तेनाह सो^{१२} ब्राह्मणो^{१३} -

25 "विनिच्छया यानि पकप्पितानि, (इति मागण्डियो)
ते वे मुनी ब्रूसि अनुग्गहाय ।

१. विनिच्छयानि - स्या० । २. स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि । ३. स्या० पोत्यके
नत्थि । ४. मुनि - सी० । ५-५. पग्गण्हसि - स्या०, रो० । ६. स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि ।
७. स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि । ८. पञ्चपित - स्या०, रो० । ९-९. विवटित विभवित -
स्या०, रो० । १०-१०. भगवा - स्या०, रो० ।

अज्झत्तसन्ती ति यमेतमत्थं,
कथं नु धीरेहि पवेदितं'तं' ति ॥

७४. न दिट्ठिया न सुत्तिया न ज्ञाणेन, (मागण्डिया ति भगवा)
सीलब्बतेना पि न सुद्धिमाह ।
अदिट्ठिया अस्सुत्तिया अजाणा,
असीलता अब्बता नो पि तेन ।
एते च निस्सज्ज अनुभाहाय,
सन्तो अनिस्साय भवं न जप्पे ॥

5

न दिट्ठिया न सुत्तिया न ज्ञाणेना ति । दिट्ठेना' पि' सुद्धि
विसुद्धि परिसुद्धि, मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति नाह न कथेसि 10
न भणसि न दीपयसि न वोहरसि; सुत्तेना' पि सुद्धि विसुद्धि
परिसुद्धि, मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति नाह न कथेसि न भणसि न
दीपयसि न वोहरसि; दिट्ठसुत्तेना पि सुद्धि विसुद्धि परिसुद्धि,
मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति नाह न कथेसि न भणसि न दीपयसि न
वोहरसि; ज्ञाणेना पि सुद्धि विसुद्धि परिसुद्धि, मुत्ति विमुत्ति परि- 15
मुत्ति नाह न कथेसि न भणसि न दीपयसि न वोहरसी ति - न
दिट्ठिया न सुत्तिया न ज्ञाणेन ।

B. 145

मागण्डिया ति । भगवा तं ब्राह्मणं नामेन आलपति ।
भगवा ति । गारवाधिवचनं...पे०...सच्छिका पञ्चत्ति यदिदं भगवा
ति - मागण्डिया ति भगवा ।

20

सीलब्बतेना पि न सुद्धिमाहा ति । सीलेना पि सुद्धि
विसुद्धि परिसुद्धि, मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति नाह न कथेसि न
भणसि न दीपयसि न वोहरसि, वतेना पि सुद्धि विसुद्धि
परिसुद्धि, मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति नाह न कथेसि न भणसि
न दीपयसि न वोहरसि; सीलब्बतेना पि सुद्धि विसुद्धि परिसुद्धि, 25
मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति नाह न कथेसि न भणसि न दीपयसि न
वोहरसी ति - सीलब्बतेना पि न सुद्धिमाह ।

R. 188

१-१. दिट्ठेन - सी०; दिट्ठेन पि - स्या०, रो० । २ सुत्तेन - सी०, स्या०, रो०;
एवमुपरि पि ।

अदिद्विया अस्सुतिया अजाणा असीलता अब्बता नो पि तेना ति । दिद्वि पि' इच्छितब्बा - दसवत्थुका सम्मादिद्वि - अत्थि दिन्नं, अत्थि यिट्ठं, अत्थि हुत्तं, अत्थि सुकतद्रुककटानं' कम्मानं फल विपाको, अत्थि अयं लोको, अत्थि परो लोको, अत्थि माता, 5 अत्थि पिता, अत्थि सत्ता ओपपातिका, अत्थि लोके समणब्राह्मणा सम्मग्गता सम्मापटिपन्ना ये इमं च लोकं पर च लोकं सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा पवेदेन्ती ति, सवनं पि इच्छितब्बं - परतो घोसो, सुत्तं, गेय्यं, वेय्याकरणं, गाथा, उदानं, इतिवुत्तकं, जातकं, अब्भुतधम्मं, वेदल्लं; ब्राणं पि इच्छितब्बं - कम्मस्सकतब्राण, 10 सच्चानुलोमिकब्राणं, अभिञ्जाब्राणं, समापत्तिब्राणं; सीलं पि इच्छितब्बं - पातिभोक्खसंवरो; वतं' पि इच्छितब्बं - अट्ट धृतङ्गानि - आरञ्जिकङ्गं, पिण्डपातिकङ्गं, पंसुकूलिकङ्गं, तेचीवरिकङ्गं, सपदान-चारिकङ्गं, खलुपच्छाभक्तिकङ्गं, नेसज्जिकङ्गं, यथासन्थतिकङ्गं ति ।

B. 146

R. 189

अदिद्विया अस्सुतिया अजाणा असीलता अब्बता नो पि तेना ति । ना पि सम्मादिद्विमत्तेन, ना पि सवनमत्तेन', ना पि ब्राण- 15 मत्तेन, ना पि सीलमत्तेन, ना पि वतमत्तेन अज्झत्तसन्ति पतो होति, ना पि विना एतेहि धम्मोहि अज्झत्तसन्ति पापुणाति । अपि च, सम्भारा इमे धम्मा होन्ति अज्झत्तसन्ति पापुणित्तुं अधिगन्तुं फस्सित्तुं सच्छिकात्तुं ति - अदिद्विया अस्सुतिया अजाणा असीलता अब्बता 20 नो पि तेन ।

एत्ते च निस्सज्ज अनुग्गहाया ति । एत्ते ति' । कण्हपक्खिकानं धम्मानं समुग्घाततो पहानं इच्छितब्बं, तेघातुकेसु कुसलेसु धम्मेषु अतम्मयता' इच्छितब्बा, यतो कण्हपक्खिया' धम्मा समुग्घातपहानेन पहीना होन्ति उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावकता' आर्याति 25 अनुप्पादधम्मा, तेघातुकेसु च कुसलेसु धम्मेषु अतम्मयता होति, एत्तावता पि न गण्हाति न परामसति नाभिनिविसति । अथ वा,

१ सी० पोत्यके नत्थि । २ सुकट० - सी०, रो० । ३ वत - स्वा०, रो०; एवमुपरि पि । ४. सवणमत्तेन - सी० । ५ फुसित्तु - सी०, स्वा०, रो०, एवमुपरि पि । ६. हि - स्वा०, रो० पोत्यके नत्थि । ७ अकम्मयता - सी० । ८ कण्हपक्खिका - स्वा०, रो० । ९ अनग-बज्जता - स्वा०, रो०; एवमुपरि पि ।

न गण्हितब्बा न परामसितब्बा नाभिनिविसितब्बा ति । एवं पि एते च निस्सज्ज अनुग्गहाय । यतो तण्हा च दिट्ठि च मानो च पहीना होन्ति उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावंकता आर्याति अनुप्पादधम्मा ति, एत्तावता पि न गण्हाति न परामसति नाभिनिविसती ति । एवं पि एते च निस्सज्ज अनुग्गहाय ।

5

यतो पुञ्जाभिसङ्कारो च अपुञ्जाभिसङ्कारो च आनेञ्जाभिसङ्कारो च पहीना होन्ति उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावंकता आर्याति अनुप्पादधम्मा ति, एत्तावता पि न गण्हाति न परामसति नाभिनिविसती ति । एवं पि एते च निस्सज्ज अनुग्गहाय ।

सन्तो अनिस्साय भवं न जप्पे ति । सन्तो ति । रागस्स समितत्ता^१ सन्तो, दोसस्स समितत्ता सन्तो, मोहस्स समितत्ता सन्तो, कोधस्स ... उपनाहस्स ... मक्खस्स ... पळासस्स ... इस्साय ... मच्छरियस्स ... मायाय . . साठेय्यस्स ... थम्भस्स ... सारम्भस्स ... मानस्स ... अतिमानस्स ... मदस्स ... पमादस्स ... सब्बकिलेसानं .. सब्बदुच्चरितानं ... सब्बदरथानं . . सब्बपरिळाहानं .. सब्बसन्तापानं .. सब्बाकुसलाभिसङ्कारानं सन्तत्ता समितत्ता बूपसमितत्ता विज्जातत्ता निब्बुतत्ता विगतत्ता पटिपस्सद्धत्ता सन्तो उपसन्तो^१ बूपसन्तो निब्बुतो पटिपस्सद्धो ति - सन्तो ।

10

R. 190

15

अनिस्साया ति । द्वे निस्सया - तण्हानिस्सयो च दिट्ठिनिस्सयो च...पे०...अयं तण्हानिस्सयो...पे०... अयं दिट्ठिनिस्सयो । तण्हानिस्सयं पहाय दिट्ठिनिस्सयं पटिनिस्सज्जित्वा चक्खुं अनिस्साय, सोतं अनिस्साय, धानं अनिस्साय, जिब्हुं अनिस्साय, कायं अनिस्साय, मनं अनिस्साय, रूपे ... सद्दे ... गन्धे ... रसे ... फोट्टब्बे ... कुलं ... गणं ... आवासं ... लाभं ... यसं ... पसंसं ... सुखं ... चीवरं ... पिण्डपातं ... सेनासनं . . गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारं ... कामघातुं ... रूपघातुं . . अरूपघातुं ... कामभवं ... रूपभवं ... अरूपभवं ... सञ्जाभवं ... असञ्जाभवं ... नेवसञ्जानासञ्जाभवं ... एकवोकारभवं ... चतुवोकारभवं ... पञ्चवोकारभवं ... अतीतं ... अनागतं ... पच्चुप्पन्नं ... दिट्ठिसुत-सुतविज्जातब्बे धम्मे अनिस्साय अगण्हित्वा अपरामसित्वा अनभि-

20

B. 147

25

१ सन्तता - स्या०, रो०, एकमुपरि पि । २ स्या०, रो० पोत्वकेसु नत्थि ।

निविसित्वा ति—सन्तो अनिस्साय । भवं न जप्पे ति । कामभव न
जप्पेय्य, रूपभवं न जप्पेय्य, अरूपभवं न जप्पेय्य नप्पजप्पेय्य न
अभिजप्पेय्या ति—सन्तो अनिस्साय भवं न जप्पे । तेनाह भगवा—

“न दिट्ठिया न सुत्तिया न ब्राणेन,

(भागण्डिया ति भगवा)

सीलब्बतेना पि न सुद्धिमाह ।

अदिट्ठिया अस्सुत्तिया अब्राणा,

असीलता अब्बता नो पि तेन ।

एते च निस्सज्ज' अनुग्गहाय,

सन्तो अनिस्साय भवं न जप्पे' ति ॥

B. 191

७५. नो चे किर दिट्ठिया न सुत्तिया न ब्राणेन,
(इति भागण्डियो)

सीलब्बतेना पि न सुद्धिमाह ।

अदिट्ठिया अस्सुत्तिया अब्राणा,

असीलता अब्बता नो पि तेन ।

मञ्जामहं सोमुहमेव धम्मं,

दिट्ठिया एके पच्चेन्ति सुद्धि ॥

B. 148

नो चे किर दिट्ठिया न सुत्तिया न ब्राणेना ति । दिट्ठिया
पि सुद्धि विसुद्धि परिसुद्धि, मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति नाह न कथेसि
न भणसि न दीपयसि न बोहरसि, सुतेना पि सुद्धि विसुद्धि
परिसुद्धि, मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति ... दिट्ठिसुतेना पि सुद्धि विसुद्धि
परिसुद्धि, मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति .. ब्राणेना पि सुद्धि विसुद्धि
परिसुद्धि, मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति नाह न कथेसि न भणसि न
दीपयसि न बोहरसी ति—नो चे किर दिट्ठिया न सुत्तिया न
ब्राणेन ।

इति भागण्डियो ति । इती ति । पदसन्धि ...पे०...। भागण्डियो
ति । तस्स ब्राह्मणस्स नामं ...पे०...इति भागण्डियो ।

सीलब्बतेना पि न सुद्धिमाहा ति। सीलेना पि सुद्धिं विसुद्धिं परिसुद्धिं ...पे०... वतेना पि सुद्धिं विसुद्धिं परिसुद्धिं ...पे०... सीलब्बतेना पि सुद्धिं विसुद्धिं परिसुद्धिं, मुत्तिं विमुत्तिं परिमुत्तिं नाहं न कथेसि न भणसि न दीपयसि न वोहरसी ति—सीलब्बतेना पि न सुद्धिमाहा।

5

अदिट्ठिया अस्सुतिया अजाणा असीलता अब्बता नो पि तेना ति। दिट्ठि पि इच्छितब्बा ति एवं भणसि, सवनं पि इच्छितब्बं ति एवं भणसि, जाणं पि इच्छितब्बं ति एवं भणसि', न सक्कोसि एकंसेन अनुजानितुं, न पि' सक्कोसि एकंसेन पटिक्खपितुं ति—अदिट्ठिया अस्सुतिया अजाणा असीलता अब्बता नो पि तेन।

10

R. 192

मञ्जामहं मोमुहमेव धम्मं ति। मोमूहधम्मो अयं तुय्हं बालधम्मो मूळधम्मो' अञ्जाणधम्मो अमराविक्खेपधम्मो ति एवं मञ्जामि एवं जानामि एवं आजानामि एवं विजानामि एवं पटि-विजानामि' एवं पटि-विज्जामी ति—मञ्जामहं मोमुहमेव धम्मं।

दिट्ठिया एके पच्चेन्ति सुद्धिं ति। सुद्धिदिट्ठिया' एके समण-
ब्राह्मणा सुद्धिं विसुद्धिं परिसुद्धिं, मुत्तिं विमुत्तिं परिमुत्तिं पच्चेन्ति;
“सस्सतो लोको, इदमेव सच्चं मोघमञ्जं” ति दिट्ठिया एके समण-
ब्राह्मणा सुद्धिं विसुद्धिं परिसुद्धिं, मुत्तिं विमुत्तिं परिमुत्तिं पच्चेन्ति;
“असस्सतो लोको...पे०...नेव होति न न होति तथागतो परं मरण,
इदमेव सच्चं मोघमञ्जं” ति दिट्ठिया एके समणब्राह्मणा सुद्धिं
विसुद्धिं परिसुद्धिं, मुत्तिं विमुत्तिं परिमुत्तिं पच्चेन्ती ति—दिट्ठिया
एके पच्चेन्ति सुद्धिं। तेनाहं सो ब्राह्मणो—

15

20

“नो चे किर दिट्ठिया न सुतिया न जाणेन,
(इति मागण्डियो)

सीलब्बतेना पि न सुद्धिमाहा।

अदिट्ठिया' अस्सुतिया अजाणा,
असीलता अब्बता नो पि तेन।

25

१ एतय 'सीलम्पि इच्छितब्बन्ति एवं भणसि, वत्तम्पि इच्छितब्बन्ति एव भणसि' इति सी०, स्या०, रो० पोत्यकेसु अधिको पाठो विस्सति। २. सी०, स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि। ३. रो० पोत्यके नत्थि। ४-४ स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि। ५. दिट्ठिया—स्या०, रो०। ६ दिट्ठिया—रो०।

B. 149

मञ्जामहं मोमुहमेव धम्मं,
दिट्ठिया एके पच्चेन्ति सुद्धि' ति ॥

B. 198

७६. दिट्ठि' च' निस्सायनुपुच्छमानो, (भागण्डिया ति भगवा)
समुग्गहीतेसु पमोहमागा'।

5

इतो च नाद्दक्खि अणुं पि सञ्जं,
तस्मा तुवं मोमुहतो दहासि ॥

दिट्ठि च निस्सायनुपुच्छमानो ति। भागण्डियो ब्राह्मणो
दिट्ठि निस्साय दिट्ठि पुच्छति, लग्नं निस्साय लग्नं पुच्छति,
बन्धनं निस्साय बन्धनं पुच्छति, पलिबोधं निस्साय पलिबोधं पुच्छति।
10 अनुपुच्छमानो ति। पुनप्पुनं पुच्छती ति - दिट्ठि च निस्सायनु-
पुच्छमानो।

भागण्डिया ति। भगवा त ब्राह्मणं नामेन आलपति।
भगवा ति। गारवाधिवचनं .. पे० .. सच्छिका पञ्चति यदिदं भगवा
ति - भागण्डिया ति भगवा।

15

समुग्गहीतेसु पमोहमागा ति। या सा' दिट्ठि तथा गहिता
परामट्ठा अभिनिविट्ठा अज्झोसिता अधिमुत्ता, तायेव त्व दिट्ठिया
मूळ्होसि पमूळ्होसि' सम्मूळ्होसि' मोहं आगतोसि पमोह आग-
तोसि सम्मोह आगतोसि अन्धकारं पक्खन्दोसी' ति - समुग्गहीतेसु
पमोहमागा।

20

इतो च नाद्दक्खि अणुं पि सञ्जं ति। इतो अज्झत्तसन्तितो
वा पटिपदातो' वा धम्मदेसनातो' वा, युत्तसञ्जं* पत्तसञ्जं लक्खण-
सञ्जं कारणसञ्जं ठानसञ्जं न पटिलभति, कुतो आणं ति। एवं
पि इतो च नाद्दक्खि अणुं पि सञ्जं। अथ वा, अनिच्च वा
अनिच्चसञ्जानुलोमं वा, दुक्खं वा दुक्खसञ्जानुलोमं वा, अनत्त
25 वा अनत्तसञ्जानुलोमं वा, सञ्जुप्पादमत्तं वा सञ्जानिमित्तं वा

१-१ विट्ठीसु-सी०, स्या०, रो०। २ ० माग-सी०। ३ स्या०, रो० पोत्थकेसु
नत्थि। ४-४ पमूळ्हो सम्मूळ्हो-स्या०, रो०। ५ पक्खन्तोसी-स्या०, रो०। ६ पटि-
पत्तितो-स्या०, रो०। ७ धम्मदेसन्तो-स्या०, रो०। * वा-अधिको पाठो सी०, स्या०,
रो०, एवमुपरि पि। ८ सञ्जानितमत्त-म०।

न पटिलभति,^१ कुतो आणं ति। एवं पि इतो च नाद्विख अणुं
पि सञ्जं।

B. 194

तस्मा तुवं मोमुहतो दहासी ति। तस्मा ति। तस्मा तंका-
रणा तंहेतु तप्पच्चया तंनिदाना मोमूहधम्मतो बालधम्मतो मूळह-
धम्मतो अञ्जाणधम्मतो अमराविकखेपधम्मतो दहासि पस्ससि 5
दक्खसि ओलोकिसि निज्झायसि उपपरिक्खसी ति—तस्मा तुवं
मोमुहतो दहासि। तेनाह भगवा—

“दिट्ठि च निस्सायनुपुच्छमानो, (मागण्डिया ति भगवा)

B. 195

समुग्गहीतेसु पमोहमागा।

इतो च नाद्विख अणुं पि सञ्जं,

10

तस्मा तुवं मोमुहतो दहासी” ति॥

७७. समो विसेसी उद वा निहीनो,

यो मञ्जति^१ सो विवदेथ तेन।

तीसु विधासु अविकम्पमानो,

समो विसेसी ति न तस्स होति॥

15

समो विसेसी उद वा निहीनो यो मञ्जति सो विवदेथ
तेना ति। सदिसोहमस्मी ति वा सेय्योहमस्मी ति वा हीनोहमस्मी^१
ति वा यो मञ्जति, सो तेन मानेन ताय दिट्ठिया तेन वा पुग्ग-
लेन कलहं करेय्य भण्डनं करेय्य विग्गहं करेय्य विवादं करेय्य
मेघगं करेय्य—“न त्वं इमं धम्मविनयं आजानासि, अहं इमं धम्म- 20
विनयं आजानामि, किं त्वं इमं धम्मविनयं आजानिस्ससि, मिच्छा-
पटिपन्नो त्वमसि, अहमस्मि सम्मापटिपन्नो, सहितं मे, असहितं
ते, पुरे वचनीयं पच्छा अवच, पच्छा वचनीयं पुरे अवच, अधि-
चिण्णं ते विपरावत्तं, आरोपितो ते वादो, निग्गहितो त्वमसि”,
चर वादप्पमोक्खाय, निब्बेठेहि वा सच्चे पहीसी” ति—समो 25
विसेसी उद वा निहीनो यो मञ्जति सो विवदेथ तेन।

तीसु विधासु अविकम्पमानो समो विसेसी ति न तस्स
होती ति। यस्सेता तित्तो विधा पहीना समुच्छिन्ना वूपसन्ता

R. 195

१ पटिलमसि—सी०, स्या०, रो०। २ मञ्जती—स्या०, रो०। ३ निहीनोहमस्मी—
रो०। ४ सि—सी०, स्या०।

पटिपस्सद्धा अभव्वुप्पत्तिका ज्ञाणग्गिना दद्धा, सो तीसु विधासु न कम्पति न विकम्पति, अविकम्पमानस्स पुग्गलस्स सदिसोहमस्मी ति वा सेय्योहमस्मी ति वा हीनोहमस्मी ति वा। न तस्स ह्योती ति। न मय्हं ह्योती ति - तीसु विधासु अविकम्पमानो समो विसेसी ति न तस्स ह्योति। तेनाह भगवा -

“समो विसेसी उद वा निहीनो,
यो मञ्जति सो विवदेथ तेन।
तीसु विधासु अविकम्पमानो,
समो विसेसी ति न तस्स ह्योती” ति ॥

B. 161 10

७८. सच्चं ति सो ब्राह्मणो किं वदेय्य,
मुसा ति वा सो विवदेथ केन।
यस्मिं समं विसमं वा पि नत्थि,
स केन वादं पटिसंयुजेय्य ॥

सच्चं ति सो ब्राह्मणो किं वदेय्या ति। ब्राह्मणो ति।
15 सत्तन्नं धम्मानं बाहितत्ता ब्राह्मणो...पे०...असितो^१ तादि पवुच्चते^२ स
ब्रह्मा। सच्चं ति सो ब्राह्मणो किं वदेय्या ति। “सस्सतो लोको,
इदमेव सच्चं मोघमञ्जं” ति ब्राह्मणो किं वदेय्य किं कथेय्य
किं भणेय्य किं दीपयेय्य किं बोहरेय्य; “असस्सतो लोको...पे०...
नेव ह्योति न न ह्योति तथागतो परं मरणा, इदमेव सच्चं मोघ-
20 मञ्जं” ति ब्राह्मणो किं वदेय्य किं कथेय्य किं भणेय्य किं दीप-
येय्य किं बोहरेय्या ति - सच्चं ति सो ब्राह्मणो किं वदेय्य।

R. 190

मुसा ति वा सो विवदेथ केना ति। ब्राह्मणो मय्हं व
सच्चं तुय्हं मुसा ति केन मानेन, काय दिट्ठिया, केन वा पुग्गलेन
कलहं करेय्य भण्डनं करेय्य विग्गहं करेय्य विवादं करेय्य मेवमं
25 करेय्य - “न त्वं इमं धम्मविनयं।आजानासि...पे०...निब्बेठेहि वा
सचे पहोसी” ति - मुसा ति वा सो विवदेथ केन।

यस्मिं समं विसमं वा पि नत्थी ति। यस्मिं ति^१। यस्मिं
पुग्गले^२ अरहन्ते खीणासवे सदिसोहमस्मी ति मानो नत्थि, सेय्यो-

१ अनिस्सतो - स्या०, रो०। २ पवुच्चति - रो०। ३-३. स्या० पोत्थके नत्थि।

हमस्मी ति मानो' नत्थि, हीनोहमस्मी ति ओमानो नत्थि न' सन्ति' न संविज्जति नुपलब्धति, पहीनं समुच्छिन्नं वूपसन्तं पटि- पस्सद्धं अभब्बुप्पत्तिकं जाणग्गिना दद्धं ति-यस्मिं समं विसमं वा पि नत्थि।

स केन वादं पटिसंयुजेय्या ति। सो केन मानेन, काय ५
दिट्ठिया, केन वा पुग्गलेन वादं पटिसञ्जोजेय्य' पटिवल्लेय्य'
कलहं करेय्य भण्डनं करेय्य विग्गहं करेय्य विवादं करेय्य मेघगं
करेय्य - "न त्वं इमं धम्मविनयं आजानासि ... पे०... निब्बेटेहि वा सचे
पहोसी" ति - स केन वादं पटिसंयुजेय्य। तेनाह भगवा -

"सच्चं ति सो ब्राह्मणो किं वदेय्य,
मुसा ति वा सो विवदेथ केन।
यस्मिं समं विसमं वा पि नत्थि,
स केन वादं पटिसंयुजेय्या" ति ॥

10

७९. ओकं पहाय अनिकेतसारी,
गामे अकुब्बं मुनि सन्धवानि'।
कामेहि रिस्तो अपुरेक्खरानो,
कथं न विग्गह् जनेन कथिरा ॥

B. 152

15

अथ खो ह्वाल्लिकानि' गहपति येनायस्मा महाकच्चानो
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं महाकच्चानं अभिवादेत्वा
एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो ह्वाल्लिकानि गहपति २०
आयस्मन्तं महाकच्चानं एतदवोच - "वुत्तमिदं भन्ते, कच्चान,
भगवता अट्टकवग्गिके" मागण्डियपञ्चे -

B. 197

"ओकं पहाय अनिकेतसारी,
गामे अकुब्बं मुनि सन्धवानि।
कामेहि रिस्तो अपुरेक्खरानो,
कथं न विग्गह् जनेन कथिरा" ति ॥

25

१ अतिमानो - स्या०, रो०। २-२. स्या०, रो० पोत्वकेसु नत्थि; एवमुपरि पि। ३. पटिसंयुजेय्य - रो०; पटिसञ्जोजेय्य - स्या०; एवमुपरि पि। ४. पटिचरेय्य - सी०; पटिप्परेय्य - स्या०; पटिफरेय्य - रो०। ५. सन्धवानी - स्या०, रो०। ६. ह्वाल्लिकानी - सी०; ह्वाल्लिकानि - स्या०, रो०। ७. अट्टकवग्गिये - सी०। ८. नु - सी०।

“इमस्स नु खो भन्ते, कच्चान, भगवता सङ्खित्तेन भासितस्स कथं वित्थारेण अत्थो दट्ठब्बो” ति ?

“रूपधातु खो, गहपति, विञ्जाणस्स ओको रूपधातु रागविनिबन्धं च पन विञ्जाणं ओकसारी ति वुच्चति । वेदनाधातु खो, गहपति . सञ्जाधातु खो, गहपति ... सङ्खारधातु खो, गहपति, विञ्जाणस्स ओको सङ्खारधातु रागविनिबन्धं च पन विञ्जाणं ओकसारी ति वुच्चति । एवं खो, गहपति, ओकसारी होति ।

“कथं च, गहपति, अनोकसारी होति ? रूपधातुया खो, गहपति, यो छन्दो यो रागो या नन्दी या तण्हा ये उपायुपादाना चेतसो अधिट्ठानाभिनिवेशानुसया ते तथागतस्स पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावकता आयति अनुप्पादधम्मा; तस्मा तथागतो अनोकसारी ति वुच्चति । वेदनाधातुया खो, गहपति... सञ्जाधातुया खो, गहपति . . सङ्खारधातुया खो, गहपति ... विञ्जाणधातुया खो, गहपति, यो छन्दो यो रागो या नन्दी या तण्हा ये उपायुपादाना चेतसो अधिट्ठानाभिनिवेशानुसया ते तथागतस्स पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावकता आयति अनुप्पादधम्मा, तस्मा तथागतो अनोकसारी ति वुच्चति । एवं खो, गहपति, अनोकसारी होति ।

“कथं च, गहपति, निकेतसारी होति ? रूपनिमित्तनिकेत-
विसारविनिबन्धा खो, गहपति, निकेतसारी ति वुच्चति । सद्-
निमित्त . . गन्धनिमित्त ... रसनमित्त . फोट्टब्बनिमित्त ... धम्मनिमित्त-
निकेतविसारविनिबन्धा खो, गहपति, निकेतसारी ति वुच्चति ।
एवं खो, गहपति, निकेतसारी होति ।

“कथं च, गहपति, अनिकेतसारी होति ? रूपनिमित्त-
निकेतविसारविनिबन्धा खो, गहपति, तथागतस्स पहीना उच्छिन्न-
मूला तालावत्थुकता अनभावकता आयति अनुप्पादधम्मा, तस्मा
तथागतो अनिकेतसारी ति वुच्चति । सद्निमित्त ... गन्धनिमित्त ...
रसनमित्त फोट्टब्बनिमित्त . धम्मनिमित्तनिकेतविसारविनिबन्धा खो,

गहपति, तथागतस्स पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभाव-
कता आर्याति अनुप्पादधम्मा; तस्मा तथागतो अनिकेतसारी ति
वुच्चति। एवं खो, गहपति, अनिकेतसारी होति।

“कथं च, गहपति, गामे सन्थवजातो होति? इध, गहपति,
एकच्चो भिक्खु^१ गिहीहि संसट्ठो विहरति सहनन्दी सहसोकी, 5
सुखितेसु सुखितो, दुक्खितेसु दुक्खितो, उप्पन्नेसु किच्चकरणीयेसु
अत्तना बोयोगं आपज्जति। एवं खो, गहपति, गामे सन्थवजातो
होति।

“कथं च, गहपति, गामे न सन्थवजातो होति? इध,
गहपति, एकच्चो^२ भिक्खु गिहीहि असंसट्ठो विहरति न सहनन्दी 10
न सहसोकी, न सुखितेसु सुखितो, न दुक्खितेसु दुक्खितो, उप्प-
न्नेसु किच्चकरणीयेसु न अत्तना बोयोगं आपज्जति। एवं खो,
गहपति, गामे न सन्थवजातो होति।

“कथं च, गहपति, कामेहि अरित्तो होति? इध, गहपति,
एकच्चो भिक्खु^३ कामेसु अवीतरागो होति अविगतच्छन्दो^४ अविगत- 15
पेमो अविगतपिपासो अविगतपरिळाहो अविगततण्हो। एवं खो,
गहपति, कामेहि अरित्तो होति।

“कथं च, गहपति, कामेहि रित्तो होति? इध, गहपति,
एकच्चो^५ भिक्खु कामेसु वीतरागो होति विगतच्छन्दो विगतपेमो 20
विगतपिपासो विगतपरिळाहो विगततण्हो। एवं खो, गहपति,
कामेहि रित्तो होति।

“कथं च, गहपति, पुरेक्खरानो होति? इध, गहपति,
एकच्चस्स भिक्खुनो एवं होति—‘एवंरूपो सियं अनागतमद्धानं’ ति
तत्थ नन्दि समन्नानेति^६, ‘एवंवेदनो सियं ... एवंसञ्जो सियं ... एवं-
सङ्कारो सियं ... एवंविञ्जाणो सियं अनागतमद्धानं’ ति तत्थ नन्दि 25
समन्नानेति। एवं खो, गहपति, पुरेक्खरानो होति।

१ स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि। २ स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि। ३. अविगतच्छन्दो—
सी०, अवीतच्छन्दो—स्या०; अवीतच्छन्दो—रो०, एवमुपरि पि। ४ समन्नागमेति—
स्या०, रो०।

R. 200

“कथं च, गृहपति, अपुरेक्खरानो होति? इध, गृहपति, एकच्चस्स भिक्खुनो एवं होति—‘एवरूपो सियं अनागतमद्धानं’ ति न तत्थ नन्दि समञ्चानेति, ‘एवंवेदो सियं ... एवंसञ्चो सियं ... एवंसङ्कारो सियं ... एवंविञ्जाणो सियं अनागतमद्धानं’ ति न तत्थ नन्दि समञ्चानेति। एवं खो, गृहपति, अपुरेक्खरानो होति।

“कथं च, गृहपति, कथं विग्गय्ह जनेन कत्ता होति? इध, गृहपति, एकच्चो एवरूपि कथं कत्ता होति—‘न त्वं इमं धम्मविनयं आजानासि, अहं इमं धम्मविनयं आजानामि, किं त्वं इमं धम्मविनयं आजानिस्ससि, मिच्छापटिपन्नो त्वमसि, अहमस्मि सम्मापटिपन्नो, सहितं मे, असहितं ते, पुरे वचनीयं पच्छा अवच, पच्छा वचनीयं पुरे अवच, अधिचिण्णं ते विपरावत्तं, आरोपितो ते वादो, निग्गहितो त्वमसि, चर वादप्पमोकखाय, निब्बेठेहि वा सचे पहोसी’ ति। एवं खो, गृहपति, कथं विग्गय्ह जनेन कत्ता होति।

“कथं च, गृहपति, कथं विग्गय्ह जनेन न कत्ता होति? इध, गृहपति, एकच्चो न एवरूपि कथं कत्ता होति—‘न त्वं इमं धम्मविनयं आजानासि ... पे० ... निब्बेठेहि वा सचे पहोसी’ ति। एवं खो, गृहपति, विग्गय्ह जनेन न कत्ता होति। इति खो, गृहपति, यं तं वुत्तं भगवता अट्टकवग्गिके भागण्डियपच्चे—

‘ओकं पहाय अनिकेतसारी,
गामे अकुब्बं मुनि सन्थवानि।
कामेहि रित्तो अपुरेक्खरानो,
कथं न विग्गय्ह जनेन कयिरा’ ति ॥

S. 168,
S. 201

“इमस्स खो, गृहपति, भगवता सङ्घित्तेन भासितस्स एवं वित्थारेण अत्थो दट्टुब्बो” ति। तेनाह भगवा—

‘ओकं पहाय अनिकेतसारी,
गामे अकुब्बं मुनि सन्थवानि।
कामेहि रित्तो अपुरेक्खरानो,
कथं न विग्गय्ह जनेन कयिरा’ ति ॥

८०. येहि विवित्तो विचरेय्य लोके,
 न तानि उग्गह्ण वदेय्य नागो ।
 एलम्बुजं कण्ठकवारिजं यथा,
 जलेन पङ्केन चनूपलितं ।
 एवं मुनी सन्तिवादो^१ अगिद्धो,
 कामे च लोके च अनूपलितो ॥

5

येहि विवित्तो विचरेय्य लोके ति । येही ति । येहि^१ दिट्ठि-
 गतेहि । विवित्तो ति । कायदुच्चरितेन रित्तो^२ विवित्तो पविवित्तो,
 वचीदुच्चरितेन ... मनोदुच्चरितेन ... रागेन ... पे० ... सन्नाकुसलाभिसङ्गा-
 रेहि रित्तो विवित्तो पविवित्तो । विचरेय्या ति । विचरेय्य^३ विहरेय्य 10
 इरियेय्य वत्तेय्य पालेय्य यपेय्य यापेय्य । लोके ति । मनुस्सलोके
 ति — येहि विवित्तो विचरेय्य लोके ।

न तानि उग्गह्ण वदेय्य नागो ति । नागो ति । आगुं न
 करोती ति — नागो, न गच्छती ति — नागो, नागच्छती ति — नागो ।
 कथं आगुं न करोती ति — नागो ? आगु वुच्चन्ति पापका अकुसला 15
 धम्मा संकिलेसिका पोन्नोभविका सदरा दुक्खविपाका आर्याति जाति-
 जरामरणिा ।

आगुं न करोति किञ्चि लोके, (सभिया ति भगवा)
 सव्वसञ्जोगे विसज्ज बन्धनानि ।
 सव्वत्थ न सज्जति विमुत्तो,
 नागो तादी पवुच्चते^४ तथत्ता ॥

B 202

20

एवं आगुं न करोती ति — नागो ।

कथं न गच्छती ति — नागो ? न छन्दागतिं गच्छति, न
 दोसागतिं गच्छति, न मोहागतिं गच्छति, न भयागतिं गच्छति, न
 रागवसेन गच्छति, न दोसवसेन गच्छति, न मोहवसेन गच्छति, न 25
 मानवसेन गच्छति, न दिट्ठिवसेन गच्छति, न उद्धच्चवसेन गच्छति,
 न विचिकिच्छावसेन गच्छति, नानुसयवसेन गच्छति, न वग्गेहि

B. 166

१ कण्ठक० — सी०, स्या०, रो० । २ सन्तिवादो — स्या०, रो० । ३ स्या० पोत्यके
 नत्वि । ४ वित्तो — स्या०, रो०; एवमुपरिपि । ५ चरेय्य — स्या०, रो० । ६ वुच्चते —
 स्या०, रो० ।

धम्मोहि यायति नीयति बुद्ध्यति संहरीयति । एवं न गच्छती ति-
नागो ।

कथं नागच्छती ति-नागो ? सोतापत्तिमग्गेन ये किलेसा
पहीना ते किलेसे न पुनेति न पच्चेति न पच्चागच्छति । सकदागामि-
५ मग्गेन ... अनागामिमग्गेन ... अरहत्तमग्गेन ये किलेसा पहीना ते
किलेसे न पुनेति न पच्चेति न पच्चागच्छति । एवं नागच्छती ति-
नागो ।

न तानि उग्गय्ह वदेय्य नागो ति । नागो न तानि विट्ठि-
गतानि गहेत्वा उग्गहेत्वा गण्हित्वा परामसित्वा अभिनिविसित्वा
१० वदेय्य कथेय्य भणेय्य दीपयेय्य वोहुरेय्य, "सस्सतो लोको...पे०...नेव
होति न न होति तथागतो परं मरणा, इदमेव सच्चं मोधमच्च" ति
वदेय्य कथेय्य भणेय्य दीपयेय्य वोहुरेय्या ति-न तानि उग्गय्ह
वदेय्य नागो ।

एलम्बुजं कण्डकवारिजं यथा जलेन पङ्केन चनूपलितं ति ।
R. 208 16 एल बुच्चति उदकं, अम्बुजं बुच्चति पटुमं, कण्डको बुच्चति खर-
दण्डो, वारि बुच्चति उदकं, वारिजं बुच्चति पटुमं वारिसम्भवं, जलं
बुच्चति उदकं, पङ्को बुच्चति कद्दमो । यथा पटुमं वारिजं वारि-
सम्भवं जलेन च पङ्केन च न लिम्पति न पलिम्पति^१ न उपलिम्पति,
अलितं असंलितं अनुपलितं ति-एलम्बुजं कण्डकवारिजं यथा
२० जलेन पङ्केन चनूपलितं ।

एवं मुनी सन्तिवादो अगिद्धो कामे च लोके च अनुपलितो
ति । एवं ति । ओपम्मसपटिपादनं । मुनी ति । मोनं बुच्चति आणं
...पे०...सङ्गजालमतिच्च सो मुनि । सन्तिवादो ति । सन्तिवादो मुनि
ताणवादो लेणवादो सरणवादो अभयवादो^२ अच्युतवादो अमतवादी
२५ निब्बानवादी ति-एवं मुनी सन्तिवादो । अगिद्धो ति । गेधो बुच्चति
तण्ह । यो रागो सारागो...पे०... अभिज्झा लोभो अकुसलमूल ।
यस्सेसो गेधो पहीनो समुच्छिन्नो वूपसन्तो पटिपस्सद्धो अभब्बुपत्तिको
आणग्गिना दङ्को सो बुच्चति अगिद्धो । सो रूपे अगिद्धो, सद्दे...

१ उदकं अम्बु बुच्चति उदकं-स्या०, रो० । २ सलिम्पति-स्या०, रो० । ३-
अनुपलितो-म० । ४ ० पादात्ता-स्या०, रो० । ५ रो० पीत्यके नत्थि ।

गन्धे ... रसे ... फोटुब्बे ... कुले ... गणे ... आवासे ... लाभे ... यसे ...
 पसंसाय ... सुखे ... चीवरे ... पिण्डपाते ... सेनासने ... गिलानपच्चय-
 भेसज्जपरिक्खारे... कामघातुया ... रूपघातुया ... अरूपघातुया ... काम-
 भवे ... रूपभवे ... अरूपभवे ... सञ्जाभवे ... असञ्जाभवे ... नेवसञ्जा-
 नासञ्जाभवे ... एकवोकारभवे ... चतुवोकारभवे ... पञ्चवोकारभवे ... 5
 अतीते ... अनागते... पच्चुप्पन्ने.. दिट्ठ-सुत-मुत-विञ्जातब्बेसु धम्मेषु
 अगिद्धो अगधितो अमुच्छित्तो अनज्जभोसन्नो', वीतगेधो विगतगेधो'
 चत्तगेधो वन्तगेधो मुत्तगेधो पहीनगेधो पटिनिस्सट्ठगेधो, वीतरागो
 विगतरागो' चत्तरागो वन्तरागो मुत्तरागो पहीनरागो पटिनिस्सट्ठ-
 रागो, निच्छातो निम्बुतो सीतिभूतो सुखप्पटिसंवेदी ब्रह्मभूतेन 10
 अत्तना विहरती ति - एवं मुनी सन्तिवादो अगिद्धो।

B. 167

B. 204

कामे च लोके च अनूपलित्तो ति। कामा ति। उदानतो'
 द्वे कामा - वत्थुकामा च किलेसकामा च ...पे०...इमे वुच्चन्ति वत्थु-
 कामा ...पे०... इमे वुच्चन्ति किलेसकामा। लोके ति। अपायलोके
 मनुस्सलोके देवलोके खन्धलोके धातुलोके आयतनलोके। लेपा' ति। 15
 द्वे लेपा - तण्हालेपो च दिट्ठिलेपो च ...पे०...अयं तण्हालेपो...पे०...
 अयं दिट्ठिलेपो। मुनि तण्हालेपं पहाय दिट्ठिलेपं पटिनिस्सज्जित्वा
 कामे च लोके च न लिम्पति न पलिम्पति न उपलिम्पति,
 अलित्तो अपलित्तो अनुपलित्तो निक्खन्तो निस्सट्ठो विप्पमुत्तो विस-
 ञ्चुत्तो विभरियादिकतेन चेतसा विहरती ति - एवं मुनी सन्तिवादो 20
 अगिद्धो कामे च लोके च अनूपलित्तो। तेनाह भगवा -

“येहि विवित्तो विचरेय्य' लोके,
 न तानि उग्गय्ह वदेय्य नागो।
 एलम्बुजं कण्डकवारिजं यथा,
 जलेन पङ्केन चनूपलित्तं।
 एवं मुनी सन्तिवादो अगिद्धो,
 कामे च लोके च अनूपलित्तो' ति ॥

25

१. अनज्जोपन्नो - सी०, स्या०, रो०। २. स्या०, रो० पोत्यकेषु नत्वि। ३. उदा-
 नतो - सी०, स्या०। ४. लेपो - स्या०, रो०। ५. चरेय्य - रो०।

८१. न वेदगू दिद्विया न मुतिया,
स मानमेति न हि तम्मयो सो।
न कम्मना नो पि सुतेन नेव्यो,
अनूपनीतो स निवेसनेसु ॥

B. 159

5

B. 205

न वेदगू दिद्विया न मुतिया स मानमेती ति। ना ति।
पटिक्खेपो। वेदगू ति। वेदो वुच्चति चतूसु मग्गेषु बाणं, पञ्चा
पञ्चिन्द्रियं पञ्चाबलं धम्मविचयसम्बोज्झो वीमंसा विपस्सना
सम्मादिद्वि। तेहि वेदेहि जातिजरामरणस्स अन्तगतो अन्तप्पत्तो,
कोटिगतो कोटिप्पत्तो, परियन्तगतो परियन्तप्पत्तो, वोसानगतो
10 वोसानप्पत्तो, ताणगतो ताणप्पत्तो, लेणगतो लेणप्पत्तो, सरणगतो
सरणप्पत्तो, अभयगतो अभयप्पत्तो, अचुत्तगतो अचुत्तप्पत्तो, अमत-
गतो अमतप्पत्तो, निब्बानगतो निब्बानप्पत्तो, वेदानं वा अन्तं गतो
ति वेदगू, वेदेहि वा अन्तं गतो ति वेदगू, सत्तञ्चं वा धम्मानं विदि-
तत्ता वेदगू, सक्कायदिद्वि विदिता होति, विचिकिच्छा विदिता होति,
15 सीलव्वतपरामासो विदितो होति, रागो विदितो होति, बोसो विदितो
होति, मोहो विदितो होति, मानो विदितो होति, विदितास्स होन्ति
पापका अकुरुसला धम्मा संकिलेसिका पोनोभविका सदरा दुक्ख-
विपाका आयतिं जातिजरामरणिया।

20

वेदानि विचेय्य केवलानि, (सभिया ति भगवा)
समणानं यानीघत्थि^१ ब्राह्मणानं।
सव्ववेदनासु वीतरागो,
सव्वं वेदमतिच्च वेदगू सो ति ॥

न दिद्विया ति। तस्स द्वासद्वि दिद्विगतानि पहीनानि
समुच्छिन्नानि वूपसन्तानि पटिपस्सद्धानि अभव्वुप्पत्तिकानि बाण-
25 गिगना दह्मानि। सो दिद्विया न यायति न नीयति न वुहति न
संहरीयति, न पि तं दिद्विगतं सारतो पच्चेति न पच्चागच्छती ति
—न वेदगू दिद्विया। न मुतिया ति^२। मुत्तरूपेन वा परतो बोसेन^३
वा महाजनसम्मुतिया वा मानं नेति न उपेति न उपगच्छति न

B. 208

१. यानि पत्थि—त्या०, रो०। २. स मानमेती ति—त्या०, रो०। ३-३ परबोसेन
वा—त्या०, रो०।

गण्हाति न परामसति नाभिनिविसती ति - न वेदगू दिट्टिया न मुतिया स मानमेति ।

न हि तम्मयो सो ति । न तण्हावसेन दिट्टिवसेन तम्मयो होति तप्परमो तप्परायनो । यतो तण्हा च दिट्टि च मानो चस्स^१ पहीना होन्ति उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावकता आर्याति ६ अनुप्पादघम्मा एत्तावता न तम्मयो होति न तप्परमो न तप्परायनो ति - स मानमेति न हि तम्मयो सो ।

न कम्मना नो पि सुतेन नेय्यो ति । न कम्मना ति । पुञ्जाभिसङ्खारेण वा अपुञ्जाभिसङ्खारेण वा आनेञ्जाभिसङ्खारेण वा न यायति न नीयति न बुद्ध्यति न संहरीयती ति - न १० कम्मना । नो पि सुतेन नेय्यो ति । सुतसुद्धिया वा परतो घोसेन वा महाजनसम्मृतिया वा न यायति न नीयति न^१ बुद्ध्यति^१ न संहरीयती ति - न कम्मना नो पि सुतेन नेय्यो ।

अनूपनीतो स निवेसनेसू ति । उपया^१ ति । द्वे उपया - तण्हूपयो च दिट्ठूपयो च ...पे०...अयं तण्हूपयो...पे०...अयं दिट्ठूपयो । १५ तस्स तण्हूपयो पहीनो, दिट्ठूपयो पटिनिस्सट्ठो । तण्हूपयस्स पहीनत्ता, दिट्ठूपयस्स पटिनिस्सट्ठत्ता सो निवेसनेसु अनूपनीतो अनुपलित्तो अनुपगतो अनज्झोसितो अनघिमुत्तो निक्खन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसञ्चुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरती ति - अनूपनीतो स निवसेनेसु । तेनाह भगवा - २० R. 207

“न वेदगू दिट्टिया न मुतिया,
स मानमेति न हि तम्मयो सो ।
न कम्मना नो पि सुतेन नेय्यो,
अनूपनीतो स निवेसनेसू” ति ॥

८२. सञ्जाविरत्तस्स न सन्ति गन्था,
पञ्जाविमुत्तस्स न सन्ति मोहा ।
सञ्जं च दिट्ठिं च ये अग्गहेसुं,
ते घट्टमाना^१ विचरन्ति लोके ॥ २६

१. च - स्या०, रो० । २-२. स्या० पीत्यके नत्थि । ३. उपयो - स्या०, रो० । ४. घट्टयन्ता - स्या०, रो० ।

सञ्जाविरत्तस्स न सन्ति गन्था ति। यो समथपुब्बङ्गमं
अरियमग्गं भावेति तस्स आदितो उपादाय गन्था विक्खम्भिता
होन्ति, अरहत्ते पत्ते अरहतो गन्था च मोहा च नीवरणा च काम-
सञ्जा व्यापादसञ्जा विहिंसासञ्जा दिट्ठिसञ्जा च' पहीना होन्ति
5 उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावंकता आर्याति अनुप्पादधम्मा ति
— सञ्जाविरत्तस्स न सन्ति गन्था ।

पञ्जाविमुत्तस्स न सन्ति मोहा ति। यो विपस्सनापुब्बङ्गमं
अरियमग्गं भावेति, तस्स आदितो उपादाय मोहा विक्खम्भिता होन्ति,
B. 100 अरहत्ते पत्ते अरहतो मोहा च गन्था च नीवरणा च कामसञ्जा
10 व्यापादसञ्जा विहिंसासञ्जा दिट्ठिसञ्जा च पहीना होन्ति उच्छिन्न-
मूला तालावत्थुकता अनभावंकता आर्याति अनुप्पादधम्मा ति — पञ्जा-
विमुत्तस्स न सन्ति मोहा ।

सञ्जं च दिट्ठिं च ये अग्गहेसुं ते घट्टमाना विचरन्ति लोके
ति। ये सञ्जं गण्हन्ति कामसञ्जं व्यापादसञ्जं विहिंसासञ्जं
16 ते सञ्जावसेन घट्टेन्ति संघट्टेन्ति। राजानो पि राजूहि विवदन्ति,
खत्तिया पि खत्तियेहि विवदन्ति, ब्राह्मणा पि ब्राह्मणेहि विवदन्ति,
गहपती पि गहपतीहि विवदन्ति, माता पि पुत्तेन विवदति, पुत्तो पि
मातरा विवदति, पिता पि पुत्तेन विवदति, पुत्तो पि पितरा विव-
दति, भाता पि भातरा विवदति, भगिनी पि भगिनिया विवदति,
20 भाता पि भगिनिया विवदति, भगिनी पि भातरा विवदति, सहायो
पि सहायेन विवदति। ते तत्थ कलहविग्गहविवादमापन्ना अञ्जमञ्ज
पाणीहि पि उपक्कमन्ति, लेड्डूहि पि उपक्कमन्ति, दण्ढेहि पि
उपक्कमन्ति, सत्थेहि पि उपक्कमन्ति। ते तत्थ मरणं पि निगच्छन्ति
मरणमत्तं पि दुक्खं। ये दिट्ठिं गण्हन्ति “सस्सतो लोको” ति वा
25 ...पे०... “नेव हीति न न हीति तथागतो परं मरणा” ति वा ते दिट्ठि-
वसेन घट्टेन्ति संघट्टेन्ति, सत्थारतो सत्थारं घट्टेन्ति, धम्मक्खानतो
धम्मक्खानं घट्टेन्ति, गणतो गणं घट्टेन्ति, दिट्ठिया दिट्ठिं घट्टेन्ति,
पटिपदाय पटिपदं घट्टेन्ति, मग्गतो मग्गं घट्टेन्ति ।

अथ वा, ते विवदन्ति, कलहं करोन्ति, भण्डनं करोन्ति, विग्नाहं करोन्ति, विवादं करोन्ति, मेघगं करोन्ति—“न त्वं इमं धम्मविनयं आजानासि ...पे०...निब्बेठेहि वा सचे पहेसी” ति । तेसं अभिसङ्खारान् अप्पहीना; अभिसङ्खारान् अप्पहीनत्ता गतिया घट्टेन्ति, निरये घट्टेन्ति, तिरच्छानयोनिया घट्टेन्ति, पेत्तिविसये 5 घट्टेन्ति, मनुस्सलोके घट्टेन्ति, देवलोके घट्टेन्ति, गतिया गति... उपपत्तिया उपपत्तिं ... पटिसन्धिया पटिसन्धिं ... भवेन भवं ... संसारेण संसारं ... वट्टेन वट्टं घट्टेन्ति संघट्टेन्ति' वदन्ति' विचरन्ति विहरन्ति इरियन्ति वत्तेन्ति पालेन्ति यपेन्ति यापेन्ति । लोके ति । अपायलोके ...पे०... आयतनलोके ति—सञ्चं च दिट्ठिं च ये अग्गहेसुं 10 ते घट्टमाना विचरन्ति लोके । तेनाह भगवा—

“सञ्जाविरत्तस्स न सन्ति गन्था,
पञ्जाविमुत्तस्स न सन्ति मोहा ।
सञ्चं च दिट्ठिं च ये अग्गहेसुं,
ते घट्टमाना विचरन्ति लोके” ति ॥

B 161

15

मागण्डियसुत्तनिर्देशो नवमो ।

१०. पुराभेदसुत्तनिर्देशो

अथ पुराभेदसुत्तनिर्देशं वक्खति —

८३. कथं दस्सी कथं सीलो, उपसन्तो ति वुच्चति ।

तं मे गोतम पब्रूहि, पुच्छितो उत्तमं नरं ॥

R. 210

कथं दस्सी कथं सीलो उपसन्तो ति वुच्चती ति । कथं दस्सी ति । कीदिसेन दस्सनेन समन्नागतो, किं सण्ठितेन, किपकारेण, 20 किपटिभागेना ति—कथं दस्सी । कथं सीलो ति । कीदिसेन सीलेन समन्नागतो, किं सण्ठितेन, किपकारेण, किपटिभागेना ति—कथं दस्सी कथं सीलो । उपसन्तो ति वुच्चती ति । सन्तो उपसन्तो वूपसन्तो निब्बुतो पटिपस्सद्धो ति वुच्चति पवुच्चति कथीयति भणीयति दीपीयति^१ वोहरीयति । कथं दस्सी ति अधिपञ्च पुच्छति, कथं सीलो 26

१-१. घट्टेन्ता चरन्ति—रो० । २. दीपियति—स्वा०, दीपयति—रो० ।

ति अधिसीलं पुच्छति, उपसन्तो ति अधिचित्तं पुच्छती ति - कथं-
दस्सी कथंसीलो उपसन्तो ति वुच्चति ।

तं मे गोतम पब्रूही ति । तं ति । यं पुच्छामि, यं याचामि,
यं अज्झेसामि, यं पसावेमि । गोतमा ति । सो निम्मिमतो बुद्धं भग-
वन्तं गोत्तेन आलपति । पब्रूही ति । ब्रूहि आचिक्ख देसेहि पञ्जपेहि'
पट्टपेहि विवर विभज उत्तानीकरोहि पकासेही ति - तं मे गोतम
पब्रूहि ।

पुच्छितो उत्तमं नरं ति । पुच्छितो ति । पुट्ठो पुच्छितो
याचितो अज्झेसितो पसादितो । उत्तमं नरं ति । अगं सेट्ठ विसिट्ठ
पामोक्खं उत्तमं पवरं नरं ति - पुच्छितो उत्तमं नरं । तेनाह सो
निम्मिमतो -

“कथंदस्सी कथंसीलो, उपसन्तो ति वुच्चति ।

तं मे गोतम पब्रूहि, पुच्छितो उत्तमं नरं” ति ॥

B. 102

८४. वीततण्हो पुराभेदा, (इति भगवा)

16

पुब्बमन्तमनिस्सितो ।

वेमज्झे नुपसङ्खेय्यो, तस्स नत्थि पुरक्खतो ॥

वीततण्हो पुराभेदा ति । पुरा' कायस्स भेदा, पुरा अत्त-
भावस्स भेदा, पुरा कळेवरस्स निक्खेपा, पुरा जीवित्तिन्द्रियस्स उप-
च्छेदा वीततण्हो विगततण्हो चत्ततण्हो वन्ततण्हो मुत्ततण्हो पहीन-
तण्हो पट्टिनिस्सट्टतण्हो, वीतरागो विगतरागो चत्तरागो वन्तरागो
मुत्तरागो पहीनरागो पट्टिनिस्सट्टरागो, निच्छातो निब्बुतो सीतिभूतो
सुखप्पटिसंवेदी' ब्रह्माभूतेन अत्तना विहरति ।

भगवा ति । गारवाधिवचनं । अपि च, भग्गरागो ति भगवा,
भग्गदोसो ति भगवा, भग्गामोहो' ति भगवा, भग्गमानो' ति भगवा',
भग्गदिट्ठी ति भगवा, भग्गतण्हो ति भगवा, भग्गकिल्लेसो ति
भगवा, भजि विभजि' पविभजि धम्मरतनं ति भगवा, भवानं अन्त-

१ पञ्जापेहि - स्या०, रो० । २ पुरेक्खत - सी०, स्या०, रो० । ३ भगवा ति
पुरा - स्या०, रो० । ४ सुखपट्टिसंवेदी - सी०, स्या०, रो० । ५-६ रो० पोत्थके तत्थि । ६-
भग्गकण्ठको - सी०, स्या०, रो० । ७. पट्टिविभजि - सी०, स्या०, रो० ।

करो' ति भगवा, भावितकायो भावितसीलो भावितचित्तो भावित-
 पञ्चो ति भगवा, भजि वा भगवा अरञ्जवनपत्थानि पन्तानि
 सेनासनानि अप्पसद्धानि अप्पनिग्घोसानि विजनवातानि मनुस्सराह-
 स्सेव्यकानि' पटिसल्लानसारुप्पानी' ति भगवा, भागी वा भगवा
 चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारानं ति भगवा, 5
 भागी वा भगवा अत्थरसस्स धम्मरसस्स विमुत्तिरसस्स अधिसीलस्स
 अधिचित्तस्स अधिपञ्चाया ति भगवा, भागी वा भगवा चतुन्नं
 ज्ञानानं चतुन्नं अप्पमञ्चानं चतुन्नं अरूपसमापत्तीनं ति भगवा,
 भागी वा भगवा अट्टन्नं विमोक्खानं अट्टन्नं अभिभायतनानं नवन्नं
 अनुपुब्बविहारसमापत्तीनं ति भगवा, भागी वा भगवा दसन्नं 10
 पञ्चाभावानं' दसन्नं कसिणसमापत्तीनं आनापानस्सतिसमाधिस्स'
 असुभसमापत्तिया ति भगवा, भागी वा भगवा चतुन्नं सतिपट्टानानं
 चतुन्नं सम्मप्पधानानं चतुन्नं इद्धिपादानं' पञ्चन्नं इन्द्रियानं पञ्चन्नं
 बलानं सत्तन्नं बोञ्ज्झानं अरियस्स अट्टङ्गिकस्स मग्गस्सा ति
 भगवा, भागी वा भगवा दसन्नं तथागतबलानं चतुन्नं वेसारज्जानं 15
 चतुन्नं पटिसम्भदानं छन्नं अभिञ्चानं छन्नं बुद्धधम्मानं ति भगवा ।
 भगवा ति नेतं नामं मातरा कतं, न पितरा कतं, न भातरा कतं,
 न भगिनिया कतं, न मित्तामच्चेहि कतं, न आतिसालोहितेहि कतं,
 न समण्णाहाणणेहि कतं, न देवताहि कतं; विमोक्खन्तिकमेतं बुद्धानं
 भगवन्तानं बोधिया मूले सह सब्बञ्जुतत्राणस्स पटिलाभा सच्छिका 20
 पञ्चति यदिदं भगवा ति - वीततण्हो पुराभेदा ति भगवा ।

पुब्बभन्तमनिस्सितो ति । पुब्बन्तो बुच्चति अतीतो अद्वा ।
 अतीतं अद्धानं आरञ्भ तण्हा पहीना", दिट्ठि पटिनिस्सट्ठा तण्हाय
 पहीनत्ता, दिट्ठिया पटिनिस्सट्ठत्ता । एवं पि पुब्बमन्तमनिस्सितो ।
 अथ वा, "एवंरूपो अहोसि अतीतमद्धानं" ति तत्थ नन्दि न समन्ना- 25
 नेति, "एवंवेदनो अहोसि ... एवंसञ्जो अहोसि ... एवंसङ्कारो अहोसि ...
 एवंविञ्जाणो अहोसि अतीतमद्धानं" ति तत्थ नन्दि न समन्नानेति ।

१ अन्तकारो - रो० । २ मनुस्सराहसेव्यकानि - सी०, स्या०, रो० । ३. ० साह-
 पानि - स्या०, रो० । ४ सञ्जाभावानं - सी०, स्या०, रो० । ५ आनापानसति० - सी०,
 रो० । ६ इद्धिपादानं - स्या०, रो० । ७ पहीना होति - सी०, स्या०, रो० । ८. समन्वा-
 यमेति - स्या०, रो० ।

एवं पि पुब्बमन्तमनिस्सितो। अथ वा, “इति मे चक्खु अहोसि
 अतीतमद्धानं—इति रूपा” ति तत्थ न छन्दरागपटिबद्धं होति
 विञ्जाणं, न छन्दरागपटिबद्धत्ता विञ्जाणस्स न तदभिनन्दति;
 न तदभिनन्दन्तो। एवं पि पुब्बमन्तमनिस्सितो। “इति मे सोत्तं
 5 अहोसि अतीतमद्धानं—इति सद्दा” ति, “इति मे घानं” अहोसि
 अतीतमद्धानं—इति गन्धा” ति, “इति मे जिक्खा अहोसि अतीत-
 मद्धानं—इति रसा” ति, “इति मे कायो अहोसि अतीतमद्धानं—
 इति फोट्टव्वा” ति, “इति मे मनो अहोसि अतीतमद्धानं—इति
 10 धम्मा” ति तत्थ न छन्दरागपटिबद्धं होति विञ्जाणं, न छन्दराग-
 पटिबद्धत्ता विञ्जाणस्स न तदभिनन्दति; न तदभिनन्दन्तो। एवं
 पि पुब्बमन्तमनिस्सितो। अथ वा, यानि^१ तानि पुब्बे^२ मातुगामेन
 सद्धिं हसितलपितकीळितानि^३ न तदस्सादेति, न तं निकामेति, न
 च तेन विस्ति^४ आपज्जति। एवं पि पुब्बमन्तमनिस्सितो।

वेमज्जे नुपसङ्खेय्यो ति। वेमज्जे^५ वुच्चति पच्चुप्पन्नो अद्धा।
 15 पच्चुप्पन्नं अद्धानं आरब्भ तण्हा पहीना, दिट्ठि पटिनिस्सट्ठा। तण्हाय
 पहीनत्ता, दिट्ठिया पटिनिस्सट्ठत्ता रत्तो ति नुपसङ्खेय्यो^६, उट्ठो ति
 नुपसङ्खेय्यो, मूळ्हो ति नुपसङ्खेय्यो, विनिबद्धो ति नुपसङ्खेय्यो,
 परामट्ठो ति नुपसङ्खेय्यो, विक्खेपगतो ति नुपसङ्खेय्यो, अनिट्ठुज्जतो
 ति नुपसङ्खेय्यो, थामगतो ति नुपसङ्खेय्यो; ते अभिसङ्खारा पहीना,
 20 अभिसङ्खारानं पहीनत्ता गतिया नुपसङ्खेय्यो, नेरयिको ति वा तिर-
 च्छानयोनिको ति वा पेत्तिविसयिको ति वा मनुस्सो ति वा वेवो ति
 वा रूपी ति वा अरूपी ति वा सञ्जी ति वा असञ्जी ति वा
 नेवसञ्जीनासञ्जी ति वा। सो हेतु नत्थि पच्चयो नत्थि कारण
 नत्थि येन सङ्गं गच्छेय्या ति—वेमज्जे नुपसङ्खेय्यो।

B. 104

R. 214

तस्स नत्थि पुरक्खलं ति। तस्सा ति। अरहत्तो खीणासवस्स।
 25 पुरेक्खारा^७ ति। द्वे पुरेक्खारा—तण्हापुरेक्खारो च दिट्ठिपुरेक्खारो
 च...पे०.. अयं तण्हापुरेक्खारो.. पे०... अयं दिट्ठिपुरेक्खारो। तस्स

१ घाण—सी०। २. यानस्सु—सी०, स्वा०, रो०। ३ तानि पुब्बे—सी०। ४
 हसितलपितकथितकीळितानि—स्वा०, रो०। ५ पविस्ति—स्वा०, रो०। ६ वेमज्जे—स्वा०,
 रो०। ७ नुपसङ्खेय्यो—सी०; एवमुपरि पि। ८. पुरेक्खारो—सी०, स्वा०, रो०।

तण्हापुरेक्खारो पहीनो, दिट्ठिपुरेक्खारो पटिनिस्सट्ठो। तण्हापुरे-
 क्खारस्स पहीनत्ता, दिट्ठिपुरेक्खारस्स पटिनिस्सट्ठत्ता न तण्हं वा
 दिट्ठिं वा पुरतो कत्वा चरति, न तण्हाधजो न तण्हाकोत्तु न तण्हा-
 धिपतेय्यो, न दिट्ठिधजो^१ न दिट्ठिकेत्तु न दिट्ठाधिपतेय्यो, न तण्हाय
 वा दिट्ठिया वा परिवारितो चरति। एवं पि तस्स नत्थि पुरक्खतं।^६
 अथ वा, “एवंरूपो सियं अनागतमद्धानं” ति तत्थ नन्दि न समन्ना-
 नेति, “एवंवेदो सियं ... एवंसञ्जो सियं ... एवंसङ्खारो सियं...एवं-
 विञ्जाणो सियं अनागतमद्धानं” ति तत्थ नन्दि न समन्नानेति।
 एवं पि तस्स नत्थि पुरक्खतं। अथ वा, “इति मे चक्खु सिया
 अनागतमद्धानं—इति रूपा” ति अप्पटिलद्धस्स पटिलाभाय चित्तं न^{१०}
 पणिदहति, चेतसो अप्पणिधानप्पच्चया न तदभिनन्दति; न तदभि-
 नन्दन्तो। एवं पि तस्स नत्थि पुरक्खतं। “इति मे सोतं सिया अना-
 गतमद्धानं—इति सद्दा” ति, “इति मे घानं सिया अनागतमद्धानं—
 इति गन्धा” ति, “इति मे जिब्हा सिया अनागतमद्धानं—इति रसा”
 ति, “इति मे कायो सिया अनागतमद्धानं—इति फोट्टब्बा” ति,^{१५}
 “इति मे मनो सिया अनागतमद्धानं—इति घम्मा” ति अप्पटिलद्धस्स
 पटिलाभाय चित्तं न पणिदहति, चेतसो अप्पणिधानप्पच्चया न
 तदभिनन्दति; न तदभिनन्दन्तो। एवं पि तस्स नत्थि पुरक्खतं।
 अथ वा, “इमिनाहं सीलेन वा वत्तेन^२ वा तपेन वा ब्रह्मचरियेन वा
 देवो वा भविस्सामि देवञ्जतरो” ति वा अप्पटिलद्धस्स पटिलाभाय^{२०}
 चित्तं न पणिदहति, चेतसो अप्पणिधानप्पच्चया न तदभिनन्दति; न
 तदभिनन्दन्तो। एवं पि तस्स नत्थि पुरक्खतं। तेनाह भगवा—

“वीततण्हो पुराभेदा, (इति भगवा)

पुब्बमन्तमनिस्सितो।

वेमञ्जे नुपसङ्खेय्यो, तस्स नत्थि पुरक्खतं” ति ॥^{२५}

८५. अक्कोधनो असन्तासी, अविकत्थो अक्कुक्कुचो^३।

मन्तभाणी^४ अनुद्धतो, स वे वाचायतो मुनि ॥

१ दिट्ठिधजो—स्या०। २ वत्तेन—स्या०, रो०। ३ अक्कुक्कुचो—सी०, एवमुपरि
 पि। ४ मन्ताभाणी—स्या०, रो०।

अक्कोधनो असन्तासी ति । अक्कोधनो ति । यं हि खो
 वृत्तं । अपि च, कोधो ताव वत्तब्बो । दसहाकारेहि कोधो जायति -
 “अनत्थं मे अचरी” ति कोधो जायति, “अनत्थं मे चरती” ति
 कोधो जायति, “अनत्थं मे चरिस्सती” ति कोधो जायति, “पियस्स मे
 मनापस्स अनत्थं अचरि ... अनत्थं चरति ... अनत्थं चरिस्सती” ति
 कोधो जायति, “अप्पियस्स मे अमनापस्स अत्थं अचरि .. अत्थ
 चरति ... अत्थं चरिस्सती” ति कोधो जायति, अद्धाने वा पन कोधो
 जायति । यो एवरूपो चित्तस्स आघातो पटिघातो, पटिघं पटि-
 विरोधो, कोपो पकोपो सम्पकोपो, दोसो पदोसो सम्पदोसो, चित्तस्स
 व्यापत्ति मनोपदोसो, कोधो कुञ्जना कुञ्जितत्तं, दोसो दुस्सना
 दुस्सितत्तं, व्यापत्ति व्यापज्जना व्यापज्जितत्तं, विरोधो पटिविरोधो
 चण्डिक्कं, असुरोपो अनत्तमनता चित्तस्स - अयं वुञ्चति कोधो ।

216

अपि च, कोधस्स अधिमत्तपरित्तता वेदितब्बा । अत्थि
 कञ्चि कालं कोधो चित्ताविलकरणमत्तो होति, न च ताव मुख-
 कुलानविकुलानो होति; अत्थि कञ्चि कालं कोधो मुखकुलान-
 विकुलानमत्तो होति, न च ताव हनुसञ्चोपनो होति; अत्थि
 कञ्चि कालं कोधो हनुसञ्चोपनमत्तो होति, न च ताव फस्स-
 वाचं निच्छारणो होति; अत्थि कञ्चि कालं कोधो फस्सवाचं
 निच्छारणमत्तो होति, न च ताव दिसाविदिसानुविलोकनो होति,
 अत्थि कञ्चि कालं कोधो दिसाविदिसानुविलोकनमत्तो होति, न
 च ताव दण्डसत्थपरामसनो होति; अत्थि कञ्चि कालं कोधो
 दण्डसत्थपरामसनमत्तो होति, न च ताव दण्डसत्थअभुविकरणो
 होति; अत्थि कञ्चि कालं कोधो दण्डसत्थअभुविकरणमत्तो होति,
 न च ताव दण्डसत्थअभिनिपातनो होति; अत्थि कञ्चि कालं कोधो
 दण्डसत्थअभिनिपातमत्तो होति, न च ताव छिन्नविच्छिन्नकरणो
 होति; अत्थि कञ्चि कालं कोधो छिन्नविच्छिन्नकरणमत्तो होति,
 न च ताव सम्भञ्जनपलिभञ्जनो होति; अत्थि कञ्चि कालं

१. सी०, स्या०, रो० पोत्थकेषु नत्थि । २. चरी - रो०; एवमुपरि पि । ३. स्या०
 पोत्थके नत्थि । ४. पतिनिरोधो - रो० । ५. असुरोपो - सी०, स्या०, रो० । ६. फस्स-
 वाचा - सी० । ७. छिन्नविच्छिन्नकरणो - सी०, छिन्दविच्छिन्दिकरणो - स्या०, रो० । ८.
 पलिभञ्जनो - सी०; ० परिभञ्जनो - स्या०, रो० ।

कोधो सम्भञ्जनपलिभञ्जनमत्तो होति, न च ताव अङ्गमङ्गअप-
कङ्कनो होति; अत्थि कञ्चि कालं कोधो अङ्गमङ्गअपकङ्कनमत्तो
होति, न च ताव जीवितावोरोपनो^१ होति; अत्थि कञ्चि कालं
कोधो जीवितावोरोपनमत्तो होति, न च ताव सब्बचागपरिच्चागाय^२
सण्ठितो होति। यतो कोधो परपुग्गलं घाटेत्वा अत्तानं घाटेति^३,
एत्तावता कोधो परमुस्सदगतो परमवेपुल्लप्पत्तो होति। यस्स^४ सो^५
कोधो पहीनो समुच्छिन्नो वूपसन्तो पटिपस्सद्धो अभब्बुप्पत्तिको
वाणमिग्गना दङ्को, सो वुच्चति अक्कोधनो। कोधस्स पहीनत्ता
अक्कोधनो, कोधवत्थुस्स परिञ्जातत्ता अक्कोधनो, कोधहेतुस्स
उपच्छिन्नत्ता^६ अक्कोधनो ति - अक्कोधनो।

B. 166

R 217

10

असन्तासी ति। इधेकच्चो तासी होति उत्तासी परित्तासी,
सो तसति न उत्तसति परित्तसति^१ भायति सन्तासं आपज्जति। कुलं
वा न लभामि, गणं वा न लभामि, आवासं वा न लभामि,
लामं वा न लभामि, यसं वा न लभामि, पसंसं वा न लभामि,
सुखं वा न लभामि, चीवरं वा न लभामि, पिण्डपातं वा न
लभामि, सेनासनं वा न लभामि, गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारं वा
न लभामि, गिलानुपट्टाकं वा न लभामि, अप्पञ्जातोम्ही ति
तसति^२ उत्तसति परित्तसति भायति सन्तासं आपज्जति^३।

15

इध भिक्खु असन्तासी होति अनुत्तासी अपरित्तासी; सो न
तसति न उत्तसति न परित्तसति न भायति न सन्तासं आपज्जति।
कुलं वा न लभामि, गणं वा न लभामि, आवासं वा न लभामि,
लामं वा न लभामि, यसं वा न लभामि, पसंसं वा न लभामि,
सुखं वा न लभामि, चीवरं वा न लभामि, पिण्डपातं वा न
लभामि, सेनासनं वा न लभामि, गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारं वा
न लभामि, गिलानुपट्टाकं वा न लभामि, अप्पञ्जातोम्ही ति न
तसति न उत्तसति न परित्तसति न भायति न सन्तासं आपज्जती
ति - अक्कोधनो असन्तासी।

20

25

१. ० वीरोपणो - सी०; जीवितपनासनो - स्या०, रो०, एवमुपरि पि। २. ० परि-
च्चाग - स्या०, रो०। ३. घाटेत्वा - सी०, स्या०, एवमुपरि पि। ४-४. यस्सेसो - स्या०,
रो०। ५. उच्छिन्नत्ता - स्या०, रो०। ६. परित्तसति - रो०। ७-७. रो० पोत्थेके नत्थि।

B. 167

R. 218

- अविकत्थी अकुक्कुचो ति । इधेकच्चो कत्थी होति विकत्थी,
 सो कत्थति विकत्थति - अहमस्मि सीलसम्पन्नो ति वा वतसम्पन्नो'
 ति वा' सीलब्बतसम्पन्नो ति वा जातिया वा गोत्तेन वा कोल-
 पुत्तियेन' वा वण्णपोक्खरताय वा धनेन वा अज्जेनेन वा कम्माय-
 5 तनेन वा सिप्पायतनेन वा विज्जाट्टानेन वा सुतेन वा पटिभानेन
 वा अञ्जतरञ्जतरेन वा वत्थुना । उच्चा कुला पब्बजितो ति वा
 महाकुला पब्बजितो ति वा, महाभोगकुला पब्बजितो ति वा
 उल्लारभोगकुला पब्बजितो ति वा, आतो यसस्सी गहट्टपब्बजितान'
 ति वा, लाभिम्हि चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपिरक्खा-
 10 रानं ति वा, सुत्तन्तिको ति वा विनयधरो ति वा धम्मकथिको ति
 वा, आरञ्जिको ति वा पिण्डपातिको ति वा पंसुकूलिको ति वा
 तेचीवरिको ति वा, सपदानचारिको ति वा खलुपच्छाभत्तिको ति
 वा नेसज्जिको ति वा यथासन्थतिको ति वा, पठमस्स ज्ञानस्स लाभी
 ति वा दुतियस्स ज्ञानस्स लाभी ति वा ततियस्स ज्ञानस्स लाभी ति
 15 वा चतुत्थस्स ज्ञानस्स लाभी ति वा, आकासानञ्चायतनसमापत्तिया
 .. विञ्जाणञ्चायतनसमापत्तिया ... आकिञ्चञ्जायतनसमापत्तिया ...
 नेवसञ्जानासञ्जायतनसमापत्तिया लाभी ति वा कत्थति विकत्थति ।
 एवं न कत्थति न विकत्थति, कत्थना विकत्थना' आरतो विरतो
 पटिविरतो निक्खन्तो निस्सटो' विप्पमुत्तो विसञ्जुत्तो विमरियादि-
 20 कतेन चेतसा विहरती ति - अविकत्थी ।

- अकुक्कुचो ति । कुक्कुच्चं ति । हत्थकुक्कुच्चं पि कुक्कुच्च,
 पादकुक्कुच्चं पि कुक्कुच्चं, हत्थपादकुक्कुच्चं पि कुक्कुच्च, अकप्पिये
 कप्पियसञ्जिता कप्पिये अकप्पियसञ्जिता, विकाले' कालसञ्जिता
 काले * विकालसञ्जिता',* अवज्जे वज्जसञ्जिता वज्जे अवज्ज-
 25 सञ्जिता; यं एवरूपं कुक्कुच्चं कुक्कुच्चायना कुक्कुच्चायितत्तं चेतसो
 विप्पटिसारो मनोविलेखो - इदं वुच्चति कुक्कुच्चं ।

अपि च, द्वीहि कारणेहि उप्पज्जति कुक्कुच्चं चेतसो विप्पटि-
 सारो मनोविलेखो - कतत्ता च अकतत्ता च । कथं कतत्ता च अक-

१-१ रो० पोत्यके नत्थि । २. कोलपुत्तिकेन - स्या०, रो० । ३ सगहट्ट० - सी० ।
 ४ स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि । ५. निस्सट्टो - स्या०, रो० । ६-६ स्या० पोत्यके नत्थि ।
 . रो० पोत्यके नत्थि ।

तत्ता च उप्पज्जति कुक्कुच्चं चेतसो विप्पटिसारो मनोविलेखो ?
 “कतं मे कायदुच्चरितं, अकतं मे कायसुचरितं” ति - उप्पज्जति
 कुक्कुच्चं चेतसो विप्पटिसारो मनोविलेखो; “कतं मे वचीदुच्चरितं,
 अकतं मे वचीसुचरितं ... कतं मे मनोदुच्चरितं, अकतं मे मनोसुचरितं”
 ति - उप्पज्जति कुक्कुच्चं चेतसो विप्पटिसारो मनोविलेखो; “कतो 5
 मे पाणातिपातो, अकता मे पाणातिपाता वेरमणी” ति - उप्पज्जति
 कुक्कुच्चं चेतसो विप्पटिसारो मनोविलेखो; “कतं मे अदिन्नादानं,
 अकता मे अदिन्नादाना वेरमणी” ति - उप्पज्जति कुक्कुच्चं चेतसो
 विप्पटिसारो मनोविलेखो; “कतो मे कामेसु मिच्छाचारो, अकता मे
 कामेसु मिच्छाचारा वेरमणी” ति - उप्पज्जति कुक्कुच्चं चेतसो 10
 विप्पटिसारो मनोविलेखो; “कतो मे मुसावादो, अकता मे मुसावादा
 वेरमणी” ति ... “कता मे पिसुणा वाचा, अकता मे पिसुणाय वाचाय
 वेरमणी” ति ... “कता मे फरुसा वाचा, अकता मे फरुसाय वाचाय
 वेरमणी” ति ... “कतो मे सम्फपलापो, अकता मे सम्फपलापा
 वेरमणी” ति .. “कता मे अभिज्झा, अकता मे अनभिज्झा” ति ... 15
 “कतो मे ब्यापादो, अकतो मे अव्यापादो” ति .. “कता मे मिच्छा-
 दिट्ठि, अकता मे सम्मादिट्ठी” ति - उप्पज्जति कुक्कुच्चं चेतसो
 विप्पटिसारो मनोविलेखो। एवं कतत्ता च अकतत्ता च उप्पज्जति
 कुक्कुच्चं चेतसो विप्पटिसारो मनोविलेखो।

अथ वा, “सीलेसुम्हि न परिपूरकारी” ति - उप्पज्जति 20
 कुक्कुच्चं चेतसो विप्पटिसारो मनोविलेखो, “इन्द्रियेसुम्हि अगुत्त-
 द्वारो” ति ... “भोजने अमत्तञ्जुम्ही” ति ... “जागरियं अननुयुत्तोम्ही”
 ति ... “न सतिसम्पज्जनेन समन्नागतोम्ही” ति ... “अभाविता मे
 चत्तारो सतिपट्टाना” ति ... “अभाविता मे चत्तारो सम्मपपधाना”
 ति ... “अभाविता मे चत्तारो इद्धिपादा” ति ... “अभावितानि मे पञ्च- 25
 न्द्रियानी” ति ... “अभावितानि मे पञ्च बलानी” ति ... “अभाविता
 मे सत्त बोज्झङ्गा” ति ... “अभावितो मे अरियो अट्टङ्गिको मग्गो”
 ति ... “दुक्खं मे अपरिञ्जातं” ति ... “समुदयो मे अप्पहीनो”
 ति ... “मग्गो मे अभावितो” ति ... “निरोधो मे असच्छिकतो”
 ति - उप्पज्जति कुक्कुच्चं चेतसो विप्पटिसारो मनोविलेखो। 30
 यस्सेतं कुक्कुच्चं पहीनं समुच्छिन्नं वूपसन्तं पटिपस्सदं अभव्वु-

पत्तिकं आणग्गिना दद्धं, सो वुच्चति अकुक्कुच्चो ति—अविकत्थी अकुक्कुच्चो ।

मन्तभाणी अनुद्धतो ति । मन्ता वुच्चति पञ्जा । या पञ्जा पजानना ...पे०... अमोहो धम्मविचथो सम्मादिट्ठि । मन्ताय परिग्गहेत्वा
 5 परिग्गहेत्वा वाचं भासति बह्वं पि कथेन्तो बह्वं पि भणन्तो बह्वं पि दीपयन्तो बह्वं पि बोहरन्तो । दुक्कथितं^१ दुब्भणितं दुल्लपितं दुरुत्तं दुब्भासितं वाचं न भासती ति—मन्तभाणी । अनुद्धतो ति । तत्थ कतमं उद्धच्चं ? यं चित्तस्स उद्धच्चं अवूपसमो चेतसो विक्खेपो भन्तत्तं चित्तस्स—इदं वुच्चति उद्धच्चं । यस्सेतं उद्धच्चं पहीनं
 B. 169 10 समुच्छिन्नं वूपसन्त पटिपस्सद्धं अभब्बुप्पत्तिकं आणग्गिना दद्धं, सो वुच्चति अनुद्धतो ति—मन्तभाणी अनुद्धतो ।

स वे वाचायतो मुनी ति । इध भिक्खु मुसावाद पहाय मुसावादा पटिविरतो होति सच्चवादी सच्चसन्धो थेतो पच्चयिको अविंसवादको लोकस्स । पिसुणं वाचं पहाय पिसुणाय वाचाय पटि-
 15 विरतो होति—इतो सुत्वा न अमुत्र अक्खाता इमेसं भेदाय, अमुत्र वा सुत्वा न इमेसं अक्खाता अमूसं भेदाय । इति भिन्नानं वा सन्धाता, सहितानं वा अनुप्पदाता, समगारामो समग्गतो समग्गनन्दी समग्ग-कराणं वाचं भासिता होति । फरुसं वाचं पहाय फरुसाय वाचाय पटिविरतो होति—या सा वाचा नेला कण्णसुखा पेमनीया हृदयङ्गमा
 20 पोरी बहुजनकन्ता बहुजनमनापा तथारूपि वाचं भासिता होति । सम्फप्पलापं पहाय सम्फप्पलापा पटिविरतो होति—कालवादी भूत-वादी अत्थवादी धम्मवादी विनयवादी निघानवति वाचं भासिता होति कालेन सापदेसं परियन्तवति अत्थसंहितं । चतूहि वचीसुचरितेहि समन्नागतो चतुदोसापगतं^२ वाचं भासति, वार्त्तिसाय^३ तिरच्छानकथाय
 25 आरतो अस्स^४ विरतो पटिविरतो निक्खन्तो निस्सटो^५ विप्पमुत्तो विसञ्जुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरति ।

दस कथावत्थूनि^६ कथेसि, सेय्यथिदं—अप्यिच्छकथ कथेति, सन्तुट्ठीकथं कथेति, पविनेककथं ... असंसग्गकथं ... वीरियारम्भकथं ...

१ दुक्कटं दुक्कथितं—रो० । २ चतुदोसापगत—सी०, चतुदोसागत—रो० । ३ वार्त्तिसाय—सी०, स्या०, रो० । ४ स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि । ५ पटिनिस्सटो—रो० । ६ वत्थूनि—स्या० रो० ।

सीलकथं...समाधिकथं...पञ्चाकथं...विमुक्तिकथं...विमुक्तिबाणदस्सन-
कथं...सतिपट्टानकथं...सम्मप्यधानकथं...इद्धिपादकथं...इन्द्रियकथं
...बलकथं...बोज्झङ्गकथं...मग्गकथं...फलकथं...निब्बानकथं कथेति ।
वाचायतो ति । यत्तो परियत्तो' गुत्तो गोपितो रमिद्धतो वूपसन्तो' ।
मुनी ति । मोनं वुच्चति बाणं । या पञ्चा पजानना...पे०...अमोहो 5
धम्मविचयो सम्मादिट्ठि...पे०...सङ्गजालमतिच्च सो मुनी ति - स वे
वांचायतो मुनि । तेनाह भगवा -

“अक्कोधनो असन्तासी, अविकल्थी अकुक्कुचो ।
मन्तभाणी अनुद्धतो, स वे वाचायतो मुनी” ति ॥

८६. निरासत्ति' अनागते, अतीतं नानुसोचति ।
विवेकदस्सी फस्सेसु, दिट्ठीसु च न नीयति ॥

10 B. 170

निरासत्ति अनागते ति । आसत्ति वुच्चति तण्हा । यो रागो
सारागो...पे०...अमिज्जा लोभो अकुसलमूलं । यस्सेसा आसत्ति तण्हा
पहीना समुच्छिन्ना वूपसन्ता पटिपस्सद्धा अभव्वुप्पत्तिका बाणग्गिना
दड्ढा ति । एवं पि निरासत्ति अनागते । अथ वा, “एवंरूपो सियं 15
अनागतमद्धानं” ति तत्थ नन्दि न समन्नानेति, “एवंवेदनो सियं... एवं-
सञ्जो सियं... एवंसङ्खारो सियं... एवंविज्जाणो सियं अनागतमद्धानं”
ति तत्थ नन्दि न समन्नानेति । एवं पि निरासत्ति अनागते । अथ
वा, “इति मे चक्खु सिया अनागतमद्धानं - इति रूपा” ति अप्पटि-
लद्धस्स पटिलाभाय चित्तं न पणिदहति, चेतसो अप्पणिधानप्पच्चया 20
न तदभिनन्दति; न तदभिनन्दन्तो । एवं पि निरासत्ति अनागते ।
“इति मे सोतं सिया अनागतमद्धानं - इति सद्दा” ति...पे०...“इति
मे मनो सिया अनागतमद्धानं - इति धम्मा” ति अप्पटिलद्धस्स पटि-
लाभाय चित्तं न पणिदहति, चेतसो अप्पणिधानप्पच्चया न तदभि-
नन्दति; न तदभिनन्दन्तो । एवं पि निरासत्ति अनागते । अथ वा, 26
“इमिनाहं सीलेन वा वतेन वा तपेन वा ब्रह्मचरियेन वा देवो वा
भविस्सामि देवञ्जतरो वा” ति अप्पटिलद्धस्स पटिलाभाय चित्तं न

R. 222

१ पटियत्तो - स्था०, रो० । २ संबुतो वूपसन्तो - स्था०, रो० । ३. निरासत्ती -
स्था०, रो० ।

पणिदहति, चेतसो अप्पणिधानप्पच्चया न तदभिनन्दति; न तदभिनन्दन्तो। एवं पि निरासत्ति अनागते।

अतीतं नानुसोचती ति। विपरिणतं वा वत्थुं न सोचति, विपरिणतस्मि वा वत्थुस्मि न सोचति, “चक्खु मे विपरिणतं” ति न सोचति, “सोतं मे ... घानं मे ... जिह्वा मे ... कायो मे ... रूपा मे ... सहा मे ... गन्धामे ... रसामे ... फोट्टव्वामे ... कुलं मे ... गणो मे ... आवासो मे ... लाभो मे ... यसो मे ... पसंसा मे ... सुखं मे ... चीवरं मे ... पिण्डपातो मे .. सेनासनं मे ... गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारो मे ... माता मे ... पिता मे .. भाता मे ... भगिनी मे ... पुत्तो मे .. धीता मे ... मित्ता मे ... अमच्चा मे .. आतका मे ... सालोहिता मे विपरिणता” ति न सोचति न किलमति न परिदेवति न उरत्ताळि कन्दति न सम्मोहं आपज्जती ति - अतीत नानुसोचति।

B. 171

विवेकदस्सी फस्सेसू ति। चक्खुसम्फस्सो सोतसम्फस्सो घानसम्फस्सो जिह्वासम्फस्सो कायसम्फस्सो मनोसम्फस्सो, अधिवचनसम्फस्सो पटिघसम्फस्सो, सुखवेदनीयो फस्सो^१ दुक्खवेदनीयो फस्सो अदुक्खमसुखवेदनीयो फस्सो, कुसलो फस्सो अकुसलो फस्सो अब्याकतो फस्सो, कामावचरो फस्सो रूपावचरो फस्सो अरूपावचरो फस्सो, सुञ्जतो फस्सो अनिमित्तो फस्सो अप्पणिहितो फस्सो, लोकियो फस्सो लोकुत्तरो फस्सो, अतीतो फस्सो अनागतो फस्सो पच्चुप्पन्नो फस्सो, यो एवरूपो फस्सो फुसना सम्फुसना सम्फुसितत्तं - अयं वुच्चति फस्सो।

R. 223

विवेकदस्सी फस्सेसू ति। चक्खुसम्फस्सं विवित्तं पस्सति अत्तेन वा अत्तनियेन वा निच्चेन वा धुवेन वा सस्सतेन वा अविपरिणामधम्मनेन वा, सोतसम्फस्सं विवित्तं पस्सति ... घानसम्फस्सं विवित्तं पस्सति ... जिह्वासम्फस्सं विवित्तं पस्सति ... कायसम्फस्सं विवित्तं पस्सति .. मनोसम्फस्सं विवित्तं पस्सति ... अधिवचनसम्फस्सं विवित्तं पस्सति ... पटिघसम्फस्सं विवित्तं पस्सति ... सुखवेदनीयं फस्सं ... दुक्खवेदनीयं फस्सं ... अदुक्खमसुखवेदनीयं फस्सं ... कुसलं फस्सं. अकुसलं

१. वत्थु - रो०। २. गणं - स्या०, रो०। ३. सम्फस्सो - स्या०, रो०, एवमुपरि पि।

फस्सं ... अब्याकतं फस्सं ... कामावचरं फस्सं ... रूपावचरं फस्सं ... अरूपा-
वचरं फस्सं ... लोकियं फस्सं* विवित्तं पस्सति अत्तेन वा अत्तनियेन वा
निच्चेन वा धुवेन वा सस्सतेन वा अविपरिणामधम्मेन वा ।

अथ वा, अतीतं फस्सं अनागतेहि च^१ पच्चुप्पत्तेहि च फस्सेहि
विवित्तं पस्सति, अनागतं फस्सं अतीतेहि च पच्चुप्पत्तेहि च फस्सेहि 5
विवित्तं पस्सति, पच्चुप्पन्नं फस्सं अतीतेहि च अनागतेहि च फस्सेहि
विवित्तं पस्सति । अथ वा, ये ते फस्सा अरिया अनासवा लोकुत्तरा
सुञ्जतपटिसञ्जुत्ता, ते फस्से विवित्ते पस्सति रागेन दोसेन मोहेन
कोधेन उपनाहेन मक्खेन पळासेन इस्साय मच्छरियेन मायाय साठे-
य्येन धम्मेन सारम्भेन मानेन अतिमानेन मदेन पमादेन सब्ब- 10
किल्लेसेहि सब्बदुच्चरितेहि सब्बदरथेहि सब्बपरिळाहेहि सब्बसन्तापेहि
सब्बाकुसलाभिसङ्खारेहि विवित्ते पस्सती ति - विवेकदस्सी फस्सेसु ।

दिट्ठीसु च न नीयती ति । तस्स द्वासट्ठि^२ दिट्ठिगतानि पही-
नानि समुच्छिन्नानि वूपसन्तानि पटिपस्सद्धानि अभव्वुप्पत्तिकानि
आणग्गिना दङ्गानि । सो दिट्ठिया न यायति न नीयति न बुद्ध्यति 15 B. 172
न संहरीयति; न पि तं दिट्ठिगतं सारतो पच्चेति न^३ पच्चागच्छती ति
- दिट्ठीसु च न नीयति । तेनाह भगवा -

“निरासत्ति अनागते, अतीतं नानुसोचति ।

B. 224

विवेकदस्सी फस्सेसु, ^४दिट्ठीसु च न नीयती” ति ॥

८७. पतिलीनो^५ अकुहको, अपिहालु अमच्छरी ।

20

अप्पगम्भो अजेगुच्छो, पेसुण्ये च नो धृतो ॥

पतिलीनो अकुहको ति । पतिलीनो ति । रागस्स पहीनत्ता
पतिलीनो, दोसस्स^६ पहीनत्ता पतिलीनो, मोहस्स पहीनत्ता पतिलीनो,
कोधस्स ... उपनाहस्स ... मक्खस्स ... पळासस्स^७ ... इस्साय ... मच्छरियस्स
... पे^८ ... सब्बाकुसलाभिसङ्खारानं पहीनत्ता पतिलीनो । वुत्तं हेतं भगवता 25
- “कथं च, भिक्खवे, भिक्खु पतिलीनो होति? इमस्स,^९ भिक्खवे,

*. एव रो० पोत्यके ‘लोकुत्तरं फस्स’ ति अधिको पाठो दिस्सति । १ च फस्सेहि -
स्या०, रो० । २ द्वासट्ठी - स्या०, रो० । ३ रो० पोत्यके नखि । ४ पटिलीनो - स्या०,
एवमुपरि पि । ५ पळासस्स - सी० । ६ इव - स्या०, रो० ।

भिक्षुनोऽस्मिमानो पहीनो होति उच्छिन्नमूलो तालावत्युक्तो अन-
भावंकतो आर्याति अनुप्पादघम्मो। एवं खो, भिक्षवे, भिक्षु पति-
लीनो होती” ति - पतिलीनो।

- अकुहको ति। तीणि कुहनवत्थूनि - पच्चयपटिसेवनसङ्घातं
- 6 कुहनवत्थु,^१ इरियापथसङ्घातं कुहनवत्थु, सामन्तजप्पनसङ्घातं कुहन-
वत्थु। कतमं पच्चयपटिसेवनसङ्घातं कुहनवत्थु? इध गृहपतिका
भिक्षुं निमन्तेन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरि-
क्खारोहि। सो पापिच्छो इच्छापकतो अत्थिको चीवरपिण्डपातसेना-
सनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारानं भिय्योकम्यतं उपादाय चीवरं
- 10 पच्चक्खाति, पिण्डपातं पच्चक्खाति, सेनासनं पच्चक्खाति, गिलान-
पच्चयभेसज्जपरिक्खारं पच्चक्खाति। सो एवमाह - “किं समणस्स
महग्घेन चीवरेण! एतं सारुप्यं यं समणो सुसाना वा सङ्कारकूटं
वा पापणिका वा नन्तकानि उच्चिनित्वा सङ्घाटिं कत्वा धारय्य।
B. 225 किं समणस्स महग्घेन पिण्डपातेन! एतं सारुप्यं यं समणो उच्छा-
नं चरियाय पिण्डियालोपेन जीविकं कप्येय्य। किं समणस्स महग्घेन
15 सेनासनेन! एतं सारुप्यं यं समणो व्खलमूलिको वा अस्स सोसानिको
वा अब्भोकासिको वा। किं समणस्स महग्घेन गिलानपच्चयभेसज्ज-
परिक्खारेण! एतं सारुप्यं यं समणो पूतिमुत्तेन वा हरितकीखण्डेन
वा ओसव्वं करेय्या” ति। तद्दुपादाय लूखं चीवरं धारोति, लूखं पिण्ड-
पातं परिमुञ्जति,^२ लूखं सेनासनं पटिसेवति, लूखं गिलानपच्चयभेस-
ज्जपरिक्खारं पटिसेवति। तमेनं गृहपतिका एवं जानन्ति - “अयं
B. 173 समणो अप्पिच्छो सन्तुट्ठो पविवित्तो असंसट्ठो आरद्धवीरियो घृत-
वादो” ति भिय्यो भिय्यो निमन्तेन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलान-
पच्चयभेसज्जपरिक्खारोहि। सो एवमाह - “तिण्णं सम्मुखीभावा सद्धो
20 कुलपुत्तो बहं पुञ्जं पसवति। सद्धाय सम्मुखीभावा सद्धो कुलपुत्तो बहं
पुञ्जं पसवति, देय्यघम्मस्स सम्मुखीभावा सद्धो कुलपुत्तो बहं पुञ्जं
पसवति, दक्खिण्येय्यानं सम्मुखीभावा सद्धो कुलपुत्तो बहं पुञ्जं पसवति।
तुम्हाकञ्चेवायं सद्धा अत्थि, देय्यघम्मो च^३ संविज्जति, अहं च

१. कुहनवत्थु - सी०; एवमुपरि पि। २. जीविकं - म०। ३. हरीवकी - सी०,
त्वा०; हरिक्की - रो०। ४. ओसव्वं - स्वा०; एवमुपरि पि। ५. मुञ्जति - स्वा०, रो०।
६. चायं - स्वा०, रो०।

पटिग्गाहको। सचेहं^१ न पटिग्गाहेस्सामि, एवं तुम्हे पुञ्जेन परिबाहिरा^२ भविस्सन्ति^३। न मय्हं इमिना अत्थो। अपि च, तुम्हाकंयेव अनुकम्पाय पटिग्गाहामी^४” ति। तदुपादाय बहुं पि चीवरं पटिग्गाहति, बहुं पि पिण्डपातं पटिग्गाहति,^५ बहुं पि गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारं पटि-ग्गाहति। या एवरूपा भाकुटिका भाकुटियं कुहना कुहायना कुहि-^६ त्तं—इदं पच्चयपटिसेवनसङ्घातं^७ कुहनवत्थु।

कतमं इरियापथसङ्घातं कुहनवत्थु? इधेकच्चो पापिच्छो इच्छापकतो सम्भावनाधिप्पायो, “एवं मं जनो सम्भावेस्सती” ति, गमनं सण्ठपेति ठानं सण्ठपेति निसज्जं सण्ठपेति सयनं सण्ठपेति, पणिधाय गच्छति पणिधाय तिट्ठति पणिधाय निसीदति पणिधाय^{१०} सेय्यं कप्पेति, समाहितो विय गच्छति समाहितो विय तिट्ठति समा-हितो विय निसीदति समाहितो विय सेय्यं कप्पेति, आपाथकज्जायी^{११} व^{१२} होति। या एवरूपा इरियापथस्स ठपना^{१३} आठपना^{१४} सण्ठपना भाकु-टिका भाकुटियं कुहना कुहायना कुहित्तं—इदं इरियापथसङ्घातं^{१५} कुहनवत्थु^{१६}।

कतमं सामन्तजप्पनसङ्घातं कुहनवत्थु? इधेकच्चो पापिच्छो इच्छापकतो सम्भावनाधिप्पायो, “एवं मं जनो सम्भावेस्सती” ति, अरियधम्मसन्निस्सितं वाचं भासति। “यो एवरूपं चीवरं धारेति सो समणो महेसक्खो” ति भणति; “यो एवरूपं पत्तं धारेति ... लोह-थालकं धारेति ... धम्मकरणं^{१७} धारेति ... परिसावनं धारेति ... कुञ्चिकं^{१८} धारेति ... उपाहनं धारेति ... कायबन्धनं धारेति ... आयोगं धारेति सो समणो महेसक्खो” ति भणति; “यस्स एवरूपो उपज्जायो सो समणो महेसक्खो” ति भणति; “यस्स एवरूपो आचरियो ... एव-रूपा समानुपज्जायका ... समानाचरियका ... मित्ता ... सन्दिट्ठा ... सम्भत्ता ... सहाया सो समणो महेसक्खो” ति भणति; “यो एवरूपे विहारे^{२०} वसति सो समणो महेसक्खो” ति भणति, “यो एवरूपे अट्ठयोगे

R. 226

15

B 174

१ सचाहं—स्या०, रो०। २-२ परिहीना भविस्सथ—स्या०, रो०। ३. बहुं पि सेनासनं पटिग्गाहति इति सी०, स्या०, रो०। ४. पोत्थकेसु अधिको पाठो विस्सति। ५. वृच्चति पटिसेवनसङ्घातं—स्या०, रो०। ६. सम्भाविस्सती—रो०। ७-८. आपादकज्जायी च—रो०। ९. रो० पोत्थके नत्थि। १०. अट्ठपना—सी०। ११. कुहनवत्थु—रो०; एवमुपरि पि। १२. धम्मकरणं—सी०, स्या०, रो०।

वसति ... पासादे वसति ... हम्मिये वसति ... गुहायं वसति ... लेणे वसति ...
कुटिया वसति ... कूटागारे वसति ... अट्टे वसति ... माळे' वसति ... उट्टे
वसति ... उपट्टानसालायं वसति...मण्डपे वसति ... वल्लमूले वसति, सो
समणो महेसक्खो' ति मणति ।

- 5 अथ वा, कोरजिककोरजिको' भाकुटिकभाकुटिको कुहक-
कुहको लपकलपको मुखसम्भाविको', "अयं समणो इमासं एवरूपानं
सन्तानं विहारसमापत्तीनं लामी" ति तादिसं गम्भीरं गूळ्हं निपुणं
R. 227 पटिच्छन्नं लोकुत्तरं सुञ्जतापटिसंयुतं कथं कथेसि' । या एवरूपा
भाकुटिका भाकुटियं कुहना कुहायना कुहितत्तं - इदं सामन्तजप्पन-
10 सङ्घातं कुहनवत्थु । यस्सिमानि तीणि कुहनवत्थुनि पहीनानि समु-
च्छिन्नानि वूपसन्तानि पटिपस्सद्धानि अभब्बुप्पत्तिकानि षाणमिना
दद्धानि, सो वुच्चति अकुहको ति - पत्तिलीनो अकुहको ।

- अपिहालु अमच्छरी ति । पिहा वुच्चति तण्हा । यो रामो
सारागो...पे०...अभिज्झा लोभो अकुसलमूलं । यस्सेसा पिहा तण्हा'
15 पहीना समुच्छिन्ना वूपसन्ता पटिपस्सद्धा अभब्बुप्पत्तिका षाणमिना
दद्धा, सो वुच्चति अपिहालु । सो रूपे न पिहेति, सद्दे...गन्धे... रसे..
फोट्टब्बे... कुलं... गणं... आवासं...लाभं... यसं... पसंसं... सुखं... चीवरं...
पिण्डपातं... सेनासनं... गिलानपच्चयभेसज्जपरिवखारं... कामघातुं
रूपघातुं... अरूपघातुं... कामभवं... रूपभवं... अरूपभवं... सञ्जाभवं...
20 असञ्जाभवं... नेवसञ्जानासञ्जाभवं... एकवोकारभवं... चतुवोकार-
भवं... पञ्चवोकारभवं... अतीतं... अनागतं... पञ्चुप्पन्नं... दिट्ठमुत्तमुत्त-
विञ्जतब्बे धम्मं न पिहेति न इच्छति न सादियति न पत्थेति नाभि-
जप्पती ति - अपिहालु । अमच्छरी ति । पञ्च मच्छरियानि - आवास-
मच्छरियं, कुलमच्छरियं, लाभमच्छरियं, वणमच्छरियं, धम्ममच्छरियं ।
B 175 25 यं एवरूपं मच्छरियं' मच्छरायना मच्छरायितत्तं वेविच्छं कदरियं कट्टु-
कञ्चुकता' अगाहितत्तं चित्तस्स - इदं वुच्चति मच्छरियं । अपि च,
खन्धमच्छरियं पि मच्छरियं, घातुमच्छरियं पि मच्छरियं, आद्यतन-

१ माले - सी० । २ कोरजिककोरजिको - सी० । ३ मुखसम्भाविको - सी०
स्या०, रो० । ४ गूळ्ह - रो० । ५. कथेति - सी०, स्या०, रो० । ६ कुहमित्त - स्या०,
रो० । ७ स्या०, रो० फोत्वकेसु पठिय । ८ मच्छेर - म० । ९ कट्टुकञ्चुकता - स्या०,
रो० ।

मच्छरियं पि मच्छरियं गाहो—इदं^१ वुच्चति मच्छरियं । यस्सेतं
मच्छरियं पहीनं समुच्छिन्नं वूपसन्तं पटिपस्सद्धं अभव्वुप्पत्तिकं आण-
ग्गिना दद्धं, सो वुच्चति अमच्छरी ति—अपिहालु अमच्छरी ।

R 228

अप्पगब्भो अजेगुच्छो ति । पागब्भियं ति—तीणि पागब्भि-
यानि—कायिकं पागब्भियं, वाचसिकं पागब्भियं, चेतसिकं पागब्भियं । ६
कतमं कायिकं पागब्भियं ? इधेकच्चो सङ्खगतो पि कायिकं पाग-
ब्भियं दस्सेति, गणगतो पि कायिकं पागब्भियं दस्सेति, भोजनसालायं
पि कायिकं पागब्भियं दस्सेति, जन्ताघरे पि कायिकं पागब्भियं
दस्सेति, उदकतित्थे पि कायिकं पागब्भियं दस्सेति, अन्तरघरं पवि-
सन्तो पि कायिकं पागब्भियं दस्सेति, अन्तरघरं पविट्ठो पि कायिकं १०
पागब्भियं दस्सेति ।

कथं सङ्खगतो कायिकं पागब्भियं दस्सेति ? इधेकच्चो सङ्ख-
गतो अचित्तीकारकतो^२ थेरे भिक्खू घट्टयन्तो पि तिट्ठति, घट्टयन्तो
पि निसीदति, पुरतो पि तिट्ठति, पुरतो पि निसीदति, उच्चे पि
आसने निसीदति, ससीसं पारुपित्वा पि निसीदति, ठितको पि भणति, १५
बाहाविकखेपको पि भणति । एवं सङ्खगतो कायिकं पागब्भियं दस्सेति ।

कथं गणगतो कायिकं पागब्भियं दस्सेति ? इधेकच्चो गणगतो
अचित्तीकारकतो थेरानं भिक्खूनं अनुपाहनानं चङ्कमन्तानं सउपाहनो
चङ्कमति, नीचे चङ्कमे चङ्कमन्तानं उच्चे चङ्कमे चङ्कमति, छमायं^३
चङ्कमन्तानं चङ्कमे चङ्कमति, घट्टयन्तो पि तिट्ठति, घट्टयन्तो पि २०
निसीदति, पुरतो पि तिट्ठति, पुरतो पि निसीदति, उच्चे पि आसने
चिसीदति, ससीसं पारुपित्वा निसीदति, ठितको पि भणति, बाहा-
विकखेपको पि भणति । एवं गणगतो कायिकं पागब्भियं दस्सेति ।

कथं भोजनसालायं कायिकं पागब्भियं दस्सेति ? इधेकच्चो
भोजनसालायं अचित्तीकारकतो थेरे भिक्खू अनुपखज्ज निसीदति, २५
नवे पि भिक्खू आसनेन^४ पटिबाहति, घट्टयन्तो पि तिट्ठति, घट्ट-
यन्तो पि निसीदति, पुरतो पि तिट्ठति, पुरतो पि निसीदति, उच्चे पि
आसने निसीदति, ससीसं पारुपित्वा पि निसीदति, ठितको पि भणति,

१ रो० पोत्यके नत्थि । २ अचित्ति०—स्या०, रो० । ३ छमायं—स्या०, रो० ।
४ पि निसीदति—स्या०, रो० । ५ आसनेन—रो० ।

B. 176

बाहाविकखेपको पि भणति । एवं भोजनसालायं कायिकं पागब्भियं दस्सेति ।

B. 229

कथं जन्ताघरे कायिकं पागब्भियं दस्सेति ? इधेकच्चो जन्ता-
घरे अचिन्तीकारकतो थेरे भिक्खू घट्टयन्तो पि तिट्ठति, घट्टयन्तो पि
५ निसीदति, पुरतो पि तिट्ठति, पुरतो पि निसीदति, उच्चे पि आसने
निसीदति, अनापुच्छं^१ पि अनज्झिभट्ठो^२ पि^३ कट्ठं पक्खिपति, द्वारं^४
पि^५ पिदहति, बाहाविकखेपको पि भणति । एवं जन्ताघरे कायिकं
पागब्भियं दस्सेति ।

कथं उदकतित्थे कायिकं पागब्भियं दस्सेति ? इधेकच्चो
१० उदकतित्थे अचिन्तीकारकतो थेरे भिक्खू घट्टयन्तो पि ओत्तरति, पुरतो
पि ओत्तरति, घट्टयन्तो पि न्हायति, पुरतो पि न्हायति, उपरितो^१
पि न्हायति, घट्टयन्तो पि उत्तरति, पुरतो पि उत्तरति, उपरितो
पि उत्तरति । एवं उदकतित्थे कायिकं पागब्भियं दस्सेति ।

कथं अन्तरघरं पविसन्तो कायिकं पागब्भियं दस्सेति ? इधे-
१५ कच्चो अन्तरघरं पविसन्तो अचिन्तीकारकतो थेरे भिक्खू घट्टयन्तो
पि गच्छति, पुरतो पि गच्छति, बोक्कम्मा पि थेरानं भिक्खूनं पुरतो^१
पुरतो गच्छति । एवं अन्तरघरं पविसन्तो कायिकं पागब्भियं दस्सेति ।

कथं अन्तरघरं पविट्ठो कायिकं पागब्भियं दस्सेति ? इधे-
कच्चो अन्तरघरं पविट्ठो, “न पविस, भन्ते” ति बुच्चमानो पविसति,
२० “न तिट्ठ, भन्ते” ति बुच्चमानो तिट्ठति, “न निसीद, भन्ते” ति बुच्च-
मानो निसीदति, अनोकासं पि पविसति, अनोकासे पि तिट्ठति, अनो-
कासे पि निसीदति, यानि पि^१ तानि होन्ति कुलानं ओवरकानि
गूळहानि च पटिच्छन्नानि च । यत्थ कुलित्थियो कुलधीतरो कुल-
सुण्हायो कुलकुमारियो निसीदन्ति, तत्थ पि सहसा पविसति कुमार-
२५ कस्स पि सिरं^२ परामसति । एवं अन्तरघरं पविट्ठो कायिकं पाग-
ब्भियं दस्सेति — इदं* कायिकं पागब्भियं दस्सेति** ।

१ अनापुच्छा — स्या० । २-२. स्या० पोत्यके न दिस्सति । ३ अनापुच्छा पि द्वार-
स्या० । ४ स्या०, रो० पोत्यकेषु नत्थि । ५-५ स्या० पोत्यके नत्थि । ६ उपरि — स्या० ।
७ स्या०, रो० पोत्यकेषु नत्थि । ८ सी०, स्या०, रो० पोत्यकेषु नत्थि । ९ सीत — स्या०,
रो० । *.* सी० पोत्यके नत्थि । १० स्या०, रो० पोत्यकेषु नत्थि ।

कतमं वाचसिकं पागब्भियं दस्सेति? इधेकच्चो सङ्खगतो
पि वाचसिकं पागब्भियं दस्सेति, गणगतो पि वाचसिकं पागब्भियं
दस्सेति, अन्तरघरं पविट्ठो पि वाचसिकं पागब्भियं दस्सेति।

कथं सङ्खगतो वाचसिकं पागब्भियं दस्सेति? इधेकच्चो सङ्ख-
गतो अचिन्तीकारकतो थेरे भिक्खू अनापुच्छं वा अनज्जिभट्ठो वा 6
आरामगतानं भिक्खूनं धम्मं भणति, पञ्चं विसज्जेति, पातिमोक्खं
उद्दिसति, ठित्तको पि भणति, बाहाविकखेपको पि भणति। एवं
सङ्खगतो वाचसिकं पागब्भियं दस्सेति।

कथं गणगतो वाचसिकं पागब्भियं दस्सेति? इधेकच्चो गण-
गतो अचिन्तीकारकतो थेरे भिक्खू अनापुच्छं वा अनज्जिभट्ठो वा 10
आरामगतानं भिक्खूनं धम्मं भणति, पञ्चं विसज्जेति, ठित्तको पि
भणति, बाहाविकखेपको पि भणति। आरामगतानं भिक्खुनीनं उपास-
कानं उपासिकानं धम्मं भणति, पञ्चं विसज्जेति, ठित्तको पि
भणति, बाहाविकखेपको पि भणति। एवं गणगतो वाचसिकं पाग-
ब्भियं दस्सेति। 15

कथं अन्तरघरं पविट्ठो वाचसिकं पागब्भियं दस्सेति? इधे-
कच्चो अन्तरघरं पविट्ठो इत्थि वा कुमारिं वा एवमाह^१ - "इत्थि-
न्नामे इत्थंगोत्ते कि अत्थि। यागु^२ अत्थि, भत्तं अत्थि, खादनीयं अत्थि।
कि पिविस्साम, कि भुञ्जिस्साम, कि खादिस्साम। किं वा अत्थि,
कि वा मे दस्सथा^३" ति विप्पलपत्ति, या^४ एवरूपा^५ वाचा पलापो 20
विप्पलापो लालप्पो लालप्पना लालप्पितत्तं। एवं अन्तरघरं पविट्ठो
वाचसिकं पागब्भियं दस्सेति - इदं वाचसिकं पागब्भियं।

कतमं चेतसिकं पागब्भियं? इधेकच्चो न उच्चा कुला पब्ब-
जितो समानो उच्चा कुला पब्बजितेन सद्धि सदिसं अत्तानं दहति
चित्तेन, न महाकुला पब्बजितो समानो महाकुला पब्बजितेन सद्धि 25
सदिसं अत्तानं दहति चित्तेन, न महाभोगकुला पब्बजितो समानो
महाभोगकुला पब्बजितेन सद्धि सदिसं अत्तानं दहति चित्तेन, न
उत्तारभोगकुला पब्बजितो समानो ... न सुत्तन्तिको समानो सुत्तन्तिकेन

१-१ सी०, रो० पोत्यकेसु न दिस्सति। २ आह-स्या०, रो०। ३. यागु-स्या०,
रो०। ४-४ ए वरूपा-रो०।

- सद्धि सदिसं अत्तानं दहति चित्तेन, न विनयधरो समानो ... न घम्म-
 कथिको समानो ... न^१ आरञ्जिको समानो ... न पिण्डपातिको समानो ...
 न पंसुकूलिको समानो ... न तेचीवरिको समानो ... न सपदानचारिको
 समानो ... न खलुपच्छाभक्तिको समानो ... न नेसज्जिको समानो ... न
 5 यथासन्थतिको समानो ... न पठमस्स भानस्स लाभी समानो पठमस्स
 भानस्स लाभिना सद्धि सदिसं अत्तानं दहति चित्तेन .. पे० न नेव-
 सञ्जानासञ्जायतनसमापत्तिया लाभी समानो नेवसञ्जानासञ्जा-
 यतनसमापत्तिया लाभिना सद्धि सदिसं अत्तानं दहति चित्तेन - इदं
 चेतसिकं पागम्भियं । यस्सिमानि तीणि पागम्भियानि पहीनानि
 10 समुच्छिन्नानि वूपसन्तानि पटिपस्सद्धानि अब्भुप्पत्तिकानि आणग्गिना
 दङ्गानि, सो वुच्चति अप्पगम्भो ति - अप्पगम्भो ।

- अजेगुच्छो ति । अत्थि पुग्गलो जेगुच्छो, अत्थि अजेगुच्छो ।
 कतमो च पुग्गलो जेगुच्छो ? इधेकच्चो पुग्गलो दुस्सीलो होति पाप-
 घम्मो असुच्चिसङ्कत्तरसमाचारो पटिच्छन्नकम्मन्तो अस्समणो समण-
 15 पटिञ्जो अब्रह्मचारी ब्रह्मचारिपटिञ्जो अन्तोपूति अवस्सुतो कसम्बु-
 जातो - अयं वुच्चति पुग्गलो जेगुच्छो । अथ वा, कोधनो होति उपा-
 यासबहुलो, अप्पं पि वुत्तो समानो अभिसज्जति कुप्पति व्यापज्जति
 पत्तिट्ठीयति^१, कोपं च दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरोति - अयं
 वुच्चति पुग्गलो जेगुच्छो । अथ वा, कोधनो होति उपनाही, मक्खी
 20 होति पळासी, इस्सुकी होति मच्छरी, सठो होति मायावी, थद्धो होति
 अतिमानी, पापिच्छो होति मिच्छादिट्ठि, सन्दिट्ठिपरामासी होति
 आदानग्गाही^२ दुप्पटिनिस्सग्गी - अयं वुच्चति पुग्गलो जेगुच्छो ।

R. 232

- कतमो च पुग्गलो अजेगुच्छो ? इध भिक्खु सीलवा होति
 पातिमोक्खसंवरसंबुतो विहरति आचारगोचरसम्पन्नो अणुमत्तेसु
 26 वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु - अयं वुच्चति
 पुग्गलो अजेगुच्छो । अथ वा, अक्कोधनो होति अनुपायासबहुलो, बहुं
 पि वुत्तो समानो न अभिसज्जति न कुप्पति न व्यापज्जति न पत्ति-
 ट्ठीयति, न कोपं च दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरोति - अयं वुच्चति

१ रो० पोत्यके नत्थि । २ पत्तिट्ठीयति - सी०, पत्तिट्ठियति - स्या०, रो० । ३
 आषानग्गाही - सी०, रो०, आषानग्गाही - स्या० ।

पुगलो अजेगुच्छो । अथ वा, अककोधनो होति अनुपनाही, अमक्खी होति अपळासी, अनिस्सुकी होति अमच्छरी, असठो होति अमायावी, अथद्वो होति अनतिमानी, न पापिच्छो होति न मिच्छादिट्ठि, असन्दिट्ठिपरामासी होति अनादानग्गाही सुप्पटिनिस्सग्गी' - अयं वुच्चति पुगलो अजेगुच्छो । सब्बे' बालपुथुज्जना' जेगुच्छा', पुथुज्जनकल्याणकं' 5
उपादाय अट्ठ' अरियपुगला' अजेगुच्छा' ति - अप्पगब्भो अजेगुच्छो ।

पेसुणेय्ये च नो युत्तो ति । पेसुञ्जं ति । इधेकच्चो पिसुणवाचो होति, इतो सुत्वा अमुत्र अक्खाता इमेसं भेदाय, अमुत्र वा सुत्वा इमेसं अक्खाता अमूसं भेदाय । इति समग्गानं वा भेत्ता, भिन्नानं वा अनुप्पदाता, वग्गारामो, वग्गरतो, वग्गानन्दी, वग्गकरणं वाचं भासिता 10
होति - इदं वुच्चति पेसुञ्जं ।

अपि च, द्वीहि कारणेहि पेसुञ्जं उपसंहरति - पियकम्यताय वा, भेदाधिप्पायेन' वा । कथं पियकम्यताय पेसुञ्जं उपसंहरति ? इमस्स पियो भविस्सामि, मनापो भविस्सामि, विस्सासिको भविस्सामि, अब्भन्तरिको भविस्सामि, सुहृदयो भविस्सामी ति । एवं पियकम्यताय 15
पेसुञ्जं उपसंहरति । कथं भेदाधिप्पायेन पेसुञ्जं उपसंहरति ? "कथं इमे नाना अस्सु विना अस्सु वग्गा अस्सु द्वेधा अस्सु द्वेज्झा अस्सु द्वे पक्खा अस्सु भिज्जेय्युं न समागच्छेय्युं दुक्खं न फासु विहरेय्युं" ति । एवं भेदाधिप्पायेन पेसुञ्जं उपसंहरति । यस्सेतं पेसुञ्जं पहीनं 20
समुच्छिन्नं वूपसन्तं पटिपस्सद्धं अभब्बुप्पत्तिकं आणग्गिना दद्धं, सो पेसुञ्जे नो' युतो' न युत्तो न' पयुत्तो' न' सम्मायुत्तो' ति - पेसुणेय्ये च नो युत्तो । तेनाह भगवा -

"पतिलीनो अकुहको, अपिहालु अमच्छरी ।

अप्पगब्भो अजेगुच्छो, पेसुणेय्ये च नो युत्तो' ति ॥

८८. सातियेसु अनस्सावी, अतिमाने च नो युत्तो ।

सण्हो च पटिभानवा, न सद्धो न विरज्जति ॥

१ सुपटिनिस्सग्गी होति - स्या० । २ सब्बो - स्या० । ३-३ स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि । ४ कल्याणपुथुज्जन - स्या०, रो० । ५ स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि । ६-६ पुगलो अजेगुच्छो - स्या०, रो० । ७ भेदाधिप्पायो - स्या०, रो० । ८-८. सी०, स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि । ९-९. नप्पयुत्तो - सी०, स्या०, रो० । १०. नायुत्तो न - स्या०, रो० । ११ समायुत्तो - सी०, स्या०, रो० ।

मानवा ? इधेकच्चस्स पकतिया' परियापुटं होति—सुत्तं गेय्यं वेय्याकरणं
 गाथा उदानं इतिवृत्तकं जातकं अब्भुतधम्मं वेदल्लं, तस्स परियत्ति
 निस्साय पटिभायति—अयं परियत्तिपटिमानवा। कतमो परिपुच्छा-
 पटिमानवा ? इधेकच्चो परिपुच्छिता' होति अत्तत्थे च वायत्थे च
 लक्खणे च कारणे च ठानाठाने च, तस्स तं परिपुच्छं निस्साय पटि- 5
 भायति—अयं परिपुच्छापटिमानवा। कतमो अधिगमपटिमानवा ?
 इधेकच्चस्स अधिगता होन्ति चत्तारो सतिपट्टाना चत्तारो सम्मप्पघाना
 चत्तारो इद्धिपादा पञ्चिन्द्रियानि पञ्च बलानि सत्त बोञ्जङ्गा
 अरियो अट्टङ्गिको मग्गो चत्तारो अरियमग्गा चत्तारि सामञ्जफलानि
 चत्तस्सो पटिसम्भिदायो छ अभिञ्जायो, तस्स अत्थो आतो धम्मो 10
 आतो निरुत्ति आता, अत्थे आते अत्थो पटिभायति, धम्मो आते धम्मो
 पटिभायति, निरुत्तिया आताय निरुत्ति पटिभायति; इमेसु तीसु
 आणेषु आणं पटिमानपटिसम्भिदा । इमाय पटिमानपटिसम्भिदाय
 उपेतो समुपेतो उपगतो समुपगतो उपपन्नो समुपपन्नो समन्नागतो सो
 वुच्चति पटिमानवा। यस्स परियत्ति नत्थि, परिपुच्छा नत्थि, 15
 अधिगमो नत्थि, किं तस्स पटिभायिस्सती ति—सण्हो च पटिमानवा।

न सद्धो न विरज्जती ति। न सद्धो ति। सामं सयं अभिञ्जातं
 अत्तपच्चक्खं धम्मं न कस्सचि सद्दहति अञ्जस्स समणस्स वा
 ब्राह्मणस्स वा देवस्स वा मारस्स वा ब्रह्मुनो वा। “सब्बे सङ्खारा
 अनिच्चा” ति सामं सयं अभिञ्जातं ...पे०... “सब्बे सङ्खारा दुक्खा” 20
 ति ... “सब्बे धम्मा अनत्ता” ति ... “अविज्जापच्चया सङ्खारा” ति
 ...पे०... “जातिपच्चया जरामरण” ति ... “अविज्जानिरोधा सङ्खार-
 निरोधो” ति ...पे०... “जातिनिरोधा जरामरणनिरोधो” ति ...
 “इदं दुक्खं” ति ...पे०... “अयं दुक्खनिरोधगामिनीपटिपदा” ति ...
 “इमे आसवा” ति ...पे०... “अयं आसवनिरोधगामिनी पटिपदा” ति 25
 ... “इमे धम्मा अभिञ्जेय्या” ति...पे०... “इमे धम्मा सच्छिकातब्बा”
 ति सामं सयं अभिञ्जातं ...पे०... छन्नं फस्सायतनानं समुदर्यं च अत्थ-
 ज्जमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च, पञ्चन्नं उपादानक्ख-

१ पकतिया पि—सी०; त्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि। २ परिपुच्छिता—सी०,
 परिपुच्छको—त्या०, रो०।

B 230

न्धानं समुदयं च ...पे०... चतुर्ष्वं महाभूतानं समुदयं च अत्यङ्गमं च
अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च सामं सयं अभिञ्जातं ...पे०.
“यं किञ्चि समुदयधम्मं सब्बं तं निरोधधम्मं” ति सामं सयं अभि-
ञ्जातं अत्तपच्चक्खं धम्मं न कस्सचि सद्दहति अञ्जस्स समणस्स वा
6 ब्राह्मणस्स वा देवस्स वा मारस्स वा' ब्रह्मूणो वा ।

वृत्तं हेतं भगवता -- “सद्दहसि त्वं, सारिपुत्त, सद्धिन्द्रियं
भावितं बहुलीकतं अमतोगर्धं होति अमतपरायनं अमतपरियोसानं;
वीरियिन्द्रियं ... सतिन्द्रियं ... समाधिन्द्रियं ... पञ्चिन्द्रियं भावितं बहुलीकतं
अमतोगर्धं होति अमतपरायनं अमतपरियोसानं” ति ?

10 “न ख्वाहं एत्थ, भन्ते, भगवतो सद्दाय गच्छामि सद्धि-
न्द्रियं वीरियिन्द्रियं ... सतिन्द्रियं ... समाधिन्द्रियं ... पञ्चिन्द्रियं भावितं
बहुलीकतं अमतोगर्धं होति अमतपरायनं अमतपरियोसानं। येसं
नूनेतं, भन्ते, अञ्जातं अस्स अदिट्ठं अविदितं असञ्चिकतं अफस्सितं
पञ्जाय, ते तत्थ परेसं सद्दाय गच्छेय्युं सद्धिन्द्रियं भावितं बहुलीकतं
15 अमतोगर्धं होति अमतपरायनं अमतपरियोसानं। वीरियिन्द्रियं ...
सतिन्द्रियं ... समाधिन्द्रियं ... पञ्चिन्द्रियं भावितं बहुलीकतं अमतोगर्धं
होति अमतपरायनं अमतपरियोसानं। येसं च खो एतं, भन्ते, आतं
दिट्ठं विदितं सञ्चिकतं फस्सितं पञ्जाय, निक्कह्वा ते तत्थ निब्बि-
च्चिकिच्छा । सद्धिन्द्रियं ... वीरियिन्द्रियं ... सतिन्द्रियं .. समाधिन्द्रियं ..
20 पञ्चिन्द्रियं भावितं बहुलीकतं अमतोगर्धं होति अमतपरायनं अमतपरियो-
सानं। मय्हं च खो, एतं भन्ते, आतं दिट्ठं विदितं सञ्चिकतं फस्सितं
पञ्जाय, निक्कह्वा ते तत्थ निब्बिच्चिकिच्छो । सद्धिन्द्रियं ... वीरियिन्द्रियं
.. सतिन्द्रियं ... समाधिन्द्रियं ... पञ्चिन्द्रियं भावितं बहुलीकतं अमतोगर्धं
होति अमतपरायनं अमतपरियोसानं” ति ।

B 182

25 “साधु साधु, सारिपुत्त ! येसं हेतं, सारिपुत्त, अञ्जातं अस्स
अदिट्ठं अविदितं असञ्चिकतं अफस्सितं पञ्जाय, ते तत्थ परेसं
सद्दाय गच्छेय्युं सद्धिन्द्रियं ...पे०... पञ्चिन्द्रियं भावितं बहुलीकतं
अमतोगर्धं होति अमतपरायनं अमतपरियोसानं ति ।

R. 237

“अस्सद्धो अकतञ्जू च, सन्धिच्छेदो च यो नरो ।
हृतावकासो वन्तासो, स वे उत्तमपोरिसो” ति ॥

न' सद्धो' न विरज्जती ति । सब्बे बालपुथुज्जना रज्जन्ति,
पुथुज्जनकल्याणकं उपादाय सत्त सेक्खा विरज्जन्ति । अरहा नेव
रज्जति नो विरज्जति, विरत्तो' सो खया रागस्स वीतरागत्ता खया 5
दोसस्स वीतदोसत्ता, खया मोहस्स वीतमोहत्ता । सो वुट्टवासो चिण्ण-
चरणो ...पे०... जातिमरणसंसारो नत्थि तस्स पुनब्भवो ति — न सद्धो
न विरज्जति । तेनाह भगवा —

“सातियेसु अनस्सावी, अतिमाने च नो युतो ।
सण्हो च पटिभानवा, न सद्धो न विरज्जती” ति ॥ 10

८९. लाभकम्या न सिक्खति, अलाभे च न कुप्पति ।
अविच्छेदो च तण्हाय, रसेसु' नानुगिज्झति ॥

लाभकम्या न सिक्खति अलाभे च न कुप्पती ति । कथं
लाभकम्या सिक्खति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु भिक्खुं पस्सति लाभि
चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारानं । तस्स एवं 15
होति — “केन नु खो अयमायस्मा लाभी चीवरपिण्डपातसेनासन-
गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारानं” ति ? तस्स एवं होति — “अयं खो
आयस्मा सुत्तन्तिको, तेनायमायस्मा लाभी चीवरपिण्डपातसेनासन-
गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारानं” ति । सो लाभहेतु लाभपच्चया
लाभकारणा लाभाभिनिव्वत्तिया लाभं परिपाचेन्तो सुत्तन्तं परिया- 20
पुणाति । एवं पि लाभकम्या सिक्खति ।

अथ वा, भिक्खु भिक्खुं पस्सति लाभि चीवरपिण्डपातसेना-
सनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारानं । तस्स एवं होति — “केन नु खो
अयमायस्मा लाभी चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरि-
क्खारानं” ति ? तस्स एवं होति — “अयं खो आयस्मा विनयघरो 25
...पे० .. घम्मकथिको .. आभिघम्मिको, तेनायमायस्मा लाभी चीवर-
पिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारानं” ति । सो लाभ-

१-१ स्या०, रो० पत्त्यकेसु नत्थि । २ विरत्तो—स्या०, रो० । ३ रसे च—सी०,
स्या०, रो० ।

हेतु लाभपञ्चया लाभकारणा लाभामिनिव्वत्तिया लाभं परिपाचेन्तो अभिवम्मं परियापुणाति । एवं पि लाभकम्या सिक्खति ।

अथ वा, भिक्खु भिक्खुं पत्तति लाभिं चीवरपिण्डपातसेना-
सनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारानं । तस्स एवं होति — “केन नु त्थो
5 अयमायस्मा लाभी चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरि-
क्खारानं” ति ? तस्स एवं होति — “अयं त्थो अयस्मा आरञ्जिको ...
पिण्डपातिको...पंसुकूलिको...तेचीवरिको...सपदानचारिको...खलुपच्छा-
भत्तिको ... नेसज्जिको ... यथासन्थतिको, तेनायमायस्मा लाभी चीवर-
पिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारानं” ति । सो हान-
10 हेतु लाभपञ्चया लाभकारणा लाभामिनिव्वत्तिया लाभं परिपाचेन्तो
आरञ्जिको होति ...पे०... यथासन्थतिको होति । एवं पि लाभकम्या
सिक्खति ।

कथं न लाभकम्या सिक्खति ? इध भिक्खु न लाभहेतु, न
लाभपञ्चया, न लाभकारणा, न लाभामिनिव्वत्तिया, न लाभं परि-
15 पाचेन्तो, यावदेव अत्तदमत्याय अत्तसमत्याय अत्तपरिनिव्वापनत्याय
सुत्तन्तं परियापुणाति, विनयं परियापुणाति, अभिवम्मं परियापुणाति ।
एवं पि न लाभकम्या सिक्खति ।

अथ वा, भिक्खु न लाभहेतु, न लाभपञ्चया, न लाभकारणा,
न लाभामिनिव्वत्तिया, न लाभं परिपाचेन्तो, यावदेव अप्पिच्छञ्जेव
20 निस्साय सत्तुट्ठिञ्जेव निस्साय सल्लेखञ्जेव निस्साय पविवेकञ्जेव
निस्साय इदमत्थितञ्जेव निस्साय आरञ्जिको होति, पिण्डपातिको
होति, पंसुकूलिको होति, तेचीवरिको होति, सपदानचारिको होति,
खलुपच्छाभत्तिको होति, नेसज्जिको होति, यथासन्थतिको होति ।
एवं पि न लाभकम्या सिक्खती ति — लाभकम्या न सिक्खति ।

अलाभे च न कुप्पती ति । कथं अलाभे कुप्पति ? इधे-
25 कच्चो कुलं वा न लभामि, गणं वा न लभामि, आवाप्तं वा न लभामि,
लाभं वा न लभामि, यत्तं वा न लभामि, पत्तं वा न लभामि, सुत्तं
वा न लभामि, चीवरं वा न लभामि, पिण्डपातं वा न लभामि

सेनासनं वा न लभामि, गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारं वा न लभामि, गिलानुपट्टाकं वा न लभामि, अप्पञ्जातोम्ही ति कुप्पति व्यापज्जति पतिट्ठीयति, कोपं च दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरोति। एवं अलाभे कुप्पति।

कथं अलाभे न कुप्पति? इध भिक्खु कुलं वा न लभामि 5
गणं वा न लभामि ...पे०... अप्पञ्जातोम्ही ति न कुप्पति न व्याप-
ज्जति न पतिट्ठीयति, न कोपं च दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरोति।
एवं अलाभे न कुप्पती ति—लाभकम्या न सिक्खति अलाभे च न
कुप्पति।

अविरुद्धो च तण्हाय रसेसु नानुगिज्झती ति। विरुद्धो ति। 10
यो चित्तस्स आघातो पटिघातो, पटिघं' पटिविरोधो', कोपो पकोपो
सम्पकोपो, दोसो पदोसो सम्पदोसो, चित्तस्स व्यापत्ति मनोपदोसो,
कोधो' कुज्झना कुज्झित्तं, दोसो दुस्सना दुस्सित्तं, व्यापत्ति व्याप-
ज्जना व्यापज्जित्तं विरोधो पटिविरोधो, चण्डिकं, असुरोपो,
अनत्तमनता चित्तस्स—अयं वुच्चति विरोधो। यस्सेसो विरोधो 15
पहीनो समुच्छिन्नो वूपसन्तो पटिपस्सद्धो अभब्बुप्पत्तिको आणग्गिना
दद्धो, सो वुच्चति अविरुद्धो। तण्हा ति। रूपतण्हा सद्दतण्हा
गन्धतण्हा रसतण्हा फोट्टव्वतण्हा धम्मतण्हा। रसो ति। मूलरसो
खन्वरसो त्तरसो पत्तरसो पुप्फरसो फलरसो, अम्बिलं मधुरं तित्तकं 20
कट्टकं लोणिकं खारिकं लम्बिकं कसावो सादु' असादु' सीतं
उण्हं। सन्तेके समण्णाह्मणा रसगिद्धा। ते जिव्हग्गेन रसग्गानि
परियेसन्ता आहिण्ढन्ति, ते अम्बिलं लभित्वा अनम्बिलं परियेसन्ति,
अनम्बिलं लभित्वा अम्बिलं परियेसन्ति; मधुरं लभित्वा अमधुरं परि-
येसन्ति, अमधुरं लभित्वा मधुरं परियेसन्ति; तित्तकं लभित्वा अति-
त्तकं परियेसन्ति, अतित्तकं लभित्वा तित्तकं परियेसन्ति, कट्टकं लभित्वा 25
अकट्टकं परियेसन्ति, अकट्टकं लभित्वा कट्टकं परियेसन्ति, लोणिकं
लभित्वा अलोणिकं परियेसन्ति, अलोणिकं लभित्वा लोणिकं परिये-

B. 240

B 185

25

१-१ अनुविरोधो—स्या०, रो०। २ चित्तस्स कोधो—रो०। ३ तित्तिकं—स्या०,
रो०। ४ लपिलं—सी०, लम्बिलं—स्या०, रो०; एवमुपरि पि। ५-५ सादु' असादु'-
सी०, स्या०, रो०।

सन्ति, खारिकं लभित्वा अखारिकं परियेसन्ति, अखारिकं लभित्वा खारिकं परियेसन्ति, लम्बिकं लभित्वा कसावं परियेसन्ति, कसावं लभित्वा लम्बिकं परियेसन्ति, सादुं लभित्वा असादुं परियेसन्ति, असादुं लभित्वा सादुं परियेसन्ति, सीतं लभित्वा उण्हं परियेसन्ति, उण्हं लभित्वा सीतं परियेसन्ति । ते यं यं लभित्वा तेन तेन न सन्तुस्सन्ति अपरापरं परियेसन्ति, मनापिकेसु रसेसु रत्ता गिद्धा गधिता मुच्छिता अज्झोसन्ना लग्गा लग्गिता पलिबुद्धा । यस्सेसा^१ रसतण्हा पहीना समुच्छिन्ना वूपसन्ता पटिपस्सद्धा अभव्वुप्पत्तिका जाणग्गिना दद्धा, सो पटिसङ्घा योनिस्सो आहारं आहारेति - "नेव दवाय न मदाय न मण्डनाय न विभूसनाय, यावदेव इमस्स कायस्स ठित्तिया यापनाय विहिसूपरतिया ब्रह्मचरियानुग्गहाय । इति पुराणं च वेदनं पटिहङ्गामि, नवं च वेदनं न उप्पादेस्सामि, यात्रा च मे भविस्सति अनवज्जता च फासुविहारो चा" ति ।

241

यथा वनं आलम्पेय्यं यावदेव रोपनत्थाय, यथा वा पन
 15 अक्ख अम्भज्जेय्यं यावदेव भारस्स नित्थरणत्थाय, यथा वा पन पुत्तमंसं आहारं आहरेय्यं यावदेव कन्तारस्स नित्थरणत्थाय, एवमेव भिक्खु पटिसङ्घा योनिस्सो आहारं आहारेति - "नेव दवाय .. पे० . फासुविहारो चा" ति । रसतण्हं पज्जहति विनोदेति व्यन्ति करोति अंनभावं गमेति, रसतण्हाय आरतो अस्स^२ विरतो पटिविरतो निक्खन्तो
 20 निस्सटो विप्पमुत्तो विसञ्चुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरती ति - अविरुद्धो च तण्हाय रसेसु नानुगिज्झति । तेनाह भग्वा -

186

"लाभकम्या न सिक्खति, अलाभे च न कुप्पति ।
 अविरुद्धो च तण्हाय, रसेसु नानुगिज्झती" ति ॥

१०. उपेक्खको सदा सतो, न लोके मञ्जते^३ समं ।

26

न विसेसी न नीचेय्यो, तस्स नो सन्ति उस्सदा ॥

उपेक्खको सदा सतो ति । उपेक्खको ति । छळङ्गुपेवखाय समन्नागतो । चक्खुना रूपं दिस्वा नेव सुमनो होति न दुम्मनो,

१ सीतल - सी० । २ रो० पोत्यके नत्थि । ३ यस्स - स्या०, रो० । ४ वण - सी०, स्या०, रो० । ५ स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि । ६ मञ्जति - रो०, मञ्जती - स्या० ।

उपेक्खको विहरति सतो सम्पजानो । सोतेन सद्दं सुत्वा . . पे०... मनसा
 धम्मं विञ्जाय नेव सुमनो होति न दुम्मनो, उपेक्खको विहरति
 सतो सम्पजानो । चक्खुना रूपं दिस्वा मनापं नाभिगिज्झति नाभि-
 हंसति^१ न रागं जनेति, तस्स ठितो व कायो होति, ठितं चित्तं अज्झत्तं
 सुसण्ठितं सुविमुत्तं । चक्खुना खो पनेव रूपं दिस्वा अमनापं न मङ्गकु
 होति अप्पत्तिट्ठितचित्तो^२ अलीनमनसो^३ अब्यापन्नचेतसो, तस्स ठितो व
 कायो होति, ठितं चित्तं अज्झत्तं सुसण्ठितं सुविमुत्तं । सोतेन सद्दं
 सुत्वा . . घानेन गन्धं घायित्वा . . जिब्हाय रसं सायित्वा ... कायेन
 फोट्टब्बं फुसित्वा मनसा धम्मं विञ्जाय मनापं नाभिगिज्झति
 नाभिहंसति न रागं जनेति, तस्स ठितो व कायो होति, ठितं चित्तं
 अज्झत्तं सुसण्ठितं सुविमुत्तं । मनसा खो पनेव धम्मं विञ्जाय अम-
 नापं न मङ्गकु होति अप्पत्तिट्ठितचित्तो अलीनमनसो अब्यापन्नचेतसो,
 तस्स ठितो व कायो होति, ठितं चित्तं अज्झत्तं सुसण्ठितं सुविमुत्तं ।

R. 248

चक्खुना रूपं दिस्वा मनापामनापेसु रूपेसु तस्स ठितो व
 कायो होति, ठितं चित्तं अज्झत्तं सुसण्ठितं सुविमुत्तं । सोतेन सद्दं
 सुत्वा ... पे०. मनसा धम्मं विञ्जाय मनापामनापेसु धम्मेषु तस्स
 ठितो व कायो होति, ठितं चित्तं अज्झत्तं सुसण्ठितं सुविमुत्तं ।

15

चक्खुना रूपं दिस्वा रजनीये न रज्जति, दुस्सनीये^४ न
 दुस्सति, मोहनीये न मुहति, कोपनीये न कुप्पति, मदनीये न
 मज्जति, किलेसनीये न किलिस्सति । सोतेन सद्दं सुत्वा ... पे०... मनसा
 धम्मं विञ्जाय रजनीये न रज्जति दुस्सनीये न दुस्सति, मोहनीये
 न मुहति, कोपनीये न कुप्पति, मदनीये न मज्जति, किलेसनीये न
 किलिस्सति । दिट्ठे दिट्ठमत्तो, सुते सुतमत्तो, मुते मुतमत्तो, विञ्जाते
 विञ्जातमत्तो । दिट्ठे न लिम्पति, सुते न लिम्पति, मुते न लिम्पति,
 विञ्जाते न लिम्पति । दिट्ठे अनूपयो अनपायो^५ अनिस्सितो अप्पट्टि-
 बद्धो विप्पमुत्तो विसञ्जुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरति । सुते ...
 मुते . . विञ्जाते अनूपयो अनपायो अनिस्सितो अप्पट्टिबद्धो विप्पमुत्तो
 विसञ्जुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरति ।

B. 187

20

१ नाभिहंसति - सी०, स्या०, रो० । २ अप्पत्तिट्ठित चित्तो - स्या०, रो० । ३
 आदिनमनसो - स्या०, रो० । ४ दोसनीये - सी०, स्या०, रो० । ५ स्या०, रो० पीत्यकेसु
 नत्थि, एवमुपरि पि ।

३ २१३

संविज्जति अरहतो चक्खु, पस्सति अरहा चक्खुना रूपं।
 छन्दरागो अरहतो नत्थि, सुविमुत्तचित्तो अरहा। संविज्जति अर-
 हतो सोतं, सुणाति अरहा सोतेन सद्दं। छन्दरागो अरहतो नत्थि,
 सुविमुत्तचित्तो अरहा। संविज्जति अरहतो घानं, घायति अरहा
 ५ घानेन गन्ध। छन्दरागो अरहतो नत्थि, सुविमुत्तचित्तो अरहा।
 संविज्जति अरहतो जिह्वा, सायति अरहा जिह्वाय रसं ...पे०... संवि-
 ज्जति अरहतो कायो, फुसति अरहा कायेन फोट्टुव्वं ...पे०... संविज्जति
 अरहतो मनो, विजानाति अरहा मनसा धम्मं। छन्दरागो अरहतो
 नत्थि सुविमुत्तचित्तो अरहा।

१० चक्खु रूपारामं रूपरतं रूपसम्मदितं, तं अरहतो दन्तं गुत्त
 रक्खितं संवुत्तं, तस्स च संवराय धम्मं देसेति। सोतं सद्धारामं ...पे०...
 घानं गन्धारामं ... जिह्वा रसारामा रसरता रससम्मदिता, सा अरहतो
 दन्ता गुत्ता रक्खिता संवुत्ता, तस्सा च संवराय धम्मं देसेति^१। कायो
 फोट्टुव्वारामो ...पे०... मनो धम्मारामो धम्मरतो धम्मसम्मदितो, सो
 १५ अरहतो दन्तो गुत्तो रक्खितो संवुत्तो, तस्स च संवराय धम्मं देसेति।

दन्तं नयन्ति समितिं, दन्तं राजाभिरुहति।
 दन्तो सेट्ठो मनुस्सेसु, योतिवाक्यं तितिक्खति ॥
 वरमस्सतरा दन्ता, आजानीया^२ च^३ सिन्धवा।
 कुञ्जरा च^४ महानागा, अत्तदन्तो ततो वरं ॥

२०

न हि एतेहि यानेहि, गच्छेय्य अगतं^५ दिसं।
 यथात्तना^६ सुदन्तेन, दन्तो दन्तेन गच्छति ॥

१. १६८

विघासु न विकम्पन्ति^७, विप्यमुत्ता पुनग्भवा।
 दन्तभूमिमनुप्पत्ता, ते लोके विजिताविनो ॥

३ २४४

२५

यस्सिन्द्रियानि भावितानि,
 अज्झत्तं^८ बहिद्धा च सब्बलोके।

निब्बिज्झ इमं परं च लोकं,
 कालं कङ्कति भावितो स^९ दन्तो ति ॥

१. देसेसि-स्या०। २-२ आजानीया व-स्या०, रो०। ३. व-स्या०, रो०। ४
 अगतं-रो०। ५ यथात्तना-सी०। ६. विकम्पन्ति-रो०। ७ अज्झत्तं च-स्या०, रो०।
 ८-८ सदन्तो-सी०, सुदन्तो स्या०, रो०।

उपेक्खको सदा ति । सदा सब्बदा सब्बकालं निच्चकालं धुवकालं ...पे०... पच्छिमे वयोखन्धे । सतो ति । चतूहि कारणेहि सतो — काये कायानुपस्सना सतिपट्टानं भावेन्तो सतो, वेदनासु ... चित्ते ... धम्मेषु धम्मानुपस्सनासतिपट्टानं भावेन्तो सतो ...पे० . सो वुच्चति सतो ति — उपेक्खको सदा सतो ।

5

न लोके मञ्जते समं ति । “सदिसोहमस्मी” ति मानं न जनेति जातिया वा गोत्तेन वा ...पे०... अञ्जतरञ्जतरेन वा वत्थुना ति — न लोके मञ्जते समं ।

न विसेसी न नीचेय्यो ति । “सेय्योहमस्मी” ति अतिमानं न जनेति जातिया वा गोत्तेन वा . पे०... अञ्जतरञ्जतरेन वा वत्थुना । 10
“हीनोहमस्मी” ति ओमानं न जनेति जातिया वा गोत्तेन वा ...पे०.. अञ्जतरञ्जतरेन वा वत्थुना ति — न विसेसी न नीचेय्यो ।

तस्स नो सन्ति उस्सदा ति । तस्सा ति । अरहतो खीणासवस्स । उस्सदा ति । सत्तुस्सदा — रागुस्सदो दोसुस्सदो मोहुस्सदो मानुस्सदो विट्ठुस्सदो किलेसुस्सदो कम्मस्सदो । तस्सिमे उस्सदा नत्थि न सन्ति 15
न संविज्जन्ति नुपलभन्ति, पहीना समुच्छिन्ना वूपसन्ता पटिपस्सद्धा अभब्बुप्पत्तिका षाण्णगिना दड्ढा ति — तस्स नो सन्ति उस्सदा । तेनाह भगवा —

“उपेक्खको सदा सतो, न लोके मञ्जते समं ।

न विसेसी न नीचेय्यो, तस्स नो सन्ति उस्सदा” ति ॥ 20

११. यस्स निस्सयता नत्थि, अत्वा धम्मं अनिस्सितो ।

B. 189

भवाय विभवाय वा^१, तण्हा यस्स न विज्जति ॥

यस्स निस्सयता नत्थी ति । यस्सा ति । अरहतो खीणा-सवस्स । निस्सया ति । द्वे निस्सया — तण्हानिस्सयो च दिट्ठिनिस्सयो च . पे०... अयं तण्हानिस्सयो ...पे०... अयं दिट्ठिनिस्सयो । तस्स तण्हा- 25
निस्सयो पहीनो, दिट्ठिनिस्सयो पटिनिस्सट्ठो; तण्हानिस्सयस्स पही-नत्ता दिट्ठिनिस्सयस्स पटिनिस्सट्ठत्ता निस्सयता यस्स नत्थि न सन्ति

R. 246

न संविज्जति नुपलब्धति, पहीना समुच्छिन्ना वूपसन्ता पटिपस्सद्धा अभब्बुप्पत्तिका आणगिना दड्ढा ति - यस्स निस्सयता नत्थि ।

अत्वा धम्मं अनिस्सितो ति । अत्वा ति । अत्वा जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा, "सब्बे सङ्खारा अनिच्चा" ति अत्ता जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा, "सब्बे सङ्खारा दुक्खा" ति ... "सब्बे धम्मा अनत्ता" ति ... पे०... "यं किञ्चि समुदयधम्मं सब्बं तं निरोधधम्मं" ति अत्वा जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा । अनिस्सितो ति । द्वे निस्सया - तण्हानिस्सयो च दिट्ठिनिस्सयो च ... पे०...
 5 अयं तण्हानिस्सयो ... पे०... अयं दिट्ठिनिस्सयो । तण्हानिस्सयं पहाय दिट्ठिनिस्सयं पटिनिस्सज्जित्वा चक्खुं अनिस्सितो, सोतं अनिस्सितो, धानं अनिस्सितो, जिह्वं अनिस्सितो, कायं अनिस्सितो, मनं अनिस्सितो, रूपे ..सद्वे...गन्धे...रसे...फोट्टुब्बे...कुलं...गणं...आवासं...पे०...दिट्ठसुतमुत-
 10 विञ्जातद्धे धम्मे अनिस्सितो अनल्लीनो अनुपगतो अनज्झोसितो अनधिमुत्तो निक्खन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसञ्जुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरती ति - अत्वा धम्मं अनिस्सितो ।

भवाय विभवाय वा तण्हा यस्स न विज्जती ति । तण्हा ति । रूपतण्हा सद्दतण्हा गन्धतण्हा रसतण्हा फोट्टुब्बतण्हा धम्मतण्हा । यस्सा ति । अरहतो खीणासवस्स । भवाया ति । भवदिट्ठिया । विभ-
 20 वाया ति । विभवदिट्ठिया । भवाया ति । सस्सतदिट्ठिया । विभवाया ति । उच्छेददिट्ठिया । भवाया ति । पुनप्पुनभवाय पुनप्पुनगतिया पुन-
 पुनउपपत्तिया पुनप्पुनपटिसन्धिया पुनप्पुनअत्तभावाभिनिब्बत्तिया । तण्हा यस्स नत्थि न सन्ति न संविज्जति नुपलब्धति, पहीना समु-
 25 च्छिन्ना वूपसन्ता पटिपस्सद्धा अभब्बुप्पत्तिका आणगिना दड्ढा ति - भवाय विभवाय वा तण्हा यस्स न विज्जति । तेनाह भगवा -

"यस्स निस्सयता नत्थि, अत्वा धम्मं अनिस्सितो ।

भवाय विभवाय वा, तण्हा यस्स न विज्जती" ति ॥

१२. तं भूमि उपसन्तो ति, कामेसु अनपेक्खनं ।
 गन्था तस्स न विज्जन्ति, अतरी' सो विसत्तिकं ॥

तं ब्रूमि उपसन्तो ति । उपसन्तो वूपसन्तो निव्वुतो पटि-
पस्सद्धो ति । तं ब्रूमि तं कथेमि तं भणामि तं दीपयामि तं वोह-
रामी ति — तं ब्रूमि उपसन्तो ति ।

कामेसु अनपेक्खिनं ति । कामा ति । उद्दानतो द्वे कामा —
वत्थुकामा च किलेसकामा च ...पे०... इमे वुच्चन्ति वत्थुकामा ..पे०... 5
इमे वुच्चन्ति किलेसकामा । वत्थुकामे परिजानित्वा, किलेसकामे
पहाय पजहित्वा विनोदेत्वा' ब्यन्ति करित्वा अनभावं गमेत्वा
कामेसु अनपेक्खिनो वीतकामो चत्तकामो वन्तकामो मुत्तकामो पहीन-
कामो पटिनिस्सट्टुकामो, कामेसु' वीतरागो विगतरागो चत्तरागो
वन्तरागो मुत्तरागो पहीनरागो पटिनिस्सट्टुरागो निच्छातो निव्वुतो 10
सीतिभूतो सुखप्पटिसंवेदी ब्रह्मभूतेन अत्तना विहरती ति — कामेसु
अनपेक्खिनं ।

गन्था तस्स न विज्जन्ती ति । गन्था । ति । चत्तारो गन्था —
अभिज्झा कायगन्थो, ब्यापादो कायगन्थो, सीलब्बतपरामासो कायगन्थो,
इदंसच्चाभिनिवेसो कायगन्थो । अत्तनो दिट्ठिया रागो अभिज्झा 16 R 247
कायगन्थो, परवादेसु आघातो अप्पच्चयो ब्यापादो कायगन्थो,
अत्तनो सील वा वत वा सीलब्बतं वा परामासो' सीलब्बतपरामासो
कायगन्थो, अत्तनो दिट्ठि इदंसच्चाभिनिवेसो कायगन्थो । तस्सा ति ।
अरहतो खीणासवस्स । गन्था तस्स न विज्जन्ती ति । गन्था तस्स
नत्थि न सन्ति न संविज्जन्ति नुपलट्ठन्ति, पहीना समुच्छिन्ना वूप- 20
सन्ता पटिपस्सद्धा अभव्वुप्पत्तिका आणग्गिना दद्धा ति — गन्था तस्स
न विज्जन्ति ।

अतरी सो विसत्तिकं ति । विसत्तिका वुच्चति तप्हा । यो
रागो सारागो . पे० . . अभिज्झा लोभो अकुसलमूलं । विसत्तिका ति ।
केनट्टेन' विसत्तिका ? विसता ति विसत्तिका, विसाला ति विसत्तिका, 25 B 191
विसटा' ति विसत्तिका, विसमा ति विसत्तिका, विसक्कती ति विस-
त्तिका, विसंहरती ति विसत्तिका, विसंवादिका ति विसत्तिका, विस-
मूला ति विसत्तिका, विसफला ति विसत्तिका, विसपरिभोगा ति

१ विनोदित्वा — सी०, स्या०, रो०, एवमुपरि पि । २ स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि ।
३ परामसति — सी०, स्या०, रो० । ४ केनत्थेन — स्या०, रो० । ५ विसट्टा — रो० ।

विसत्तिका, विसाला वा पन सा तण्हा रूपे ... सद्दे .. गन्धे .. रसे.
 फोट्टब्बे ... कुले ... गणे ... आवासे ... पे० ... विट्ठसुतमुतविञ्जातब्बेसु धम्मेषु
 विसत्तं' वित्थता ति विसत्तिका। अतरी सो विसत्तिकं ति। सो इमं
 विसत्तिकं तण्हं अतरि उत्तरि पतरि' समत्तिकमि वीतिवत्ती ति-
 5 अतरी सो विसत्तिकं। तेनाह भगवा -

“तं बूमि उपसन्तो ति, कामेषु अनपेक्खनं।

गन्था तस्स न विज्जन्ति, अतरी सो विसत्तिकं” ति ॥

९३. न तस्स पुत्ता पसवो, खेतं वत्थुं च विज्जति।

अत्ता' वा पि निरत्ता' वा, न तस्मि उपलब्भति ॥

10 न तस्स पुत्ता पसवो खेतं वत्थुं च विज्जती ति। ना ति।
 पटिक्खेपो। तस्सा ति। अरहतो खीणासवस्स। पुत्ता ति। चत्तारो
 पुत्ता - अत्तजो पुत्तो, खेतजो पुत्तो, विन्नको पुत्तो, अन्तेवासिको पुत्तो।
 पसवो ति। अजेळका कुक्कुटसूकरा हत्थिगवास्सवळवा'। खेतं ति।
 सालिखेतं वीहिखेतं मुग्गखेतं मासखेतं यवखेतं गोधुमखेतं तिल-
 15 खेतं। वत्थुं ति। धरवत्थुं कोट्टवत्थुं पुरेवत्थुं पच्छावत्थुं आरामवत्थुं
 विहारवत्थुं। न तस्स पुत्ता पसवो खेतं वत्थुं च विज्जती ति। तस्स
 पुत्तपरिग्गहो वा पसुपरिग्गहो वा खेतपरिग्गहो वा वत्थुपरिग्गहो वा
 नत्थि न सन्ति न संविज्जन्ति नुपलब्भन्ति, पहीना समुच्छिन्ना
 वूपसन्ता पटिपस्सद्धा अभब्बुप्पत्तिका आणग्गिना दड्ढा ति - न
 20 तस्स पुत्ता पसवो खेतं वत्थुं च विज्जति।

अत्ता वा पि निरत्ता वा न तस्मि उपलब्भती ति। अत्ता ति।
 अत्तदिट्ठि। निरत्ता ति। उच्छेददिट्ठि। अत्ता ति। गहितं नत्थि।
 निरत्ता ति। मुञ्चितब्बं नत्थि। यस्स नत्थि गहितं तस्स नत्थि
 मुञ्चितब्बं। यस्स नत्थि मुञ्चितब्बं तस्स नत्थि गहितं। गाहमुञ्चन-
 25 समत्तिकन्तो' अरहा बुद्धिपरिहानिबीतिवत्तो। सो बुट्टवासो चिण्ण-
 चरणो .. पे० ... जातिमरणसंसारो नत्थि तस्स पुनब्भवो ति - अत्ता
 वा पि निरत्ता वा न तस्मि उपलब्भति। तेनाह भगवा -

१ विसटा - स्या०, रो०। २ पतरि - स्या०, रो०। ३ अत - स्या०, रो०। ४
 निरत्तं - स्या०, रो०; एवमुपरि पि। ५ हत्थिगावात्म० - म०। ६ गोधुमखेत - नी०, रो०,
 गोधुमखेत - स्या०। ७ गहणमुञ्चन० - स्या०, रो०।

“न तस्स पुत्ता पसवो, खेतं वत्थुं च विज्जति ।
अत्ता वा पि निरत्ता वा, न तस्मि उपलब्धती” ति ॥

B. 192

१४. येन नं वज्जुं पुथुज्जना, अथो समणब्राह्मणा ।
तं तस्स अपुरक्खतं, तस्मा वादेसु नेजति ॥

येन नं वज्जुं पुथुज्जना अथो समणब्राह्मणा ति । पुथुज्जना 5 R. 249
ति' । पुथु किलेसे जनेन्ती ति पुथुज्जना, पुथु अविहतसक्कायदिट्ठिका
ति पुथुज्जना, पुथु सत्थारानं मुखुल्लोकिका ति पुथुज्जना, पुथु सब्ब-
गतीहि अवुट्ठिता' ति पुथुज्जना, पुथु नानामिसङ्खारे अभिसङ्खारोन्ती
ति पुथुज्जना, पुथु नानाओवेहि बृहन्ती ति पुथुज्जना, पुथु नानासन्ता-
पेहि सन्तप्पेन्ती ति पुथुज्जना, पुथु नानापरिळाहेहि परिड्यहन्ती ति 10
पुथुज्जना, पुथु पञ्चसु कामगुणेषु रत्ता गिद्धा गधिता मुच्छिता
अज्झोसन्ना लग्गा लग्गिता पल्लिबुद्धा ति पुथुज्जना, पुथु पञ्चहि नीव-
रणेहि आवुत्ता निवुत्ता ओवुत्ता' पिहिता पटिच्छन्ना पटिकुज्जिता ति -
पुथुज्जना । समणा ति । ये केचि इतो बहिद्धा परिब्बजूपगता' परि-
ब्बजसमापन्ना । ब्राह्मणा ति । ये केचि भोवादिका । येन नं वज्जुं 15
पुथुज्जना अथो समणब्राह्मणा ति । पुथुज्जना येन तं रागेन वदेय्युं,
येन दोसेन वदेय्यु, येन मोहेन वदेय्यु, येन मानेन वदेय्युं, याय दिट्ठिया
वदेय्युं, येन उद्धच्चेन वदेय्युं, याय विचिकिच्छाय वदेय्युं, येहि अनु-
सयेहि वदेय्यु, रत्तो ति वा दुट्ठो ति वा मूळ्हो ति वा विनिबद्धो
ति वा परामट्ठो ति वा विक्खेपगतो ति वा अनिट्ठङ्गतो ति वा 20
थामगतो ति वा ते अभिसङ्खारा पहीना; अभिसङ्खारानं पहीनत्ता
गत्तिया' येन तं वदेय्युं - नेरयिको ति वा तिरच्छानयोनिको ति वा
पेत्तिविसयिको ति वा मनुस्सो ति वा देवो ति वा रूपी ति वा
अरूपी ति वा सञ्जी ति वा असञ्जी ति वा नेवसञ्जीनासञ्जी ति
वा । सो हेतु नत्थि पच्चयो नत्थि कारणं नत्थि येन नं वदेय्युं कथेय्युं 25
भण्येय्यु दीपयेय्यु वोहरेय्यु ति - येन नं वज्जु पुथुज्जना अथो समण-
ब्राह्मणा ।

१ स्या०, रो० पोत्यकेषु नत्थि । २ अपुरेक्खत - सी०, स्या०, रो० । ३. ति केनत्थेन
पुथुज्जना ति - स्या०, रो० । ४ आवुत्ता - स्या०, रो० । ५ ओफुटा - स्या०, ओफुता -
रो० । ६ परिब्बजूपगता - सी०, परिब्बजु० - स्या०, रो० । ७. गत्तियो - स्या० ।

R. 250

B. 193

तं तस्स अपुरक्खतं ति । तस्सा ति । अरहतो खीणासवस्स ।
पुरेक्खारा ति । द्वे पुरेक्खारा - तण्हापुरेक्खारो च दिट्ठिपुरेक्खारो च
..पे० .अयं तण्हापुरेक्खारो ...पे०...अयं दिट्ठिपुरेक्खारो । तस्स तण्हा-
पुरेक्खारो पहीनो, दिट्ठिपुरेक्खारो पटिनिस्सट्ठो; तण्हा पुरेक्खारस्स
७ पहीनत्ता, दिट्ठिपुरेक्खारस्स पटिनिस्सट्ठत्ता न तण्ह वा दिट्ठि वा पुरतो
३ कत्वा चरति, न तण्हाघजो न तण्हाकेतु न तण्हाधिपतेय्यो, न दिट्ठि-
घजो न दिट्ठिकेतु न दिट्ठाधिपतेय्यो, न तण्हाय वा न दिट्ठिया वा
परिवारितो चरती ति - तं तस्स अपुरक्खतं ।

तस्मा वादेसु नेजती ति । तस्मा ति । तस्मा तकारणा तंहेतु
10 तप्पच्चया तनिदाना वादेसु उपवादेसु निन्दाय गरहाय अकित्थिया
अवण्णहारिकाय नेजति न इञ्जति' न चलति न वेधति नप्पवेधति
न सम्पवेधती ति - तस्मा वादेसु नेजति । तेनाह भगवा -

‘येन नं वज्जु पुथुज्जना, अथो समणन्नाह्वाणा ।

तं तस्स अपुरक्खत, तस्मा वादेसु नेजती’ ति ॥

16

९५. वीतगेधो अमच्छरी, न उस्सेसु' वदते मुनि ।

न समेसु न ओमेषु, कप्पं नेति अकप्पियो ॥

वीतगेधो अमच्छरी ति । गेधो वुच्चति तण्हा । यो रागो
सारागो . पे० . अभिज्झा लोभो अकुसलमूलं । यस्सेसो गेधो पहीनो
समुच्छिन्नो वूपसन्तो पटिपस्सट्ठो अभब्बुप्पत्तिको आणग्गिना दङ्को,
20 सो वुच्चति वीतगेधो । सो रूपे अगिद्धो ...पे०... दिट्ठिसुतमुतविञ्जातब्बेसु
धम्मेषु अगिद्धो अगधितो अमुच्छित्तो अनज्जोसित्तो, वीतगेधो विगत-
गेधो' चत्तगेधो वन्तगेधो मुत्तगेधो पहीनगेधो पटिनिस्सट्ठगेधो निञ्छातो
R. 251 . पे० . ब्रह्माभूतेन अत्तना विहरती ति - वीतगेधो । अमच्छरी ति ।
मच्छरियं ति पञ्च मच्छरियानि - आवासमच्छरिय, कुलमच्छरिय,
25 लाभमच्छरियं, वण्णमच्छरियं, धम्ममच्छरियं । य एवरूप . पे० ..
गाहो - इदं वुच्चति मच्छरियं । यस्सेत मच्छरियं पहीन समुच्छिन्न
वूपसन्तं पटिपस्सट्ठ अभब्बुप्पत्तिकं आणग्गिना दङ्को, सो वुच्चति
अमच्छरी ति - वीतगेधो अमच्छरी ।

१ एजति - स्या०, रो० । २ ओस्सेसु - स्या०, रो० । ३ स्या०, रो० पोत्थकेसु
नत्थि ।

न उस्सेसु वदते मुनि न समेसु न ओमेसू ति । मुनी ति ।
मोनं वुच्चति षाणं...पे०...सङ्गजालमतिच्च सो मुनि । “सेव्योहमस्मी”
ति वा, “सदिसोहमस्मी” ति वा, “हीनोहमस्मी” ति वा न वदति
न कथेति न भणति न दीपयति न वोहरती ति - न उस्सेसु वदते
मुनि न समेसु न ओमेसू ।

5

कप्यं नेति अकप्पियो ति । कप्पा ति । द्वे कप्पा - तण्हाकप्पो
च दिट्ठिकप्पो च ..पे० ..अयं तण्हाकप्पो ...पे०...अयं दिट्ठिकप्पो । तस्स
तण्हाकप्पो पहीनो, दिट्ठिकप्पो पटिनिस्सट्ठो; तण्हाकप्पस्स पहीनत्ता,
दिट्ठिकप्पस्स पटिनिस्सट्ठत्ता तण्हाकप्यं वा दिट्ठिकप्यं वा नेति न उपेति
न उपगच्छति न गण्हाति न परामसति नाभिनिविसती ति - कप्यं 10
नेति । अकप्पियो ति । कप्पा ति । द्वे कप्पा - तण्हाकप्पो च दिट्ठिकप्पो
च ...पे० .. अयं तण्हाकप्पो ...पे० अयं दिट्ठिकप्पो । तस्स तण्हाकप्पो
पहीनो, दिट्ठिकप्पो पटिनिस्सट्ठो, तस्स तण्हाकप्पस्स पहीनत्ता,
दिट्ठिकप्पस्स पटिनिस्सट्ठत्ता तण्हाकप्यं वा दिट्ठिकप्यं वा न कप्पेति
न जनेति न सञ्जनेति न निब्बत्तेति नाभिनिब्बत्तेती ति - कप्यं 15
नेति अकप्पियो । तेनाह भगवा -

B. 194

“वीतगेधो अमच्छरी, न उस्सेसु वदते मुनि ।

न समेसु न ओमेसू, कप्यं नेति अकप्पियो” ति ॥

१६. यस्स लोके सकं नत्थि, असता च न सोचति ।

धम्मेसु च न गच्छति, स वे सन्तो ति वुच्चति ॥ 20

यस्स लोके सकं नत्थी ति । यस्सा ति । अरहतो खीणासवस्स ।
लोके^१ सकं नत्थी ति । तस्स मय्हं वा इदं परेसं वा इदं ति किञ्चि
रूपगतं वेदनागतं सञ्जागतं सङ्खारगतं विञ्जाणगतं, गहितं परा-
मट्ठं अभिनिविट्ठं अज्झोसितं अधिमुत्तं, नत्थि न सन्ति ..पे०... षाण-
गिना दड्ढं ति - यस्स लोके सकं नत्थि । असता च न सोचती ति । 25
विपरिणतं वा वत्थुं न सोचति, विपरिणतस्मि वा वत्थुस्मि न
सोचति । चक्खु मे विपरिणतं ति न सोचति । सोतं मे ... धानं मे ...
जिह्वा मे .. कायो मे . मनो मे ... रूपा मे ... सद्दा मे ... गन्धा मे ... रसा मे

B. 252

१ मुनिसेव्यो० - स्या०, रो० । २ स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि ।

... फोट्टुवा मे ... कुलं मे .. गणो मे ... आवासो मे . ऋभोमे .. यमो मे ..
 पसंसा मे ... सुखं मे ... चीवरं मे .. पिण्डपातो मे .. सेनासन मे . गिलान-
 पच्चयमेसज्जपरिक्खारो मे ... माना मे . पिता मे . भान्ना मे . भगिनी
 मे ... पुत्तो मे ... धीता मे ... मित्ता मे ... अमच्चा मे . आतका मे .. मालो-
 5 हिना मे विपरिणता ति न सोचति न किलमति न परिदेवति न उर-
 त्ताळि कन्दति न सम्मोहं आपज्जती ति । एवं पि असता च न
 सोचति ।

B. 195

अथ वा, असन्ताय' दुक्खाय वेदनाय फुट्टो परेतो समोहितो
 समन्नागतो न सोचति न किलमति न परिदेवति न उरत्ताळि कन्दति
 10 न सम्मोहं आपज्जति । चक्खुरोगेन फुट्टो परेतो समोहितो समन्ना-
 गतो न सोचति न किलमति न परिदेवति न उरत्ताळि कन्दति न
 सम्मोहं आपज्जति । सोत्तरोगेन ... धानरोगेन ... जिह्वारोगेन .. काय-
 रोगेन ... सीसरोगेन .. कण्णरोगेन ... मुखरोगेन ... दन्तरोगेन ... कासेन ...
 सासेन .. पिनासेन .. डाहेन ... जरेन .. कुच्छिरोगेन ... मुच्छाय .. पक्ख-
 15 न्दिकाय ... सूलेन' ... विसूचिकाय .. कुट्टेन .. गण्डेन ... किलासेन ..
 सोसेन ... अपमारेन ... द्दुदुया' ... कण्डुया ... कच्छुया . रखसाय' .
 वितच्छिकाय ... लोहितेन ... पित्तेन ... मधुमेहेन . असाय ... पिण्डकाय
 भगन्दलेन ... पित्तसमुद्धानेन आवावेन .. सेम्हसमुद्धानेन आवावेन .
 वातसमुद्धानेन आवावेन ... सन्निपातिकेन आवावेन . उत्तुपरिणामजेन
 20 आवावेन ... विसमपरिहारजेन आवावेन ... ओपक्कमिकेन आवावेन
 कम्मविपाकजेन आवावेन ... सीतेन ... उण्हेन ... जिघच्छाय .. पिपासाय'
 .. ङंसमकसवातातपसरीसपसम्फस्सेहि फुट्टो परेतो समोहितो समन्नागतो
 न सोचति न किलमति न परिदेवति न उरत्ताळि कन्दति न सम्मोहं
 आपज्जती ति । एवं पि असता च न सोचति ।

: 233

25 अथ वा, असन्ते असंविज्जमाने अनपलम्भमाने -- "अहो वत
 मे तं नत्थि, सिया वत मे तं, तं वताहं न च लभामी" ति न
 सोचति न किलमति न परिदेवति न उरत्ताळि कन्दति न सम्मोहं
 आपज्जती ति । एवं पि असता च न सोचति । धम्मसेसु च न गच्छती

१. असाय - सी०, रो०; असाय - स्या० । २. मूलाय - सी०, स्या०, रो० । ३.
 द्दुदुया - रो० । ४. रखसाय - सी० । ५. एत्थ 'उच्छारेण पत्तावेन' इति स्या०, ग० । ६. गेत्थेत्थे
 अचिन्तो पाठो विल्लिपि । ७. तं तं वत मे - नी०, स्या०, रो० ।

ति। न छन्दागतिं गच्छति, न दोसागतिं गच्छति, न मोहागतिं गच्छति, न भयागतिं गच्छति, न रागवसेन गच्छति, न दोसवसेन गच्छति, न मोहवसेन गच्छति, न मानवसेन गच्छति, न दिट्टिवसेन गच्छति, न उद्धच्चवसेन गच्छति, न विचिकिच्छावसेन गच्छति, न अनुसयवसेन गच्छति न च' वग्गेहि धम्मोहि यायति नीयति बुहति 5
संहरीयती ति - धम्मेषु च न गच्छति।

स वे सन्तो ति बुच्चती ति। सो सन्तो उपसन्तो वूपसन्तो निब्बुतो पटिपस्सद्धो ति बुच्चति पबुच्चति' कथीयति भणीयति दीपी-
यति वोहरीयती ति - स वे सन्तो ति बुच्चति। तेनाह भगवा -

R 254

“यस्स लोके सकं नत्थि, असता च न सोचति। 10

B 196

धम्मेषु च न गच्छति, स वे सन्तो ति बुच्चती” ति ॥

पुराभेदसुत्तनिद्देशो दसमो ।

११. कलहविवादसुत्तनिद्देशो

अथ कलहविवादसुत्तनिद्देशं वक्खति -

१७. कुतोपहृता कलहा विवादा,
परिदेवसोका सहमच्छरा च ।
मानातिमाना सहपेसुणा च,
कुतोपहृता ते तदिद्धं ब्रूहि ॥

R. 255

15

कुतोपहृता कलहा विवादा ति। कलहो ति। एकेन आकारेण कलहो^१, विवादो ति पि तञ्जेव। यो कलहो सो विवादो, यो विवादो सो कलहो। अथ वा, अपरेण आकारेण विवादो बुच्चति कलहस्स पुब्बभागो विवादो। राजानो पि राजूहि विवदन्ति, खत्तिया 20
पि खत्तियेहि विवदन्ति, ब्राह्मणा पि ब्राह्मणेहि विवदन्ति, गहपती^३ पि गहपतीहि विवदन्ति, माता पि पुत्तेन विवदति, पुत्तो पि मातरा विवदति, पिता पि पुत्तेन विवदति, पुत्तो पि पितरा विवदति, भाता पि भातरा विवदति,^{*} भाता पि भगिनिया विवदति, भगिनी पि

१ स्या०, रो० पोत्यकेषु नत्थि। २ कलहो पि - स्या०, रो०। ३ गहपतिका - रो०। * भगिनी पि भगिनिया विवदती ति स्या० पोत्यके अधिको पाठो दिस्सति।

भातरा विवदति, सहायो पि सहायेन विवदति—अयं विवादो।
कतमो कलहो? आगारिका' दण्डपसुता' कायेन वाचाय कलहं
करोन्ति, पव्वजिता आपत्ति' आपज्जन्ता कायेन वाचाय कलहं
करोन्ति—अयं कलहो।

R. 266

5

कुतोपहूता कलहा विवादा ति। कलहा च विवादा च कुतो-
पहूता कुतोजाता कुतोसञ्जाता कुतोनिव्वत्ता कुतोअभिनिव्वत्ता
कुतोपातुभूता, किंनिदाना किंसमुदया किंजातिका किंपभवा ति कलहस्स
च विवादस्स च मूलं पुच्छति, हेतुं पुच्छति, निदानं पुच्छति, सम्भवं
पुच्छति, पभवं पुच्छति, समुद्धानं पुच्छति, आहार पुच्छति, आरम्मणं
B. 197 10 पुच्छति, पच्चयं पुच्छति, समुदयं पुच्छति पपुच्छति याचति अज्जे-
सति' पसादेती ति—कुतोपहूता कलहा विवादा।

परिदेवसोका सहमच्छरा चा ति। परिदेवो ति। आति-
व्यसनेन वा फुट्टस्स, भोगव्यसनेन वा फुट्टस्स, रोगव्यसनेन वा फुट्टस्स,
सीलव्यसनेन वा फुट्टस्स, दिट्ठिव्यसनेन वा फुट्टस्स, अञ्जतरञ्जतरेन
15 वा व्यसनेन समन्नागतस्स, अञ्जतरञ्जतरेन वा दुक्खधम्मेन फुट्टस्स,
आदेवो परिदेवो, आदेवना परिदेवना, आदेवितत्तं परिदेवितत्तं, वाचा
पलापो विप्लापो लालप्पो लालप्पायना लालप्पायितत्तं। सोको ति।
आतिव्यसनेन वा फुट्टस्स, भोग-रोग-सील-दिट्ठिव्यसनेन वा फुट्टस्स,
अञ्जतरञ्जतरेन वा व्यसनेन समन्नागतस्स, अञ्जतरञ्जतरेन वा
20 दुक्खधम्मेन फुट्टस्स, सोको सोचना सोचितत्तं, अन्तोसोको अन्तोपरि-
सोको, अन्तोडाहो अन्तोपरिडाहो, चेतसो परिज्झायना दोमनस्स
सोकसल्ल। मच्छरं' ति। पञ्च मच्छरियाणि—आवासमच्छरियं,
कुलमच्छरियं, लाभमच्छरियं, वण्णमच्छरियं, धम्ममच्छरियं। यं
एवरूपं मच्छरियं मच्छरायनं' मच्छरायितत्तं वेविच्छं कदरियं कट्ट-
25 कञ्चुकता' अगाहितत्तं चित्तस्स—इदं वुच्चति मच्छरियं। अपि च,
खन्धमच्छरियं पि मच्छरियं, धातुमच्छरियं पि मच्छरियं, आयतन-
मच्छरियं पि मच्छरियं गाहो। इदं वुच्चति मच्छरियं ति—परि-
देवसोका सहमच्छरा च।

R. 267

१ आगारिका—सी०। २ रत्नपसुता—स्या०, रो०। ३ अज्जोसति—सी०। ४
मच्छरियं—स्या०, रो०। ५ रो० पोत्यके नत्थि। ६ मच्छरायना—सी०, स्या०, रो०
७ कट्टकञ्चुकता—स्या०, रो०। ८ सी०, रो० पोत्यकेषु नत्थि।

मानातिमाना सहपेसुणा चा ति । मानो ति । इधेकच्चो मान
 जनेति जातिया वा गोत्तेन वा कोलपुत्तियेन^१ वा वण्णपोक्खरताय वा
 घनेन वा अज्जेनेन वा कम्मायतनेन वा सिप्पायतनेन वा विज्जाट्टानेन^२
 वा सुतेन वा पटिभानेन वा अञ्चतरञ्चतरेन वा वत्थुना । अति-
 मानो ति । इधेकच्चो परं^३ अतिमञ्चति जातिया वा गोत्तेन वा ...पे०... 5
 अञ्चतरञ्चतरेन वा वत्थुना । पेसुञ्चं ति । इधेकच्चो पिसुणवाचो
 होति - इतो सुत्वा अमुत्र अक्खाता इमेसं भेदाय, अमुत्र वा सुत्वा
 इमेसं अक्खाता अमुसं भेदाय । इति समग्गानं वा भेत्ता, भिन्नानं वा
 अनुप्पदाता, वग्गारामो वग्गरतो वग्गनन्दी वग्गकरणि वाचं भासिता
 होति - इदं वुच्चति पेसुञ्चं । अपि च, द्वीहि कारणेहि पेसुञ्चं उप- 10
 संहरति - पियकम्म्यताय वा भेदाधिप्पायेन^४ वा । कथं पियकम्म्यताय
 पेसुञ्चं उपसंहरति ? इमस्स पियो भविस्सामि, मनापो भविस्सामि,
 विस्सासिको भविस्सामि, अब्भन्तरिको भविस्सामि, सुहृदयो भवि-
 स्सामी ति - एवं पियकम्म्यताय पेसुञ्चं उपसंहरति । कथं भेदाधि-
 प्पायेन पेसुञ्चं उपसंहरति ? कथं इमे नाना अस्सु, विना अस्सु, 15
 वग्गा अस्सु, द्विघा^५ अस्सु, द्वेज्जा अस्सु, द्वे पक्खा अस्सु, भिज्जेय्युं न
 समागच्छेय्युं, दुक्खं न फासु विहरेय्यु ति - एवं भेदाधिप्पायेन
 पेसुञ्चं उपसंहरती ति - मानातिमाना सहपेसुणा च ।

B 198

कुतोपहृता ते तदिद्धं ब्रूही ति । कलहो च विवादो च
 परिदेवो च सोको च मञ्छरियं च मानो च अतिमानो च पेसुञ्च 20
 चा ति - इमे अट्ठ किलेसा कुतोपहृता कुतोजाता कुतोसञ्जाता
 कुतोनिव्वत्ता कुतोअभिनिव्वत्ता कुतोपातुभूता, किनिदाना किसमुदया
 किजातिका किपभवा ति । इमेसं अट्ठञ्चं किलेसानं मूलं पुच्छति, हेतु
 पुच्छति, निदान पुच्छति, सम्भवं पुच्छति, पभव पुच्छति, समुट्टानं
 पुच्छति, आहारं पुच्छति, आरम्मण पुच्छति, पच्चयं पुच्छति, 25
 समुदय पुच्छति पपुच्छति याचति अज्जेसति पसादेती ति - कुतो-
 पहृता ते तदिद्धं ब्रूही ति । इद्धं ब्रूहि आचिक्ख^६ देसेहि पञ्चपेहि

R 258

१ कोलपुत्तिकेन - स्या०, रो० । २ विज्जट्टानेन - स्या०, रो० । ३ अञ्च - स्या०,
 रो० । ४ भेदाधिप्पायो - सी०, स्या०, रो०, एवमुपरि पि । ५ द्वेवा - स्या०, रो० । ६
 आचिक्खाहि - स्या०, रो० ।

पट्टपेहि विवर विभज उत्तानीकरोहि पकासेही ति - कुतोपहूता ते तदिच्च ब्रूहि । तेनाह सो निम्मितो -

“कुतोपहूता कलहा विवादा,
परिदेवसोका सहमच्छरा च ।
5 मानातिमाना सहपेसुणा च,
कुतोपहूता ते तदिच्च ब्रूही” ति ॥

९८. पियप्पहूता कलहा विवादा,
परिदेवसोका सहमच्छरा च ।
मानातिमाना सहपेसुणा च,
10 मच्छेरयुत्ता कलहा विवादा ।
विवादजातेसु च पेसुणानि ॥

पियप्पहूता कलहा विवादा परिदेवसोका सहमच्छरा चा ति ।
पिया ति । द्वे पिया - सत्ता वा सङ्गारा वा । कतमे सत्ता पिया ?
B. 100 इध यस्स ते होन्ति अत्थकामा हितकामा फासुकामा योगक्खेमकामा
15 माता वा पिता वा भाता वा भगिनी वा पुत्तो वा धीता वा मिता
वा अमच्चा वा आती वा सालोहिता वा - इमे सत्ता पिया । कतमे
सङ्गारा पिया ? मनापिका रूपा मनापिका सद्दा मनापिका गन्धा
मनापिका रसा मनापिका फोडुब्बा - इमे सङ्गारा पिया ।

R. 25D

पियं वत्थु अच्चेदसङ्घिनो पि कलहं करोन्ति, अच्चिज्जन्ते
20 पि कलहं करोन्ति, अच्चिन्ने पि कलहं करोन्ति । पियं वत्थु विपरि-
णामसङ्घिनो पि कलहं करोन्ति, विपरिणामन्ते पि कलहं करोन्ति,
विपरिणते पि कलहं करोन्ति । पियं वत्थु अच्चेदसङ्घिनो पि विव-
दन्ति, अच्चिज्जन्ते पि विवदन्ति, अच्चिन्ने पि विवदन्ति । पियं वत्थु
विपरिणामसङ्घिनो पि विवदन्ति, विपरिणामन्ते पि विवदन्ति, विप-
25 रिणते पि विवदन्ति । पियं वत्थु अच्चेदसङ्घिनो पि परिदेवन्ति,
अच्चिज्जन्ते पि परिदेवन्ति, अच्चिन्ने पि परिदेवन्ति । पियं वत्थु
विपरिणामसङ्घिनो पि परिदेवन्ति, विपरिणामन्ते पि परिदेवन्ति,
विपरिणते पि परिदेवन्ति । पियं वत्थु अच्चेदसङ्घिनो पि सोचन्ति,
अच्चिज्जन्ते पि सोचन्ति, अच्चिन्ने पि सोचन्ति । पियं वत्थु विपरि-
30 णामसङ्घिनो पि सोचन्ति, विपरिणामन्ते पि सोचन्ति, विपरिणते पि

सोचन्ति । पियं वत्थु रक्खन्ति गोपेन्ति परिग्गप्हन्ति ममायन्ति मच्छरायन्ति ।

मानातिमाना सहपेसुणा चा ति । पियं वत्थुं निस्साय मानं जनेन्ति, पियं वत्थुं निस्साय अतिमानं जनेन्ति । कथं पियं वत्थुं निस्साय मानं जनेन्ति ? मयं लाभिनो मनापिकानं रूपानं सद्धानं गन्धानं रसानं फोट्टब्बानं ति । एवं पियं वत्थुं निस्साय मानं जनेन्ति । कथं पियं वत्थु निस्साय अतिमानं जनेन्ति ? मयं लाभिनो मनापिकानं रूपानं सद्धानं गन्धानं रसानं फोट्टब्बानं, इमे पनञ्जे' न लाभिनो मनापिकानं रूपानं सद्धानं गन्धानं रसानं फोट्टब्बानं ति । एवं पियं वत्थुं निस्साय अतिमानं जनेन्ति । पेसुञ्जं ति । इधेकच्चो पिसुणवाचो होति, इतो सुत्वा अमुत्र अक्खाता इमेसं भेदाय ...पे०... एवं भेदाधिप्यायेन पेसुञ्जं उपसंहरती ति ...पे०... मानातिमाना सहपेसुणा च ।

मच्छेरयुत्ता कलहा विवादा ति । कलहो च विवादो च परिदेवो च सोको च मानो च अतिमानो च पेसुञ्जं चा ति - इमे सत्त किलेसा मच्छरिये युत्ता पयुत्ता आयुत्ता समायुत्ता ति - मच्छेरयुत्ता कलहा विवादा ।

विवादजातेसु च पेसुणानी ति । विवादे जाते सञ्जाते निब्बत्ते अभिनिब्बत्ते पातुभूते पेसुञ्जं उपसंहरन्ति; इतो सुत्वा अमुत्र अक्खायन्ति इमेसं भेदाय, अमुत्र वा सुत्वा इमेसं अक्खायन्ति अमूसं भेदाय । इति समग्गानं वा भेत्तारो', भिन्नानं वा अनुप्पदातारो', वग्गारामा वग्गरता वग्गान्दी वग्गकरणिं वाचं भासितारो' होन्ति - इदं वुच्चति पेसुञ्जं । अपि च द्वीहि कारणेहि पेसुञ्जं उपसंहरन्ति - पियकम्यताय वा भेदाधिप्यायेन वा । कथं पियकम्यताय पेसुञ्जं उपसंहरन्ति ? इमस्स पिया भविस्साम, मनापा भविस्साम, विस्सासिका भविस्साम, अब्भन्तरिका भविस्साम, सुहदया भविस्सामा ति । एवं पियकम्यताय पेसुञ्जं उपसंहरन्ति । कथं भेदाधिप्यायेन पेसुञ्जं उपसंहरन्ति ? "कथं इमे नाना अस्सु, विना अस्सु, वग्गा अस्सु, द्वेषा अस्सु, द्वेज्जभा अस्सु, द्वे पक्खा अस्सु,

१. पन - स्या०, रो० । २. भेत्ता - स्या०, रो० । ३. अनुप्पदाता - स्या०, रो० ।
४. भासिता - स्या०, रो० ।

भिज्जेय्युं न समागच्छेय्युं, दुक्खं न फासु विहरेय्युं” ति - एवं भेदाधि-
प्यायेन पेसुञ्जं उपसंहरन्ती ति - विवादजातेसु च पेसुणानि । तेनाह
भगवा -

“पियप्पहूता कलहा विवादा,
परिदेवसोका सहमच्छरा च ।
मानातिमाना सहपेसुणा च,
मच्छेरयुत्ता कलहा विवादा ।
विवादजातेसु च पेसुणानी” ति ॥

B. 261

१९. पिया सु लोकास्मि कुतोनिदाना,
ये चा पि लोभा विचरन्ति लोके ।
आसा च निट्ठा च कुतोनिदाना,
ये सम्परायाय नरस्स होन्ति ॥

पिया सु लोकास्मि^१ कुतोनिदाना ति । पिया कुतोनिदाना
कुतोजाता कुतोसञ्जाता कुतोनिब्वत्ता कुतोअभिनिब्वत्ता कुतोपातु-
भूता, किनिदाना किसमुदया किजातिका किपभवा ति पियान मूल
पुच्छति ...पे०. समुदयं पुच्छति पपुच्छति याचति अज्जेसति पसा-
देती ति - पिया सु लोकास्मि कुतोनिदाना ।

ये चा पि लोभा विचरन्ति लोके ति । ये चा पी ति ।
खत्तिया च ब्राह्मणा च वेस्सा च सुद्धा च गहट्ठा च पब्बजिता च
देवा च मनुस्सा च । लोभा ति । यो लोभो लुभना लुम्भितत
सारगो सारज्जना सारज्जितत अभिज्झा लोभो अकुसलमूलं ।
विचरन्ती ति । विचरन्ति विहरन्ति इरियन्ति वत्तन्ति पालेन्ति
यपेन्ति यापेन्ति । लोके ति । अपायलोके मनुस्सलोके देवलोके
खन्धलोके धातुलोके आयतनलोके ति - ये चा पि लोभा विचरन्ति
लोके ।

आसा च निट्ठा च कुतोनिदाना ति । आसा च निट्ठा च
कुतोनिदाना कुतोजाता कुतोसञ्जाता कुतोनिब्वत्ता कुतोअभिनिब्वत्ता
कुतोपातुभूता, किनिदाना किसमुदया किजातिका किपभवा ति

१ वा - स्या०, रो० । २ लोकास्मि - स्या०, एवमुपरि पि ।

आसाय च निद्राय च मूलं पुच्छति ...पे०... समुदयं पुच्छति पपुच्छति
याचति अज्भोसति पसादेती ति - आसा च निद्रा च कुतोनिदाना ।
ये सम्परायाय नरस्स होन्ती ति । ये नरस्स परायना होन्ति दीपा
होन्ति ताणा होन्ति लेणा होन्ति सरणा होन्ति निद्रा^१ परायना^१
होन्ती ति - ये सम्परायाय नरस्स होन्ति । तेनाह सो निम्मितो - 5

“पिया सु लोकस्मि कुतोनिदाना,
ये चा पि लोभा विचरन्ति लोके ।
आसा च निद्रा च कुतोनिदाना,
ये सम्परायाय नरस्स होन्ती” ति ॥

R. 262

१००. छन्दानिदानानि^१ पियानि लोके,
ये चा पि लोभा विचरन्ति लोके ।
आसा च निद्रा च इतोनिदाना,
ये सम्परायाय नरस्स होन्ति ॥

10

छन्दानिदानानि पियानि लोके ति । छन्दो ति । यो कामेसु
कामच्छन्दो कामरागो कामनन्दी^१ कामतण्हा कामस्नेहो^२ कामपरिच्छाहो 15
काममुच्छा कामज्भोसानं कामोघो कामयोगो कामुपादानं कामच्छन्द-
नीवरणं^३ । अपि च, पञ्च छन्दा - परियेसनच्छन्दो, पटिलाभच्छन्दो,
परिभोगच्छन्दो, सन्निधिच्छन्दो, विसज्जनच्छन्दो । कतमो परियेसन-
च्छन्दो ? इधेकच्चो अज्भोसितो येव अत्थिको छन्दजातो रूपे परि-
येसति, सद्दे ... गन्धे ... रसे ... फोटुब्बे परियेसति - अयं परियेसनच्छन्दो । 20
कतमो पटिलाभच्छन्दो ? इधेकच्चो अज्भोसितो येव अत्थिको छन्द-
जातो रूपे पटिलभति, सद्दे ... गन्धे ... रसे ... फोटुब्बे पटिलभति - अयं
पटिलाभच्छन्दो । कतमो परिभोगच्छन्दो ? इधेकच्चो अज्भोसितो येव
अत्थिको छन्दजातो रूपे परिभुञ्जति, सद्दे ... गन्धे ... रसे ... फोटुब्बे
परिभुञ्जति - अयं परिभोगच्छन्दो । कतमो सन्निधिच्छन्दो ? इधे- 25
कच्चो अज्भोसितो येव अत्थिको छन्दजातो घनसन्निधयं करोति
“आपदासु भविस्सती” ति - अयं सन्निधिच्छन्दो । कतमो विसज्जन-

B. 202

१-१ नरो निद्रा परायनो - स्या०, रो० । २ छन्दनिदानानि - सी० । ३ कामनन्दि -
स्या०, रो० । ४ कामविनेहो - सी०, रो०; एवमुपरि पि । ५ कामछन्द० - रो०, एवमु-
परि पि ।

B. 268

च्छन्दो? इधेकच्चो अज्भोसितो येव अत्थिको छन्दजातो धनं विस-
ज्जेति हत्थारोहानं अस्सारोहानं रथिकानं धनुग्माहानं पत्तिकानं
“इमे मं रक्खिस्सन्ति गोपिस्सन्ति सम्परिवारिस्सन्ती” ति—अयं
विसज्जनच्छन्दो। पियानी ति। द्वे पिया—सत्ता वा सङ्गारा वा
5 ...पे०... इमे सत्ता पिया ...पे०... इमे सङ्गारा पिया। छन्दानिदानानि
पियानि लोके ति। पिया छन्दनिदानां छन्दसमुदया छन्दजातिका
छन्दपभवा ति—छन्दानिदानानि पियानि लोके।

ये चा पि लोभा विचरन्ति लोके ति। ये चा पी ति। खत्तिया
च ब्राह्मणा च वेस्सा च सुद्धा च गहट्टा च पब्बजिता च देवा च मनुस्सा
10 च। लोभा ति। यो लोभो लुब्भना लुब्भित्तं सारागो सारज्जना
सारज्जित्तं अभिज्झा लोभो अकुसलमूलं। विचरन्ती ति। विचरन्ति
विहरन्ति इरियन्ति वत्तन्ति पालेन्ति यपेन्ति यापेन्ति। लोके ति।
अपायलोके ...पे०... आयतनलोके ति—ये चा पि लोभा विचरन्ति लोके।

आसा च निट्ठा च इतोनिदाना ति। आसा वुच्चति तण्हा।
15 यो रागो सारागो ...पे०... अभिज्झा लोभो अकुसलमूलं। निट्ठा ति।
इधेकच्चो रूपे परियेसन्तो रूपं पटिलभति, रूपनिट्ठो होति, सद्दे .
गन्धे ... रसे ... फोट्टब्बे ... कुलं ... गणं ... आवासं . लामं . यसं ... पसंसं...
सुखं ... चीवरं ... पिण्डपातं ... सेनासनं ... गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारं ..
सुत्तन्तं ... विनयं ... अभिघम्मं ... आरञ्चिकङ्गं .. पिण्डपातिकङ्गं ...
20 पंसुकूलिकङ्गं ... तेचीवरिकङ्गं ... सपदानचारिकङ्गं ... खलुपच्छाभत्तिकङ्गं
... नेसज्जिकङ्गं ... यथासन्थतिकङ्गं ... पठमं भानं ... द्रुतियं भानं ... ततियं
भानं ... चतुत्थं भानं ... आकासानञ्चायतनसमापत्तिं ... विञ्जाणञ्चाय-
तनसमापत्तिं ... आकिञ्चाञ्चायतनसमापत्तिं ... नेवसञ्चानासञ्चायतन-
समापत्तिं परियेसन्तो नेवसञ्चानासञ्चायतनसमापत्तिं पटिलभति,
25 नेवसञ्चानासञ्चायतनसमापत्तिनिट्ठो होति।

B. 269

आसाय कसते खेत्तं, बीजं आसाय वप्पति।
आसाय वाणिजा यन्ति, समुद्दं धनहारका।
याय आसाय तिट्ठामि, सा मे आसा समिज्झती ति॥

१. छन्दनिदाना पिया—रो०। २ लुब्भित्तं—सी०। ३ बीजं—त्या०, रो०। ४
साय—त्या०।

आसाय समिद्धि वृचते निट्टा । आसा च निट्टा च इतो-
निदाना ति । आसा च निट्टा च इतो छन्दनिदाना छन्दसमुदया छन्द-
जातिका छन्दपभवा ति - आसा च निट्टा च इतोनिदाना ।

R. 284

ये सम्परायाय नरस्स होन्ती ति । ये नरस्स परायणा
होन्ति दीपा होन्ति ताणा होन्ति लेणा होन्ति सरणा होन्ति निट्टा 5
परायणा होन्ती ति - ये सम्परायाय नरस्स होन्ति । तेनाह भगवा -

“छन्दानिदानानि पियानि लोके,
ये चा पि लोभा विचरन्ति लोके ।
आसा च निट्टा च इतोनिदाना,
ये सम्परायाय नरस्स होन्ती” ति ॥

10

१०१. छन्दो नु लोकास्मि कुतोनिदानो,
विनिच्छया चा' पि कुतोपहूता ।
कोधो मोसवज्जं च कथंकथा च,
ये चा पि धम्मा समणेन वुत्ता ॥

छन्दो नु लोकास्मि कुतोनिदानो ति । छन्दो कुतोनिदानो 15
कुतोजातो कुतोसञ्जातो कुतोनिब्वत्तो कुतोअभिनिब्वत्तो कुतोपातुभूतो,
किनिदानो किसमुदयो किजातिको किपभवा ति छन्दस्स मूलं पुच्छति
..पे०...समुदयं पुच्छति पपुच्छति याचति अज्जेसति पसादेती ति -
छन्दो नु लोकास्मि कुतोनिदानो ।

विनिच्छया चा पि कुतोपहूता ति । विनिच्छया कुतोपहूता 20
कुतोजाता कुतोसञ्जाता कुतोनिब्वत्ता कुतोअभिनिब्वत्ता कुतोपातु-
भूता, किनिदाना किसमुदया किजातिका किपभवा ति विनिच्छयानं
मूलं पुच्छति...पे०...समुदयं पुच्छति पपुच्छति याचति अज्जेसति पसा-
देती ति - विनिच्छया चा पि कुतोपहूता ।

B. 204

कोधो मोसवज्जं च कथंकथा चा ति । कोधो ति । यो एव- 25
रूपो' चित्तस्स आघातो पटिघातो, पटिघं' पटिविरोधो, कोपो पकोपो
सम्पकोपो, दोसो पदोसो सम्पदोसो, चित्तस्स व्यापत्ति मनोपदोसो,

R 266

१ वा - सी०, स्या०, रो०; एवमुपरि पि । २ स्या०, रो० पाल्यकेसु नत्थि । ३
पटिघं विरोधो - रो०

कोधो कुञ्जना कुञ्जितत्तं, दोसो दुस्सना दुस्सितत्तं, व्यापत्ति व्याप-
ज्जना व्यापज्जितत्तं, विरोधो पटिविरोधो, चण्डिककं असुरोपो' अनत्त-
मनता चित्तस्स। मोसवज्जं वुच्चति मुसावादो। कथं कथा वुच्चति
विचिकिच्छा ति - कोधो मोसवज्जं च कथं कथा च।

5 ये चा पि धम्मा समणेन वुत्ता ति। ये चा पी ति। ये
कोधेन च मोसवज्जेन च कथं कथाय च सहगता सहजाता ससट्ठा
सम्पयुत्ता, एकुप्पादा एकनिरोधा एकवत्थुका एकारम्मणा - इमे
वुच्चन्ति ये चा पि धम्मा। अथ वा, ये ते' किलेसा अञ्जजातिका
अञ्जविहितका' - इमे वुच्चन्ति ये चा पि धम्मा। समणेन वुत्ता
10 ति। समणेन समितपापेन ब्राह्मणेन बाहितपापधम्मेन' भिक्खुना
भिक्खकिलेसमूलेन सब्बाकुसलमूलबन्धना पमुत्तेन वुत्ता, पवुत्ता आचि-
क्खिता देसिता पञ्जापिता' पट्टपिता विवटा विभत्ता उत्तानीकता
पकासिता ति - ये चा पि धम्मा समणेन वुत्ता। तेनाह सो निम्मित्तो -

“छन्दो नु लोकास्मि कुतोनिदानो,
15 विनिच्छया चा पि कुतोपहूता।
कोधो मोसवज्जं च कथं कथा च,
ये चा पि धम्मा समणेन वुत्ता” ति ॥

१०२. सातं असातं ति यमाहु लोके,
तमूपनिस्साय पहोति छन्दो।
20 रूपेसु दिस्वा विभवं भवं च,
विनिच्छयं कुब्बति' जन्तु लोके ॥

सातं असातं ति यमाहु लोके ति। सातं ति। सुखा च
वेदना, इट्ठ च वत्थु। असातं ति। दुक्खा च वेदना, अनिट्ठ च वत्थु'।
B. 205 यमाहु लोके ति। य आहंसु यं कथेन्ति यं भणन्ति यं दीपेन्ति' यं
25 वोहरन्ती ति - सातं असातं ति यमाहु लोके।

R. 266 तमूपनिस्साय पहोति छन्दो ति। सातासात निस्साय, सुख-
दुक्ख निस्साय, सोमनस्सदोमनस्सं निस्साय, इट्ठानिट्ठ निस्साय, अनु-

१ असुरोपो - सी०, स्या०, रो०। २ वापी ति - स्या०, रो०। ३ अञ्जविहिता -
स्या०, रो०। ४ बाहितपापेन - स्या०, बाहितपापेन - रो०। ५ पञ्जापिता - स्या०, रो०।
६ कूस्ते - स्या०, रो०। ७ वत्थु - सी०, रो०। ८ दीपयन्ति - स्या०, रो०।

नयपटिघे निस्साय छन्दो' प्होति पभवति' जायति सञ्जायति निव्व-
त्तति अभिनिव्वत्तती ति - तमूपनिस्साय प्होति छन्दो।

रूपेसु दिस्वा विभवं भवं चा ति। रूपेसू ति। चत्तारो च
महाभूता चतुस्रं च महाभूतानं उपादाय रूपं। कतमो रूपानं भवो ?
यो रूपानं भवो जाति सञ्जाति निव्वत्ति अभिनिव्वत्ति पातुभावो -
अयं रूपानं भवो। कतमो रूपानं विभवो ? यो रूपानं खयो वयो
भेदो परिभेदो अनिच्चता अन्तरधानं - अयं रूपानं विभवो। रूपेसु
दिस्वा विभवं भवं चा ति। रूपेसु भवं च विभवं च दिस्वा पस्सित्वा
तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा ति - रूपेसु दिस्वा
विभवं भवं च।

विनिच्छयं कुब्बति जन्तु लोके ति। विनिच्छया ति। द्वे
विनिच्छया - तण्हाविनिच्छयो च, दिट्ठिविनिच्छयो च। कथं तण्हा-
विनिच्छयं करोति ? इधेकच्चस्स अनुप्पन्ना चेव भोगा' न उप्पज्जन्ति,
उप्पन्ना च भोगा परिकखयं गच्छन्ति। तस्स एवं होति - "केन नु
खो मे उपायेन अनुप्पन्ना चेव भोगा न उप्पज्जन्ति, उप्पन्ना च भोगा
परिकखयं गच्छन्ती" ति। तस्स पन एवं होति "सुरामेरयमज्जप्प-
मादट्टानानुयोगं अनुयुत्तस्स मे अनुप्पन्ना चेव भोगा न उप्पज्जन्ति,
उप्पन्ना च भोगा परिकखयं गच्छन्ति, विकालविसिखाचरियानुयोगं
अनुयुत्तस्स मे अनुप्पन्ना चेव भोगा न उप्पज्जन्ति, उप्पन्ना च भोगा
परिकखयं गच्छन्ति, समज्जाभिचरणं अनुयुत्तस्स मे .. जुतप्पमादट्टाना-
नुयोगं अनुयुत्तस्स मे .. पापमित्तानुयोगं अनुयुत्तस्स मे अनुप्पन्ना चेव
भोगा न उप्पज्जन्ति, उप्पन्ना च भोगा परिकखयं गच्छन्ति, आलस्या-
नुयोगं अनुयुत्तस्स मे अनुप्पन्ना चेव भोगा न उप्पज्जन्ति, उप्पन्ना च
भोगा परिकखयं गच्छन्ती" ति एव त्राणं कत्वा छ भोगानं अपाय-
मुखानि न सेवति, छ' भोगानं आयमुखानि सेवति'। एवं पि तण्हा-
विनिच्छयं करोति।

अथ वा, कसिया वा वणिज्जाय वा गोरकखेन वा इस्सत्थेन'
वा राजपोरिसेन वा सिप्पञ्चतरेन वा पटिपज्जति। एवं पि तण्हा-

१ छन्दो होति - स्या०, रो०। २ स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि। ३ लोमा - सी०।
४ आलस्सानुयोग - सी०, स्या०, रो०। ५-५ स्या० पोत्यके नत्थि। ६ इस्सत्तेन - सी०।

- विनिच्छयं करोति। कथं दिट्ठिविनिच्छयं करोति? चक्खुस्मि उप्पन्ने जानाति—“अत्ता मे उप्पन्नो” ति, चक्खुस्मि अन्तरहिते जानाति—“अत्ता मे अन्तरहितो विगतो मे अत्ता” ति। एवं पि दिट्ठिविनिच्छयं करोति। सोतस्मि .. धानस्मि .. जिह्वाय ... कार्यास्मि ... रूपस्मि .. सद्दस्मि ...
 ६ गन्धस्मि .. रसस्मि ... फोट्टब्बस्मि उप्पन्ने जानाति—“अत्ता मे उप्पन्नो” ति, फोट्टब्बस्मि अन्तरहिते जानाति—“अत्ता मे अन्तरहितो विगतो मे अत्ता” ति। एवं पि दिट्ठिविनिच्छयं करोति जनेति सञ्जनेति निब्बत्तेति अभिनिब्बत्तेति। जन्तू ति। सत्तो नरो मानवो...पे०.. मनुजो। लोके ति। अपायलोके...पे०.. आयतनलोके ति—विनिच्छय
 10 कुब्बति जन्तु लोके। तेनाह भगवा—

“सातं असातं ति यमाहु लोके,
 तमूपनिस्साय पहोति छन्दो।
 रूपेसु दिस्वा विभव भवं च,
 विनिच्छयं कुब्बति जन्तु लोके” ति ॥

- 15 १०३. कोधो मोसवज्जं च कथं कथा च,
 एते पि धम्मा द्वयमेव सन्ते।
 कथं कथा ज्ञाणपथाय सिक्खे,
 अत्वा पवुत्ता समणेन धम्मा ॥

- R. 268 20 रूपो चित्तस्स आघातो पटिघातो .पे०... मोसवज्जं वुच्चति मुसा-
 वादो। कथं कथा वुच्चति विचिकिच्छा। इट्ठं वत्थुं निस्साय पि कोधो
 जायति, अनिट्ठं वत्थुं निस्साय पि कोधो जायति। इट्ठं वत्थुं निस्साय
 पि मुसावादो उप्पज्जति, अनिट्ठं वत्थुं निस्साय पि मुसावादो
 उप्पज्जति। इट्ठ वत्थुं निस्साय पि कथं कथा उप्पज्जति, अनिट्ठ
 25 वत्थुं निस्साय पि कथं कथा उप्पज्जति।

- B. 207 कथं अनिट्ठं वत्थुं निस्साय कोधो जायति? पकतिया'
 अनिट्ठं वत्थुं निस्साय कोधो जायति'। अनत्थ मे अचरी ति कोधो
 जायति, अनत्थं मे चरती ति कोधो जायति, अनत्थं मे चरिस्सती ति

कोधो जायति; पियस्स मे मनापस्स अनत्थं अचरि ... अनत्थं चरति ... अनत्थं चरिस्सती ति कोधो जायति; अप्पियस्स मे अमनापस्स अत्थं अचरि ... अत्थं चरति ... अत्थं चरिस्सती ति कोधो जायति । एवं अनिट्ठं वत्थुं निस्साय कोधो जायति ।

कथं इट्ठं वत्थुं निस्साय कोधो जायति ? इट्ठं वत्थुं अच्छेद-
सङ्घिनो पि कोधो जायति, अच्छिज्जन्ते पि कोधो जायति, अच्छिन्ने पि
कोधो जायति । इट्ठं वत्थुं विपरिणामसङ्घिनो पि कोधो जायति,
विपरिणामन्ते पि कोधो जायति, विपरिणते पि कोधो जायति । एवं
इट्ठं वत्थुं निस्साय कोधो जायति ।

कथं अनिट्ठं वत्थुं निस्साय मुसावादो उप्पज्जति ? इधेकच्चो
अन्दुबन्धनेन^१ वा बद्धो^२; तस्स बन्धनस्स मोक्खत्थाय^३ सम्पजानमुसा
भासति ... रज्जुबन्धनेन वा बद्धो ... सङ्खलिकबन्धनेन वा बद्धो ... वेत्त-
बन्धनेन वा बद्धो ... लताबन्धनेन वा बद्धो ... पक्खेपबन्धनेन^४ वा बद्धो ...
परिक्खेपबन्धनेन वा बद्धो ... गामनिगमनगर^५-रट्ठ^६ बन्धनेन वा बद्धो
.. जनपदबन्धनेन वा बद्धो; तस्स बन्धनस्स मोक्खत्थाय सम्पजानमुसा
भासति । एवं अनिट्ठं वत्थुं निस्साय मुसावादो उप्पज्जती ति ।

R. 269

कथं इट्ठं वत्थुं निस्साय मुसावादो उप्पज्जति ? इधेकच्चो
मनापिकानं^७ रूपानं हेतुं सम्पजानमुसा भासति ... मनापिकानं सद्धानं ...
गन्धानं ... रसानं ... फोट्ठब्बानं हेतुं .. चीवरहेतुं ... पिण्डपातहेतुं ... सेना-
सनहेतुं ... गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारहेतुं सम्पजानमुसा भासति ।
एवं इट्ठं वत्थुं निस्साय मुसावादो उप्पज्जति ।

कथं अनिट्ठं वत्थुं निस्साय कथं कथा उप्पज्जति ? “मुच्चि-
स्सामिं नु खो चक्खुरोगतो, न नु खो मुच्चिस्सामि चक्खुरोगतो ।
मुच्चिस्सामि नु खो सोत्तरोगतो ... धानरोगतो ... जिह्वारोगतो ... काय-
रोगतो . सीसरोगतो ... कण्णरोगतो ... मुखरोगतो ... मुच्चिस्सामि नु
खो दन्तरोगतो, न नु खो मुच्चिस्सामि दन्तरोगतो” ति । एवं अनिट्ठं
वत्थुं निस्साय कथं कथा उप्पज्जति ।

१ अदुबन्धनेन—स्या०, रो० । २ बन्धो—स्या०, रो०, एवमुपरि पि । ३ मोक्ख-
त्थाय—सी० । ४-४ स्या०, रो० पोत्यकेषु नत्थि । ५. नगरजनपद—सी० । ६. स्या० पोत्यके
नत्थि । ७ मनापान—सी० । ८ मुच्चिस्सामि—सी०, एवमुपरि पि ।

B. 208

कथं इदं वत्थुं निस्साय कथंकथा उप्पज्जति? “लभिस्सामि नु खो मनापिके” रूपे, न नु खो लभिस्सामि मनापिके रूपे। लभिस्सामि नु खो मनापिके सहे ... गन्धे ... रसे ... फोट्टुब्बे ... कुलं .. गणं . आवासं ... लाभं ... यसं .. पसंसं ... सुखं .. चीवरं ... पिण्डपातं .. सेना-
 6 सनं ... गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारं” ति। एव इदं वत्थुं निस्साय कथंकथा उप्पज्जती ति - कोधो मोसवज्जं च कथंकथा च।

एते पि धम्मा द्वयमेव सन्ते ति। सातासाते सन्ते, सुखदुक्खे सन्ते, सोमनस्सदोमनस्से सन्ते, इट्ठानिट्ठे सन्ते, अनुनयपटिप्पे सन्ते संविज्जमाने अत्थि^१ उपलब्भमाने^२ ति - एते पि धम्मा द्वयमेव सन्ते।

10 कथंकथी जाणपथाय सिक्खे ति। जाणं पि जाणपथो, जाणस्स आरम्मणं पि जाणपथो, जाणसहभुनो पि धम्मा जाणपथो। यथा अरियमग्गो अरियपथो, देवमग्गो देवपथो, ब्रह्ममग्गो ब्रह्मपथो, एवमेव जाणं पि जाणपथो, जाणस्स आरम्मणं पि जाणपथो, जाण-सहभुनो पि धम्मा जाणपथो।

R. 270

15 सिक्खे ति। तिस्सो सिक्खा - अधिसीलसिक्खा, अधिचित्त-सिक्खा, अधिपञ्जासिक्खा। कतमा अधिसीलसिक्खा? इष भिक्खु सीलवा होति, पातिमोक्खसंवरसंबुतो^३ विहरति आचारगोचरसम्पन्नो, अणुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु, खुद्दको सीलक्खन्धो ... महन्तो सीलक्खन्धो .. सीलं पटिट्ठा आदिं चरण
 20 संयमो संवरो मुखं पमुखं कुसलानं धम्मानं समापत्तिया - अय अधि-सीलसिक्खा। कतमा अधिचित्तसिक्खा? इष भिक्खु विविच्चेव कामेहि ... पे० ... चतुत्थं भानं उपसम्पज्ज विहरति - अयं अधिचित्त-सिक्खा। कतमा अधिपञ्जासिक्खा? इष भिक्खु पञ्जवा होति, उदयत्थगामिनिया पञ्जाय समन्नागतो अरियाय निब्बेधिकाय सम्मा-
 25 दुक्खक्खयगामिनिया। सो “इदं दुक्ख” ति यथाभूतं पजानाति ... पे० .. “अयं दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा” ति यथाभूतं पजानाति, “इमे आसवा” ति यथाभूतं पजानाति ... पे० . “अयं आसवनिरोधगामिनी पटिपदा” ति यथाभूतं पजानाति - अयं अधिपञ्जासिक्खा।

१ मनापिये - सी०; एवमुपरि पि। २ स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि। ३ उपलब्भ-यमाने - स्या०, रो०। ४ पाटिमोक्ख० - स्या०।

कथंकथी ाणपथाय सिक्खे ति । कथंकथी पुग्गलो सकङ्खो
 सविलेखो सद्धेळ्हको सविचिकिच्छो, ाणाधिगमाय ाणफुसनाय
 ाणसच्छिकिरियाय अधिसीलं पि सिक्खेय्य, अधिचित्तं पि सिक्खेय्य,
 अधिपञ्जं पि सिक्खेय्य; इमा तित्तो सिक्खायो' आवज्जन्तो'
 सिक्खेय्य, जानन्तो सिक्खेय्य, पस्सन्तो सिक्खेय्य, पच्चवेक्खन्तो 5
 सिक्खेय्य, चित्तं अधिट्ठहन्तो सिक्खेय्य, सद्दाय अधिमुच्चन्तो सिक्खेय्य,
 वीरियं पग्गहन्तो सिक्खेय्य, सति उपट्ठहन्तो' सिक्खेय्य, चित्तं समा-
 दहन्तो सिक्खेय्य, पञ्जाय पजानन्तो सिक्खेय्य, अभिञ्जेय्यं अभि-
 जानन्तो सिक्खेय्य, परिञ्जेय्यं परिजानन्तो सिक्खेय्य, पहातब्बं
 पजहन्तो सिक्खेय्य, भावेतब्बं भावेन्तो सिक्खेय्य, सच्छिकातब्बं 10
 सच्छिकरोन्तो सिक्खेय्य आचरेय्य समाचरेय्य समादाय वत्तेय्या
 ति - कथंकथी ाणपथाय सिक्खे ।

अत्वा पवुत्ता समणेन धम्मा ति । अत्वा' ति' । अत्वा
 जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा वुत्ता 16
 पवुत्ता आचिक्खिता देसिता पञ्जपिता' पट्टपिता विवटा विभत्ता
 उत्तानीकता पकासिता । "सब्बे सङ्खारा अनिच्चा" ति अत्वा
 जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा वुत्ता
 पवुत्ता आचिक्खिता देसिता पञ्जपिता पट्टपिता विवटा विभत्ता
 उत्तानीकता पकासिता, "सब्बे सङ्खारा दुक्खा" ति ... "सब्बे धम्मा
 अनत्ता" ति ... "अविज्जापच्चया सङ्खारा" ति ... पे० ... "जातिपच्चया 20
 जरामरण" ति ... "अविज्जानिरोधा सङ्खारनिरोधो" ति ... पे० ...
 "जातिनिरोधा जरामरणनिरोधो" ति ... "इदं दुक्खं" ति ... पे० ... "अयं
 दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा" ति ... "इमे आसवा" ति ... पे० ... "अयं
 आसवनिरोधगामिनी पटिपदा" ति ... "इमे धम्मा अभिञ्जेय्या" ति
 ... "इमे धम्मा परिञ्जेय्या" ति ... "इमे धम्मा पहातब्बा" ति ... "इमे' 25
 धम्मा भावेतब्बा" ति' ... "इमे धम्मा सच्छिकातब्बा" ति ... छन्नं फत्साय-
 तनानं समुदयं च अत्थङ्गमं च अत्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च
 ... पञ्चन्नं उपादानक्खन्धानं ... चलुन्नं महाभूतानं ... "यं किञ्चि समुदय-

१-१. सिक्खा आवज्जेन्तो - स्या०, रो० । २ उपट्ठेन्तो - सी० । ३-३. स्या०, रो०
 पोत्यकेषु नल्यि । ४ पञ्जापिता - सी०, स्या०, रो० । ५-५ सी० पोत्यके न दिस्सति ।

धम्मं सब्बं तं निरोधधम्मं” ति अत्वा जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा वुत्ता पवुत्ता आचिक्खिता देसिता पञ्ज-
पिता पट्टपिता विवटा विभत्ता उत्तानीकता पकासिता ।

B. 210

वुत्तं हेतं भगवता — “अभिञ्जायाहं, भिक्खवे, धम्मं देसेमि,
नो अनभिञ्जाय । सनिदानाहं, भिक्खवे, धम्मं देसेमि, नो अनिदानं ।
सप्पाटिहारियाहं, भिक्खवे, धम्मं देसेमि, नो अप्पाटिहारियं । तस्स
मय्हं, भिक्खवे, अभिञ्जाय धम्मं देसयतो, नो अनभिञ्जाय, सनिदानं
धम्मं देसयतो, नो अनिदानं, सप्पाटिहारियं धम्मं देसयतो, नो अप्पाटि-
हारियं, करणीयो ओवादो, करणीया अनुसासनी । अलं च पन,
भिक्खवे, वो तुट्ठिया अलं पामोज्जाय अलं सोमनस्साय सम्मासम्बुद्धो
भगवा, स्वाक्खातो धम्मो, सुप्पटिपन्नो^१ सङ्घो ति । इमास्मि च पन
वेय्याकरणस्मि भञ्जमाने दससहस्सी लोकघातु अकम्पित्था” ति -
अत्वा पवुत्ता समणेन धम्मा । तेनाह भगवा -

B. 272

“कोधो मोसवज्जं च कथंकथा च,
एते पि धम्मा द्वयमेव सन्ते ।
कथंकथी ाणपथाय सिक्खे,
अत्वा पवुत्ता समणेन धम्मा” ति ॥

15

20

१०४. सातं असातं च कुतोनिदाना,
किंस्मि असन्ते न भवन्ति हेते ।
विभवं भवं चा पि यमेतमत्थं,
एतं मे पबूहि यतोनिदानं ॥

सातं असातं च कुतोनिदाना ति । साता असाता कुतोनिदाना
कुतोजाता कुतोसञ्जाता कुतोनिब्बत्ता कुतोअभिनिब्बत्ता कुतोपातु-
भूता, किनिदाना किंसमुदया किजातिका किपभवा ति सातासातानं
मूलं पुच्छति.. पे०. समुदयं पुच्छति पपुच्छति याचति अज्जेसति
पसादेती ति - सातं असातं च कुतोनिदाना ।

25

किंस्मि असन्ते न भवन्ति हेते ति । किंस्मि असन्ते अस-
विज्जमाने नत्थि^१ अनुपलब्धमाने सातासाता न भवन्ति नप्पभवन्ति^१

१. सुपटिपन्नो - सी०, स्या०, रो० । २ स्या०, रो० पोत्यकेसु न विस्सति । ३. सी०
पोत्यके नत्थि ।

न जायन्ति न सञ्जायन्ति न निब्वत्तन्ति न अभिनिब्वत्तन्ती ति -
किस्मि असन्ते न भवन्ति हेते ।

विभवं भवं चा पि यमेतमत्थं ति । कतमो सातासातानं
भवो ? यो सातासातानं भवो पभवो^१ जाति सञ्जाति निब्वत्ति अभि-
निब्वत्ति पातुभावो - अयं सातासातानं भवो । कतमो सातासातानं 5 R. 273
विभवो ? यो सातासातानं खयो वयो भेदो परिभेदो अनिच्चता
अन्तरधानं - अयं सातासातानं विभवो । यमेतमत्थं ति । यं परमत्थं
ति - विभवं भवं चा पि यमेतमत्थं ।

एतं मे पबूहि यतोनिदानं ति । एतं^२ ति । यं पुच्छामि यं
याचामि यं अज्जेसामि यं पसादेमि । पबूही ति । बूहि वदेहि^३ 10
आचिक्ख देसेहि पञ्जपेहि पट्टपेहि विवर विभज उत्तानीकरोहि पका-
सेही ति - एतं मे पबूहि । यतोनिदानं ति । यंनिदानं यंसमुदयं यंजातिकं
यंपभवं ति - एतं मे पबूहि यतोनिदानं । तेनाह सो निम्मित्तो -

“सातं असातं च कुतोनिदाना,
किस्मि असन्ते न भवन्ति हेते ।
विभवं भवं चा पि यमेतमत्थं,
एतं मे पबूहि यतोनिदानं” ति ॥ 15

१०५. फस्सनिदानं सातं असातं,
फस्से असन्ते न भवन्ति हेते ।
विभवं भवं चा पि यमेतमत्थं,
एतं मे पबूहि इतोनिदानं ॥ 20

फस्सनिदानं सातं असातं ति । सुखवेदनीयं फस्सं पटिच्च
उप्पज्जति सुखा वेदना । या^४ तस्सेव सुखवेदनीयस्स फस्सस्स निरोधा,
यं तज्जं वेदयितं सुखवेदनीयं फस्सं पटिच्च उप्पन्ना सुखा वेदना
सा निरुज्झति, सा वूपसम्मति । दुक्खवेदनीयं फस्सं पटिच्च 25
उप्पज्जति दुक्खा वेदना । या तस्सेव दुक्खवेदनीयस्स फस्सस्स निरोधा,
यं तज्जं वेदयितं दुक्खवेदनीयं फस्सं पटिच्च उप्पन्ना दुक्खा वेदना

R. 274

१ सम्भवो - स्या०, रो० । २ एतमत्थं - रो० । ३ स्या० पोत्यके नत्थि । ४
सा - स्या०, रो०; एवमुपरि पि । ५ स्या०, रो० पोत्यकेषु नत्थि ।

सा निरुज्झति, सा वूपसम्मति। अदुक्खमसुखवेदनीयं फस्सं पटिच्च
उप्पज्जति अदुक्खमसुखा वेदना। या तस्सेव अदुक्खमसुखवेदनीयस्स
फस्सस्स निरोघा, यं तज्जं वेदयित्तं अदुक्खमसुखवेदनीयं फस्सं पटिच्च
उप्पन्ना अदुक्खमसुखा वेदना सा निरुज्झति, वूपसम्मति'। फस्सनिदानं
6 सातं असातं ति। सातासाता फस्सनिदाना फस्ससमुदया फस्सजातिका
फस्सप्पभवा' ति - फस्सनिदानं सातं असातं।

फस्से असन्ते न भवन्ति हेते ति। फस्से असन्ते असंविज्ज-
माने नत्थि अनुपलब्धमाने सातासाता न भवन्ति नप्पभवन्ति न
जायन्ति न सञ्जायन्ति न निव्वत्तन्ति नाभिनिव्वत्तन्ति न पातु-
10 भवन्ती ति - फस्से असन्ते न भवन्ति हेते।

B. 212

विभवं भवं चा पि यमेतमत्थं ति। भवदिट्ठि पि फस्स-
निदाना, विभवदिट्ठि पि फस्सनिदाना। यमेतमत्थं ति। यं परमत्थं
ति - विभवं भवं चा पि यमेतमत्थं।

एतं ते पब्रूमि इतोनिदानं ति। एतं ति। यं पुच्छसि यं याचसि
15 य अज्झेससि यं पसादेसि। पब्रूमी ति। ब्रूमि आचिक्खामि देसेमि
पञ्चपेमि पट्टपेमि विवरामि विभजामि उत्तानीकरोमि पकासेमी ति -
एतं ते पब्रूमि। इतोनिदानं ति। इतो फस्सनिदान फस्ससमुदयं फस्स-
जातिक फस्सप्पभवं ति - एतं ते पब्रूमि इतोनिदानं। तेनाह भगवा -

“फस्सनिदानं सातं असातं,
20 फस्से असन्ते न भवन्ति हेते।
विभवं भवं चा पि यमेतमत्थं,
एतं ते पब्रूमि इतोनिदानं” ति॥

B. 276

१०६. फस्सो नु लोकास्मि कुतोनिदानो,
परिग्गहा चा पि कुतोपहूता।
25 किस्मि असन्ते न भमत्तमत्थि,
किस्मि विभूते न फुसन्ति फस्सा॥

फस्सो नु लोकास्मि कुतोनिदानो ति। फस्सो कुतोनिदानो
कुतोजातो कुतोसञ्जातो कुतोनिव्वत्तो कुतोअभिनिव्वत्तो कुतोपातु-

भूतो, किंनिदानो किंसमुदयो किंजातिको किपभवो ति फस्सस्स मूलं पुच्छति हेतुं पुच्छति ...पे०... समुदयं पुच्छति पपुच्छति याचति अज्झे-
सति पसादेती ति—फस्सो नु लोकस्मि कुतोनिदानो।

परिग्गहा चा पि कुतोपहूता ति। परिग्गहा कुतोपहूता कुतो-
जाता कुतोसञ्जाता कुतोनिब्बत्ता कुतोअभिनिब्बत्ता कुतोपातुभूता, 5
किंनिदाना किंसमुदया किंजातिका किपभवा ति परिग्गहानं मूलं
पुच्छति हेतुं पुच्छति...पे०...समुदयं पुच्छति पपुच्छति याचति अज्झे-
सति पसादेती ति—परिग्गहा चा पि कुतोपहूता।

किंस्म असन्ते न ममत्तमत्थी ति। किंस्म असन्ते असं-
विज्जमाने नत्थि अनुपलब्भमाने ममत्ता नत्थि न सन्ति न संविज्जन्ति 10
नुपलब्भन्ति, पहीना समुच्छिन्ना बूपसन्ता पटिपस्सद्धा अमब्बुप्पत्तिका
जाणग्गिना दड्ढा ति—किंस्म असन्ते न ममत्तमत्थि।

किंस्म विभूतेन फुसन्ति फस्सा ति। किंस्म विभूते विभविते'
अतिक्कन्ते समत्तिक्कन्ते वीतिवत्ते फस्सा न फुसन्ती ति—किंस्म
विभूते न फुसन्ति फस्सा। तेनाह सो निम्मितो— 15

“फस्सो नु लोकस्मि कुतोनिदानो,
परिग्गहा चा पि कुतोपहूता।
किंस्म असन्ते न ममत्तमत्थि,
किंस्म विभूते न फुसन्ति फस्सा” ति॥

१०७. नामं च रूपं च पटिच्च फस्सो,
इच्छानिदानानि परिग्गहानि। 20
इच्छायसन्त्या न ममत्तमत्थि,
रूपे विभूते न फुसन्ति फस्सा॥

नामं च रूपं च पटिच्च फस्सो ति। चक्खु च पटिच्च
रूपे च उप्पज्जति चक्खुविञ्जाणं, तिण्णं सङ्गति फस्सो। चक्खु^३ च 25
रूपा च रूपस्मि चक्खुसम्फस्सं ठपेत्वा सम्पयुत्तका धम्मा नामस्मि।
एवं पि नामं च रूपं च पटिच्च फस्सो। सोतं च पटिच्च सद्दे
च उप्पज्जति सोतविञ्जाणं, तिण्णं सङ्गति फस्सो। सोतं च सद्दा

१ विभाविते—सी०, स्या०, रो०। २ चक्खु—सी०, स्या०, रो०।

- च रूपस्मिं सोतसम्पत्सं ठपेत्वा सम्पयुत्तका धम्मा नामस्मिं। एवं पि नामं च रूपं च पटिच्च फस्सो। घानं च पटिच्च गन्धे च उप्पज्जति घानविञ्चाणं, तिण्णं सङ्गति फस्सो। घानं च गन्धा च रूपस्मिं घानसम्पत्सं ठपेत्वा सम्पयुत्तका धम्मा नामस्मिं। एवं पि नामं च रूपं च पटिच्च फस्सो। जिह्वं च पटिच्च रसे च उप्पज्जति जिह्वाविञ्चाणं, तिण्णं सङ्गति फस्सो। जिह्वा च रसा च रूपस्मिं जिह्वासम्पत्सं ठपेत्वा सम्पयुत्तका धम्मा नामस्मिं। एवं पि नामं च रूपं च पटिच्च फस्सो। कायं च पटिच्च फोट्टब्बे च उप्पज्जति कायविञ्चाणं, तिण्णं सङ्गति फस्सो। कायो च फोट्टब्बा च रूपस्मिं कायसम्पत्सं ठपेत्वा सम्पयुत्तका धम्मा नामस्मिं। एवं पि नामं च रूपं च पटिच्च फस्सो। मन च पटिच्च धम्मो च उप्पज्जति मनोविञ्चाणं, तिण्णं सङ्गति फस्सो। वत्थु रूपं रूपस्मिं, धम्मा रूपिनो रूपस्मिं मनोसम्पत्सं ठपेत्वा सम्पयुत्तका धम्मा नामस्मिं। एव पि नामं च रूपं च पटिच्च फस्सो।

B 214

- 15 इच्छानिदानानि परिग्गहानी ति। इच्छा वुच्चति तण्हा। यो रागो सारागो...पे०...अभिज्झा लोभो अकुसलमूलं। परिग्गहा ति। द्वे परिग्गहा—तण्हापरिग्गहो च दिट्ठिपरिग्गहो च...पे०...अय तण्हापरिग्गहो.. पे०...अय दिट्ठिपरिग्गहो। इच्छानिदानानि परिग्गहानी ति। परिग्गहा इच्छानिदाना इच्छाहेतुका इच्छापच्चया इच्छाकारणा
- 20 इच्छापभवा ति—इच्छानिदानानि परिग्गहानि।

R. 277

- इच्छायसन्त्या न ममत्तमत्थी ति। इच्छा वुच्चति तण्हा। यो रागो सारागो..पे०...अभिज्झा लोभो अकुसलमूलं। ममत्ता ति। द्वे ममत्ता—तण्हाममत्तं च दिट्ठिममत्तं च...पे०...इदं तण्हाममत्तं...पे०...इदं दिट्ठिममत्तं। इच्छायसन्त्या न ममत्तमत्थी ति। इच्छाय असन्त्या असंविज्जमानाय नत्थि अनुपलब्भमानाय ममत्ता नत्थि न सन्ति न संविज्जन्ति नुपलब्भन्ति, पहीना समुच्छिन्ना वूपसन्ता पटिप्पस्सद्धा^१ अमब्बुप्पत्तिका आणग्गिना दड्ढा ति—इच्छायसन्त्या न ममत्तमत्थि।

रूपे विभूते न फुसन्ति फस्सा ति । रूपे ति । चत्तारो च महाभूता चतुष्पन्नं च महाभूतानं उपादाय रूपं । रूपे विभूते ति । चतूहाकारेहि^१ रूपं विभूतं होति—आतविभूतेन,^२ तीरणविभूतेन,^३ पहानविभूतेन, समतिक्कमविभूतेन । कथं आतविभूतेन रूपं विभूतं होति ? रूपं जानाति—“यं किञ्चि रूपं सब्बं रूपं चत्तारि^४ च महाभूतानि^५ चतुष्पन्नं च महाभूतानं उपादाय रूपं” ति जानाति पस्सति । एवं आतविभूतेन रूपं विभूतं होति ।

कथं तीरणविभूतेन रूपं विभूतं होति ? एवं आतं कत्वा रूपं तीरेत्ति, अनिच्चतो दुक्खतो रोगतो गण्डतो सल्लतो अघतो आबाघतो परतो पलोकतो ईतितो उपह्वतो भयतो उपसग्गतो चलतो पमङ्गुतो^६ अधुवतो^७ अताणतो अलेणतो असरणतो रिक्ततो तुच्छतो सुञ्जतो अनत्ततो आदीनवतो विपरिणामघम्मतो असारकतो^८ अघमूलतो वधकतो विभवतो सासवतो सङ्घततो मारामिसतो जातिघम्मतो जराघम्मतो व्याधिघम्मतो मरणघम्मतो, सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासघम्मतो सकिलेसिकघम्मतो समुदयतो अत्थङ्गमतो, अस्सादतो आदीनवतो निस्सरणतो तीरेत्ति । एवं तीरणविभूतेन रूपं विभूतं होति ।

R. 215

कथं पहानविभूतेन रूपं विभूतं होति ? एवं तीरयित्वा^९ रूपे छन्दरागं पजहति विनोदेति व्यन्ति करोति अनभाव गमेति । वुत्तं हेतं भगवता—“यो, भिक्खवे, रूपे छन्दरागो तं पजहथ । एवं तं रूपं^{१०} पहीनं भविस्सति उच्छिन्नमूलं तालावत्थुकत्तं अनभावकत्तं^{११} आयति अनुप्पादघम्म” ति । एवं पहानविभूतेन रूपं विभूतं होति ।

R. 278

कथं समतिक्कमविभूतेन रूपं विभूतं होति । चतस्सो अरूपसमापत्तियो पटिलद्धस्स रूपा विभूता होन्ति विभावित्ता अतिक्कन्ता समतिक्कन्ता बीतिवत्ता । एवं समतिक्कमविभूतेन रूपं विभूतं होति । इमेहि चतूहि कारणेहि रूपं विभूतं होति ।

१ चतूहि कारणेहि—स्या०, रो० । २ आणविभूतेन—सी० । ३ तिरण०—स्या० । ४-४ चत्तारो च महाभूता—स्या०, रो० । ५ पमङ्गुतो—सी०; पमङ्गुतो—स्या०, रो० । ६ अधुवतो—सी०, स्या०, रो० । ७ असातो—सी० । ८ तिरत्वा—स्या०, तीरेत्वा—रो० । ९ स्या०, रो० । १० पोत्थकेणु नत्थि । १० अनभावकत्त—सी०, अनभावकत्त—स्या०, रो० ।

रूपे विभूते न फुसन्ति फस्सा ति । रूपे विभूते विभाविते
अतिक्कन्ते समतिक्कन्ते वीतिवत्ते पञ्च फस्सा न फुसन्ति - चक्खु-
सम्फस्सो, सोतसम्फस्सो, घानसम्फस्सो, जिह्वासम्फस्सो, कायसम्फस्सो
ति - रूपे विभूते न फुसन्ति फस्सा । तेनाह भगवा -

५ "नामं च रूपं च पटिच्च फस्सो,
इच्छानिदानानि परिग्गहानि ।
इच्छायसन्त्या न ममत्तमत्थि,
रूपे विभूते न फुसन्ति फस्सा" ति ॥

१०८. कथं समेतस्स विभोति रूपं,
१० सुखं दुखं चा पि कथं विभोति ।
एतं मे पबूहि यथा विभोति,
तं जानियामा ति मे मनो अहू ॥

कथं समेतस्स विभोति रूपं ति । कथं समेतस्सा ति । कथं
समेतस्स कथं पटिपन्नस्स कथं इरियन्तस्स कथं वत्तेन्तस्स कथं पाले-
R 279 16 न्तस्स कथं यपेन्तस्स कथं यापेन्तस्स रूपं विभोति विभावीयति
B 216 अतिक्कमीयति समतिक्कमीयति वीतिवत्तीयती ति - कथं समेतस्स
विभोति रूपं ।

सुखं दुखं चा पि कथं विभोती ति । सुखं च दुक्ख च कथं
विभोति विभावीयति अतिक्कमीयति समतिक्कमीयति वीतिवत्ती-
20 यती ति - सुखं दुखं चा पि कथं विभोति ।

एतं मे पबूहि यथा विभोती ति । एतं ति । य पुञ्जामि य
याचामि यं अज्जेसामि यं पसादेमी ति - एतं । मे पबूही ति ।
मे पबूहि आचिक्ख देसेहि पञ्जपेहि पट्टपेहि विवर विभज उतानी-
करोहि पकासेही ति - एतं मे पबूहि । यथा विभोती ति । यथा
26 विभोति विभावीयति अतिक्कमीयति समतिक्कमीयति वीतिवत्ती-
यती ति - एतं मे पबूहि यथा विभोति ।

तं जानियामा ति मे मनो अहू ति । तं जानियामा ति । तं
जानेय्याम आजानेय्याम विजानेय्याम पटिविजानेय्याम पटिविज्जे-

१-१ दुक्ख वा - स्या०, रो०, दुख वा - सी० । २ जानिस्सामा - सी० ।
३ वत्तेन्तस्स - सी० । ४ विभावीयति - सी०, स्या०, रो०; एवमुपरि पि ।

व्यामा ति—तं जानियाम। इति मे मनो अहू ति। इति मे मनो अहू, इति मे चित्तं अहू, इति मे सङ्कप्पो अहू, इति मे विञ्जाणं अहू ति—तं जानियाम इति मे मनो अहू। तेनाह सो निम्मितो—

“कथं समेतस्स विभोति रूपं,
सुखं दुखं चा पि कथं विभोति।
एतं मे पब्रूहि यथा विभोति,
तं जानियामा ति मे मनो अहू” ति ॥

१०९ न सञ्जसञ्जी न विसञ्जसञ्जी,
नो पि असञ्जी न विभूतसञ्जी।
एवं समेतस्स विभोति रूपं,
सञ्जानिदाना हि पपञ्चसङ्खण ॥

न सञ्जसञ्जी न विसञ्जसञ्जी ति। सञ्जसञ्जिनो वुच्चन्ति ये पकतिसञ्जाय ठिता, न पि सो पकतिसञ्जाय ठितो। विसञ्जसञ्जिनो वुच्चन्ति उम्मत्तका ये च खित्तचित्ता,^१ न पि सो उम्मत्तको, नो पि खित्तचित्तो ति—न सञ्जसञ्जी न विसञ्ज-
सञ्जी।

नो पि असञ्जी न विभूतसञ्जी ति। असञ्जिनो वुच्चन्ति निरोधसमापन्ना ये च असञ्जसत्ता, न पि सो निरोधसमापन्नो, न^२ पि असञ्जसत्तो। विभूतसञ्जिनो वुच्चन्ति ये चतुष्पं अरूपसमा-
पत्तीनं^३ लाभिनो, न पि सो चतुष्पं अरूपसमापत्तीनं लाभो ति—नो
पि असञ्जी न विभूतसञ्जी।

एवं समेतस्स विभोति रूपं ति। इध भिक्खु सुखस्स च पहाना. पे०. चतुत्थं भानं उपसम्पज्ज विहरति। सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनङ्गणे विगतूपविकलेसे मुदुभूते कम्मनिये^४ ठिते आनेज्जप्पत्ते^५ आकासानञ्चायतनसमापत्तिपटिलाभत्थाय चित्तं
अभिनीहरति^६ अभिनिन्नामेति आरुप्पमग्गसमङ्गी^७ ति।* एवं समे-
तस्स एवं पटिपन्नस्स एवं इरियन्तास्स एवं वत्तेन्तास्स एवं पालेन्तास्स

१. उचित्तचित्ता—स्या०, रो०। २ नो—स्या०, रो०। ३. आरूप०—सी०। ४. कम्मनीये—स्या०, रो०। ५ आनेज्जप्पत्ते—सी०। ६. स्या० पोत्यके नत्थि। ७ अरूप०—स्या०, रो०। * 'एव समेतस्सा ति' इति रो० पोत्यके अधिको पाठो विस्तति।

एवं यापेन्तस्स एवं यापेन्तस्स रूपं विभोति विभावीयति अतिक्की-
मीयति समतिक्कीमीयति वीतिवत्तीयती ति - एव समेतस्स विभोति
रूपं ।

सञ्ज्ञानिदाना हि पपञ्चसङ्गा ति । पपञ्चायेव पपञ्चसङ्गा ।

5 तण्हापपञ्चसङ्गा, दिट्ठिपपञ्चसङ्गा, मानपपञ्चसङ्गा सञ्ज्ञानिदाना
सञ्ज्ञासमुदया सञ्ज्ञाजातिका सञ्ज्ञापभवा ति - सञ्ज्ञानिदाना हि
पपञ्चसङ्गा । तेनाह भगवा -

“न सञ्ज्ञसञ्जी न विसञ्ज्ञसञ्जी,
नो पि असञ्जी न विभूतसञ्जी ।

10 एवं समेतस्स विभोति रूपं,
सञ्ज्ञानिदाना हि पपञ्चसङ्गा’ ति ॥

B. 281

११०. यं तं अपुञ्छिम्मह अकित्तयी नो,
अञ्जं तं पुञ्छाम तदिञ्ज ब्रूहि ।
एत्तावतगं नु^१ वदन्ति हेके,
15 यक्खस्स सुद्धिं इध पण्डितासे ।
उदाहु अञ्जं पि वदन्ति एत्तो ।

यं तं अपुञ्छिम्मह अकित्तयी नो ति । यं त अपुञ्छिम्मह अया-
चिम्मह अज्जेसिम्मह पसादयिम्मह । अकित्तयी नो ति । कित्तितं पकि-
त्तितं आचिक्खितं^२ देसितं पञ्चपितं पट्टपितं विवटं विभत्तं उत्तानी-
20 क्तं पकासितं ति - यं तं अपुञ्छिम्मह अकित्तयी नो ।

B. 218

अञ्जं तं पुञ्छाम तदिञ्ज ब्रूहि ति । अञ्जं तं पुञ्छाम, अञ्जं
तं याचाम,^३ अञ्जं तं अज्जेसाम, अञ्जं तं पसादेम, उत्तरि त
पुञ्छाम । तदिञ्ज ब्रूहि ति । इञ्ज ब्रूहि आचिक्ख देसेहि पञ्चपेहि
पट्टपेहि विवर विभज उत्तानीकरोहि पकासेही ति - अञ्जं त
25 पुञ्छाम तदिञ्ज ब्रूहि ।

एत्तावतगं नु वदन्ति हेके यक्खस्स सुद्धिं इध पण्डितासे ति ।
एके समणत्ताहणा एता^४ अरूपसमापत्तियो^५ अगं सेट्ठु विसिट्ठु^६

१ नो - स्या०, रो० । २ अचिक्खित - रो० । ३ पुञ्छाम - सी० । ४ एत्तावता -
स्या०, रो० । ५ ० समापत्तिया - स्या०, रो० । ६ विसिट्ठं - स्या०, रो० ।

पामोक्खं उत्तमं पवरं वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ति ।
 यक्खस्सा ति । सत्तस्स नरस्स मानवस्स पोसस्स पुग्गलस्स जीवस्स
 जागुस्स^१ जन्तुस्स इन्दगुस्स^२ मनुजस्स । सुद्धिं ति । सुद्धिं विसुद्धिं परि-
 सुद्धिं मुत्तिं विमुत्तिं परिमुत्तिं । इध पण्डितासे ति । इध पण्डितवादा
 थिरवादा^३ आयवादा हेतुवादा लक्खणवादा कारणवादा ठानवादा 5
 सकाय लद्धिया ति — एत्तावतग्गं नु वदन्ति हेके यक्खस्स सुद्धिं इध
 पण्डितासे ।

उदाहु अञ्जं पि वदन्ति एत्तो ति । उदाहु एके समणब्राह्मणा
 एता अरूपसमापत्तियो अतिक्कमित्वा समतिकमित्वा वीतिवत्तेत्वा^४
 एत्तो अरूपसमापत्तितो^५ अञ्जं उत्तरि यक्खस्स सुद्धिं विसुद्धिं परि- 10
 सुद्धिं मुत्तिं विमुत्तिं परिमुत्तिं वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति
 वोहरन्ती ति — उदाहु अञ्जं पि वदन्ति एत्तो । तेनाहु सो निम्मितो —

“यं तं अपुच्छिम्ह अकित्तयी नो,
 अञ्जं तं पुच्छाम तदिद्धु ब्रूहि ।
 एत्तावतग्गं नु वदन्ति हेके,
 यक्खस्स सुद्धिं इध पण्डितासे ।
 उदाहु अञ्जं पि वदन्ति एत्तो” ति ॥ 15

१११. एत्तावतग्गं पि वदन्ति हेके,
 यक्खस्स सुद्धिं इध पण्डितासे ।
 तेसं पनेके^६ समयं वदन्ति,
 अनुपादिसेसे कुसलावदाना ॥ 20

एत्तावतग्गं पि वदन्ति हेके यक्खस्स सुद्धिं इध पण्डितासे
 ति । सन्तेके समणब्राह्मणा सस्सतवादा, एता अरूपसमापत्तियो अग्गं
 सेट्ठं विसिट्ठं पामोक्खं उत्तमं पवरं वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति
 वोहरन्ति । यक्खस्सा ति । सत्तस्स नरस्स मानवस्स पोसस्स पुग्ग- 25
 लस्स जीवस्स जागुस्स जन्तुस्स इन्दगुस्स मनुजस्स । सुद्धिं ति ।
 सुद्धिं विसुद्धिं परिसुद्धिं, मुत्तिं विमुत्तिं परिमुत्तिं । इध पण्डितासे ति ।

१ जगुस्स—सी०; जातुस्स—स्या०, जगुस्स—रो० । २ हिन्दगुस्स—सी० । ३.
 वीरवादा—स्या०, रो० । ४ वीतिवत्तित्वा—स्या०, रो० । ५ अरूपतो—स्या०, रो० ।
 ६ पुनेके—स्या०, रो० ।

B 219

इध पण्डितवादा थिरवादा नायवादा हेतुवादा लक्ष्णवादा कारण-
वादा ठानवादा सकाय लद्धिया ,ति-एत्तावतर्मां पि वदन्ति हेके
यक्खस्स सुद्धि इध पण्डितासे ।

तेसं पनेके समयं वदन्ति अनुपादिसेसे कुसलावदाना ति ।

- 5 तेसं येव समणन्नाह्मणानं एके समणन्नाह्मणा उच्छेदवादा भवतज्जिता
विभवं अभिनन्दन्ति, ते सत्तस्स समं उपसमं वूपसमं निरोधं पटि-
पस्सद्धि' ति' वदन्ति, यतो कि' भो अयं अत्ता कायस्स भेदा उच्छि-
ज्जति विनस्सति न होति परं मरणा, एत्तावता अनुपादिसेसो ति ।
B 283 कुसलावदाना ति । कुसलावादा पण्डितवादा थिरवादा नायवादा हेतु-
10 वादा लक्ष्णवादा कारणवादा ठानवादा सकाय लद्धिया ति-तेसं
पनेके समयं वदन्ति अनुपादिसेसे कुसलावदाना । तेनाह भग्वा-

“एत्तावतर्मां पि वदन्ति हेके,
यक्खस्स सुद्धि इध पण्डितासे ।

- 15 तेसं पनेके समयं वदन्ति,
अनुपादिसेसे कुसलावदाना” ति ॥

११२. एते च अत्वा उपनिस्सिता ति,
अत्वा मुनी निस्सये सो वीमंसी' ।
अत्वा विमुत्तो न विवादमेति,
भवाभवाय न समेति धीरो ॥

- 20 एते च अत्वा उपनिस्सिता ति । एते ति । दिट्ठिगतिके । उप-
निस्सिता ति । सस्सतदिट्ठिनिस्सिता ति अत्वा, उच्छेददिट्ठिनिस्सिता
ति अत्वा, सस्सतुच्छेददिट्ठिनिस्सिता ति अत्वा जानित्वा तुलयित्वा
तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा ति-एते च अत्वा उप-
निस्सिता ति ।

- 25 अत्वा मुनी निस्सये सो वीमंसी ति । मुनी ति । मोनं वुच्चति
आणं...पे०...सङ्गजालमतिच्च सो मुनि । मुनि सस्सतदिट्ठिनिस्सिता
ति अत्वा, उच्छेददिट्ठिनिस्सिता ति अत्वा, सस्सतुच्छेददिट्ठिनिस्सिता

१-१ पटिप्पस्सद्ध-स्या०, पटिपसद्ध-रो० । २ किर-स्या०, रो० । ३ विपसी-
सी०, स्या०, रो०, एवमुपरि पि ।

ति अत्वा जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं
 कत्वा । सो वीमंसी ति । पण्डितो पञ्जवा बुद्धिमा वाणी विभावी
 मेधावी ति — अत्वा मुनि निस्सये सो वीमंसी । अत्वा विमुत्तो न
 विवादमेती ति । अत्वा जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा
 विभूतं कत्वा । विमुत्तो' ति' । मुत्तो विमुत्तो परिमुत्तो सुविमुत्तो 5
 अच्चन्तअनुपादाविमोक्खेन । “सब्बे सङ्खारा अनिच्चा” ति अत्वा
 जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा मुत्तो B. 220
 विमुत्तो परिमुत्तो सुविमुत्तो अच्चन्तअनुपादाविमोक्खेन । “सब्बे
 सङ्खारा दुक्खा” ति ... “सब्बे धम्मा अनत्ता” ति ...पे०... “यं किञ्चि
 समुदयधम्मं सब्बं तं निरोधधम्मं” ति अत्वा जानित्वा तुलयित्वा तीर- 10 R. 284
 यित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा मुत्तो विमुत्तो परिमुत्तो सुविमुत्तो
 अच्चन्तअनुपादाविमोक्खेना ति — अत्वा विमुत्तो । न विवादमेती ति ।
 न कलहं करोति, न भण्डनं करोति, न विग्गहं करोति, न विवादं
 करोति, न मेघगं करोति । वुत्तं हेतं भगवता — “एवं विमुत्तचित्तो
 खो, अग्गिवेस्सन, भिक्खु न केनचि संवदति, न केनचि विवदति, 15
 य च लोके वुत्त तेन च वोहरति अपरामस” ति — अत्वा विमुत्तो न
 विवादमेति ।

भवाभवाय न समेति धीरो ति । भवाभवाया ति । भवाय
 कम्मभवाय पुनब्भवाय कामभवाय, कम्मभवाय कामभवाय पुन-
 ष्भवाय रूपभवाय, कम्मभवाय रूपभवाय पुनब्भवाय अरूपभवाय, 20
 कम्मभवाय अरूपभवाय पुनब्भवाय पुनप्पुनब्भवाय पुनप्पुन-
 गतिया पुनप्पुनउपपत्तिया पुनप्पुनपटिसन्धिया पुनप्पुनअत्तभावाय
 पुनप्पुनाभिनिव्वत्तिया न समेति न समागच्छति न गण्हाति न
 परामसति नाभिनिविसति । धीरो ति । धीरो पण्डितो पञ्जवा
 बुद्धिमा वाणी विभावी मेधावी ति — भवाभवाय न समेति धीरो । 25
 तेनाह भगवा —

“एते च अत्वा उपनिस्सिता ति,
 अत्वा मुनी निस्सये सो वीमंसी ।

अत्वा विमुक्तो न विवादमेति,
भवाभवाय न समेति घीरो" ति ॥

कलहविवादसुत्तनिदेशो एकादसमो ।

१२. चूळवियूहसुत्तनिदेशो

अथ^१ चूळवियूहसुत्तनिदेशं वक्षति^१ -

B. 285

११३. सकं सकं दिट्ठिपरिब्बसाना,
विग्गय्ह नाना कुसला वदन्ति ।
यो एवं जानाति स वेदि धम्मं,
इदं पटिक्कोसमकेवली सो ॥

5

B. 221

सकं सकं दिट्ठिपरिब्बसाना ति । सन्तेके समणब्राह्मणा दिट्ठि-
गतिका, ते द्वासट्ठिया दिट्ठिगतानं अञ्जतरञ्जतर दिट्ठिगत गहेत्वा
उग्गहेत्वा गण्हित्वा परामसित्वा अभिनिविसित्वा सकाय सकाय
दिट्ठिया वसन्ति सबसन्ति आवसन्ति परिवसन्ति । यथा अगारिका
घरेसु वसन्ति, सापत्तिका वा आपत्तीसु वसन्ति, सक्किलेसा वा किले-
सेसु वसन्ति; एवमेव सन्तेके समणब्राह्मणा दिट्ठिगतिका, ते द्वास-
ट्ठिया दिट्ठिगतानं अञ्जतरञ्जतर दिट्ठिगतं गहेत्वा उग्गहेत्वा गण्हित्वा
परामसित्वा अभिनिविसित्वा सकाय सकाय दिट्ठिया वसन्ति सबसन्ति
आवसन्ति परिवसन्ती ति - सक सक दिट्ठिपरिब्बसाना ।

विग्गय्ह नाना कुसला वदन्ती ति । विग्गय्ह ति । गहेत्वा
उग्गहेत्वा गण्हित्वा परामसित्वा अभिनिविसित्वा नाना वदन्ति^१
विविधं वदन्ति अञ्जोञ्ज^१ वदन्ति पुथु वदन्ति, न एक वदन्ति कथेन्ति
भणन्ति दीपयन्ति बोहरन्ति । कुसला ति । कुसलवादा पण्डितवादा
थिरवादा आयवादा हेतुवादा लक्षणवादा कारणवादा ठानवादा सकाय
लद्धिया ति - विग्गय्ह नाना कुसला वदन्ति ।

B. 286

यो एवं जानाति स वेदि धम्मं ति । यो इमं धम्मं दिट्ठि पटि-
पद मग्ग जानाति सो धम्मं वेदि अञ्जासि अपस्सि पटिविज्झी ति
- यो एवं जानाति स वेदि धम्मं ।

१-१. स्या०, रो० पोत्यकेमु नत्थि, एवमुपरि पि । २ वदन्ती ति नाना वदन्ति - स्या०,
रो० । ३ अञ्जमञ्ज - सी० ।

इदं पट्टिकोसमकेवली सो ति । यो इमं धम्मं दिट्ठि पट्टि-
पदं मग्गं पट्टिकोसति, अकेवली सो असमत्तो सो अपरिपुण्णो सो
हीनो निहीनो ओमको लामको छतुक्को^१ परित्तो ति - इदं पट्टिको-
समकेवली सो । तेनाह सो निम्मितो -

“सकं सकं दिट्ठिपरिब्बसाना,
विग्गय्ह नाना कुसला वदन्ति ।
यो एवं जानाति स वेदि धम्मं,
इदं पट्टिकोसमकेवली सो” ति ॥

5

११४. एवं पि विग्गय्ह विवादयन्ति,
बालो परो अक्कुसलो^२ ति चाहू ।
सच्चो नु वादो कतमो इमेसं,
सब्बेव हीमे कुसलावदाना ॥

10

एवं पि विग्गय्ह विवादयन्ती ति । एवं गहेत्वा उग्गहेत्वा
गण्हित्वा परामसित्वा अभिनिविसित्वा विवादयन्ति, कलहं करोन्ति,
भण्डनं करोन्ति, विग्गहं करोन्ति, विवादं करोन्ति, भेघगं करोन्ति -
“न त्वं इमं धम्मविनयं आजानासि...पे०...निब्बेठेहि^३ वा सचे प्होसी”
ति - एवं पि विग्गय्ह विवादयन्ति ।

B 222

15

बालो परो अक्कुसलो ति चाहू ति । परो बालो हीनो निहीनो
ओमको लामको छतुक्को परित्तो अकुसलो अविद्धा^४ अविज्जागतो
अञ्जाणी अविभावी दुप्पञ्चो ति, एवमाहंसु एवं कथेन्ति एवं
भणन्ति एवं दीपयन्ति एवं बोहरन्ती ति - बालो परो अक्कुसलो ति
चाहू ।

20 R 237

सच्चो नु वादो कतमो इमेसं ति । इमेसं समणब्राह्मणानं
वादो कतमो सच्चो तच्छो तथो भूतो याथावो अविपरीतो ति -
सच्चो नु वादो कतमो इमेसं ।

25

सब्बेव हीमे कुसलावदाना ति । सब्बेविमे^५ समणब्राह्मणा
कुसलवादा पण्डितवादा थिरवादा आयवादा हेतुवादा लक्षणवादा

१. जतुक्को - सी०, स्या०, रो०, एवमुपरि पि । २ अकुसलो - स्या०, रो० । ३
निब्बेठेहि - स्या०, रो० । ४ अविद्धा - स्या० । ५ सब्बे पि इमे - सी० ।

कारणवादा ठानवादा सकाय लद्धिया ति - सव्वेव हीमे कुसलावदाना ।
तेनाह' सो निम्मित्तो -

“एवं पि विग्गय्ह विवादयन्ति,^१
बालो परो अक्कुसलो ति चाहु ।
सच्चो नु वादो कतमो इमेस,
सव्वेव हीमे कुसलावदाना” ति ॥

११५. परस्स चे^१ धम्ममनानुजानं,
बालोमको होति निहीनपञ्जो ।
सव्वेव बाला सुनिहीनपञ्जा,
सव्वेविमे दिट्ठिपरिव्वसाना^२ ॥

परस्स चे धम्ममनानुजानं ति । परस्स धम्मं दिट्ठि पटिपद
मगं अनानुजानन्तो^३ अनानुपस्सन्तो^४ अनानुमनन्तो^५ अनानुमञ्चन्तो^६
अनानुमोदन्तो ति - परस्स चे धम्ममनानुजानं ।

D. 223

बालोमको होति निहीनपञ्जो ति । परो बालो होति हीनो
निहीनो ओमको लामको छतुक्को परित्तो, हीनपञ्जो निहीनपञ्जो
ओमकपञ्जो लामकपञ्जो छतुक्कपञ्जो परित्तपञ्जो ति - बालोमको
होति निहीनपञ्जो ।

R. 288

सव्वेव बाला सुनिहीनपञ्जा ति । सव्वेविमे समणब्राह्मणा
बाला हीना निहीना ओमका लामका छतुक्का परित्ता, सव्वेव हीन-
पञ्जा निहीनपञ्जा ओमकपञ्जा लामकपञ्जा छतुक्कपञ्जा परित्त-
पञ्जा ति - सव्वेव बाला सुनिहीनपञ्जा ।

सव्वेविमे दिट्ठिपरिव्वसाना ति । सव्वेविमे समणब्राह्मणा
दिट्ठिगतिका; ते द्वासट्ठिया दिट्ठिगतानं अञ्जतरञ्जतरदिट्ठिगतं गहेत्वा
उग्गहेत्वा गण्हित्वा परामसित्वा अभिनिविसित्वा सकाय सकाय
दिट्ठिया वसन्ति सवसन्ति आवसन्ति परिवसन्ति । यथा अगारिका
वा घरेसु वसन्ति, सापत्तिका वा आपत्तीसु वसन्ति, सकिलेसा वा

१ तेनाह - रो० । २ विवादियन्ति - रो० । ३ वे - स्या०, रो० । ४ दिट्ठि-
परिव्वसाना - म० । ५ अननु० - सी०, एवमुपरि पि । ६ स्या०, रो० पोत्वकेसु नत्थि ।

किलेसेसु वसन्ति, एवमेव सब्बेविमे समणब्राह्मणा दिट्ठिगतिका ...पे०...
परिवसन्ती ति - सब्बेविमे दिट्ठिपरिब्वसाना। तेनाह भगवा -

“परस्स चे धम्ममनानुजानं,
बालोमको होति निहीनपञ्जो।
सब्बेव बाला सुनिहीनपञ्जा,
सब्बेविमे दिट्ठिपरिब्वसाना” ति ॥

११६. सन्दिट्ठिया चेव' नवीवदाता',
संसुद्धपञ्जा कुसला मुतीमा'।
न तेसं कोचि परिहीनपञ्जो,
दिट्ठी हि तेसं पि तथा समत्ता ॥

सन्दिट्ठिया चेव नवीवदाता ति। सकाय दिट्ठिया सकाय
खन्तिया सकाय रुचिया सकाय लद्धिया अनवीवदाता अवोदाता'
अपरियोदाता संकिलिद्धा संकिलेसिका ति - सन्दिट्ठिया चेव नवीव-
दाता।

संसुद्धपञ्जा कुसला मुतीमा ति। सुद्धपञ्जा विसुद्धपञ्जा 15 B 289
परिसुद्धपञ्जा वोदातपञ्जा परियोदातपञ्जा। अथ वा, सुद्धदस्सना
विसुद्धदस्सना परिसुद्धदस्सना वोदातदस्सना परियोदातदस्सना ति -
संसुद्धपञ्जा। कुसला ति। कुसला पण्डिता पञ्चवन्तो इद्धिमन्तो'
आणिनो विभाविनो मेघाविनो ति - संसुद्धपञ्जा कुसला। मुतीमा ति।
मुतीमा पण्डिता पञ्चवन्तो इद्धिमन्तो आणिनो विभाविनो मेघाविनो 20
ति - संसुद्धपञ्जा कुसला मुतीमा।

तेसं न कोचि परिहीनपञ्जो ति। तेसं समणब्राह्मणानं न
कोचि हीनपञ्जो निहीनपञ्जो ओमकपञ्जो लामकपञ्जो छतुक्क-
पञ्जो परित्तपञ्जो अत्थि। सब्बेव सेट्टुपञ्जा विसिट्ठुपञ्जा पामोक्ख-
पञ्जा उत्तमपञ्जा पवरपञ्जा ति - तेसं न कोचि परिहीनपञ्जो। 25

दिट्ठी हि तेसं पि तथा समत्ता ति। तेसं समणब्राह्मणानं
दिट्ठि तथा समत्ता समादिन्ना गहिता परामट्ठा अभिनिविट्ठा अञ्जो-

१-१. चेव नवीवदाता - सी०, चे पन वीवदाता - स्या०, रो०। २ मतीमा - स्या०,
रो०। ३ स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि। ४ बुद्धिमन्तो - सी०, स्या०, रो०, एवमुपरि पि।

सिता अधिमुत्ता ति—दिट्ठी हि तेसं पि तथा समत्ता। तेनाह
भगवा—

“सन्दिट्ठिया चैव नवीवदाता,
संसुद्धपञ्जा कुसला मुतीमा।
5 तेसं न कोचि परिहीनपञ्जो,
दिट्ठी हि तेसं पि तथा समत्ता” ति ॥

११७. न वाहमेतं तथियं ति ब्रूमि,
यमाहु बाला मिथु अञ्जमञ्जं।
सकं सकं दिट्ठिमकंसु सच्चं,
10 तस्मा हि बालो ति परं दहन्ति ॥

R. 290

न वाहमेतं तथियं ति ब्रूमी ति। ना ति। पटिक्खेपो। एतं ति।
“द्वासट्ठि दिट्ठिगतानि^१ नाहं एतं तच्छ तथं भूतं याथावं अविपरीत”
ति ब्रूमि आचिक्खामि देसेमि पञ्जपेमि पट्टपेमि विवरामि विभजामि
उत्तानीकरोमि पकासेमी ति—न वाहमेत तथियं ति ब्रूमि।

15 यमाहु बाला मिथु अञ्जमञ्जं ति। मिथू ति। द्वे जना,
द्वे कलहकारका, द्वे भण्डनकारका, द्वे भस्सकारका, द्वे विवादकारका,
द्वे अधिकरणकारका, द्वे वादिनो, द्वे सल्लपका^४, ते अञ्जमञ्ज
B 225 बालो^३ हीनो निहीनो ओमको लामको छतुक्को परित्तो^५ ति, एव-
माहंसु एवं कथेन्ति एवं भणन्ति एवं दीपयन्ति^६ एवं वोहरन्ती ति—
20 यमाहु बाला मिथु अञ्जमञ्जं।

सकं सकं दिट्ठिमकंसु सच्चं ति। “सस्सतो लोको, इदमेव
सच्चं मोघमञ्जं” ति—सकं सकं दिट्ठिमकंसु सच्चं। “असस्सतो लोको,
इदमेव सच्चं मोघमञ्जं” ति...पे०.. “नेव होति न न होति तथागतो पर
मरणा, इदमेव सच्चं मोघमञ्जं” ति—सकं सकं दिट्ठिमकंसु सच्चं।
25 तस्मा हि बालो ति परं दहन्ती ति। तस्मा ति। तस्मा
तंकारणा तंहेतु तप्पच्चया तंनिदाना परं बालो हीनो निहीनो ओमको

१-१ तथिवन्ति—स्या०, रो०; एवमुपरि पि। २. दिट्ठिगतानि—स्या०, रो०।
३. अविपरित्तं—रो०। ४. सल्लापका—सी०, स्या०, रो०। ५. बालो—सी०, एवमुपरि
पि। ६-६ परित्ततो—सी०। ७-७ सी० पोत्वके नत्वि।

लामको छतुक्को परित्तो ति दहन्ति पस्सन्ति दक्खन्ति ओलोकन्ति
निज्झायन्ति उपपरिक्खन्ती ति - तस्मा हि बालो ति परं दहन्ति ।
तेनाह भगवा -

“न वाहमेतं तथियं ति ब्रूमि,
यमाहु बाला मिथु अञ्जमञ्जं ।
सकं सकं दिट्ठिमकंसु सच्चं,
तस्मा हि बालो ति परं दहन्ती” ति ॥

5

११८. यमाहु सच्चं तथियं ति एके,
तमाहु अञ्जे पि' तुच्छं मुसा ति ।
एवं पि विग्गय्ह विवादयन्ति,
कस्मा न एकं समणा वदन्ति ॥

R 291

10

यमाहु सच्चं तथियं ति एके ति । यं धम्मं दिट्ठि पटिपदं
मग्गं एके समणब्राह्मणा “इदं सच्चं तच्छं तथं भूतं याथावं अविप-
रीतं” ति, एवमाहंसु एवं कथेन्ति एवं भणन्ति एवं दीपयन्ति एवं
वोहरन्ती ति - यमाहु सच्चं तथियं ति एके ।

15

तमाहु अञ्जे पि तुच्छं मुसा ती ति । तमेव धम्मं दिट्ठि पटि-
पदं मग्गं एके समणब्राह्मणा “तुच्छं एतं, मुसा एतं, अभूतं एतं, अलिकं
एतं, अयाथावं एतं” ति, एवमाहंसु एवं कथेन्ति एवं भणन्ति एवं
दीपयन्ति एवं वोहरन्ती ति - तमाहु अञ्जे पि तुच्छं मुसा ति ।

एवं पि विग्गय्ह विवादयन्ती ति । एवं गहेत्वा उग्गहेत्वा
गण्हित्वा परामसित्वा अभिनिविसित्वा विवादयन्ति, कलहं करोन्ति,
भण्डनं करोन्ति, विग्गहं करोन्ति, विवादं करोन्ति, मेधगं करोन्ति -
“न त्वं इमं धम्मविनयं आजानासि...पे०...निब्बेठेहि' वा सचे पहोसी”
ति - एवं पि विग्गय्ह विवादयन्ति ।

20

B 226

कस्मा न एकं समणा वदन्ती ति । कस्मा ति । कस्मा कि-
कारणा किहेतु किपच्चया किनिदाना किसमुदया किजातिका कि-

25

१. सी० पोत्यके नत्थि । २ विवादयन्ति - रो० । ३ स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि ।
४ एत तुच्छं - स्या०, रो० । ५ स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि । ६ निब्बेठेहि - स्या०,
रो०; एवमुपरि पि ।

पभवा न एक वदन्ति नाना वदन्ति विविधं वदन्ति अञ्जोञ्जं वदन्ति
पुथु वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ती ति - कस्मा न
एकं समणा वदन्ति । तेनाह सो निम्मितो -

R 292

5

“यमाहु सच्चं तथियं ति एके,
तमाहु अञ्जे पि तुच्छं मुसा ति ।
एत्र पि विग्गह् विवादयन्ति,
कस्मा न एकं समणा वदन्ती” ति ॥

10

११९. एकं हि सच्चं न दुतीयमत्थि,
यस्मि पजा नो विवदे पजानं ।
नाना ते सच्चानि सयं थुनन्ति,
तस्मा न एकं समणा वदन्ति ॥

16

एकं हि सच्चं न दुतीयमत्थी^१ ति । एकं सच्चं वुच्चति
दुक्खनिरोधो निव्वानं । यो सो सव्वसङ्गारसमथो सव्वुपधिपटि-
निस्सग्गो^२ तण्हक्खयो विरागो निरोधो निव्वानं । अथ वा, एकं
सच्चं वुच्चति - भग्गसच्चं, निव्व्यानसच्चं, दुक्खनिरोधगामिनी पटि-
पदा, अरियो अट्टङ्गिको मग्गो, सेय्यधिदं - सम्मादिट्ठि, सम्मासङ्कप्पो,
सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्माबाजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति,
सम्मासमाधी ति - एकं हि सच्चं न दुतीयमत्थि ।

20

यस्मि पजा नो विवदे पजानं ति । यस्मि ति । यस्मि^३
सच्चे । पजा ति । सत्ताधिवचनं । पजानं^४ ति । यं सच्चं पजानन्ता
आजानन्ता विजानन्ता पटिविजानन्ता पटिविज्झन्ता न कलह
करेय्युं,^५ न भण्डनं करेय्युं, न विग्गहं करेय्युं, न विवादं करेय्युं,
न मेधगं करेय्युं, कलहं भण्डनं विग्गहं विवादं मेधगं पजहेय्युं,^६
विनोदेय्युं,^७ व्यन्ति करेय्युं, अनभावं गमेय्युं^८ ति - यस्मि पजा नो
विवदे पजानं ।

25

B 227

नाना ते सच्चानि सयं थुनन्ती ति । नाना ते सच्चानि
सयं थुनन्ति वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ति । “सस्सतो

१ दुतीयमत्थी - सी० । २ सव्वुपधि० - स्या० । ३ यन्हु - स्या०, रो० । ४ पजा -
स्या०, रो० । ५ करेय्य - स्या०, रो०, एवमुपरि पि । ६-६ पजहेय्य विनोदेय्य - स्या०,
रो० । ७ गमेय्या ति - स्या०, रो० ।

लोको, इदमेव सच्चं मोघमञ्जं” ति सयं थुनन्ति वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ति। “असस्सतो लोको...पे०...नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा, इदमेव सच्चं मोघमञ्जं” ति सयं थुनन्ति वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ती ति - नाना ते सच्चानि सयं थुनन्ति।

तस्मा न एकं समणा वदन्ती ति। तस्मा ति। तस्मा तंका-
रणा तंहेतु तप्पच्चया तंनिदाना न एकं वदन्ति नाना वदन्ति विविधं
वदन्ति अञ्जोञ्जं^१ वदन्ति पुथु वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति
वोहरन्ती ति - तस्मा न एकं समणा वदन्ति। तेनाह भगवा -

“एकं हि सच्चं न दुतीयमत्थि,
यस्मि पजा नो विवदे पजानं।
नाना ते सच्चानि सयं थुनन्ति,
तस्मा न एकं समणा वदन्ती” ति ॥

१२०. कस्मा नु सच्चानि वदन्ति नाना,
पवादियासे कुसलावदाना।
सच्चानि सुत्तानि^२ बहूनि नाना,
उदाहू ते तक्कमनुस्सरन्ति ॥

कस्मा नु सच्चानि वदन्ति नाना ति। कस्मा ति। कस्मा
किंकारणा किहेतु किपच्चया किनिदाना सच्चानि नाना वदन्ति,
विविधानि वदन्ति, अञ्जोञ्जानि वदन्ति, पुथुनि वदन्ति कथेन्ति
भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ती ति - कस्मा नु सच्चानि वदन्ति नाना।

पवादियासे कुसलावदाना ति। पवादियासे ति। विप्पवदन्ती
ति पि पवादियासे। अथ वा, सकं सकं दिट्ठिगतं पवदन्ति कथेन्ति
भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ति। “सस्सतो लोको, इदमेव सच्चं मोघ-
मञ्जं” ति पवदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ति। “अस-
स्सतो लोको...पे०...नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा,
इदमेव सच्चं मोघमञ्जं” ति पवदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति
वोहरन्ति।

१ अञ्जमञ्ज - सी०। २ सुत्तानि - स्या०, रो०।

B. 228,
R. 294

कुसलावदाना ति । कुसलावादा पण्डितवादा धिरवादा^१ भाष-
वादा^२ हेतुवादा लक्षणवादा कारणवादा ठानवादा सकाय लद्धिया
ति - पवादियासे कुसलावदाना ।

सच्चानि सुतानि बहूनि नाना ति । सच्चानि सुतानि बहु-
५ कानि^३ नानानि विविधानि अञ्जोञ्जानि पुथूनी ति - सच्चानि सुतानि
बहूनि नाना ।

उदाहृ ते तक्कमनुस्सरन्ती ति । उदाहृ तक्केन^४ सङ्कप्पेन
यायन्ति नीयन्ति^५ बृहन्ति संहरीयन्ती ति । एवं पि उदाहृ ते तक्क-
मनुस्सरन्ति । अथ वा, तक्कपरियाहृत्^६ वीमंसानुचरितं सयं पटिमान
10 वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति बोहरन्ती ति । एव पि उदाहृ ते
तक्कमनुस्सरन्ति । तेनाह सो निम्मितो -

“कस्मा नु सच्चानि वदन्ति नाना,
पवादियासे कुसलावदाना ।

सच्चानि सुतानि बहूनि नाना,
उदाहृ ते तक्कमनुस्सरन्ती” ति ॥
15

१२१. न हेव सच्चानि बहूनि नाना,
अञ्जत्र सञ्जाय निच्चानि लोके ।
तक्कं च विट्ठीसु पकप्पयित्वा,
सच्चं मुसा ति ह्वयधम्ममाहृ ॥

न हेव सच्चानि बहूनि नाना ति । न हेव सच्चानि बहुकानि
20 नानानि विविधानि अञ्जोञ्जानि पुथूनी ति - न हेव सच्चानि बहूनि
नाना ।

अञ्जत्र सञ्जाय निच्चानि लोके ति । अञ्जत्र सञ्जाय
निच्चग्गाहा^१ एकञ्जेव सच्चं लोके कथीयति भणीयति दीपीयति
25 बोहरीयति - दुक्खनिरोधो निब्बानं । यो सो सब्बसङ्खारसमथो
सब्बूपधिपटिनिस्सग्गो तण्हक्खयो विरागो निरोधो निब्बान । अथ वा,

१-१ धीरवादा भाषवादा - स्या०, रो०, एवमुपरि पि । २ बहूनि - स्या०, रो० ।
३ तक्केन वितक्केन - सी०, स्या०, रो० । ४ नियन्ति - स्या०, रो० । ५ तक्कपरियाहृत् -
स्या० । ६ निच्चग्गाहा - सी०, रो० ।

एकं सच्चं वुच्चति मग्गसच्चं, निय्यानसच्चं, दुक्खनिरोधगामिनी पटि-
पदा, अरियो अट्टङ्गिको मग्गो, सेय्यथिदं - सम्मादिट्ठि ...पे०... सम्मा-
समाधी ति - अञ्जत्र सञ्जाय निच्चानि लोके ।

B. 295

तक्कं च दिट्ठीसु पकप्पयित्वा सच्चं मुसा ति द्वयधम्ममाह
ति । तक्कं वितक्कं सङ्कप्पं तक्कयित्वा वितक्कयित्वा सङ्कप्पयित्वा 5
दिट्ठिगतानि जनेन्ति सञ्जनेन्ति निब्बत्तेन्ति अभिनिब्बत्तेन्ति । दिट्ठि-
गतानि जनेत्वा सञ्जनेत्वा निब्बत्तेत्वा अभिनिब्बत्तेत्वा "मय्हं
सच्चं तुय्हं मुसा" ति, एवमाहंसु एवं कथेन्ति एवं भणन्ति एवं
दीपयन्ति एवं बोहरन्ती ति - तक्कं च दिट्ठीसु पकप्पयित्वा सच्चं
मुसा ति द्वयधम्ममाह । तेनाह भगवा -

B. 229

10

"न हेव सच्चानि बहूनि नाना,
अञ्जत्र सञ्जाय निच्चानि लोके ।
तक्कं च दिट्ठीसु पकप्पयित्वा,
सच्चं मुसा ति द्वयधम्ममाहू" ति ॥

१२२. दिट्ठे सुते सीलवते मुते वा,
एते च^१ निस्साय विमानदस्सी ।
विनिच्छये ठत्वा पहस्समानो^२,
बालो परो अक्कुसलो^३ ति चाह ॥

15

दिट्ठे सुते सीलवते मुते वा एते च निस्साय विमानदस्सी
ति । दिट्ठं वा दिट्ठसुद्धिं वा, सुतं वा सुतसुद्धिं वा, सीलं वा सील- 20
सुद्धिं वा, वत्तं वा वत्तसुद्धिं वा, मुतं वा मुतसुद्धिं वा निस्साय उप-
निस्साय गण्हित्वा परामसित्वा अभिनिविसित्वा ति - दिट्ठे सुते
सीलवते मुते वा । एते च निस्साय विमानदस्सी ति । न सम्मानेती
ति पि विमानदस्सी । अथ वा, दोमनस्सं जनेती ति पि विमानदस्सी
ति - दिट्ठे सुते सीलवते मुते वा एते च निस्साय विमानदस्सी । 25

विनिच्छये ठत्वा पहस्समानो ति । विनिच्छया वुच्चन्ति
द्वासट्ठि दिट्ठिगतानि । दिट्ठिविनिच्छये^४ विनिच्छयदिट्ठिया^५ ठत्वा पतिट्ठ-

R 296

१ सेय्यथिदं - सी०, स्या०, रो० । २-२ एतेषु - सी०; एवमुपरि पि । ३. पहंस-
मानो - सी० । ४. अक्कुसलो - स्या०, रो० । ५. दिट्ठिसुद्धिं - रो० । ६. वत्तं - स्या०, रो०;
एवमुपरि पि । ७. स्या० पोत्यके नत्थि । ८. विनिच्छयदिट्ठिया - स्या०, रो० ।

हित्वा गणित्वा परामसित्वा अभिनिवसित्वा ति - विनिच्छये
ठत्वा । पहस्समानो ति । तुट्ठो होति हट्ठो पहट्ठो अत्तमनो परि-
पुण्णसङ्कप्पो । अथ वा, दन्तविदंसकं पहस्समानो ति - विनिच्छये
ठत्वा पहस्समानो ।

६ बालो परो अक्कुसलो ति चाहा ति । परो बालो हीनो
निहीनो ओमको लामको छतुक्को परित्तो अक्कुसलो अविद्धा^१ अविज्जा-
गतो अञ्जाणी अविभावी अमेघावी^२ दुप्पञ्जो ति, एवमाह एवं
कथेति एवं भणति एवं दीपयति एवं वोहरती ति - बालो परो
अक्कुसलो ति चाह । तेनाह भगवा -

B. 230 10

“दिट्ठे सुते सीलवते मुते वा,
एते च निस्साय विमानदस्सी ।
विनिच्छये ठत्वा पहस्समानो,
बालो परो अक्कुसलो ति चाहा” ति ॥

15

१२३. येनेव बालो ति परं दहाति,
तेनातुमानं कुसलो ति चाह ।
सयमत्तना सो कुसलावदानो,^३
अञ्जं विमानेति तदेव^४ पावा^५ ॥

येनेव बालो ति परं दहाती ति । येनेव^६ हेतुना येन पच्चयेन^७
येन कारणेन येन पभवेन परं बालतो हीनतो निहीनतो ओमकतो
२० लामकतो छतुक्कतो परित्ततो दहति^८ पस्सति दक्खति ओलोकंति
निज्झायति उपपरिक्खती ति - येनेव बालो ति परं दहाति ।

B. 297

तेनातुमानं कुसलो ति चाहा ति । आतुमानो^९ बुच्चति अत्ता ।
सो पि तेनेव हेतुना तेन पच्चयेन तेन कारणेन तेन पभवेन अत्तानं^{१०}
अहमस्मि कुसलो पण्डितो पञ्जवा बुद्धिमा ञ्जाणी विभावी मेघावी
२५ ति - तेनातुमानं कुसलो ति चाह ।

१. पहस्समानो - सी०; हस्समानो - स्या०, रो० । २. अविद्धा - स्या०, एवमुपरि
पि । ३. स्या० पोत्यके नस्यि । ४. कुसलोवदानो - स्या०, रो० । ५. तयेव - स्या०, रो० ।
६. पावव - सी०, पाव - म० । ७. येन - स्या०, रो० । ८. पच्चयेन - सी० । ९. दहाति -
सी० । १०. आतुमा - स्या०, रो० । ११. अत्तानं आह - स्या०, रो० ।

सयमत्तना सो कुसलावदानो ति। सयमेव^१ अत्तानं कुसल-
वादो पण्डितवादो थिरवादो आयवादो हेतुवादो लक्खणवादो कारण-
वादो ठानवादो सकाय लद्धिया ति—सयमत्तना सो कुसलावदानो।

अञ्जं विमानेति तदेव पावा ति। न सम्मानेती ति पि
अञ्जं विमानेति। अथ वा, दोमनस्सं जनेती ति पि अञ्जं विमानेति। 5
तदेव पावा ति। तदेव तं दिट्ठिगतं पावदति “इतिपायं” पुग्गलो
मिच्छादिट्ठिको विपरीतदस्सनो” ति—अञ्जं विमानेति तदेव पावा”।
तेनाह भगवा—

“थेनेव बालो ति परं दहाति,
तेनातुमानं कुसलो ति चाह। 10
सयमत्तना सो कुसलावदानो,
अञ्जं विमानेति तदेव पावा” ति॥

१२४. अतिसारदिट्ठिया^१ सो समत्तो, R. 281
मानेन मत्तो परिपुण्णमानो।
सयमेव सामं मनसाभिसित्तो, 15
दिट्ठी हि सा तस्स तथा समत्ता॥

अतिसारदिट्ठिया सो समत्तो ति। अतिसारदिट्ठियो वुच्चन्ति
द्वासट्ठि दिट्ठिगतानि। किंकारणा अतिसारदिट्ठियो वुच्चन्ति द्वासट्ठि
दिट्ठिगतानि? सब्बा ता दिट्ठियो कारणातिक्कन्ता लक्खणातिक्कन्ता
ठानातिक्कन्ता^२, तंकारणा अतिसारदिट्ठियो वुच्चन्ति द्वासट्ठि दिट्ठि- 20
गतानि। सब्बा^३ पि दिट्ठियो अतिसारदिट्ठियो^४। किंकारणा सब्बा पि
दिट्ठियो वुच्चन्ति^५ अतिसारदिट्ठियो? ते अञ्जमञ्जं अतिक्कमित्त्वा
समतिक्कमित्त्वा वीतिवत्तित्वा^६ दिट्ठिगतानि जनेन्ति सञ्जनेन्ति
निब्बत्तेन्ति अभिनिब्बत्तेन्ति, तंकारणा सब्बा पि दिट्ठियो वुच्चन्ति
अतिसारदिट्ठियो^७। अतिसारदिट्ठिया सो समत्तो ति। अतिसार- 25
दिट्ठिया समत्तो परिपुण्णो अनोमो^८ ति—अतिसारदिट्ठिया सो समत्तो।

१. सयं—स्या०, रो०। २. इतिवाय—सी०; इतिपर्यं—रो०। ३. विपरित्तदस्सनो—
रो०। ४. पावद—म०। ५. अतीसरदिट्ठिया—स्या०, रो०। ६. हीनातिक्कन्ता—स्या०, रो०।
७-७ सब्बे पि तित्थिया अतिसारदिट्ठिया—स्या०, रो०। ८. स्या०, रो० पोत्थकेषु नत्थि।
९. वीतिवत्तित्वा—स्या०, रो०। १०. स्या०, रो० पोत्थकेषु नत्थि। ११. अनेमो—सी०।

मानेन मत्तो परिपुण्णमानी ति । सकाय विट्ठिया विट्ठिमानेन' मत्तो पमत्तो उम्मत्तो अतिमत्तो' ति - मानेन मत्तो । परिपुण्णमानी ति । परिपुण्णमानी समत्तमानी अनोममानी ति - मानेन मत्तो परिपुण्णमानी ।

5 सयमेव सामं मनसाभिसित्तो ति । सयमेव अत्तानं चित्तेन अभिसिञ्चति "अहमस्मि कुसलो पण्डितो पञ्चवा बुद्धिमा वाणी विभावी मेधावी" ति - सयमेव सामं मनसाभिसित्तो ।

विट्ठी हि सा तस्स तथा समत्ता ति । तस्स सा विट्ठि तथा समत्ता समादिन्ना गहिता परामट्ठा अभिनिविट्ठा अञ्जोसिता अधि-
10 मुत्ता ति - विट्ठी हि सा तस्स तथा समत्ता । तेनाह भगवा -

"अतिसारविट्ठिया सो समत्तो,
मानेन मत्तो परिपुण्णमानी ।
सयमेव सामं मनसाभिसित्तो,
विट्ठी हि सा तस्स तथा समत्ता" ति ॥

B. 232 15

१२५. परस्स चे हि वचसा निहीनो,
तुमो सहा होति निहीनपञ्जो ।
अथ चे' सयं वेदगू होति धीरो,
न कोचि वालो समणेषु अत्थि ॥

E. 209

परस्स चे हि वचसा निहीनो ति । परस्स चे वाचाय वचनेन
20 निन्दितकारणा गरहितकारणा उपवदितकारणा परो वालो होति हीनो
निहीनो ओमको लामको छतुक्को परित्तो ति - परस्स चे हि वचसा
निहीनो । तुमो सहा होति निहीनपञ्जो ति । सो पि तेनेव सहा
होति हीनपञ्जो निहीनपञ्जो ओमकपञ्जो लामकपञ्जो छतुक्कपञ्जो
परित्तपञ्जो ति - तुमो सहा होति निहीनपञ्जो ।

25 अथ चे सयं वेदगू होति धीरो ति । अथ चे सयं वेदगू होति
धीरो पण्डितो पञ्चवा बुद्धिमा वाणी विभावी मेधावी ति - अथ
चे सयं वेदगू होति धीरो ।

१. मानेन - स्या०, रो० । २. अविमत्तो - स्या०, रो० । ३. वा - स्या०, रो० ।
४. सह - स्या०, रो० ।

न कोचि बालो समणेसु अत्थी ति । समणेसु न कोचि बालो
हीनो निहीनो ओमको लामको छतुक्को परित्तो अत्थि, सब्बेव सेट्ट-
पञ्जा^१ विसिट्ठपञ्जा पामोक्खपञ्जा उत्तमपञ्जा पवरपञ्जा ति - न
कोचि बालो समणेसु अत्थि । तेनाह भगवा -

“परस्स चे हि वचसा निहीनो,
तुमो सहा होति निहीनपञ्जो ।
अथ चे सयं वेदगू होति धीरो,
न कोचि बालो समणेसु अत्थी” ति ॥

5

१२६. अञ्जं इतो याभिवदन्ति धम्मं,
अपरद्धा सुद्धिमकेवली ते ।
एवं पि तित्थ्या पुथुसो वदन्ति,
सन्दिट्ठिरागेन हि तेभिरत्ता^२ ॥

10

अञ्जं इतो याभिवदन्ति धम्मं अपरद्धा सुद्धिमकेवली ते ति ।
इतो अञ्जं धम्मं दिट्ठि पटिपदं मग्गं ये अभिवदन्ति, ते सुद्धिमग्गं
विसुद्धिमग्गं परिसुद्धिमग्गं वोदातमग्गं परियोदातमग्गं विरद्धा अप-
रद्धा खलिता गलिता अञ्जाय अपरद्धा अकेवली ते, असमत्ता ते,
अपरिपुण्णा ते, हीना निहीना ओमका लामका छतुक्का परित्ता ति
- अञ्जं इतो याभिवदन्ति धम्मं अपरद्धा सुद्धिमकेवली ते ।

B. 300

15

B 233

एवं पि तित्थ्या पुथुसो वदन्ती ति । तित्थं वुच्चति दिट्ठि-
गतं । तित्थिया वुच्चन्ति दिट्ठिगतिका । पुथुदिट्ठिया पुथुदिट्ठिगतानि
वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ती ति - एवं पि तित्थ्या
पुथुसो वदन्ति ।

20

सन्दिट्ठिरागेन हि तेभिरत्ता ति । सकाय दिट्ठिया दिट्ठि-
रागेन रत्ता अभिरत्ता ति - सन्दिट्ठिरागेन हि तेभिरत्ता । तेनाह
भगवा -

25

“अञ्जं इतो याभिवदन्ति धम्मं,
अपरद्धा सुद्धिमकेवली ते ।

१ अगपञ्जा सेट्ठपञ्जा - स्या०, रो० । २ त्याभिरत्ता - स्या०, रो०: एवमु-
परिपि ।

एवं पि तित्थ्या पुथुसो वदन्ति,
सन्दिट्टिरागेन हि तेभिरत्ता' ति ॥

१२७. इधेव सुद्धिं इति वादयन्ति',
नाञ्जेसु धम्मसेसु विसुद्धिमाह ।
एवं पि तित्थ्या पुथुसो निविट्ठा,
सकायने तत्थ दळ्हं वदाना ॥

इधेव सुद्धिं इति वादयन्ती ति । इध सुद्धिं विसुद्धिं परिसुद्धिं,
मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति बोहरन्ति ।
“सस्सतो लोको, इदमेव सच्चं मोघमञ्जं” ति इध सुद्धिं विसुद्धिं
परिसुद्धिं, मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति
बोहरन्ति । “असस्सतो लोको...पे०...नेव होति न न होति तथागतो
परं मरणा, इदमेव सच्चं मोघमञ्जं” ति इध सुद्धिं विसुद्धिं परिसुद्धिं
मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति बोहरन्ती
ति - इधेव सुद्धिं इति वादयन्ति ।

नाञ्जेसु धम्मसेसु विसुद्धिमाह ति । अत्तनो सत्थारं धम्म-
क्खानं गणं दिट्ठि पटिपदं मग्गं ठपेत्वा सब्बे परवादे खिपन्ति उक्खि-
पन्ति परिक्षिपन्ति । “सो सत्था न सब्बञ्जू, धम्मो न स्वाक्खातो,
गणो न सुप्पटिपन्नो,^१ दिट्ठि न भट्ठिका, पटिपदा न सुपञ्जत्ता, मग्गो
न निय्यानिको, नत्थेत्थ सुद्धि वा विसुद्धि वा परिसुद्धि वा, मुत्ति
वा विमुत्ति वा परिमुत्ति वा, नत्थेत्थ^२ सुज्झन्ति वा विसुज्झन्ति वा
परिसुज्झन्ति वा, मुच्चन्ति वा विमुच्चन्ति वा परिमुच्चन्ति वा
हीना निहीना ओमका लामका छतुक्का परित्ता” ति, एवमाहसु एवं
कथेन्ति एवं भणन्ति एवं दीपयन्ति एवं बोहरन्ती ति - नाञ्जेसु
धम्मसेसु विसुद्धिमाह ।

एवं पि तित्थ्या पुथुसो निविट्ठा ति । तित्थं वुच्चति विट्ठि-
गतं । तित्थिया वुच्चन्ति दिट्ठिगतिका । पुथुदिट्ठिया पुथुदिट्ठिगतेसु
निविट्ठा पतिट्ठिता अल्लीना उपगता अज्झासिता अधिमुत्ता ति -
एवं पि तित्थ्या पुथुसो निविट्ठा ।

१ वादयन्ति - रो०, एवमुपरि पि । २ सुपटिपन्नो - स्या०, रो० । ३ नत्थ -
स्या० ।

सकायने तत्थ दळ्हं वदाना ति । धम्मो सकायनं, दिट्ठि
सकायनं, पटिपदा सकायनं, मग्गो सकायनं, सकायने दळ्हवादा
थिरवादा बलिकवादा अवट्ठितवादा ति - सकायने तत्थ दळ्हं वदाना ।
तेनाह भगवा -

“इधेव सुद्धिं इति वादयन्ति,
नाञ्जेसु धम्मेषु विसुद्धिमाहु ।
एवं पि तित्थ्या पुथुसो निविट्ठा,
सकायने तत्थ दळ्हं वदाना ” ति ॥

१२८. सकायने वा पि दळ्हं वदानो,
कमेत्थ बालो ति परं दहेय्य ।
सयं व सौ मेधगमावहेय्य,
परं वदं बालमसुद्धिधम्मं ॥

सकायने वा पि दळ्हं वदानो ति । धम्मो सकायनं, दिट्ठि
सकायनं, पटिपदा सकायनं, मग्गो सकायनं, सकायने दळ्हवादा थिर-
वादो बलिकवादो अवट्ठितवादो ति - सकायने वा पि दळ्हं वदानो ।

कमेत्थ बालो ति परं दहेय्या ति । एत्था ति । सकाय
दिट्ठिया सकाय खन्तिया सकाय रुचिया सकाय लद्धिया परं बालतो
हीनतो निहीनतो ओमकतो लामकतो छतुक्कतो परित्ततो कं दहेय्य
कं पस्सेय्य कं दक्खेय्य कं ओलोक्येय्य कं निज्झायेय्य कं उपपरिक्खेय्या
ति - कमेत्थ^१ बालो ति परं दहेय्य ।

सयं व सौ मेधगमावहेय्य परं वदं बालमसुद्धिधम्मं ति ।
परो बालो हीनो निहीनो ओमको लामको छतुक्को परित्तो असुद्धि-
धम्मो अविस्सुद्धिधम्मो अपरिस्सुद्धिधम्मो अवोदात्तधम्मो ति - एवं
वदन्तो एवं कथेन्तो एवं भणन्तो एवं दीपयन्तो एवं वोहरन्तो
सयमेव कलहं भण्डनं विग्गहं विवादं मेधगं आवहेय्य समावहेय्य
आहरेय्य समाहरेय्य आकङ्खेय्य समाकङ्खेय्य गण्हेय्य परामसेय्य अभि
निविसेय्या ति - सयं व सौ मेधगमावहेय्य परं वदं बालमसुद्धिधम्मं ।
तेनाह भगवा -

१ सुद्धि-सी० । २-२ सयमेव-स्सा०, रो० । ३. क तत्थ-सी० ।

“सकायने वा पि दळ्हं वदानो,
कमेत्थ बालो ति परं दहेय्य।
सयं व सो मेधगमावहेय्य,
परं वदं बालमसुद्धिधम्मं” ति ॥

- 5 १२९. विनिच्छये ठत्वा सयं पमाय,
उद्धंस^१ लोकास्मि विवादमेति।
हित्वान् सब्बानि विनिच्छयानि,
न मेधगं कुब्बति^२ जन्तु लोके ॥

R. 203

- विनिच्छये ठत्वा सयं पमाया ति। विनिच्छया वुच्चन्ति
10 द्वासट्ठि दिट्ठिगतानि। विनिच्छयदिट्ठिया ठत्वा पतिट्ठित्वा गण्हित्वा
परामसित्वा अभिनिविसित्वा विनिच्छये ठत्वा। सयं पमाया ति।
सयं पमाय पमिनित्वा। “अयं सत्था सब्बञ्जू” ति सयं पमाय पमि-
नित्वा, “अय धम्मो स्वाक्खातो .. अय गणो सुप्पटिपन्नो ... अयं दिट्ठि
भट्टिका ... अय पटिपदा सुपञ्जत्ता ... अयं मग्गो निय्यानिको” ति सयं
15 पमाय पमिनित्वा ति - विनिच्छये ठत्वा सयं पमाय।

- उद्धंस लोकास्मि विवादमेती ति। उद्धंसो^१ वुच्चति अना-
गतं। अत्तनो वादं उद्धं ठपेत्वा सयमेव कलहं भण्डनं विग्गहं विवाद
मेधगं एति उपेति उपगच्छति गण्हाति परामसति अभिनिविसती ति।
एवं पि उद्धंस लोकास्मि विवादमेति। अथ वा, अञ्जेन उद्धं वादेन
20 सद्धि कलहं करोति भण्डनं करोति विग्गहं करोति विवादं करोति
मेधगं करोति - “न त्व इमं धम्मविनयं आजानासि पे०... निब्बेट्ठेहि
वा सचे पहोसी” ति। एवं पि उद्धंस लोकास्मि विवादमेति।

3. 236

- हित्वान् सब्बानि विनिच्छयानी ति। विनिच्छया वुच्चन्ति
द्वासट्ठि दिट्ठिगतानि। दिट्ठिविनिच्छया सब्बे विनिच्छये हित्वा चजित्वा^३
25 परिच्चजित्वा जहित्वा पजहित्वा विनोदेत्वा व्यन्ति करित्वा अन-
भावं गमेत्वा ति - हित्वान् सब्बानि विनिच्छयानि।

न मेधगं कुब्बति जन्तु लोके ति। न कलहं करोति, न भण्डन
करोति, न विग्गहं करोति, न विवादं करोति, न मेधगं करोति।

१ उद्ध सो - स्या०, रो०। २ कुब्बते - स्या०, रो०। ३ उद्ध - स्या०, रो०। ४
चजित्वा - रो०।

वृत्तं हेतं भगवता — “एवं विमुक्तचित्तो खो, अग्निवेस्सन, भिक्खु न केनचि संवदति, न केनचि विवदति, यं च लोके वृत्तं तेन च बोहरति अपरामसं” ति। जन्तू ति। सत्तो नरो मानवो पोसो पुग्गलो जीवो जागु^१ जन्तु इन्दगु मनुजो। लोके ति। अपायलोके ...पे०... आयतन-लोके ति — न मेघगं कुब्बति जन्तु लोके ति। तेनाह भगवा —

R. 304

“विनिच्छये ठत्वा सयं पमाय,
उद्धंस लोकास्मि विवादमेति।
हित्वान सब्बानि विनिच्छयानि,
न मेघगं कुब्बति जन्तु लोके” ति ॥

चूलवियूहसूतनिर्देशो द्वादसमो ।

१३. महावियूहसूतनिर्देशो

अथ महावियूहसूतनिर्देशं वक्खति —

10

१३०. ये केचिमे दिट्ठिपरिब्बसाना,
इदमेव सच्चं ति च^१ वादयन्ति^२।
सब्बेव ते निन्दमन्वानयन्ति,
अथो पसंसं पि लभन्ति तत्थ ॥

R. 305

ये केचिमे दिट्ठिपरिब्बसाना ति। ये केची ति। सब्बेन सब्बं 15
सब्बथा सब्बं असेसं निस्सेसं परियादियनवचनमेत^३ — ये केची ति।
दिट्ठिपरिब्बसाना ति। सन्तेके समणन्नाहाणा दिट्ठिगतिका; ते द्वास-
द्विया दिट्ठिगतानं अञ्जतरञ्जतरं दिट्ठिगतं गहेत्वा उग्गहेत्वा गण्हित्वा
परामसित्वा अभिनिविसित्वा सकाय सकाय दिट्ठिया वसन्ति संवसन्ति
आवसन्ति परिवसन्ति। यथा अगारिका^४ वा घरेसु वसन्ति, सापत्तिका 20
वा आपत्तीसु वसन्ति, सकिलेसा वा किलेसेसु वसन्ति; एवमेव सन्तेके
...पे०... परिवसन्ती ति — ये केचिमे दिट्ठिपरिब्बसाना।

B. 237

इदमेव सच्चं ति च वादयन्ती ति। “सस्सतो लोको, इदमेव
सच्चं मोघमञ्जं” ति वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति बोहरन्ति।

१. जतु—सो०; जातु—स्या०; जगु—रो०। २-२. पवादयन्ति—स्या०; पवादियन्ति—रो०। ३. परियादायवचनमेत—स्या०, रो०। ४. आगारिका—स्या०, रो०।
म० नि०—३३

३ ३०६

“असस्सतो लोको ...पे०... नेव हीति न न हीति तथागतो परं मरणा,
इदमेव सच्चं मोघमञ्जं” ति वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति बोह-
रन्ती ति—इदमेव सच्चं ति च वादयन्ति ।

सब्बेव ते निन्दमन्वानयन्ती ति । सब्बेव ते समणत्ताह्मणा
५ निन्दमेव अन्वेन्ति, गरहमेव अन्वेन्ति, अकित्तिमेव अन्वेन्ति; सब्बे
निन्दितायेव होन्ति, गरहितायेव होन्ति, अकित्तितायेव होन्ती ति—
सब्बेव ते निन्दमन्वानयन्ति ।

अथो पसंसं पि लभन्ति तत्था ति । तत्थ सकाय दिट्ठिया
सकाय खन्तिया सकाय रुचिया सकाय लद्धिया पसंसं थोमनं किंत्ति
१० वण्हारिकं लभन्ति पटिलभन्ति उपगच्छन्ति' विन्दन्ती ति—अथो
पसंसं पि लभन्ति तत्थ । तेनाह सो निम्मित्तो—

“ये केचिमे दिट्ठिपरिब्बसाना,
इदमेव सच्चं ति च वादयन्ति ।
सब्बेव ते निन्दमन्वानयन्ति,
१५ अथो पसंसं पि लभन्ति तत्था” ति ॥

१३१. अप्पं हि एतं न अलं समाया,
दुवे विवावस्स फलानि ब्रूमि ।
एतं' पि विस्वा न विवावयेथ,
खेमाभिपस्सं अविवावभूमि' ॥

२० अप्पं हि एतं न अलं समाया ति । अप्पं हि एतं ति ।
अप्पकं एतं, ओमकं एतं, थोककं' एतं, लामकं एत, छतुक्कं एतं,
परित्तकं एतं ति—अप्पं हि एतं । न अलं समाया ति । नालं रागस्स
B २३९ समाय, दोसस्स समाय, मोहस्स समाय, कोधस्स ... उपनाहस्स ...
भक्खस्स ... पळासस्स ... इस्साय ... मच्छरियस्स .. मायाय ... साठ्य्यस्स
२५ ... थम्भस्स ... सारम्भस्स .. मानस्स ... अतिमानस्स ... मदस्स ... पमादस्स
R ३०७ .. सब्बकिल्लेसानं ... सब्बदुच्चरितानं ... सब्बदरथानं .. सब्बपरिळाहान
...सब्बसन्तापानं...सब्बाकुसलाभिसङ्खारानं समाय उपसमाय वूपसमाय

१. अविगच्छन्ति—स्या०, रो० । २ एव—रो० । ३ ० भुम्य—स्या०, रो० । ४
थोकं—सी०, स्या०, रो० ।

निब्बानाय पटिनिस्सग्गाय पटिपस्सद्धिया ति - अप्पं हि एतं न अलं समाय ।

दुवे विवादस्स फलानि ब्रूमि ति । दिट्ठिकलहस्स दिट्ठिभण्डनस्स दिट्ठिविग्गहस्स दिट्ठिविवादस्स दिट्ठिमेघगस्स द्वे फलानि होन्ति - जय-पराजयो होति, लाभालाभो होति, यसायसो होति, निन्दापसंसो होति, सुखदुक्खं होति, सोमनस्सदोमनस्सं होति, इट्ठानिट्ठं होति, अनुनयपटिच्चं होति, उग्घातिनिग्घाति होति, अनुरोधविरोधो होति । अथ वा, तं कम्मं निरयसंवत्तनिकं, तिरच्छानयोनिस्संवत्तनिकं, पेत्ति-विसयसंवत्तनिकं^१ ति ब्रूमि आचिक्खामि देसेमि पञ्चपेमि पटुपेमि विवरामि विभजामि उत्तानीकरोमि पकासेमी ति-दुवे विवादस्स फलानि ब्रूमि ।

एतं पि दिस्वा न विवादयेथा ति । एतं पि दिस्वा ति । एतं आदीनवं दिस्वा पस्सित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा दिट्ठिकलहेसु दिट्ठिभण्डनेसु दिट्ठिविग्गहेसु दिट्ठिविवादेसु दिट्ठि-मेघगेसू ति - एतं पि दिस्वा । न विवादयेथा ति । न कलहं करेय्य, न भण्डनं करेय्य, न विग्गहं करेय्य, न विवादं करेय्य, न मेघगं करेय्य, कलहं भण्डनं विग्गहं विवादं मेघगं पजहेय्य विनोदेय्य व्यन्ति करेय्य अनभावं गमेय्य, कलहा भण्डना विग्गहा विवादा मेघगा आरतो अस्स विरतो पटिविरतो निक्खन्तो निस्सटो^२ विप्पमुत्तो विसञ्चुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरेय्या ति - एतं पि दिस्वा न विवादयेथ ।

खेमामिपस्सं अविवादभूमिं ति । अविवादभूमिं वुच्चति अमतं निब्बानं । यो सो सब्बसङ्खारसमथो सब्बूपधिपटिनिस्सग्गो तण्हक्खयो विरागो निरोधो निब्बानं । एतं अविवादभूमिं खेमतो ताणतो लेणतो सरणतो अभयतो अच्चुत्ततो अमततो निब्बानतो पस्सन्तो दक्खन्तो ओलोकेन्तो निज्झायन्तो उपपरिक्खन्तो ति - खेमामिपस्सं अविवाद-भूमिं । तेनाह भगवा -

“अप्पं हि एतं न अलं समाय,
दुवे विवादस्स फलानि ब्रूमि ।

१. पित्ति० - स्या०, रो० । २. निस्सट्ठो - स्या०, रो० ।

एतं पि दिस्वा न विवादयेथ,
खेमाभिपस्सं अविवादभूमिं" ति ॥

१३२. या काचिसा सम्मुतियो^१ पुथुज्जा,
सब्बा व एता न उपेति विद्वा ।
अनूपयो सो उपयं किमेय्य,
दिट्ठे सुते खन्तिमकुब्बमानो ॥

या काचिसा सम्मुतियो पुथुज्जा ति । या काची ति । सब्बेन
सब्बं सब्बथा सब्बं असेसं निस्सेसं परियादियनवचनमेतं - या काची ति ।
सम्मुतियो ति । सम्मुतियो वुच्चन्ति द्वासट्ठि दिट्ठिगतानि दिट्ठिसम्मु-
१० तियो । पुथुज्जा ति । पुथुज्जनेहि जनिता^२ सम्मुतियो ति पुथुज्जा,
पुथु नानाजनेहि जनिता वा^३ सम्मुतियो ति पुथुज्जा ति - या काचिसा
सम्मुतियो पुथुज्जा ।

सब्बा व एता न उपेति विद्वा ति । विद्वा विज्जागतो भाणी
विभावी मेधावी । सच्चा व एता दिट्ठिसम्मुतियो नेति न उपेति न
१६ उपगच्छति न गण्हाति न परामसति नाभिनिविसती ति - सब्बा व
एता न उपेति विद्वा ।

अनूपयो सो उपयं किमेय्या ति । उपयो ति । द्वे उपया-
तण्हूपयो च दिट्ठूपयो च ... पे० ... अयं तण्हूपयो ... पे० ... अयं दिट्ठूपयो ।
तस्स तण्हूपयो पहीनो, दिट्ठूपयो पिट्ठिनिस्सट्ठो; तण्हूपयस्स पहीनत्ता, दिट्ठू-
२० पयस्स पटिनिस्सट्ठत्ता अनूपयो पुनगलो कि रूपं उपेय्य उपगच्छेय्य
गण्हेय्य परामसेय्य अभिनिविसेय्य^४ अत्ता मे ति । कि वेदं ... कि
सञ्जं ... कि सङ्गारे ... कि विज्जाणं ... कि गतिं ... कि उपपत्तिं ... कि
पटिसन्धिं ... कि भवं ... कि संसारं ... कि वट्टं उपेय्य उपगच्छेय्य गण्हेय्य
परामसेय्य अभिनिविसेय्या ति - अनूपयो सो उपयं किमेय्य ।

२५ दिट्ठे सुते खन्तिमकुब्बमानो ति । दिट्ठे वा दिट्ठसुद्धिया वा
सुते वा सुतसुद्धिया वा मुते वा सुतसुद्धिया वा खन्ति अकुब्बमानो
छन्दं अकुब्बमानो पेमं अकुब्बमानो रागं अकुब्बमानो अजनयमानो

१. सम्मुतियो - स्या० । २. जनिता वा ता - स्या०, रो० । ३. वा ता - स्या०, रो० ।
४. अभिनिविसेय्य - म० ।

असञ्जनयमानो अनिब्वत्तयमानो अनभिनिब्वत्तयमानो' ति - विद्वे
सुते खन्तिमकुब्बमानो। तेनाह भगवा -

“या काचिमा सम्भृतियो पुथुज्जा,
सब्बा व एता न उपेति विद्धा'।
अनुपयो सो उपयं किमेत्थ,
विद्वे सुते खन्तिमकुब्बमानो” ति ॥

B. 240

5

१३३. सीलुत्तमा सञ्जमेनाह सुद्धि,
वतं समादाय उपट्टितासे।
इधेव सिकखेम अथस्स सुद्धि,
भन्नूपनीता कुसलावदाना ॥

10

सीलुत्तमा सञ्जमेनाह सुद्धि ति। सन्तेके समणब्राह्मणा
सीलुत्तमवादा; ते सीलमत्तेन सञ्जममत्तेन संवरमत्तेन अवीतिकममत्तेन
सुद्धिं विसुद्धिं परिसुद्धिं, मुत्तिं विमुत्तिं परिविमुत्तिं आहु वदन्ति
कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ति।

समणमुण्डिकापुत्तो एवमाह - “चतूहि खो अहं, गहपति, 15
धम्मेहि समन्नागतं पुरिसपुग्गलं पञ्जपेमि सम्पन्नकुसलं परमकुसलं
उत्तमपत्तिपत्तं” समणं अयोज्झं। कतमेहि चतूहि? इध, गहपति,
न कायेन पापकम्मं करोति, न पापिकं वाचं भासति, न पापकं
सङ्कप्पं सङ्कप्पेति, न पापकं आजीवं आजीवति। इमेहि खो अहं,
गहपति, चतूहि धम्मेहि समन्नागतं पुरिसपुग्गलं पञ्जपेमि सम्पन्न- 20
कुसलं परमकुसलं उत्तमपत्तिपत्तं समणं अयोज्झं; एवमेव सन्तेके
समणब्राह्मणा सीलुत्तमवादा; ते सीलमत्तेन सञ्जममत्तेन संवरमत्तेन
अवीतिकममत्तेन सुद्धिं विसुद्धिं परिसुद्धिं, मुत्तिं विमुत्तिं परिसुत्तिं
आहु वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ती” ति - सीलुत्तमा
सञ्जमेनाह सुद्धिं। 25

B. 310

25

१. नाभिनिब्वत्तयमानो - स्या०, रो०। २. विद्धा - स्या०। ३. परिसुद्धि - सी०,
स्या०, रो०। ४. परिसुत्ति - सी०, स्या०, रो०। ५. वपति - सी०, स्या०, रो०। ६
उत्तमपत्तिपत्तं - स्या०। ७. पापकं - सी०। ८. सङ्कप्पति - स्या०, रो०। ९. आहंसु -
सी०।

वत्तं समादाय उपद्वितासे ति । वत्तं ति । हृत्थिवत वा अस्स-
 वत्तं वा गोवत्तं वा* कुक्कुरवत्तं वा काकवत्तं वा वासुदेववत्तं वा
 बलदेववत्तं वा पुष्णभट्टवत्तं वा मणिभट्टवत्तं वा अग्गिवत्तं वा नाग-
 वत्तं वा सुपण्णवत्तं वा यक्खवत्तं वा असुरवत्तं वा गन्धब्बवत्तं वा
 ६ महाराजवत्तं वा चन्दवत्तं वा सूरियवत्तं वा इन्दवत्तं वा ब्रह्मवत्तं वा
 देववत्तं वा दिसावत्तं वा आदाय समादाय आदियित्वा समादियित्वा
 गण्हित्वा परामसित्वा अभिनिविसित्वा उपद्विता पच्चुपद्विता अल्लीना
 उपगता अज्झोसिता अधिमुत्ता ति - वत्तं समादाय उपद्वितासे ।

B. 241

इधेव सिक्खेम अथस्स सुद्धिं ति । इधा ति । सकाय दिट्ठिया
 10 सकाय खन्तिया सकाय रुचिया सकाय लद्धिया । सिक्खेमा* ति ।
 सिक्खेम आचरेम समाचरेम समादाय वत्तेमा ति - इधेव सिक्खेम ।
 अथस्स सुद्धिं ति । अथस्स* सुद्धिं विसुद्धिं परिसुद्धिं, मुत्ति विमुत्ति
 परिमुत्ति ति - इधेव सिक्खेम अथस्स सुद्धिं ।

भवूपनीता कुसलावदाना ति । भवूपनीता ति । भवूपनीता
 R 311 15 भवूपगता भवज्झोसिता भवाधिमुत्ता ति - भवूपनीता । कुसलावदाना
 ति । कुसलवादा पण्डितवादा थिरवादा आयवादा हेतुवादा लक्खणवादा
 कारणवादा ठानवादा सकाय लद्धिया ति - भवूपनीता कुसलावदाना ।
 तेनाह भगवा -

“सीलुत्तमा सज्जमेनाहु सुद्धिं,
 20 वत्तं समादाय उपद्वितासे ।
 इधेव सिक्खेम अथस्स सुद्धिं,
 भवूपनीता कुसलावदाना” ति ॥

26

१३४. सचे चृतो सीलवततो* होत्ति,
 पवेधती* कम्मविराधयित्वा ।
 पजप्पती* पत्थयती च सुद्धिं,
 सत्था च हीनो पवसं घरन्हा ॥

* 'अजवत्त वा' इति स्या०, रो० पोत्यकेसु अधिको पाठो विस्सति । १-१ स्या०, रो०
 पोत्यकेसु नत्थि । २ सूरियवत्त - स्या०, रो० । ३ दिसवत्त - स्या० । ४ आदयित्वा -
 स्या०, रो० । ५ स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि । ६-६ स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि । ७
 अथवास्स - स्या०, रो० । ८ सीलवतातो - स्या०, रो० । ९ सवेधती - सी०, स्या०, रो० ।
 १०. सजप्पती - सी०, स्या०, रो० ।

सचे चृतो सीलवततो होती ति । द्वीहि कारणेहि सीलवततो^१
 चवति - परविच्छिन्दनाय वा चवति, अनभिसम्भुणन्तो वा चवति ।
 कथं परविच्छिन्दनाय चवति ? परो विच्छिन्दति सो सत्था न
 सब्बञ्जू, धम्मो न स्वाक्खातो, गणो न सुप्पटिपन्नो, दिट्ठि न भट्ठिका,
 पटिपदा न सुपञ्जत्ता, मग्गो न निग्घ्यानिको, नत्थेत्थ सुद्धि वा विसुद्धि
 वा परिसुद्धि वा, मुत्ति वा विमुत्ति वा परिमुत्ति वा, नत्थेत्थ सुज्झन्ति
 वा विसुज्झन्ति वा परिसुज्झन्ति वा, मुच्चन्ति वा विमुच्चन्ति वा,
 परिमुच्चन्ति वा, हीना निहीना ओमका लामका छलुकका परित्ता
 ति । एवं परो विच्छिन्दति । एवं विच्छिन्दियमानो सत्थारा चवति,
 धम्मक्खाना चवति, गणा चवति, दिट्ठिया चवति, पटिपदाय चवति,
 मग्गतो चवति । एवं परिविच्छिन्दनाय चवति । कथं अनभिसम्भुणन्तो
 चवति ? सीलं अनभिसम्भुणन्तो सीलतो चवति, वतं अनभिसम्भुणन्तो
 वततो चवति, सीलव्वतं अनभिसम्भुणन्तो सीलव्वततो चवति ।
 एवं अनभिसम्भुणन्तो चवती ति - सचे चृतो सीलवततो होति ।

पवेधति कम्मविराधयित्वा ति । पवेधती ति । सीलं वा वतं
 वा सीलव्वतं वा "विरद्धं मया, अपरद्धं मया, खलितं मया, गलितं"
 मया, अञ्जाय अपरद्धो अहं" ति वेधति पवेधति सम्पवेधती ति -
 पवेधति । कम्मविराधयित्वा ति । पुञ्जाभिसङ्कारं वा अपुञ्जाभि-
 सङ्कारं वा आनेञ्जाभिसङ्कारं वा "विरद्धं मया, अपरद्धं मया,
 खलितं मया, गलितं मया, अञ्जाय अपरद्धो अहं" ति वेधति
 पवेधति सम्पवेधती ति - पवेधति कम्मविराधयित्वा ।

पजप्पती पत्थयती च सुद्धि ति । पजप्पती ति । सीलं वा
 जप्पति, वतं वा जप्पति, सीलव्वतं वा जप्पति पजप्पति अभि-
 जप्पती ति - पजप्पति । पत्थयती च सुद्धि ति । सीलसुद्धि वा
 पत्थेति, वतसुद्धि वा पत्थेति, सीलव्वतसुद्धि वा पत्थेति पिहेति अभि-
 जप्पती ति - पजप्पती पत्थयती च सुद्धि ।

सत्था व हीनो पवसं घरम्हा ति । यथा पुरिसो घरतो निक्खन्तो
 सत्थेन पवसं वसन्तो सत्था ओहीनो, तं वा सत्थं अनुबन्धति सकं वा

१ सीलव्वततो - स्या०, रो० । २ गलितं - स्या०, रो० । ३ सह - सी०, स्या०,
 रो० ।

घर पञ्चागच्छति; एवमेव सो दिट्टिगतिको तं वा सत्थारं गण्हाति
 अञ्जं वा सत्थारं गण्हाति, तं वा धम्मक्खानं गण्हाति अञ्जं वा
 धम्मक्खानं गण्हाति, तं वा गणं गण्हाति अञ्जं वा गणं गण्हाति,
 तं वा दिट्टि गण्हाति अञ्जं वा दिट्टि गण्हाति, तं वा पटिपदं गण्हाति
 5 अञ्जं वा पटिपदं गण्हाति, तं वा भग्गं गण्हाति अञ्जं वा भग्ग
 गण्हाति परामसति अभिनिविसती ति - सत्था व हीनो पवसं घरम्हा।
 तेनाह भगवा -

R. 313

“सचे चुतो सीलवततो होति,
 पवेघती कम्मविराघयित्वा।
 10 पजप्पती पत्थयती च सुद्धि,
 सत्था व हीनो पवसं घरम्हा” ति ॥

B 243

१३५. सीलव्वतं वा पि पहाय सब्बं,
 कम्मं च सावज्जनवज्जमेतं।
 सुद्धि असुद्धि ति अपत्थयानो,
 15 विरतो चरे सन्तिमनुग्गाहाय ॥

सीलव्वतं वा पि पहाय सब्बं ति। सब्बा सीलसुद्धियो पहाय
 पजहित्वा विनोदेत्वा^१ व्यन्ति करित्वा अनभावं गमेत्वा, सब्बा वत-
 सुद्धियो^२ पहाय पजहित्वा विनोदेत्वा व्यन्ति करित्वा अनभाव
 गमेत्वा, सब्बा सीलव्वतसुद्धियो पहाय पजहित्वा विनोदेत्वा व्यन्ति
 20 करित्वा अनभावं गमेत्वा ति - सीलव्वतं वा पि पहाय सब्बं।

कम्मं च सावज्जनवज्जमेतं ति। सावज्जकम्मं वुच्चति -
 कण्हं कण्हविपाकं। अनवज्जकम्म वुच्चति - सुक्क सुक्कविपाकं।
 सावज्जं च कम्मं अनवज्जं च कम्मं पहाय पजहित्वा विनोदेत्वा
 व्यन्ति करित्वा अनभावं गमेत्वा ति - कम्मं च सावज्जनवज्जमेतं।

सुद्धि असुद्धि ति अपत्थयानो ति। असुद्धि^३ ति^४। असुद्धि
 25 पत्थेन्ति, अकुसले धम्मे पत्थेन्ति। सुद्धि^५ ति^६। सुद्धि पत्थेन्ति, पञ्च
 कामगुणे पत्थेन्ति, असुद्धि^७ पत्थेन्ति, अकुसले धम्मे पत्थेन्ति,

१ विनोदित्वा - स्या०, रो०, एवमुपरि पि। २ सीलव्वतसुद्धियो - स्या०। ३-३
 स्या० पोत्यके नत्थि। ४-४ स्या०, रो० पोत्यकेषु नत्थि। ५. सुद्धि - सी०।

पञ्च कामगुणे पत्येन्ति; सुद्धि पत्येन्ति, द्वासट्ठि दिट्ठिगतानि
 पत्येन्ति, असुद्धि पत्येन्ति, अकुसले घम्मे पत्येन्ति, पञ्च कामगुणे
 पत्येन्ति, द्वासट्ठि दिट्ठिगतानि पत्येन्ति; सुद्धि पत्येन्ति, तेघातुके
 कुसले घम्मे पत्येन्ति, असुद्धि पत्येन्ति, अकुसले घम्मे पत्येन्ति,
 पञ्च कामगुणे पत्येन्ति, द्वासट्ठि दिट्ठिगतानि पत्येन्ति, तेघातुके कुसले 5
 घम्मे पत्येन्ति; सुद्धि पत्येन्ति, पुथुज्जनकल्याणका नियामावक्कन्ति
 पत्येन्ति। सेक्खा अग्गघम्मं अरहत्तं पत्येन्ति। अरहत्ते पत्ते अरहा'
 नेव अकुसले घम्मे पत्येति, न पि पञ्च कामगुणे पत्येति, न पि
 द्वासट्ठि दिट्ठिगतानि पत्येति, न पि तेघातुके कुसले घम्मे पत्येति,
 न पि नियामावक्कन्ति पत्येति, न पि अग्गघम्मं अरहत्तं पत्येति। 10
 पत्थनासमतिक्कन्तो' अरहा बुद्धिपरिहानिवीतिवत्तो'। सो वुट्टुवासो
 चिण्णचरणो...पे०... जातिजरामरणसंसारो नत्थि तस्स पुनव्भवो ति
 -सुद्धि असुद्धि ति अपत्थयानो।

R. 314

विरतो चरे सन्तिमनुग्गहाया ति। विरतो ति। सुद्धिअसु-
 द्धिया आरतो अस्स' विरतो पटिविरतो निक्खन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो 15
 विसञ्चुत्तो, विमरियादिकतेन चेतसा विहरती ति - विरतो। चरे ति।
 चरेय्य विचरेय्य' विहरेय्य' इरियेय्य वत्तेय्य पालेय्य यपेय्य यापेय्या
 ति - विरतो चरे। सन्तिमनुग्गहाया ति। सन्तिथो वुच्चन्ति द्वासट्ठि
 दिट्ठिगतानि दिट्ठिसन्तियो अगण्हन्तो' अपरामसन्तो अनभिनिविसन्तो
 ति - विरतो चरे सन्तिमनुग्गहाय। तेनाह भगवा - 20

B 244

“सीलव्वत्तं वा पि पहाय सव्वं,
 कम्मं च सावज्जनवज्जमेतं।
 सुद्धि असुद्धि ति अपत्थयानो,
 विरतो चरे सन्तिमनुग्गहाया” ति ॥

१३६. तमूपनिस्साय जिगुच्छित्तं वा,
 अथ वा पि दिट्ठं व सुत्तं मुत्तं वा।
 उद्धंसरा सुद्धिमनुत्थुनन्ति,
 अवीततण्हासे भवाभवेसु ॥

25

१ अरह-सी०। २ पत्ये०-स्या०, रो०। ३. बुद्धिपरिहानि०-सी०;
 बुद्धिपरिहानि-स्या०; बुद्धिपरिहानि-रो०। ४ स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि। ५. सी०
 पोत्यके नत्थि। ६ स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि। ७ अगण्हन्तो-स्या०।

R. 315

तमूपनिस्साय जिगुच्छितं वा ति। सन्तेके समणब्राह्मणा तपोजिगुच्छवादा तपोजिगुच्छसारा तपोजिगुच्छनिस्सिता आनिस्सिता' अल्लीना उपगता अज्झोसिता अर्धमुत्ता ति - तमूपनिस्साय जिगुच्छितं वा।

5 अथ वा पि दिट्ठं व' सुतं मुतं वा ति। दिट्ठ वा दिट्ठसुद्धि वा सुतं वा सुतसुद्धि वा मुतं वा मुतसुद्धि वा निस्साय उपनिस्साय गण्हत्वा परामसित्वा अभिनिविसित्वा ति - अथ वा पि दिट्ठ व सुतं मुतं वा।

उद्धंसरा सुद्धिमनुत्थुनन्ती ति। सन्तेके समणब्राह्मणा उद्धंस-
रावादा। कतमे ते' समणब्राह्मणा उद्धंसरावादा? ये ते समण-
10 ब्राह्मणा अच्चन्तसुद्धिका, संसारसुद्धिका, अकिरियदिट्ठिका, सस्सत-
वादा - इमे ते समणब्राह्मणा उद्धंसरावादा। ते ससारे' सुद्धि विसुद्धि
परिसुद्धि, मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति थुनन्ति' वदन्ति कथेन्ति भणन्ति
दीपयन्ति बोहरन्ती ति - उद्धंसरा सुद्धिमनुत्थुनन्ति।

अवीततण्हासे भवाभवेसू ति। तण्हा ति। रूपतण्हा सद्दतण्हा
15 गन्धतण्हा रसतण्हा फोट्टव्वतण्हा धम्मतण्हा। भवाभवेसू ति।
भवाभवे कम्मभवे पुनव्वभवे कामभवे, कम्मभवे कामभवे पुनव्वभवे
B. 245 रूपभवे, कम्मभवे रूपभवे पुनव्वभवे अरूपभवे, कम्मभवे अरूपभवे
पुनव्वभवे पुनप्पुनव्वभवे पुनप्पुनगतिया पुनप्पुनउपपत्तिया पुनप्पुनपटि-
सन्धिया पुनप्पुनअत्तभावाभिनिव्वत्तिया अवीततण्हा' अविगततण्हा
20 अचत्ततण्हा' अवन्ततण्हा अमुत्ततण्हा अप्पहीनतण्हा अप्पटिनिस्सट्टतण्हा
ति - अवीततण्हासे भवाभवेसू। तेनाह भगवा।

R. 316

“तमूपनिस्साय जिगुच्छित वा,
अथ वा पि दिट्ठं व सुतं मुत वा।
उद्धंसरा सुद्धिमनुत्थुनन्ति,
अवीततण्हासे भवाभवेसू” ति ॥
26

१३७. पत्थयमानस्स हि जप्पितानि,
पवेधितं वा पि पकप्पितेसु।

१. सन्निस्सिता - स्या०, रो०। २ व - सी०। ३ स्या० पीत्यके नत्थि। ४ ससा-
रेज - स्या०, रो०। ५ अनुत्थुनन्ति - स्या०, रो०। ६ अवीततण्हा सेति अवीततण्हा -
स्या०, रो०। ७ अच्चत्ततण्हा - स्या०। ८ सवेधित - स्या०, रो०।

चुतूपपातो इध यस्स नत्थि,
स केन वेधेय्य कुहिं व' जप्पे' ॥

पत्थयमानस्स हि जप्पितानी ति । पत्थना वुच्चति तण्हा ।
यो रागो सारागो ...पे०... अभिज्झा लोभो अकुसलमूलं । पत्थय-
मानस्सा ति । पत्थयमानस्स इच्छमानस्स सादियमानस्स पिह्यमानस्स 5
अभिजप्पयमानस्सा ति - पत्थयमानस्स हि । जप्पितानी ति । जप्पना
वुच्चति तण्हा । यो रागो सारागो ...पे०... अभिज्झा लोभो अकुसलमूलं
ति - पत्थयमानस्स हि जप्पितानि ।

पवेधितं वा पि पकप्पितेसू ति । पकप्पना ति । द्वे पकप्पना -
तण्हापकप्पना च दिट्ठिपकप्पना च ...पे०... अयं तण्हापकप्पना ...पे०... 10
अयं दिट्ठिपकप्पना । पवेधितं वा पि पकप्पितेसू ति । पकप्पितं वत्थुं
अच्छेदसङ्घिनो पि वेधेन्ति, अच्छिज्जन्ते पि वेधेन्ति, अच्छिन्ने पि-
वेधेन्ति; पकप्पितं वत्थुं विपरिणामसङ्घिनो पि वेधेन्ति, विपरिणामन्ते
पि वेधेन्ति, विपरिणते पि वेधेन्ति पवेधेन्ति सम्पवेधेन्ती ति - पवे-
धितं वा पि पकप्पितेसु । 15

चुतूपपातो इध यस्स नत्थी ति । यस्सा ति । अरहतो खीणा-
सवस्स । यस्स गमनं आगमनं गमनागमनं कालंगति भवाभवो चुति
च उपपत्ति च निब्बत्ति च भेदो च जाति च जरामरणं च नत्थि
न सन्ति न संविज्जन्ति नुपलब्भन्ति, पहीना समुच्छिन्ना वूपसन्ता
पटिपस्सद्धा अभव्वुप्पत्तिका वाणग्गिना दद्धा ति - चुतूपपातो इध 20 B 317
यस्स नत्थि ।

स केन वेधेय्य कुहिं व जप्पे ति । सो केन रागेन वेधेय्य,
केन दोसेन वेधेय्य, केन मोहेन वेधेय्य, केन मानेन वेधेय्य, काय
दिट्ठिया वेधेय्य, केन उद्धच्चेन वेधेय्य, काय विचिकिच्छाय वेधेय्य,
केहि अनुसयेहि वेधेय्य - रत्तो ति वा दुट्ठो ति वा मूळ्हो ति वा 25
विनिबद्धो ति वा परामट्ठो ति वा विक्खपगतो ति वा अनिट्ठज्जतो
ति वा थामगतो ति वा । ते अभिसङ्खारौ पहीना; अभिसङ्खारानं
पहीनत्ता गतिया केन वेधेय्य - नेरयिको ति वा तिरच्छानयोनिको

B. 246

ति वा पेतित्विसयिको ति वा मनुस्सो ति वा देवो ति वा रूपी ति वा अरूपी ति वा सञ्जी ति वा असञ्जी ति वा नेवसञ्जीनासञ्जी ति वा, सो हेतु नत्थि पच्चयो नत्थि कारणं नत्थि येन वेधेय्य पवे-
 ५ जप्पेय्य^१ किम्हि जप्पेय्य, कत्थ जप्पेय्य पजप्पेय्य अभिजप्पेय्या णि -
 स केन वेधेय्य कुहिं व जप्पे। तेनाह भगवा -

“पत्थयमानस्स हि जप्पितानि,
 पवेधितं वा पि पकप्पितेसु।
 चूतूपपातो इध यस्स नत्थि,
 १० स केन वेधेय्य कुहिं व जप्पे” ति ॥

१३८. यमाहु धम्मं परमं ति एके,
 तमेव हीनं ति पनाहु अञ्जे।
 सच्चो नु वादो कत्तमो इमेसं,
 सब्बेव हीमे कुसलावदाना ॥

१५ यमाहु धम्मं परमं ति एके ति। यं धम्मं दिट्ठि पटिपदं मगं
 एके समणब्राह्मणा “इदं परमं अगं सट्ठ विसिट्ठं पामोक्खं उत्तमं
 २. ३१८ पवरं” ति, एवमाहंसु एवं कथेन्ति एवं भणन्ति एव दीपयन्ति एव
 वोहरन्ती ति - यमाहु धम्मं परमं ति एके।

तमेव हीनं ति पनाहु अञ्जे ति। तमेव धम्मं दिट्ठि पटिपदं
 २० मगं एके समणब्राह्मणा “हीनं एतं, निहीनं एतं, ओमकं एतं, लामकं
 एतं, छतुक्कं एतं, परित्तकं एतं” ति, एवमाहंसु एवं कथेन्ति एवं
 भणन्ति एवं दीपयन्ति एवं वोहरन्ती ति - तमेव हीनं ति पनाहु
 अञ्जे।

३. २४७ सच्चो नु वादो कत्तमो इमेसं ति। इमेसं समणब्राह्मणानं वादो
 २५ कत्तमो सच्चो तच्छो तथो भूतो याथावो अविपरीतो ति - सच्चो नु
 वादो कत्तमो इमेसं।

सब्बेव हीमे कुसलावदाना ति। सब्बेविमे^२ समणब्राह्मणा
 कुसलावादा पण्डितवादा थिरवादा ब्राथवादा हेतुवादा लक्खणवादा

१-१ स्या०, रो० पीत्यकैसु न विस्सति। २. सब्बेव हीमे - स्या०, रो०।

कारणवादा ठानवादा सकाय लद्धिया ति - सब्बेव हीमे कुसलावदाना ।
तेनाह सो' निम्मितो' -

“यमाहु धम्मं परमं ति एके,
तमेव हीनं ति पनाहु अञ्जे ।
सच्चो नु वादो कतमो इमेसं,
सब्बेव हीमे कुसलावदाना” ति ॥

5

१३९. सकं हि धम्मं परिपुण्णमाहु,
अञ्जस्स धम्मं पन हीनमाहु ।
एवं पि विग्गय्ह विवादयन्ति,
सकं सकं सम्मुत्तिमाहु^१ सच्चं ॥

10

सकं हि धम्मं परिपुण्णमाहु ति । सकं^१ धम्मं दिट्ठि पटिपदं
मगं एके समणब्राह्मणा “इदं समत्तं परिपुण्णं अनोमं” ति, एव-
माहंसु ...पे०... एवं वोहरन्ती ति - सकं हि धम्मं परिपुण्णमाहु ।

अञ्जस्स धम्मं पन हीनमाहु ति । अञ्जस्स धम्मं दिट्ठि पटि-
पदं मगं एके समणब्राह्मणा “हीनं एतं, निहीनं एतं, ओमकं एतं,
लामकं एतं, छतुककं एतं, परित्तकं एतं” ति, एवमाहंसु एवं कथेन्ति
एवं भणन्ति एवं दीपयन्ति एवं वोहरन्ती ति - अञ्जस्स धम्मं पन
हीनमाहु ।

B. 319

15

एवं पि विग्गय्ह विवादयन्ती ति । एवं गहेत्वा उग्गहेत्वा^२
गण्हित्वा परामसित्वा अभिनिविसित्वा विवादयन्ति, कलहं करोन्ति,
भण्डनं करोन्ति, विग्गहं करोन्ति, विवादं करोन्ति, मेघगं करोन्ति -
“न त्वं इमं धम्मविनयं आजानासि ...पे०... निब्बेठेहि वा सचे पहोसी”
ति - एवं पि विग्गय्ह विवादयन्ति ।

20

सकं सकं सम्मुत्तिमाहु सच्चं ति । “सस्सतो लोको, इदमेव
सच्चं मोघमञ्जं” ति - सकं सकं सम्मुत्तिमाहु सच्चं । “असस्सतो
लोको ...पे०... नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा, इदमेव सच्चं
मोघमञ्जं” ति - सकं सकं सम्मुत्तिमाहु सच्चं । तेनाह भगवा -

25

B. 248

१-१ भगवा - स्या०, रो० । २ सम्मुत्तिमाहु - स्या० । ३ सकं हि - स्या०, रो० ।
४ स्या०, रो० पीत्यकेसु नत्ति ।

“सकं हि धम्मं परिपुण्णमाहु,
अञ्जस्स धम्मं पन हीनमाहु ।
एवं पि विग्गह्ण विवादयन्ति,
सकं सकं सम्मुत्तिमाहु सच्चं” ति ॥

- ६ १४०. परस्स चे वम्भयित्तेन हीनो,
न कोचि धम्मेषु विसेसि अस्स ।
पुथू हि अञ्जस्स वदन्ति धम्मं,
निहीनतो सम्हि द्दळ्हं वदाना ॥

परस्स चे वम्भयित्तेन हीनो ति । परस्स चे वम्भयितकारणा
१० निन्दितकारणा गरहितकारणा उपवदितकारणा परो बाळो हीति
हीनो निहीनो' ओमको लामको छतुक्को परित्तो ति—परस्स चे
वम्भयित्तेन हीनो ।

न कोचि धम्मेषु विसेसि अस्सा ति । धम्मेषु न कोचि अगो
सेट्ठो विसिट्ठो पामोक्खो उत्तमो पवरो अस्सा ति—न कोचि धम्मेषु
१५ विसेसि अस्स ।

R. 320

पुथू हि अञ्जस्स वदन्ति धम्मं निहीनतो ति । बहुका पि
बहून्' धम्मं वदन्ति उपवदन्ति निन्दन्ति गरहन्ति हीनतो निहीनतो
ओमकतो लामकतो छतुक्कतो परित्ततो, बहुका पि एकस्स धम्मं
वदन्ति उपवदन्ति निन्दन्ति गरहन्ति हीनतो निहीनतो ओमकतो
२० लामकतो छतुक्कतो परित्ततो, एको पि बहून्' धम्मं वदति उपवदति
निन्दति गरहति हीनतो निहीनतो ओमकतो लामकतो छतुक्कतो
परित्ततो, एको पि एकस्स धम्मं वदति उपवदति निन्दति गरहति
हीनतो निहीनतो ओमकतो लामकतो छतुक्कतो परित्ततो ति—
पुथू हि अञ्जस्स वदन्ति धम्मं ।

२५ निहीनतो सम्हि द्दळ्हं वदाना ति । धम्मो सकायनं, दिट्ठि
सकायनं, पटिपदा सकायनं, मग्गो सकायनं, सकायने द्दळ्हावादा

१. सी० पोत्यके नत्थि । २ बहुजं—स्या०, रो०; एवमुपरि पि । ३ बहुजं—सी०,
स्या०, रो० ।

थिरवादा बलिकवादा अद्वितवादा' ति - निहीनतो सम्हि दळ्हं वदाना। तेनाह भगवा -

B. 249

“परस्स चे वम्मयितेन हीनो,
न कोचि धम्मेसु विसेसि अस्स।
पुथू हि अञ्जस्स वदन्ति धम्मं,
निहीनतो सम्हि दळ्हं वदाना' ति ॥

5

१४१. सद्धम्मपूजा' पि' पना तथेव,
यथा पसंसन्ति सकायनानि।
सब्बेव' वादा' तथिया' भवेय्युं,
सुद्धी हि' नेसं' पच्चत्तमेव ॥

10

सद्धम्मपूजा पि पना तथेवा ति। कतमा सद्धम्मपूजा? सकं सत्थारं सक्करोति गहं करोति" मानेति पूजेति "अयं सत्था सब्बञ्जू" ति - अयं सद्धम्मपूजा। सकं धम्मक्खानं सकं गणं सकं दिट्ठि सकं पटिपदं सकं मग्गं सक्करोति गहं करोति" मानेति पूजेति "अयं मग्गो निय्यानिको" ति - अयं सद्धम्मपूजा। सद्धम्मपूजा पि पना तथेवा ति। सद्धम्मपूजा तथा तच्छा भूता याथावा अविपरीता ति - सद्धम्मपूजा पि पना तथेव।

15 R. 321

यथा पसंसन्ति सकायनानी ति। धम्मो सकायन दिट्ठि सकायनं पटिपदा सकायन मग्गो सकायनं, सकायनानि पसंसन्ति थोमेन्ति कित्तेन्ति वण्णेन्ती ति - यथा पसंसन्ति सकायनानि।

20

सब्बेव वादा तथिया भवेय्युं ति। सब्बेव वादा तथा तच्छा भूता याथावा अविपरीता भवेय्युं ति - सब्बेव वादा तथिया भवेय्यु।

सुद्धी हि नेसं पच्चत्तमेवा ति। पच्चत्तमेव तेसं समणब्राह्मणानं सुद्धि विसुद्धि परिसुद्धि, मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ती ति - सुद्धी हि नेसं पच्चत्तमेव। तेनाह भगवा -

25

१ अवद्वितवादा - सी०, स्या०, अवल्यितवादा - रो०। २. सद्धम्मपूजा - स्या०, रो०। ३ व - सी०, स्या०, रो०। ४-४ सब्बे ववादा - स्या०, रो०। ५. तथिया - सी०, स्या०, रो०। ६-६ पि तेत्त - सी०। ७-७ गहकरोति - सी०, स्या०, रो०।

“सद्धम्मपूजा पि पना तथेव,
यथा पसंसन्ति सकायनानि।
सब्बेव वादा तथिया भवेय्युं,
सुद्धी हि नेसं पच्चत्तमेवा” ति ॥

B. 250 5

१४२. न ब्राह्मणस्स परनेय्यमत्थि,
धम्मेषु निच्छेय्य समुग्गहीतं।
तस्मा त्तिवादानि उपात्तिवत्तो,
न हि सेट्ठतो पस्सति धम्ममञ्जं ॥

B. 322 15

न ब्राह्मणस्स परनेय्यमत्थी ति । नर ति । पटिक्खेपो । ब्राह्मणो
10 ति । सत्तन्नं धम्मानं बाहितत्ता ब्राह्मणो ...पे०... असितो^१ तादि पवुच्चते^२
स^३ ब्रह्मा । न ब्राह्मणस्स परनेय्यमत्थी ति । ब्राह्मणस्स परनेय्यता
नत्थि, ब्राह्मणो न परनेय्यो, न परपत्तियो, न परपच्चयो, न पर-
पटिबद्धगू जानाति पस्सति असम्मूळहो सम्पजानो पटिस्सतो ।
“सब्बे सङ्खारा अनिच्चा” ति ब्राह्मणस्स परनेय्यता नत्थि, ब्राह्मणो
15 न परनेय्यो, न परपत्तियो, न परपच्चयो, न परपटिबद्धगू जानाति
पस्सति असम्मूळहो सम्पजानो पटिस्सतो । “सब्बे सङ्खारा दुक्खा”
ति .पे० .. “यं किञ्चि समुदयधम्मं सब्बं तं निरोधधम्मं” ति ब्राह्मणस्स
परनेय्यता नत्थि, ब्राह्मणो न परनेय्यो, न परपत्तियो, न परपच्चयो,
न परपटिबद्धगू जानाति पस्सति असम्मूळहो सम्पजानो पटिस्सतो
20 ति — न ब्राह्मणस्स परनेय्यमत्थि ।

धम्मेषु निच्छेय्य समुग्गहीतं ति । धम्मेषु ति । द्वासट्ठिया^४
दिट्ठिगतेसु । निच्छेय्या ति । निच्छिन्तिवा विनिच्छिन्तिवा विचि-
न्तिवा पविचिन्तिवा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं
कत्वा । ओधिग्गाहो बिलग्गाहो वरग्गाहो कोट्टासग्गाहो उच्चयग्गाहो
25 समुच्चयग्गाहो “इदं सच्चं तथं भूतं याथावं अविपरीतं” ति गह्ति
परामट्ठं अभिनिविट्ठं अज्झोसितं अधिमुत्तं नत्थि न^५ सत्ति^६ न सवि-

१ अनिस्सितो -- स्या०, रो० । २. पवुच्चति -- रो० । ३. रो० धो षके नत्थि । ४. द्वासट्ठि -- सी०, रो० । ५. तच्छ भूतं -- सी०, स्या०, रो० । ६-६. सी०, स्या०, रो० ।
पोत्थकेसु नत्थि ।

ज्जति नुपलब्धति, पहीनं समुच्छिन्नं वूपसन्तं पटिपस्सद्धं अभव्वुप्पत्तिकं
आणग्गिना दद्धं ति - धम्मसेसु निच्छेय्य समुग्गहीतं ।

तस्मा विवादानि उपातिवत्तो ति । तस्मा ति । तस्मा तंकारणा
तंहेतु तप्पच्चया तनिदाना दिट्ठिकलहानि दिट्ठिभण्डनानि दिट्ठिविग्ग-
हानि दिट्ठिविवादानि दिट्ठिमेघगानि उपातिवत्तो अतिक्कन्तो समत्ति- 5
क्कन्तो वीतिवत्तो ति - तस्मा विवादानि उपातिवत्तो ।

न हि सेट्ठतो पस्सति धम्ममज्झं ति । अज्झं सत्थारं धम्म-
क्खानं गणं दिट्ठि पटिपदं मग्गं अज्झत्र सतिपट्टानेहि, अज्झत्र सम्म-
प्पधानेहि, अज्झत्र इद्धिपादेहि, अज्झत्र इन्द्रियेहि, अज्झत्र बल्लेहि, 10
अज्झत्र बोज्झङ्गेहि, अज्झत्र अरिया अट्ठङ्गिका मग्गा, अग्गं सेट्ठं
विसिट्ठं पामोक्खं उत्तमं पवरं धम्मं न पस्सति न दक्खति न ओलो-
केति न निज्झायति न उपपरिक्खती ति - न हि सेट्ठतो पस्सति 15
धम्ममज्झं । तेनाह भगवा -

B. 261

R. 32

“न ब्राह्मणस्स परनेय्यमत्थि,
धम्मसेसु निच्छेय्य समुग्गहीतं ।
तस्मा विवादानि उपातिवत्तो,
न हि सेट्ठतो पस्सति धम्ममज्झं” ति ॥

15

१४३. जानामि पस्सामि तथेव एतं,
दिट्ठिया एके पच्चेन्ति सुद्धिं ।
अदक्खिं चे किं हि तुमस्स तेन,
अतिसित्त्वा अज्झेन वदन्ति सुद्धिं ॥

20

जानामि पस्सानि तथेव एतं ति । जानामी ति । परचित्त-
वाणेन वा जानामि, पुब्बेनिवासानुस्सतिवाणेन वा जानामि । पस्सामी
ति । मंसचक्खुना वा पस्सामि, दिब्बेन चक्खुना वा पस्सामि । तथेव
एतं ति । एतं तथं तच्छं भूतं याथावं अविपरीतं ति - जानामि 25
पस्सामि तथेव एतं ।

दिट्ठिया एके पच्चेन्ति सुद्धिं ति । दिट्ठिया एके समणब्राह्मणा
सुद्धिं विसुद्धिं परिसुद्धिं, मुत्तिं विमुत्तिं परिमुत्तिं पच्चेन्ति । “सस्सतो

१ इद्धिपादेहि - स्या०, रो० । २ अदक्खिं - स्या०, रो० । ३ परचित्तविजानन-
वाणेन - सी० । ४ सी० पोत्थके नत्थि ।

म० नि० - ३५

लोको, इदमेव सच्चं मोघमञ्जं” ति दिट्टिया एके समणन्नाहणा सुद्धि विसुद्धि परिसुद्धि, मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति पच्चेन्ति । “असस्सतो लोको...पे०...नेव होति न न होति तथागतो पर मरणा, इदमेव सच्चं मोघमञ्जं” ति दिट्टिया एके समणन्नाहणा सुद्धि विसुद्धि परिसुद्धि,
 5 मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति पच्चेन्ती ति - दिट्टिया एके पच्चेन्ति सुद्धि ।

अदक्खि चे किं हि तुमस्स तेना ति । अदक्खी ति । पर-
 चित्तवाणेन वा अदक्खि, पुब्बेनिवासानुस्सतिवाणेन वा अदक्खि,
 मंसचक्खुना वा अदक्खि, दिट्ठेन चक्खुना वा अदक्खी ति - अदक्खि
 चे । किं हि तुमस्स तेना ति । तस्स तेन दस्सनेन किं क्तं ? न'
 10 दुक्खपरिञ्जा अत्थि, न समुदयस्स पहानं अत्थि, न मग्गभावना
 अत्थि, न फलसञ्छिकिरिया अत्थि, न रागस्स समुच्छेदपहानं अत्थि,
 न दोसस्स समुच्छेदपहान अत्थि, न मोहस्स समुच्छेदपहान अत्थि,
 न किलेसानं समुच्छेदपहान अत्थि, न ससारवट्टस्स उपच्छेदो
 अत्थी ति - अदक्खि चे किं हि तुमस्स तेन ।

15 अतिसित्त्वा अञ्जेन वदन्ति सुद्धि ति । ते तित्थिया' सुद्धि-
 मग्ग विसुद्धिमग्ग परिसुद्धिमग्गं वोदातमग्गं परिवोदातमग्गं अतिक-
 मित्त्वा समत्तिकमित्त्वा वीतिवत्तित्त्वा अञ्जत्र सतिपट्टानेहि, अञ्जत्र
 सम्मप्पधानेहि, अञ्जत्र इद्धिपादेहि, अञ्जत्र इन्द्रियेहि, अञ्जत्र
 बलेहि अञ्जत्र बोज्झङ्गेहि, अञ्जत्र अरिया अट्टङ्गिका मग्गा
 20 सुद्धि विसुद्धिं परिसुद्धि, मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति वदन्ति कथेन्ति
 भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ती ति । एवं पि अतिसित्त्वा अञ्जेन
 वदन्ति सुद्धि ।

अथ वा, बुद्धा च बुद्धसावका च पच्चेकबुद्धा च तेस
 तित्थियानं असुद्धिमग्गं अविमुद्धिमग्ग अपरिसुद्धिमग्ग अवोदातमग्ग
 25 अपरिवोदातमग्ग अतिकमित्त्वा समत्तिकमित्त्वा वीतिवत्तित्त्वा चतूहि
 सतिपट्टानेहि चतूहि सम्मप्पधानेहि चतूहि इद्धिपादेहि पञ्चहि
 इन्द्रियेहि पञ्चहि बलेहि सत्तहि बोज्झङ्गेहि अरियेन अट्टङ्गिकेन
 मग्गेन सुद्धि विसुद्धि परिसुद्धि, मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति वदन्ति

१-१ कथ-स्या०, रो० । २ उच्छेदो-स्या०, रो० । ३ दिट्टिया-स्या०, एव-
 मुपरिपि । ४ परियोदातमग्ग-सी०, स्या०, एवमुपरिपि ।

कथेन्ति भयन्ति दीपयन्ति बोहरन्ती ति - एवं पि अतिसित्वा अञ्जेन वदन्ति सुद्धि । तेनाह भगवा -

“जानामि पस्सामि तथेव एतं,
दिट्ठिया एके पच्चेन्ति सुद्धि ।
अदक्खि च्चे किं हि तुमस्स तेन,
अतिसित्वा अञ्जेन वदन्ति सुद्धि” ति ॥

5

१४४. पस्सं नरो दक्खति नामरूपं,
दिस्वान वा आयति तानिमेव ।
कामं बहुं पस्सतु अप्पकं वा,
न हि तेन सुद्धि कुसला वदन्ति ॥

10

पस्सं नरो दक्खति नामरूपं ति । पस्सं नरो दक्खति^१ परचित्तवाणेन वा पस्सन्तो, पुब्बेनिवासानुस्सतिवाणेन वा पस्सन्तो, मंसचक्खुना वा पस्सन्तो, दिब्बेन चक्खुना वा पस्सन्तो नामरूपं येव दक्खति निच्चतो सुखतो अत्ततो, न तेसं धम्मामं समुदयं वा अत्य-
ङ्गमं वा अस्सादं वा आदीनवं वा निस्सरणं वा दक्खती ति - पस्सं
नरो दक्खति नामरूपं ।

R 325

15

दिस्वान वा आयति तानिमेवा ति । दिस्वा ति । परचित्त-
वाणेन वा दिस्वा, पुब्बेनिवासानुस्सतिवाणेन वा दिस्वा, मंस-
चक्खुना वा दिस्वा, दिब्बेन चक्खुना वा दिस्वा, नामरूपं येव दिस्वा
आयति निच्चतो सुखतो अत्ततो, न तेसं धम्मामं समुदयं वा अत्य-
ङ्गमं वा अस्सादं वा आदीनवं वा निस्सरणं वा आयती^२ ति -
दिस्वान वा आयति तानिमेव ।

B 253

20

कामं बहुं पस्सतु अप्पकं वा ति । कामं बहुकं वा पस्सन्तो
नामरूपं अप्पकं वा निच्चतो सुखतो अत्ततो ति - कामं बहुं पस्सतु
अप्पकं वा ।

25

न हि तेन सुद्धि कुसला वदन्ती ति । कुसला ति । ये ते
खन्धकुसला धातुकुसला आयतनकुसला पटिच्चसमुप्पादकुसला सति-

१-१ वाञ्छसति - स्या०, रो०; वा नसति - सी० । २. सी०, स्या०, रो०
पोत्यकेसु नत्थि । ३ अस्सती - सी०, स्या०, रो० ।

पट्टानकुसला सम्मप्यधानकुसला इद्धिपादकुसला इन्द्रियकुसला बल-
कुसला बोज्झङ्गकुसला मग्गकुसला फलकुसला निब्बानकुसला, ते
कुसला परचित्तबाणेन वा पुब्बेनिवासानुस्सतिबाणेन वा मंसच्चक्खुना
वा दिब्बेन चक्खुना वा नामरूपदस्सनेन सुद्धि विसुद्धि परिसुद्धि मुत्ति
6 विमुत्ति परिमुत्ति न वदन्ति न कथेन्ति न भणन्ति न दीपयन्ति न
बोहरन्ती ति - न हि तेन सुद्धि कुसला वदन्ति । तेनाह भगवा -

“पस्सं नरो दक्खति नामरूपं,
दिस्वान वा आयति तानिमेव ।
कामं बहुं पस्सतु अप्पकं वा,
10 न हि तेन सुद्धि कुसला वदन्ती” ति ॥

R 326

१४५. निविस्सवादी न हि सुब्बिनायो,
पकप्पिता' दिट्ठिपुरेक्खरानो ।
यं निस्सितो तत्थ सुभं वदानो,
सुद्धि वदो तत्थ तथद्दसा सो ॥

15 निविस्सवादी न हि सुब्बिनायो ति । “सस्सतो लोको, इद-
मेव सच्चं मोघमञ्ज” ति निविस्सवादी, “असस्सतो लोको...पे०...नेव
होति न न होति तथागतो परं मरणा, इदमेव सच्चं मोघमञ्ज”
ति - निविस्सवादी । न हि सुब्बिनायो ति । निविस्सवादी दुब्बि-
नयो दुप्पञ्जापयो' दुब्बिज्जापयो' दुप्पेक्खापयो' दुप्पसादयो ति -
20 निविस्सवादी न हि सुब्बिनायो ।

B. 264

पकप्पिता दिट्ठिपुरेक्खरानो ति । कप्पिता' पकप्पिता अभि-
सङ्खता सण्ठपिता दिट्ठि' पुरेक्खतो' कत्वा चरति । दिट्ठिघजो दिट्ठि-
केतु दिट्ठाधिपतेय्यो दिट्ठिया परिवारितो चरती ति - पकप्पिता
दिट्ठिपुरेक्खरानो ।

25 यं निस्सितो तत्थ सुभं वदानो ति । यं निस्सितो ति । यं सत्थारं
धम्मक्खानं गणं दिट्ठि पटिपदं मग्गं निस्सितो आनिस्सितो' अल्लीनो

१ पकप्पितं - सी०, स्था०, रो० । २ दुप्पञ्जापियो - सी०, दुब्बिज्जापियो - स्था०,
रो० । ३ दुब्बिज्जापियो - सी०, एवमुपरि पि । ४ दुप्पेक्खापयो - रो० । ५. कप्पित - सी०,
स्था०, रो० पोत्थकेसु नत्थि । ६ दिट्ठि - स्था० । ७ पुरेक्खतो - सी०, पुरेक्खतो पुलो -
स्था०, रो० । ८. सनिस्सितो - सी०, स्था०, रो० ।

उपगतो अज्ज्ञोसितो अधिमुक्तो ति—यं निस्सितो। तत्था ति। सकाय दिट्ठिया सकाय खन्तिया सकाय रुचिया सकाय लद्धिया। सुभं वदानो ति। सुभवादो सोभनवादो पण्डितवादो थिरवादो आयवादो हेतुवादो लक्षणवादो कारणवादो ठानवादो सकाय लद्धिया ति—यं निस्सितो तत्थ सुभं वदानो।

5

सुद्धिं वदो तत्थ तथद्दसा सो ति।* सुद्धिवादो विसुद्धिवादो परिसुद्धिवादो वोदातवादो परिवोदातवादो^१। अथ वा, सुद्धिदस्सनो विसुद्धिदस्सनो परिसुद्धिदस्सनो वोदातदस्सनो परिवोदातदस्सनो ति—सुद्धिं वदो^२। तत्था ति। सकाय दिट्ठिया सकाय खन्तिया सकाय रुचिया सकाय लद्धिया* तथं तच्छं भूतं याथावं अविपरीतं ति 10 अद्दसं अदक्ख अपस्सि पटिविज्झी ति—सुद्धिं वदो तत्थ तथद्दसा सो। तेनाह भगवा—

R. 327

“निविस्सवादी न हि सुब्बिनायो,
पकप्पिता दिट्ठिपुरेक्खरानो।

यं निस्सितो तत्थ सुभं वदानो,
सुद्धिं वदो तत्थ तथद्दसा सो” ति॥

15

१४६. 'न ब्राह्मणो कप्पमुपेति सद्दहा,^१
न दिट्ठिसारी न पि आणबन्धु।
अत्वा च सो सम्मुत्तियो^२ पुथुज्जा,
उपेक्खती उग्गहणन्ति मज्जे॥

20

न ब्राह्मणो कप्पमुपेति सद्दहा ति। ना ति। पटिक्खेपो। ब्राह्मणो ति। सत्तन्नं धम्मानं बाहितत्ता ब्राह्मणो ...पे०... असितो तादि पवुच्चते स ब्रह्मा। कप्पा ति। द्वे कप्पा—तण्हाकप्पो च दिट्ठिकप्पो च ...पे०... अयं तण्हाकप्पो ...पे०... अयं दिट्ठिकप्पो। सद्दहा वुच्चति आणं। या पज्जा पजानना ...पे०... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिट्ठि। 25 न ब्राह्मणो कप्पमुपेति सद्दहा ति। ब्राह्मणो सद्दहाय जानित्वा तुल-

B. 255

* सुद्धिं वदो ती ति—स्या०, रो० पोत्यकेसु अधिको दिस्सति। १ परिवोदातवादो—सी०, स्या०, रो०, एवमुपरि पि। २ वादो—म०। * तथद्दसासोती ति—स्या०, रो० पोत्यकेसु अधिको दिस्सति। ३ अद्दस्स—सी०, स्या०। ४ सद्दह—सी०, स्या०, रो०। ५ सम्मुत्तियो—स्या०।

R. 328

यित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा। "सब्बे सङ्खारा अनिच्चा .. सब्बे सङ्खारा दुक्खा ...पे० .. यं किञ्चि समुदयधम्मं सब्ब तं निरोधधम्मं" ति सङ्खाय जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा तण्हाकप्पं वा दिट्ठिकप्पं वा नेति' न जयेति न उपगच्छति न गण्हाति न परामसन्ति नाभिनिविसती ति-न ब्राह्मणो कप्पमुपेति सङ्खा।

न दिट्ठिसारी न पि ञ्णवन्धू ति। तस्स द्वासट्ठि दिट्ठिगतानि पहेनानि समुच्छिन्नानि बूपसन्तानि पटिपस्सद्धानि अभव्वुप्पत्तिकामि ञ्णग्गिना द्ढुवानि। सो दिट्ठिया न यायति न नीयति न वुहति न संहरीयति न पि तं दिट्ठिगतं सारतो पच्चेति न* पच्चागच्छती ति -न दिट्ठिसारी। न पि ञ्णवन्धू ति। अट्ठसमापत्तिञ्णणेन वा पच्चाभिञ्जावाणेन वा* तण्हावन्धुं वा दिट्ठिवन्धुं वा न करोति न जनेति न सञ्जनेति न निव्वत्तेति नाभिनिव्वत्तेती ति -न दिट्ठिसारी न पि ञ्णवन्धु।

१५ अत्वा च सो सम्मुत्तियो पुथुज्जा ति। अत्वा ति। अत्वा जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा। "सब्बे सङ्खारा अनिच्चा" ति अत्वा जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा, "सब्बे सङ्खारा दुक्खा" ति ...पे०... "यं किञ्चि समुदयधम्मं सब्बं तं निरोधधम्मं" ति अत्वा जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा ति -अत्वा च सो। सम्मुत्तियो वुच्चन्ति द्वासट्ठि दिट्ठिगतानि दिट्ठिसम्मुत्तियो। पुथुज्जा ति। पुथुज्जनेहि जनिता वा ता सम्मुत्तियो ति -पुथुज्जा। पुथु नानाजनेहि जनिता वा सम्मुत्तियो ति पुथुज्जा ति -अत्वा च सो सम्मुत्तियो पुथुज्जा।

२६ उपेक्खती उग्गहणन्ति* मञ्जे ति। अञ्जे तण्हावसेन विट्ठिवसेन गण्हन्ति परामसन्ति अभिनिविसन्ति। अरहा उपेक्खति न

१ स्या०, रो० पोत्यकेषु नत्वि। २ स्या०, रो० पोत्यकेषु नत्वि। * भिञ्जावाणेन वा ति -सी०, स्या०, रो० पोत्यकेषु ऋषिको पाठो विस्सति। ३ तण्हावन्धु -सी०, स्या०, रो०, एवमुपरि पि। ४ स्या०, रो० पोत्यकेषु नत्वि। ५ ता सम्मुत्तियो -सी०, रो०, ता सम्मुत्तियो -स्या०। ६ उग्गहन्ति -सी०।

गण्हाति न परामसति नाभिनिविसती ति - उपेक्खती उग्गहणन्ति मञ्जे । तेनाह भगवा -

“न ब्राह्मणो कप्पमुपेति सङ्गा,
न दिट्ठिसारी न पि आणबन्धु ।
अत्वा च सो सम्मुतियो पुथुज्जा,
उपेक्खती उग्गहणन्ति मञ्जे” ति ॥

5

१४७. विस्सज्ज गन्थानि मुनीध लोके,
विवादजातेसु न वग्गसारी ।
सन्तो असन्तेसु उपेक्खको सो,
अनुग्गहो उग्गहणन्ति मञ्जे ॥

B. 256,
E. 329

10

विस्सज्ज गन्थानि मुनीध लोके ति । गन्था ति । चत्तारो गन्था - अभिज्झा कायगन्थो, व्यापादो कायगन्थो, सीलब्बतपरामासो कायगन्थो, इदंसच्चाभिनिवेसो कायगन्थो । अत्तनो दिट्ठिया रागो अभिज्झा कायगन्थो, परवादेसु आघातो अप्पच्चयो व्यापादो कायगन्थो, अत्तनो सीलं वा वतं वा सीलब्बतं वा परामसति सीलब्बतपरामासो कायगन्थो, अत्तनो दिट्ठिं^१ अभिनिवेसो^२ कायगन्थो^३ इदंसच्चाभिनिवेसो कायगन्थो । विस्सज्जा ति । गन्थे वोस्सज्जित्वा^४ विस्सज्ज । अथ वा, गन्थे गथिते^५ गन्थिते बन्धे^६ विबन्धे आबन्धे लग्गे लग्गिते पलिबुद्धे बन्धने फोटयित्वा विस्सज्ज । यथा वय्हं वा रथं वा सकटं वा सन्दमानिकं वा सज्जं विस्सज्जं करोन्ति विकोपेन्ति; एवमेव^७ गन्थे वोस्सज्जित्वा विस्सज्ज । अथ वा, गन्थे गथिते गण्ठिते बन्धे विबन्धे आबन्धे लग्गे लग्गिते पलिबुद्धे बन्धने फोटयित्वा विस्सज्ज । मुनी ति । मोनं वुच्चति आणं .पे०.. सङ्गजालमतिच्च सो मुनि । इधा ति । इमिस्सा दिट्ठिया .पे०.. इमस्मि मनुस्सलोके ति - विस्सज्ज गन्थानि मुनीध लोके ।

15

20

25

विवादजातेसु न वग्गसारी ति । विवादजातेसु^८ सञ्जातेसु^९ निब्बत्तेसु अभिनिब्बत्तेसु पातुभूतेसु छन्दागतं गच्छन्तेसु दोसागतं

१ दिट्ठि - स्या०, रो० । २-२ सी०, स्या०, रो० पोत्यकेमु नत्थि । ३ वोस्सज्जित्वा वा - सी०, स्या०, रो० । ४ गथिते - सी०, स्या०, रो० । ५ वद्धे - सी०, एवमुपरि पि । ६ एवमेवं - सी० । ७-७ विवादे जाते सञ्जाते - सी०, एवमुपरि पि ।

I. 330

गच्छन्तेसु भयागति गच्छन्तेसु मोहागति गच्छन्तेसु न छन्दागति
गच्छति, न दोसागति गच्छति, न भयागति गच्छति, न मोहागति
गच्छति, न रागवसेन गच्छति, न दोसवसेन गच्छति, न मोहवसेन
गच्छति, न मानवसेन गच्छति, न दिट्टिवसेन गच्छति, न उद्धच्चवसेन
6 गच्छति, न विचिकिच्छावसेन गच्छति, न अनुसयवसेन गच्छति, न
वग्गोहि धम्मोहि यायति नीयति बृहति संहरीयती ति - विवादजातेसु
न वग्गसारी ।

सन्तो असन्तेसु उपेक्खको सो ति । सन्तो ति । रागस्स
सन्तत्ता सन्तो, दोसस्स सन्तत्ता सन्तो, मोहस्स सन्तत्ता सन्तो...पे०

B 257

10 सव्वाकुसलाभिसङ्खारानं सन्तत्ता सभितत्ता वूपसमितत्ता विज्जातत्ता
निब्बुतत्ता विगतत्ता पटिपस्सद्धत्ता सन्तो उपसन्तो वूपसन्तो निब्बुतो
पटिपस्सद्धो ति - सन्तो । असन्तेसू ति । असन्तेसु अनुपसन्तेसु अवूप-
सन्तेसु अनिब्बुतेसु अप्पटिपस्सद्धेसू ति - सन्तो असन्तेसु । उपेक्खको
सो ति । अरहा छल्लङ्गुपेक्खाय समन्नागतो चक्खुना रूपं दिस्वा नेव
15 सुमनो होति न दुम्मनो, उपेक्खको विहरति सतो सम्पजानो । सोतेन
सद्दं सुत्वा .. पे०.. कालं कल्लति भावितो सन्तो' ति - सन्तो असन्तेसु
उपेक्खको सो ।

अनुग्गहो उग्गहणन्ति मञ्जे ति । अञ्जे तण्हावसेन दिट्ठि-
वसेन गण्हन्ते^३ परामसन्ते अभिनिविसन्ते । अरहा उपेक्खति न गण्हाति
20 न परामसति नाभिनिविसती ति - अनुग्गहो उग्गहणन्ति मञ्जे ।
तेनाह भगवा -

“विस्सज्ज गन्थानि मुनीध लोके,
विवादजातेसु न वग्गसारी ।
सन्तो असन्तेसु उपेक्खको सो,
अनुग्गहो उग्गहणन्ति मञ्जे” ति ॥

25

१४८. पुब्बासवे हित्वा नवे अकुब्बं,
न छन्दगू नो पि निविस्सवादी ।
स विप्पमुत्तो दिट्ठिगतोहि धीरो,
न लिम्पति लोके अनत्तगरही ॥

१. सुवन्तो - सी०, स्या०, रो० । २ गण्हन्ति - स्या०, रो०; एवमुपरि पि ।

पुब्बासवे हित्वा नवे अकुब्बं ति । पुब्बासवा वुच्चन्ति अतीता रूपवेदनासञ्जासङ्गारविञ्जाणा । अतीते सङ्गारे आरब्भ ये किलेसा उपपज्जेय्युं ते किलेसे हित्वा चजित्वा परिचचजित्वा पजहित्वा विनो-
देत्वा ब्यान्ति करित्वा अनभावं गमेत्वा ति - पुब्बासवे हित्वा । नवे
अकुब्बं ति । नवा वुच्चन्ति पच्चुप्पन्ना रूपवेदनासञ्जासङ्गारविञ्जाणा ।
पच्चुप्पन्ने सङ्गारे आरब्भ छन्दं अकुब्बमानो पेमं अकुब्बमानो रागं
अकुब्बमानो अजनयमानो असञ्जनयमानो अनिब्बत्तयमानो अनभि-
निब्बत्तयमानो ति - पुब्बासवे हित्वा नवे अकुब्बं ।

5

न छन्दगू नो पि निविस्सवादी ति ।* न छन्दागतिं गच्छति,
न दोसागतिं गच्छति, न मोहागतिं गच्छति, न भयागतिं गच्छति, 10
न रागवसेन गच्छति, न दोसवसेन गच्छति, न मोहवसेन गच्छति, न
मानवसेन गच्छति, न दिट्ठिवसेन गच्छति, न उद्धच्चवसेन गच्छति,
न विचिकिच्छावसेन गच्छति, न अनुसयवसेन गच्छति, न वग्गेहि
धम्मोहि यायति नीयति वुहति न' संहरीयती ति - न छन्दगू । नो पि
निविस्सवादी ति । "सस्सतो लोको, इदमेव सच्चं मोधमञ्ज" ति न 15
निविस्सवादी ...पे०. "नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा, इद-
मेव सच्चं मोधमञ्ज" ति न निविस्सवादी ति - न छन्दगू नो पि
निविस्सवादी ।

B 258

स विप्पमुत्तो दिट्ठिगतेहि धीरो ति । तस्स द्वासट्ठि दिट्ठि-
गतानि पहीनानि समुच्छिन्नानि वूपसन्तानि पटिपस्सद्धानि अभम्बुप्प- 20
त्तिकानि आणग्गिणा दड्ढानि । सो दिट्ठिगतेहि विप्पमुत्तो विसञ्जुत्तो
विमरियादिकतेन चेतसा विहरति । धीरो ति । धीरो पण्डितो पञ्चवा
बुद्धिमा आणी विभावी मेधावी ति - स विप्पमुत्तो दिट्ठिगतेहि धीरो ।

न लिम्पति लोके अनत्तगरही ति । लेपा' ति । द्वे लेपा -
तण्हालेपो च दिट्ठिलेपो च पे० . अयं तण्हालेपो ..पे० अयं दिट्ठि- 25
लेपो । तस्स तण्हालेपो पहीनो, दिट्ठिलेपो पटिनिस्सट्ठो; तस्स'
तण्हालेपस्स पहीनत्ता, दिट्ठिलेपस्स पटिनिस्सट्ठत्ता' अपायलोके न

R. 332

१ * सङ्गारविञ्जाण - स्या०, रो० । * न छन्दगूती ति - स्या०, रो० पोत्यकेसु
अधिको दिस्सति । २ स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि । ३ लेपो - स्या०, रो० । ४ सी०,
स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि । ५ पटिनिस्सट्ठत्ता अनुपलित्तो - सी०, स्या०, रो० ।

लिम्पति, मनुस्सलोके न लिम्पति, देवलोके न लिम्पति, ख्वल्लोके
न लिम्पति, धातुलोके न लिम्पति, आयतनलोके न लिम्पति न
पलिम्पति^१ न उपलिम्पति, अलित्तो अपलित्तो^२ अनुपलित्तो निवखन्तो
निस्सटो विप्पमुत्तो विसञ्जुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरती
५ ति - न लिम्पति लोके ।

अनत्तगरही ति । द्वीहि कारणेहि अत्तानं गरहति - कतत्ता
च अकतत्ता च । कथं कतत्ता च अकतत्ता च अत्तानं गरहति ? “कत
मे कायदुच्चरितं, अकतं मे कायसुचरितं” ति अत्तानं गरहति । “कत
मे वचीदुच्चरितं ...पे०... कतं मे मनोदुच्चरितं कतो मे पाणात्तिपातो
१० . पे०...कता मे मिच्छादिट्ठि, अकता मे सम्मादिट्ठी” ति अत्तान
गरहति । एवं कतत्ता च अकतत्ता च अत्तानं गरहति ।

अथ वा, “सीलेसुम्हि न परिपूरकारी” ति अत्तान गरहति ।
“इन्द्रियेसुम्हि अगुत्तद्वारो” ति ... “भोजनेम्हि अमत्तञ्जू” ति “जाग-
रियम्हि अननुयुत्तो” ति ... “न सतिसम्पजञ्जेनाम्हि समन्नागतो” ति
B. 259 15 ... “अभाविता मे चत्तारो सतिपट्टाना” ति ... “अभाविता मे चत्तारो
सम्मप्पघाना” ति ... “अभाविता मे चत्तारो इद्धिपादा” ति . “अभावि-
तानि मे पञ्चिन्द्रियानी” ति ... “अभावितानि मे पञ्च बलानी” ति
... “अभाविता मे सत्त बोक्कञ्जा” ति .. “अभावितो मे अरियो अट्ठ-
ङ्गिको भग्गो” ति . “दुक्खं मे अपरिञ्जातं” ति . “दुक्खसमुदयो
२० मे अप्पहीनो” ति . “भग्गो मे अभावितो” ति .. “निरोधो मे अस-
च्छिकतो” ति अत्तानं गरहति । एव कतत्ता च अकतत्ता च अत्तान
गरहति । एवं अत्तगरही^१ । तयिदं कम्मं अकुब्बमानो अजनयमानो
असञ्जनयमानो अनिब्बत्तयमानो अनभिनिब्बत्तयमानो अनत्तगरही
R. 373 ति - न लिम्पति लोके अनत्तगरही । तेनाह भगवा -

२५ “पुब्बासवे हित्वा नवे अकुब्बं,
न छन्दगू नो पि निविस्सवादी ।
स विप्पमुत्तो दिट्ठिगतोहि धीरो,
न लिम्पति लोके अनत्तगरही” ति ॥

१ सलिम्पति - सी०, स्या०, रो० । २ असलित्तो - सी०, स्या०, रो० । ३-३ अत्त-
गरहिय - स्या०, रो० ।

१४९. स सब्बघम्मेसु विसेनिभूतो,
 यं किञ्चिद्विद्वं व सुतं मुतं वा ।
 स पन्नभारो मुनि विप्पमुत्तो,
 न कप्पियो नूपरतो न पत्थियो ॥ (इति भगवा)

स सब्बघम्मेसु विसेनिभूतो यं किञ्चिद्विद्वं व सुतं मुतं वा ५
 ति । सेना वुच्चति मारसेना । कायदुच्चरितं मारसेना, वचीदुच्चरितं
 मारसेना, मनोदुच्चरितं मारसेना, रागो . दोसो ... मोहो ... कोधो ...
 उपनाहो ... मक्खो ... पळासो . इस्सा . मच्छरियं ... माया ... साठेय्यं
 .. थम्भो .. सारम्भो ... मानो अतिमानो ... मदो ... पमादो ... सब्बे
 किलेसा ... सब्बे दुच्चरिता ... सब्बे दरथा .. सब्बे परिळाहा ... सब्बे 10
 सन्तापा ... सब्बा कुसलाभिसङ्कारा मारसेना । वुत्तं हेतं भगवता -

“कामा ते पठमा सेना, दुतिया^१ अरति^२ वुच्चति ...पे०
 न नं असुरो जिनाति, जेत्वा व लभते सुखं” ति ॥

R. 334

यतो चतूहि अरियमग्गेहि सब्बा च मारसेना सब्बे च
 पटिसेनिकरा किलेसा जिता च पराजिता च भग्गा विप्पलुग्गा^३ 15
 परम्मुखा - सो वुच्चति विसेनिभूतो^४ । सो विद्वे विसेनिभूतो, सुते
 . सुते .. विञ्जाते विसेनिभूतो ति - स सब्बघम्मेसु विसेनिभूतो यं
 किञ्चिद्विद्वं व सुतं मुतं वा ।

B. 260

स पन्नभारो मुनि विप्पमुत्तो ति । भारा^५ ति । तयो भारा -
 खन्धभारो, किलेसभारो, अभिसङ्कारभारो । कतमो खन्धभारो? 20
 पटिसन्धिया रूपं वेदना सञ्जा सङ्कारा विञ्जाणं - अयं खन्धभारो ।
 कतमो किलेसभारो? रागो दोसो मोहो ...पे०... सब्बाकुसलाभि-
 सङ्कारा - अयं किलेसभारो । कतमो अभिसङ्कारभारो? पुञ्जाभि-
 सङ्कारो अपुञ्जाभिसङ्कारो आनेञ्जाभिसङ्कारो^६ - अयं अभि-
 सङ्कारभारो । यतो खन्धभारो च किलेसभारो च अभिसङ्कारभारो 25
 च पहीना होन्ति उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावकता^७ आर्यति

१-२ दुतियारति - सी०, स्या० । २ विप्पलुत्ता - सी०, स्या०, रो० । ३ विसेनी-
 भूतो - सी०; एवमुपरि पि । ४ भारो - सी०, स्या०, रो० । ५ अनेञ्जा० - रो० । ६
 अनभाव कता - सी०, अनभावङ्गता - स्या०, रो० ।

- अनुप्यादधम्मा, सो वुच्चति पन्नभारो पतितभारो ओरोपितभारो
सभोरोपितभारो निक्खित्तभारो पटिपस्सद्धभारो। मुनी ति। मोनं
वुच्चति ञाणं। था पञ्जा पजानना विचयो पविचयो^१ धम्मविचयो^१
सल्लक्खणा उपलक्खणा पच्चुपलक्खणा, पण्डिच्चं कोसल्लं नेपुञ्चं
६ वेभ्य्या चिन्ता उपपरिक्खा भूरि^२ मेघा परिनायिका विपस्सना सम्प-
जञ्जं पतोदो पञ्जा पञ्चिन्द्रियं पञ्जाबलं पञ्जासत्थं पञ्जापासादो
R 835 पञ्जाबालोको पञ्जाओभासो पञ्जापञ्जोतो पञ्जारतनं अमोहो
धम्मविचयो सम्मादिट्ठि। तेन ञाणेन समन्नागतो मुनि मोनप्यतो।
तीणि मोनेय्यानि - कायमोनेय्यं, वचीमोनेय्यं, मनोमोनेय्यं। कतमं
१० कायमोनेय्यं? तिविधानं कायदुच्चरितानं पहानं कायमोनेय्यं, तिविध
कायसुचरितं कायमोनेय्यं, कायारम्भणे^३ ञाणं कायमोनेय्यं, काय-
परिञ्जा कायमोनेय्यं, परिञ्जासहगतो मग्गो कायमोनेय्य, काये
छन्दरागस्स पहानं कायमोनेय्यं, कायसङ्खारनिरोधो चतुत्थज्झान-
समापत्ति कायमोनेय्यं - इदं कायमोनेय्यं। कतमं वचीमोनेय्यं?
१५ चतुब्बिधानं वचीदुच्चरितानं पहानं वचीमोनेय्यं, चतुब्बिधं वची-
सुचरितं वचीमोनेय्यं, वाचारम्भणे ञाणं वचीमोनेय्यं, वाचापरिञ्जा
वचीमोनेय्यं, परिञ्जासहगतो मग्गो वचीमोनेय्यं, वाचाय छन्दरागस्स
पहानं वचीमोनेय्य, वचीसङ्खारनिरोधो दुतियज्झानसमापत्ति वची-
मोनेय्य - इदं वचीमोनेय्यं। कतमं मनोमोनेय्यं? तिविधानं मनो-
२० दुच्चरितानं पहानं मनोमोनेय्यं, तिविधं मनोसुचरितं मनोमोनेय्यं,
चित्तारम्भणे ञाणं मनोमोनेय्यं, चित्तपरिञ्जा मनोमोनेय्यं, परिञ्जा-
सहगतो मग्गो मनोमोनेय्यं, चित्ते छन्दरागस्स पहानं मनोमोनेय्य,
चित्तसङ्खारनिरोधो सञ्जावेदयितनिरोधसमापत्ति मनोमोनेय्यं - इदं
मनोमोनेय्यं।
- २५ कायमुनि वाचामुनि, मनोमुनिमनासवं।
मुनि मोनेय्यसम्पन्नं, आहु सव्वप्पहायिनं॥
कायमुनि वाचामुनि, मनोमुनिमनासव।
मुनि मोनेय्यसम्पन्नं, आहु निन्हातपापक ति॥

१ परिचयो - रो०। २ सी० पोत्यके तत्थि। ३ भूरी - स्या०। ४ कायारम्भणे -
सी०, स्या०, रो०।

इमेहि तीहि मोनेव्येहि धम्मेहि समन्नागता छ मुनिनो^१ -
 अगारमुनिनो^२, अनगारमुनिनो, सेखमुनिनो,^३ असेखमुनिनो, पच्चेक-
 मुनिनो, मुनिमुनिनो ति। कतमे अगारमुनिनो? ये ते अगारिका
 दिट्ठपदा विञ्जातसासना - इमे अगारमुनिनो। कतमे अनगार-
 मुनिनो? ये ते पब्बजिता दिट्ठपदा विञ्जातसासना - इमे अनगार-
 मुनिनो। सत्त सेखा सेखमुनिनो, अरहन्तो असेखमुनिनो। पच्चेक-
 बुद्धा पच्चेकमुनिनो। मुनिमुनिनो वुच्चन्ति तथागता अरहन्तो
 सम्मासम्बुद्धा ।

R 230

न मोनेन मुनि^४ होति, मूळहरूपो अविद्दसु ।

यो च तुलं व पग्गय्ह, वरमादाय पण्डितो ॥

10

पापानि परिवज्जेति, स मुनि तेन सो मुनि ।

यो मुनाति उभो लोके, मुनि तेन पवुच्चति ॥

असतं च सतं च अत्वा धम्मं,

अज्झतं बहिद्धा च सब्बलोके ।

देवमनुस्सेहि पूजितो यो,^५

सङ्गजालमतिच्च सो मुनि ॥

15

विप्पमुत्तो ति । मुनिनो रागा चित्तं मुत्तं विमुत्तं सुविमुत्तं ।
 दोसा चित्तं ... मोहा चित्तं मुत्तं विमुत्तं सुविमुत्तं ...पे०... सव्वाकुसलाभि-
 सङ्कारेहि चित्तं मुत्तं विमुत्तं सुविमुत्तं ति - स पन्नभारो मुनि विप्प-
 मुत्तो ।

20

न कप्पियो नूपरतो न पत्थियो ति भगवा ति । कप्पा ति ।
 द्वे कप्पा - तण्हाकप्पो च दिट्ठिकप्पो च...पे०...अयं तण्हाकप्पो ...पे०...
 अयं दिट्ठिकप्पो । तस्स तण्हाकप्पो पहीनो, दिट्ठिकप्पो पटिनिस्सट्ठो;
 तण्हाकप्पस्स पहीनत्ता दिट्ठिकप्पस्स पटिनिस्सट्ठत्ता तण्हाकप्पं वा
 दिट्ठिकप्पं वा न कप्पेति न जनेति न सञ्जनेति न निब्बत्तेति नाभि-
 निब्बत्तेती ति - न कप्पियो । नूपरतो ति । सब्बे बालपुथुज्जना

B. 262,
R. 387

25

१ मुनयो - सी०, स्या०, रो० । २ अगारमुनयो - स्या०, रो०, एवमुपरि पि ।

३ सेखमुनयो - स्या०, रो० ; एवमुपरि पि । ४ मुनी - सी०, रो० । ५ यो सो -
 स्या०, रो० ।

रञ्जन्ति, पुथुञ्जनकल्याणकं उपादाय सत्त' सेखा अप्पत्तस्स पत्तिया अनधिगतस्स अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय आरमन्ति विरमन्ति पटिविरमन्ति, अरहा आरतो' विरतो पटिविरतो निक्खन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसञ्चुत्तो विमरियादिकतेन' चेतसा विहरती' ति - न कप्पियो नूपरतो। न पत्थियो ति। पत्थना वुच्चति तप्हा। यो रागो सारागो.. पे० अभिञ्जा लोभो अकुसलमूलं। यस्सेसा पत्थना तप्हा' पहीना समुच्छिन्ना वूपसन्ता पटिपस्सद्धा अभव्वुप्पत्तिका आणग्गिना दड्ढा, सो वुच्चति न पत्थियो।

- भगवा ति। गारवाधिवचनं। अपि च भग्गरागो ति भगवा,
 10 भग्गदोसो ति भगवा, भग्गमोहो ति भगवा, भग्गमानो ति भगवा, भग्गदिट्ठी ति भगवा, भग्गकण्डको' ति भगवा, भग्गकिल्लेसो ति भगवा, भजि विभजि पविभजि' घम्मरतनं ति भगवा, भवानं अन्त-करोति भगवा, भावितकायो भावितसीलो भावितचित्तो भावित-पञ्चो ति भगवा; भागी' वा भगवा अरञ्जवनपत्थानि पत्तानि
 15 सेनासनानि अप्पसद्धानि अप्पनिग्घोसानि विजनवातानि मनुस्सरह-स्सेय्यकानि' पटिसल्लानसारूप्यानी ति भगवा, भागी वा भगवा चीवरपिण्डपालसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारानं" ति भगवा, भागी वा भगवा अत्थरसस्स घम्मरसस्स विमुत्तिरसस्स अधिसीलस्स अधिचित्तस्स अधिपञ्चाया ति भगवा, भागी वा भगवा चतुन्न
 20 ऋनानं चतुन्नं अप्पमञ्जानं चतुन्नं अरूपसमापत्तीनं ति भगवा, भागी वा भगवा अट्टुन्नं विमोक्खानं अट्टुन्नं अभिभायतनानं नवन्नं अनु-पुञ्चविहारसमापत्तीनं ति भगवा, भागी वा भगवा दसन्नं सञ्जा-भावनानं दसन्नं कसिणसमापत्तीनं आनापानस्सतिसमाधिस्स असुभ-समापत्तिया ति भगवा, भागी वा भगवा चतुन्नं सतिपट्टानानं
 25 चतुन्नं सम्मप्पघानानं चतुन्नं इद्धिपादानं पञ्चन्नं इन्द्रियानं पञ्चन्न बलानं सत्तन्नं बोक्कङ्गानं अरियस्स अट्टुङ्गकस्स मग्गस्सा ति भगवा, भागी वा भगवा दसन्नं तथागतबलानं चतुन्नं वेसारञ्जानं

R 338

१. सव्वे-सी०। २ आरतो अस्स-स्या०, रो०। ३ विमरियादिकतेन-सी०।
 ४ विहरेय्या-स्या०, रो०। ५ स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि। ६ भग्गकण्डको-सी०, स्या०, रो०। ७ पटिविभजि-सी०, स्या०, रो०। ८ भजि-स्या०। ९ ० राहसेय्यकानि-सी०, स्या०, रो०। १० ० गिलानपच्चय०-सी०, एवमुपरि पि।

चतुन्नं पटिसम्भदानं छन्नं अभिञ्जानं^१ छन्नं बुद्धधम्मानं ति भगवा,
 भगवा ति नेतं नामं मातरा कतं न पितरा कतं न भातरा कतं
 न भगिनिया कतं न मित्तामच्चेहि कतं न आतिसालोहितेहि कतं
 न समणब्राह्मणेहि कतं न देवताहि कतं; विमोक्खन्तिकमेतं बुद्धानं
 भगवन्तानं बोधिया मूले सह सब्बञ्जुतजाणस्स^२ पटिलाभा सच्छिका
 पञ्जत्ति यदिदं भगवा ति—न कप्पियो नूपरतो न पत्थियो इति
 भगवा । तेनाह भगवा—

B 263

“स सब्बधम्मेषु विसेनिभूतो,
 यं किञ्चिदिदं व सुतं सुतं वा ।
 स पन्नमारो मुनि विप्पमुत्तो,
 न कप्पियो नूपरतो न पत्थियो” ॥ (इति भगवा ति)

10

महाविहसुत्तनिद्देशो तेरममो ।

१४. तुवट्टकसुत्तनिद्देशो

अथ तुवट्टकसुत्तनिद्देशं वक्खति—

१५०. पुच्छामि तं आदिच्चबन्धु^१,
 विवेकं सन्तिपदं च महेसि^२ ।
 कथं दिस्वा निब्बाति भिक्खु,
 अनुपादियानो लोकात्स्मि किञ्चि ॥

R 339

15

पुच्छामि तं आदिच्चबन्धु ति । पुच्छा ति । तिससो पुच्छा—
 अदिट्टजोतना पुच्छा, दिट्टसंसन्दना पुच्छा, विमतिच्छेदना पुच्छा ।
 कतमा अदिट्टजोतना पुच्छा ? पकतिया लक्खणं अञ्जातं^३ होति
 अदिट्टं अतुलितं अतीरितं अविभूतं अविभावितं, तस्स बाणाय दस्स-
 नाय तुलनाय तीरणाय विभावनाय पञ्हुं पुच्छति—अयं अदिट्टजोतना
 पुच्छा । कतमा दिट्टसंसन्दना पुच्छा ? पकतिया लक्खणं आतं होति
 दिट्टं तुलितं तीरितं विभूतं विभावितं, अञ्जेहि पण्डितेहि सद्धि
 संसन्दनत्थाय पञ्हुं पुच्छति—अयं दिट्टसंसन्दना पुच्छा । कतमा

20

१ अभिञ्जाणान—सी० । २ सब्बञ्जुतजाणस्स—म० । ३ ० बन्धु—स्या०, रो० ।
 ४ महेसि—सी०, स्या०, रो० । ५ अजातं—स्या०, रो० ।

विमतिच्छेदना पुच्छा ? पकतिया संसयपक्खन्दो' होति विमतिपक्खन्दो
द्वेळ्हकजातो, "एवं नु खो, न नु खो, कि नु खो, कथं नु खो" ति
सो विमतिच्छेदनत्थाय पञ्हं पुच्छति - अयं विमतिच्छेदना पुच्छा ।
इमा तिस्सो पुच्छा ।

B. 204

5

R. 340

अपरा पि तिस्सो पुच्छा - मनुस्सपुच्छा, अमनुस्सपुच्छा,
निम्मिमतपुच्छा । कतमा मनुस्सपुच्छा ? मनुस्सा बुद्धं भगवन्तं उपसङ्क-
मित्वा पञ्हं पुच्छन्ति, भिक्खू पुच्छन्ति, भिक्खुनियो पुच्छन्ति, उपा-
सका पुच्छन्ति, उपासिकायो पुच्छन्ति, राजानो पुच्छन्ति, खत्तिया
पुच्छन्ति, ब्राह्मणा पुच्छन्ति, वेस्सा पुच्छन्ति, सुदा पुच्छन्ति, गह्ढा
10 पुच्छन्ति, पव्वजिता पुच्छन्ति - अयं मनुस्सपुच्छा । कतमा अमनुस्स-
पुच्छा ? अमनुस्सा बुद्धं भगवन्तं उपसङ्कमित्वा पञ्हं पुच्छन्ति,
नागा पुच्छन्ति, सुपण्णा पुच्छन्ति, यक्खा पुच्छन्ति, असुरा पुच्छन्ति,
गन्धव्वा पुच्छन्ति, महाराजानो पुच्छन्ति, इन्दा पुच्छन्ति, ब्रह्मानो
पुच्छन्ति, देवतायो पुच्छन्ति - अयं अमनुस्सपुच्छा । कतमा निम्मिमत-
16 पुच्छा ? य भगवा रूपं अभिनिम्मिनाति मनोमयं सव्वङ्गपञ्चङ्ग
अहीनिन्द्रियं तं सो निम्मितो बुद्धं भगवन्तं उपसङ्कमित्वा पञ्हं पुच्छति,
भगवा तस्स' विसज्जेति - अयं निम्मितपुच्छा । इमा तिस्सो पुच्छा ।

अपरा पि तिस्सो पुच्छा - अत्तत्थपुच्छा, परत्थपुच्छा,
उभयत्थपुच्छा । अपरा पि तिस्सो पुच्छा - दिट्ठमिमिकत्थपुच्छा,
20 सम्परायिकत्थपुच्छा, परमत्थपुच्छा । अपरा पि तिस्सो पुच्छा -
अनवज्जत्थपुच्छा, निक्किलेसत्थपुच्छा, बोदानत्थपुच्छा । अपरा पि
तिस्सो पुच्छा - अतीतपुच्छा, अनागतपुच्छा, पच्चुप्पन्नपुच्छा । अपरा
पि तिस्सो पुच्छा - अज्झत्तपुच्छा, बहिद्धापुच्छा, अज्झत्तवहिद्धापुच्छा ।
अपरा पि तिस्सो पुच्छा - कुसलपुच्छा, अकुसलपुच्छा, अव्याकत-
पुच्छा । अपरा पि तिस्सो पुच्छा - खन्धपुच्छा, घातुपुच्छा, आयतन-
25 पुच्छा । अपरा पि तिस्सो पुच्छा - सत्तिपट्टानपुच्छा, सम्मप्यधान-
पुच्छा, इद्धिपादपुच्छा । अपरा पि तिस्सो पुच्छा - इन्द्रियपुच्छा, वल-

R 341

१ संसयपक्खन्दो - सी०, स्या०, संसयपक्खन्दो - रो०, एवमुपरि पि । २ स्या०,
रो० पोत्यकेसु नत्थि । ३ सी०, स्या० पोत्यकेसु नत्थि । ४ उभयत्थपुच्छा - रो० । ५
निक्खेपत्थपुच्छा - सी० ।

पुच्छा, बोज्फङ्गपुच्छा। अपरा पि तित्सो पुच्छा—मगगपुच्छा, फल-
पुच्छा, निब्बानपुच्छा।

पुच्छामि तं ति। पुच्छामि तं याचामि तं अज्भेसामि तं
पसादेमि तं, “कथयस्सु मे” ति—पुच्छामि तं। आदिच्चबन्धू ति।
आदिच्चो वुच्चति सूरियो^१। सूरियो गोतमो गोत्तेन, भगवा पि^२
गोतमो गोत्तेन, भगवा सूरियस्स गोत्तवातको गोत्तबन्धु; तस्मा
बुद्धो आदिच्चबन्धू ति—पुच्छामि तं आदिच्चबन्धु।

विवेकं सन्तिपदं च महेसी ति। विवेका^३ ति। तयो विवेका—
कायविवेको, चित्तविवेको, उपधिविवेको। कतमो कायविवेको? इध
भिक्षु विवित्तं सेनासनं भजति अरञ्जं रुक्खमूलं पब्बतं कन्दरं गिरि- 10 B. 265
गुहं सुसानं वनपत्थं अब्भोकासं पलालपुञ्जं कायेन^४ विवित्तेन^५ विह-
रति। सो एको गच्छति, एको तिट्ठति, एको निसीदति, एको सेय्यं
कप्पेति, एको गामं पिण्डाय पविसति, एको पटिक्कमति, एको र्हो
निसीदति, एको चङ्कमं अधिट्ठाति, एको चरति विहरति इरियति
वत्तति पालेति यपेति यापेति—अयं कायविवेको। 15

कतमो चित्तविवेको? पठमं भानं समापन्नस्स नीवरणेहि
चित्तं विवित्तं होति, दुतियं भानं समापन्नस्स वितक्कविचारेहि चित्तं
विवित्तं होति, ततियं भानं समापन्नस्स पीतिया चित्तं विवित्तं होति,
चतुत्थं भानं समापन्नस्स सुखदुक्खेहि चित्तं विवित्तं होति, आकासान-
ञ्चायतनं समापन्नस्स रूपसञ्जाय पटिघसञ्जाय नानत्तसञ्जाय चित्तं 20
विवित्तं होति, विञ्जाणञ्चायतनं समापन्नस्स आकासानञ्चायतन-
सञ्जाय चित्तं विवित्तं होति, आकिञ्चञ्जायतनं समापन्नस्स विञ्जाण-
ञ्चायतनसञ्जाय चित्तं विवित्तं होति, नेवसञ्जानासञ्जायतनं समा-
पन्नस्स आकिञ्चञ्जायतनसञ्जाय चित्तं विवित्तं होति। सोतापन्नस्स
'सक्कायदिट्ठिया विचिकिच्छाय सीलब्बतपरामासा दिट्ठानुसया विचि- 25
किच्छानुसया, तदेकट्ठेहि च किलेसेहि चित्तं विवित्तं होति। सकदा-
गामिस्स^६ ओळारिका कामरागसञ्जो जना पटिघसञ्जो जना ओळारिका

R. 342

25

१. सूरियो—सी०, स्या०, रो०; एवमुपरि पि। २ विवेको—सी०, स्या०, रो०।
३ कायेन च—सी०, स्या०, रो०। ४ विवित्तो—सी०, स्या०, रो०। ५ सकदागामि-
कस्स—सी०।

कामरागानुसया पटिघानुसया, तदेकद्वेहि च किलेसेहि चित्तं विवित्तं होति । अनागामिस्स अनुसहगता' कामरागसञ्जो जना पटिघसञ्जो-जना अनुसहगता कामरागानुसया पटिघानुसया, तदेकद्वेहि च किलेसेहि चित्तं विवित्तं होति । अरहतो रूपरागा अरूपरागा माना
 5 उद्धच्चा अविज्जाय मानानुसया भवरागानुसया अविज्जानुसया, तदेकद्वेहि च किलेसेहि बहिद्धा च सब्बनिमित्तेहि चित्तं विवित्तं होति - अयं चित्तविवेको ।

कतमो उपधिविवेको ? उपधि वुच्चति' किलेसा च खन्धा च अभिसङ्खारा च । उपधिविवेको वुच्चति अमत निब्बान । यो
 10 सो सब्बसङ्खारसमथो सब्बूपधिपटिनिस्सगो तण्हक्खयो विरागो निरोधो निब्बानं - अयं उपधिविवेको । कायविवेको च विवेकट्टकायान' नेक्खम्माभिरतान, चित्तविवेको च परिसुद्धचित्तानं परमवोदान-पत्तानं, उपधिविवेको च निरूपधीनं पुग्गलानं' विसङ्खारगतानं । सन्ती ति । एकेन आकारेण सन्ति'पि सन्तिपद पि तं येव अमत
 15 निब्बानं, यो सो सब्बसङ्खारसमथो सब्बूपधिपटिनिस्सगो तण्ह-क्खयो विरागो निरोधो निब्बानं । वुत्तं हेतं भगवता - "सन्तमेत पद, पणीतमेतं पदं, यदिदं सब्बसङ्खारसमथो सब्बूपधिपटिनिस्सगो तण्ह-क्खयो विरागो निरोधो निब्बानं" ति । अथ' अपरेण आकारेण ये
 343 धम्मा सन्ताधिगमाय सन्तिफुसनाय सन्तिसञ्छिकिरियाय सबत्तन्ति,
 - 20 सेव्यथिदं' - चत्तारो सत्तिपट्टाना, चत्तारो सम्मप्पधाना, चत्तारो इद्धिपादा, पञ्चिन्द्रियानि, पञ्च बलानि, सत्त बोज्झङ्गा, अरियो अट्टङ्गिगो मग्गो - इमे वुच्चन्ति सन्तिपदं ताणपद लेणपदं सरणपद अमयपदं अच्चुतपदं अमतपदं निब्बानपदं ।

महेसी ति । महेसि भगवा । महन्तं सीलक्खन्ध एसी' गवेसी
 25 परियेसी ति महेसि, महन्तं समाधिकखन्धं .. महन्तं पञ्चाक्खन्धं .. महन्तं विमुत्तिक्खन्धं .. महन्तं विमुत्तिवाणदस्सनक्खन्ध एसी गवेसी

१ अणुसहगता - सी०, स्या०, रो०, एवमुपरि पि । २ वुच्चन्ति - स्या०, रो० ।
 ३. वूपकट्टकायान - सी०, स्या०, रो० । ४ रो० योत्थके नत्थि । ५ सन्ती - सी० । ६
 अथवा - सी०, स्या०, रो० । ७ सेव्यथीद - सी०, स्या०, रो० । ८ एमि - स्या०, रो०,
 एवमुपरि पि ।

परियेसी ति महेसि, महतो तमोकायस्स पदालनं, महतो विपल्ला-
 सस्स^१ भेदनं,^२ महतो तण्हासल्लस्स अब्बहनं,^३ महतो दिट्ठिसङ्घातस्स
 विनिवेठनं,^४ महतो मानघजस्स^५ पपातनं,^६ महतो अभिसङ्खारस्स बूप-
 समं,^७ महतो ओघस्स नित्थरणं,^८ महतो भारस्स निक्खेपनं, महतो
 संसारवट्टस्स उपच्छेदं, महतो सन्तापस्स निब्बापनं, महतो परिळा-
 हस्स पटिपस्साद्धिं, महतो घम्मघजस्स उस्सापनं एसी गवेसी परि-
 येसी ति महेसि, महन्ते सतिपट्टाने महन्ते सम्मप्यधाने महत्ते
 इद्धिपादे महन्तानि इन्द्रियाणि महन्तानि बलानि महन्ते बोज्झङ्गे
 महन्तं अरियं अट्टङ्गिकं मगं महन्तं परमत्थं अमतं निब्बानं एसी
 गवेसी परियेसी ति महेसि, महेसक्खेहि वा सत्तोहि एसितो गवेसितो
 परियेसितो कंहं बुद्धो कंहं भगवा कंहं देवदेवो कंहं नरासभो ति
 महेसी ति - विवेकं सन्तिपदं च महेसि।

कथं दिस्वा निब्बाति भिक्खू ति। कथं दिस्वा पस्सित्वा
 तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा अत्तनो रागं निब्बा-
 पेति, दोसं निब्बापेति, मोहं निब्बापेति, कौघं ... उपनाहं ... मक्खं ...
 पळासं ... इस्सं ... मच्छरियं ... मायं ... साठेय्यं ... थम्मं ... सारम्मं ...
 मानं . . अतिमानं ... मदं ... पमादं ... सब्बे किलेसे ... सब्बे दुच्चरिते ...
 सब्बे दरये ... सब्बे परिळाहे ... सब्बे सन्तापे ... सब्बाकुसलाभि-
 सङ्खारे निब्बापेति^९ समेति उपसमेति ब्रूपसमेति पटिपस्सम्भेति।
 भिक्खू ति। पुथुज्जनकल्याणको वा भिक्खु सेखो वा भिक्खू ति -
 कथं दिस्वा निब्बाति भिक्खु।

अनुपादियानो लोकास्मि किञ्ची ति। चतूहि उपादानेहि
 अनुपादियमानो अगण्हयमानो^{१०} अपरामसमानो^{११} अत्तभिनिविसमानो^{१२}।
 लोकास्मि ति। अपायलोके मनुस्सलोके देवल्लोके, खन्धलोके धातुलोके
 आयतनलोके। किञ्ची ति। किञ्चि रूपगतं वेदनागतं सञ्जागतं^{१३}

१ विपल्लासस्स - स्या०, रो०। २ पमेदन - स्या०, रो०। ३ अब्बहन - सी०,
 स्या०, रो०। ४ विनिवेठनं - स्या०, रो०, एवमुपरि पि। ५ मानद्वजस्त - स्या०। ६
 पवाहनं - स्या०, रो०। ७ ब्रूपसमन - सी०, स्या०, रो०। ८ नित्थरणं - सी०, रो०।
 ९ रो० पोत्यके नत्थि। १० अगण्हमानो - सी०, अगण्हयमानो - स्या०। ११ अपरामसय-
 मानो - स्या०, रो०। १२ स्या०, रो० पोत्यकेषु नत्थि।

सङ्खारगतं विञ्जाणगतं ति - अनुपादियानो लोकास्मि किञ्चि । तेनाह
सो निम्मित्तो -

“पुच्छामि तं आदिच्चवन्धु,
विवेकं सन्तिपदं च महेसि ।
कथं दिस्वा निव्वाति भिक्खु,
अनुपादियानो लोकास्मि किञ्ची” ति ॥

१५१. मूलं पपञ्चसङ्खाय, (इति भगवा)

मन्ता अस्मी ति सब्बमुपरुन्धे^१ ।

या काचि तण्हा अञ्जत्तं,

तासं विनया सदा सतो सिक्खे ॥

मूलं पपञ्चसङ्खाय (इति भगवा) मन्ता अस्मी ति सब्ब-
मुपरुन्धे ति । पपञ्चायेव पपञ्चसङ्खा । तण्हापपञ्चसङ्खा दिट्ठि-
पपञ्चसङ्खा । कतमं तण्हापपञ्चस्स मूलं ? अविज्जामूलं, अयोनिस्सो
मनसिकारो मूलं, अस्मिमानो मूलं, अहिरिकं मूलं, अनोत्तप्यं मूलं,
उद्धच्चं मूलं - इदं तण्हापपञ्चस्स मूलं । कतमं दिट्ठिपपञ्चस्स मूलं ?
अविज्जा मूलं, अयोनिस्सो मनसिकारो मूलं, अस्मिमानो मूलं, अहि-
रिकं मूलं, अनोत्तप्यं मूलं, उद्धच्चं मूलं - इदं दिट्ठिपपञ्चस्स मूलं ।

भगवा ति । गारवाधिवचनं । अपि च भग्गरागो ति भगवा,
भग्गदोसो ति भगवा, भग्गमोहो ति भगवा, भग्गमानो ति भगवा,
भग्गदिट्ठी ति भगवा, भग्गकण्डको ति भगवा, भग्गकिल्लेसो ति
भगवा, भजि विभजि पविभजि धम्मरतनं ति भगवा, भवानं अन्त-
करो ति भगवा, भावितकायो भावितसीलो भावितचित्तो भावित-
पञ्चो ति भगवा; भागी वा भगवा अरञ्जवनपत्थानि पन्तानि सेना-
सनानि अप्पसद्धानि अप्पनिग्घोसानि विजनवातानि मनुस्सराहस्सेय्य-
कानि पटिसल्लानसारुप्प्यानी ति भगवा, भागी वा भगवा चीवर-
पिण्डपातसेनासनगिलानपञ्चयभेसज्जपरिक्खारानं ति भगवा, भागी
वा भगवा अत्थरसस्स धम्मरसस्स विमुत्तिरसस्स अधिसीलस्स अधि-
चित्तस्स अधिपञ्चाया ति भगवा, भागी वा भगवा चतुत्तं क्खानानं

चतुर्भ्रं अप्पमञ्जानं चतुर्भ्रं अरूपसमापत्तीनं ति भगवा, भागी वा भगवा
 अट्टुन्नं विमोक्खानं अट्टुन्नं अभिभायतनानं नवन्नं अनुपुब्बविहारसमा-
 पत्तीनं ति भगवा, भागी वा भगवा दसन्नं सञ्जाभावानानं दसन्नं
 कसिणसमापत्तीनं आनापानस्सतिसमाधिस्स' असुभसमापत्तिया ति
 भगवा, भागी वा भगवा चतुर्भ्रं सतिपट्टानानं चतुर्भ्रं सम्मप्पधानानं 5
 चतुर्भ्रं इद्धिपादानं पञ्चन्नं इन्द्रियानं पञ्चन्नं बलानं सत्तन्नं बोज्झङ्गानं
 अरियस्स अट्टुङ्गकस्स मग्गस्सा ति भगवा, भागी वा भगवा दसन्नं
 तथागतबलानं चतुर्भ्रं वेसारज्जानं चतुर्भ्रं पटिसम्भिदानं छन्नं अभि-
 ज्ञानं छन्नं बुद्धधम्मानं ति भगवा, भगवा ति नेतं नाम मातरा R 346
 कतं न पितरा कतं न भातरा कतं न भगिनिया कतं न मित्ता- 10
 मच्चेहि कतं न आतिसालोहितेहि कतं नि समणद्वाह्वाणेहि कतं न
 देवताहि कतं; विमोक्खन्तिकमेतं बुद्धानं भगवन्तानं बोधिया मूले
 सह सब्बञ्जुतानाणस्स पटिलाभा सच्छिका पञ्जत्ति यदिदं भगवा ति -
 मूलं' पपञ्चसङ्गाय इति भगवा'।

मन्ता अस्मी ति सब्बमुपरुन्धे ति। मन्ता वुच्चति पञ्जा। 15
 या पञ्जा पजानना...पे०... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिट्ठि। अस्मी
 ति। रूपे अस्मी ति मानो अस्मी ति छन्दो अस्मी ति अनुसयो;
 वेदनाय . . सञ्जाय ... सङ्गारेसु ... विञ्जाणे अस्मी ति मानो अस्मी ति
 छन्दो अस्मी ति अनुसयो ति। मूलं पपञ्चसङ्गाय इति भगवा
 मन्ता अस्मी ति सब्बमुपरुन्धे ति। पपञ्चसङ्गाय मूलं च अस्मिमानं 20
 च मन्ताय सब्बं रुन्धेय्य उपरुन्धेय्य निरोधेय्य वूपसमेय्य अत्यङ्गमेय्य
 पटिपस्सम्भेय्या ति - मूलं पपञ्चसङ्गाय इति भगवा मन्ता अस्मी ति
 सब्बमुपरुन्धे।

या काचि तण्हा अज्झत्तं ति। या काची ति। सब्बेन सब्बं
 सब्बथा सत्वं असेसं निस्सेसं परियादियनवचनमेतं' - या काची ति। 25
 तण्हा ति। रूपतण्हा...पे०... धम्मतण्हा। अज्झत्तं ति। अज्झत्त-
 समुट्टाना वा सा तण्हा ति - अज्झत्तं। अथ वा, अज्झत्तिकं वुच्चति
 चित्तं। यं चित्तं मनो मानसं हृदयं पण्डरं मनो मनायतनं मनिन्द्रियं

१ आनापानसति० - सी०, रो०। २-२ स्या० पोट्यके नत्थि। ३ परियादायवचन-
 मेतं - सी०, स्या०, रो०।

विञ्जाणं विञ्जाणवखन्धो तज्जा मनोविञ्जाणघातु। चित्तेन सां
तण्हा सहगता सहजाता संसट्ठा सम्पयुत्ता एकुप्पादा एकनिरोधो एक-
वत्थुका एकारम्मणा ति पि अज्झत्तं ति - या काचि तण्हा अज्झत्तं।

तासं विनया सदा सतो सिक्खे ति। सदा ति। सदा

R 347

- ६ सब्बदा सब्बकालं निच्चकालं ध्रुवकालं, सततं समित अब्बोकिण्णं
पोह्वानुपोह्वं^१ उदकूमिगजात्^२ अब्बोचिसन्ततिसहितं फुसित, पुरेभत्तं
पच्छाभत्तं, पुरिमं यामं मज्झिमं याम पच्छिम याम, काले^३ जुप्हे,
वस्से हेमन्ते गिम्हे, पुरिमे वयोखन्धे मज्झिमे वयोखन्धे पच्छिमे
वयोखन्धे। सतो ति। चतूहि कारणेहि सतो - काये कायानुपस्सना-
१० सतिपट्टानं भावेन्तो सतो, वेदनासु .. पे०... चित्ते . पे० . धम्मेषु धम्मा-
नुपस्सनासतिपट्टानं भावेन्तो सतो। अपरेहि पि चतूहि कारणेहि
सतो - असति परिवज्जनाय सतो, सतिकरणीयानं धम्मानं कतत्ता
सतो, सतिपटिपक्खानं धम्मानं हतत्ता सतो, सतिनिमित्तानं असम्मु-
ट्टत्ता^४ सतो। अपरेहि पि चतूहि कारणेहि सतो - सतिया समन्नागतत्ता
१५ सतो, सतिया वसितत्ता सतो, सतिया पागुञ्जताय सतो, सतिया
अपच्चोरोहनताय सतो। अपरेहि पि चतूहि कारणेहि सतो -
सत्तात्ता^५ सतो, सन्तत्ता सतो, समितत्ता सतो, सन्तधम्मसमन्नागतत्ता
सतो। बुद्धानुस्सतिया सतो, धम्मानुस्सतिया सतो, सञ्चानुस्सतिया
सतो, सीलानुस्सतिया सतो, चागानुस्सतिया सतो, देवतानुस्सतिया
२० सतो, आनापानस्सतिया सतो, मरणस्सतिया सतो, कायगतासतिया
सतो, उपसमानुस्सतिया सतो। या सति अनुस्सति पटिस्सति,
सति सरणत्ता धारणत्ता अपिलापनता असम्मुस्सनता, सति सति-
न्द्रियं सतिबलं सम्मासति सतिस्सम्बोज्झो एकायनमगो - अयं
बुच्चति सति। इमाय सतिया उपेतो समुपेतो, उपगतो समुपगतो,
२५ उपपन्नो समुपपन्नो, समन्नागतो सो बुच्चति सतो।

सिक्खे ति। तित्थो सिक्खा - अधिसीलसिक्खा, अधिचित्त-
सिक्खा, अधिपञ्जासिक्खा। कतमा अधिसीलसिक्खा? इध भिक्खु

१. मनसा सा - स्या०, रो०। २. अब्बोकिण्णं - रो०। ३. पोह्वानुपोह्व - स्या०, रो०।
४. उदकूमिगजात् - सी०, उदकुम्मिगजात् - स्या०, रो०। ५. काले - सी०। ६. धम्मानु-
असम्मुट्टत्ता - सी०, स्या०, रो०। ७. सतता - सी०, स्या०, रो०।

सीलवा होति, पातिमोक्खसंवरसंबुतो विहरति आचारगोचरसम्पन्नो, अणुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु, खुद्दको सीलक्खन्धो महन्तो सीलक्खन्धो, सीलं पतिट्ठा आदि चरणं संयमो संवरो मुखं पमुखं कुसलानं धम्मानं समापत्तिया— अय अधिसीलसिक्खा ।

B. 270

R. 349

5

कतमा अधिचित्तसिक्खा ? इष भिक्खु विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितकं सविचारं विवेकज पीतिसुखं पठम भानं उपसम्पज्ज विहरति । वितकविचारानं वूपसमा अज्झत्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं अवितकं अविचारं समाधिजं पीतिसुखं दुतियं भानं उपसम्पज्ज विहरति । पीतिया च विरागा उपेक्खको च विहरति सतो च सम्पजानो सुखं च कायेन पटि-सवेदेति, यं तं अरिया आचिक्खन्ति “उपेक्खको सतिमा सुख-विहारी” ति ततियं भानं उपसम्पज्ज विहरति । सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना पुब्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थज्जमा अदुक्खमसुखं उपेक्खासतिपारिसुद्धि चतुत्थं भानं उपसम्पज्ज विह-रति—अयं अधिचित्तसिक्खा ।

10

15

कतमा अधिपञ्जासिक्खा ? इष भिक्खु पञ्जवा होति, उदयत्थगामिनिया पञ्जाय समन्नागतो अरियाय निव्वेधिकाय सम्मादुक्खक्खयगामिनिया । सो इदं दुक्ख ति यथाभूतं पजानाति, अयं दुक्खसमुदयो ति यथाभूतं पजानाति, अयं दुक्खनिरोधो ति यथाभूतं पजानाति, अयं दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा ति यथाभूतं पजानाति, इमे आसवा ति यथाभूतं पजानाति, अयं आसवसमुदयो ति यथाभूतं पजानाति, अयं आसवनिरोधो ति यथाभूतं पजानाति, अयं आसवनिरोधगामिनी पटिपदा ति यथाभूतं पजानाति—अयं अधिपञ्जासिक्खा ।

20

25

तासं विनया सदा सतो सिक्खे ति । तासं तण्हान विनयाय पटिविनयाय पहानाय वूपसमाय पटिनिस्सग्गाय पटिपस्सद्धिया अधि-सीलं पि सिक्खेय्य, अधिचित्तं पि सिक्खेय्य, अधिपञ्जं पि सिक्खेय्य; इमा तिस्सो सिक्खायो आवज्जन्तो सिक्खेय्य, पजानन्तो सिक्खेय्य, पस्सन्तो सिक्खेय्य, पच्चवेक्खन्तो सिक्खेय्य, चित्तं अधिदुहन्तो

30

R. 349

सिक्खेय्य, सद्धाय अधिमुच्चन्तो सिक्खेय्य, वीरियं पग्गहन्तो सिक्खेय्य, सति उपट्टपेत्तो^१ सिक्खेय्य, चित्तं समादहन्तो सिक्खेय्य, पञ्जाय पजानन्तो सिक्खेय्य, अभिञ्जेय्यं अभिजानन्तो सिक्खेय्य, परिञ्जेय्य परिजानन्तो सिक्खेय्य, पहातब्बं पजहन्तो सिक्खेय्य, भावेतब्बं भावेत्तो सिक्खेय्य, सच्चिक्कातब्बं सच्चिक्करोत्तो सिक्खेय्य आचरेय्य समाचरेय्य समादाय वत्तेय्या ति - तास विनया सदा सतो सिक्खे । तेनाह भगवा -

“मूलं पपञ्चसङ्गाय, (इति भगवा)
मन्ता अस्मी ति सब्बमुपरुन्धे ।
या काचि तण्हा अज्झत्त,
तासं विनया सदा सतो सिक्खे” ति ॥

१५२. यं किञ्चि धम्ममभिजञ्जा,
अज्झत्तं अथ वा पि बहिद्धा ।
न तेन थामं कुब्बेथ,
न हि सा निब्बुति सतं वुत्त ॥

१५ यं किञ्चि धम्ममभिजञ्जा अज्झत्तं ति । यं किञ्चि अतनो गुणं जानेय्य कुसले वा धम्मे अव्याकते वा धम्मे । कतमे अतनो गुणा ? उच्चा कुला पब्बजितो वा अस्सं,^२ महाभोगकुला पब्बजितो वा अस्सं, उळारभोगकुला पब्बजितो वा अस्सं, जातो यसस्सी सगह्हं-पब्बजितानं^३ ति वा अस्सं, लाभिम्हि चीवरपिण्डपातसेनासनगिलान-
२० पच्चयभेसज्जपरिक्खारान ति वा अस्स, सुत्तन्तिको वा अस्सं, विनय-धरो वा अस्स, धम्मकथिको वा अस्स, आरञ्जिको वा अस्सं, पिण्ड-पातिको वा अस्स, पंसुकूलिको वा अस्स, तेचीवरिको वा अस्स, सपदानचारिको वा अस्स, खलुपच्छाभत्तिको वा अस्स, नेसज्जिको वा अस्सं, यथासन्थतिको वा अस्स, पठमस्स भानस्स लामी ति वा
R. 350 २५ अस्सं, दुत्तियस्स भानस्स लामी ति वा अस्सं, ततियस्स भानस्स लामी ति वा अस्सं, चतुत्थस्स भानस्स लामी ति वा अस्सं, आकासा-नञ्चायतनसमापत्तिया लामी ति वा अस्सं, विञ्जाणञ्चायतनसमा-पत्तिया.. आकिञ्चञ्चायतनसमापत्तिया... नेवसञ्जानासञ्जायतनसमा-

१ उपट्टहन्तो - सी० । २ अस्स - स्या०, रो०, एवमुपरि पि । ३ गह्हं - स्या०, रो० ।

पत्तिया लाभी ति वा अस्सं— इमे वुच्चन्ति अत्तनो गुणा । यं किञ्चि
अत्तनो गुणं जानेय्य आजानेय्य विजानेय्य पटिविजानेय्य पटिविज्जेय्या
ति—यं किञ्चि धम्ममभिजञ्जा अज्झत्तं । अथ वा पि बहिद्धा ति ।
उपज्झायस्स वा आचरियस्स वा ते गुणा अस्सू' ति'—अथ वा पि
बहिद्धा ।

5

न तेन थामं कुब्बेया ति । अत्तनो वा गुणेन परेसं वा गुणेन
थामं न करेय्य, थम्मं न करेय्य, मानं न करेय्य, उन्नति न करेय्य,
उन्नमं' न करेय्य, न तेन मानं जनेय्य, न तेन थद्धो अस्स पत्थद्धो
पग्गहितसिरो ति—न तेन थामं कुब्बेथ ।

B 272

न हि सा निब्बुति सतं वुत्ता ति । सतानं सन्तानं सप्पुरिसानं 10
बुद्धानं बुद्धसावकानं पच्चेकबुद्धानं सा निब्बुती ति न वुत्ता न पवुत्ता
न आचिक्खिता न देसिता न पञ्जपिता न पट्टपिता न विवटा न
विभत्ता न उत्तानीकता नप्पकासिता ति—न हि सा निब्बुति सतं
वुत्ता । तेनाह भगवा—

“यं किञ्चि धम्ममभिजञ्जा,

15

अज्झत्तं अथ वा पि बहिद्धा ।

न तेन थामं' कुब्बेथ,

न हि सा निब्बुति सतं वुत्ता' ति ॥

१५३. सेय्यो न तेन मज्जेय्य,

नीचेय्यो अथ वा पि सरिक्खो ।

20

फुट्टो अनेकरूपेहि,

नातुमानं विकप्पयं तिट्ठे ॥

सेय्यो न तेन मज्जेय्या ति । “सेय्योहमस्मी” ति अतिमानं न
जनेय्य जातिया वा गोत्तेन वा कोलपुत्तियेन' वा वण्णपोक्खरताय
वा धनेन वा अज्जेनेन वा कम्मायतनेन वा सिप्पायतनेन वा विज्जा- 25
ट्टानेन वा सुतेन वा पटिमानेन वा अज्जतरज्जतरेन वा वत्थुना ति
—सेय्यो न तेन मज्जेय्य ।

B. 361

१-२. अस्सूति अज्झत्त—सी०, स्या०, रो० । २ उन्नम—सी० । ३ मानं—स्या० ।
४. मानं—स्या० । ५. कोलपुत्तिकेन—स्या०, रो० ।

नीचेय्यो' अथ वा पि सरिक्खो ति । "हीनोहमस्मी" ति
ओमानं न जनेय्य जातिया वा गोत्तेन वा ...पे०... अञ्जतरञ्जतरेन वा
वत्थुना । "सदिसोहमस्मी" ति मानं न जनेय्य जातिया वा गोत्तेन वा
कोलपुत्तियेन वा वण्णपोक्खरताय वा धनेन वा अञ्जेनेन वा कम्माय-
५ तनेन वा सिप्पायतनेन वा विज्जाट्टानेन वा सुत्तेन वा पटिभानेन
वा अञ्जतरञ्जतरेन वा वत्थुना ति - नीचेय्यो अथ वा पि सरिक्खो ।

फुट्ठो' अनेकरूपेही ति । अनेकविधेहि आकारेहि फुट्ठो
परतो समोहितो समन्नागतो ति - फुट्ठो अनेकरूपेहि ।

B. 273

नातुमानं विकप्पयं तिट्ठे ति । आतुमा' वुच्चति अत्ता ।
१० अत्तानं कप्पेन्तो विकप्पेन्तो विकप्पं आपज्जन्तो न तिट्ठेय्या ति -
नातुमानं विकप्पयं तिट्ठे । तेनाह भगवा -

"सेय्यो न तेन मञ्जेय्य,
नीचेय्यो अथ वा पि सरिक्खो ।

फुट्ठो अनेकरूपेहि,
१५ नातुमानं विकप्पयं तिट्ठे" ति ॥

१५४. अज्झत्तमेवुपसमे',
न अञ्जतो भिक्खु सन्तिमेसेय्य ।
अज्झत्तं उपसन्तस्स,
नत्थि अत्ता' कुतो निरत्ता वा ॥

B. 362

२० अज्झत्तमेवुपसमे ति । अज्झत्त रागं समेय्य, दोस समेय्य,
मोहं समेय्य, कोषं .. उपनाहं ... भक्खं .. पळास .. इत्तं .. मच्छरिय
... मायं .. साठेय्यं ... थम्मं ... सारम्मं ... मानं ... अतिमान .. मद ..
पमादं ... सब्बे किलेसे ... सब्बे दुच्चरिते ... सब्बे दरथे .. सब्बे परि-
ळाहे ... सब्बे सन्तापे ... सब्बाकुसलाभिसङ्कारे समेय्य उपसमेय्य वूप-
२५ समेय्य निब्बापेय्य पटिपस्सम्भेय्या ति - अज्झत्तमेवुपसमे ।

न अञ्जतो भिक्खु सन्तिमेसेय्या ति । अञ्जतो असुद्धि-
मग्गेन, मिच्छापटिपदाय, अनिय्यानपथेन, 'अञ्जत्र सतिपट्टानेहि,

१ नीचेय्यो - सी० । २ फुट्ठो - त्या०, एवमुपरि पि । ३ आतुमानो - त्या०,
रो० । ४. अज्झत्तमेवुपसमे - सी० । ५ अत्त - त्या०, रो०, एवमुपरि पि । ६ ० पत्तेन -
४० ।

अञ्जत्र सम्मप्पघानेहि, अञ्जत्र इद्धिपादेहि, अञ्जत्र इन्द्रियेहि,
अञ्जत्र बलेहि, अञ्जत्र बोज्झङ्गेहि, अञ्जत्र अरिया अट्टङ्गिका
मग्गा सन्ति उपसन्ति वूपसन्ति निव्वुत्ति पटिपस्सद्वि न एसेय्य न
गवेसेय्य न परियेसेय्या ति — न अञ्जतो भिक्खु सन्तिमेसेय्य ।

अञ्जत्तं उपसन्तस्सा ति । अञ्जत्तं रागं सन्तस्स, दोसं ६
सन्तस्स, मोहं सन्तस्स ...पे० .. सव्वाकुसलामिसङ्खारे सन्तस्स उपसन्तस्स
वूपसन्तस्स निव्वुत्तस्स पटिपस्सद्विया' ति — अञ्जत्तं उपसन्तस्स ।

नत्थि अत्ता कुतो निरत्ता वा ति । नत्थी ति । पटिकखेपो ।
अत्ता ति । अत्तदिट्ठि' नत्थि । निरत्ता ति । उच्छेददिट्ठि नत्थि । अत्ता
ति । गहितं नत्थि । निरत्ता ति । मुञ्चितव्वं नत्थि । यस्सत्थि गहितं, 10
तस्सत्थि मुञ्चितव्वं । तस्स गहितं गाहं मुञ्चनं समतिककन्तो अरहा
वुद्धिपारिहानिवीतिवत्तो' । सो बुट्टवासो चिण्णचरणो ...पे०... जाति-
भरणसंसारो, नत्थि तस्स पुनब्भवो ति — नत्थि अत्ता कुतो निरत्ता
वा । तेनाह भगवा —

B. 274

“अञ्जत्तमेवुपसमे,
न अञ्जतो भिक्खु सन्तिमेसेय्य ।
अञ्जत्तं उपसन्तस्स,
नत्थि अत्ता कुतो निरत्ता वा” ति ॥

15

१५५. मज्जे यथा समुद्दस्स,
ऊमि नो जायती ठितो होति ।
एवं ठितो अनेजस्स,
उस्सदं भिक्खु न करेय्यं कुहिञ्चि ॥

R 353

20

मज्जे यथा समुद्दस्स ऊमि नो जायती ठितो होती ति ।
समुद्दो चतुरासीतियोजनसहस्सानि उब्बेघेन गम्भीरो । हेट्ठा चत्तारीस-
योजनसहस्सानि' उदकं मच्छकच्छपेहि कम्पत्ति । उपरि चत्तारीस- 25
योजनसहस्सानि उदकं वातेहि कम्पत्ति । मज्जे चत्तारीसयोजनसह-

१. पटिपस्सद्वस्सा — सी०, रो०, पटिपस्सद्वस्सा — स्या० । २ सस्सत्तदिट्ठि — स्या०,
रो० । ३ बुद्धिपारिहानि० — सी०; बुद्धिपारिहानि० — स्या०, बुद्धिपारिहानिवीतिरत्तो — रो० ।
४ करे — सी० । ५ चत्ताळीस० — स्या०, रो० ।

स्सानि^१ उदकं न कम्पति न विकम्पति न चलति न वेधति नप्पवेधति न सम्पवेधति। अनेरितो अघट्टितो अचलितो अलुळितो^२ अभन्तो वूपसन्तो तत्र ऊमि नो जायति, ठितो होति समुहो ति। एवं पि मज्जे यथा समुहस्स ऊमि नो जायती ठितो होति।

६. अथ वा, सत्तन्नं पब्बतानं अन्तरिकासु सत्तसीदन्तरा^३ महासमुहा^४। तत्र उदकं न कम्पति न विकम्पति न चलति न वेधति नप्पवेधति न सम्पवेधति। अनेरितो अघट्टितो अचलितो अलुळितो अभन्तो वूपसन्तो तत्र ऊमि नो जायति, ठितो होति समुहो ति। एव पि मज्जे यथा समुहस्स ऊमि नो जायती^५ ठितो होति।।

१० एवं ठितो अनेजस्सा ति। एवं ति। ओपम्मसम्पट्ठिपादनी^६। ठितो ति। लाभे पि न कम्पति, अलाभे पि न कम्पति, यसे पि न कम्पति, अयसे पि न कम्पति, पसंसाय पि न कम्पति, निन्दाय पि न कम्पति, सुखे पि न कम्पति, दुक्खे पि न कम्पति न विकम्पति^७ न चलति न वेधति नप्पवेधति न सम्पवेधती ति—एवं ठितो।

B 275 15 अनेजस्सा ति। एजा वुच्चति तण्हा। यो रागो सारागो.पे०. अमिज्झा लोभो अकुसलमूलं। यस्सेसा एजा तण्हा पहीना उच्छिन्ना^८ समुच्छिन्ना वूपसन्ता पट्ठिपस्सद्धा अभब्बुप्पत्तिका ञाणमिगना दड्ढा, सो वुच्चति अनेजो। एजाय पहीनत्ता अनेजो; सो लाभे पि न इज्जति, अलाभे पि न इज्जति, यसे पि न इज्जति, अयसे पि न इज्जति, पसंसाय पि न इज्जति, निन्दाय पि न इज्जति, सुखे पि न इज्जति, दुक्खे पि न इज्जति, न चलति न वेधति नप्पवेधति न सम्पवेधती ति—एवं ठितो अनेजस्स।

R. 354

20 इज्जति, पसंसाय पि न इज्जति, निन्दाय पि न इज्जति, सुखे पि न इज्जति, दुक्खे पि न इज्जति, न चलति न वेधति नप्पवेधति न सम्पवेधती ति—एवं ठितो अनेजस्स।

उत्सदं भिक्खु न करेय्य कुहिञ्ची ति। उत्सदा ति। सत्तु-
स्सदा—रागुत्सदं,^९ दोसुत्सदं, मोहुत्सदं, मानुत्सदं, विट्ठुत्सदं, किले-
25 सुत्सदं, कम्मुत्सदं न करेय्य न जनेय्य न सज्जनेय्य न निव्वत्तेय्य
नाभिनिव्वत्तेय्य। कुहिञ्ची ति। कुहिञ्चि किस्मिञ्चि^{१०} कत्थवि

१. चत्तारि अोजनसहस्सानि—स्या०, रो०। २. बलुळितो—सी०। ३-३ सीदन्त-
समुहो—स्या०, रो०। ४. जायति—सी०, स्या०, रो०। ५. पादना—स्या०, रो०। ६.
विकम्पति—सी०। ७. स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि। ८. रागुत्सदो—स्या०, रो०; एवम्पति
पि। ९. तं न—स्या०, रो०। १०. किम्हिचि—स्या०, रो०।

अज्भक्तं वा बहिद्धा वा अज्भक्तबहिद्धा वा ति - उस्सदं भिक्खु न
करेय्य कुहिञ्चि। तेनाह भगवा -

“मज्झे यथा समुद्दस्स,
अमि नो जायती ठितो होति।
एवं ठितो अनेजस्स,
उस्सदं भिक्खु न करेय्य कुहिञ्ची” ति ॥

१५६. अकित्तयी' विवटचक्खु,
सक्खिधम्मं परिस्सयविनयं।
पट्टिपदं वदेहि भद्दन्ते,
पातिमोक्खं अथ वा पि समार्थि ॥

अकित्तयी विवटचक्खू ति। अकित्तयी ति। कित्तितं' आचि-
क्खित्तं देसितं पञ्चपितं पट्टपितं विवटं विभत्तं उत्तानीकत्तं पकासितं'
ति - अकित्तयि। विवटचक्खू ति। भगवा पञ्चहि चक्खूहि विवट-
चक्खु - मंसचक्खुना पि विवटचक्खु, दिव्वेन चक्खुना पि विवट-
चक्खु, पञ्चाचक्खुना पि विवटचक्खु, बुद्धचक्खुना पि विवटचक्खु,
समन्तचक्खुना पि विवटचक्खु।

कथं भगवा मंसचक्खुना पि विवटचक्खु ? मंसचक्खुमिह पि'
भगवतो पञ्च वण्णा संविञ्जन्ति - नीलो च वण्णो, पीतको च वण्णो,
लोहितको च वण्णो, कण्हो च वण्णो, ओदातो च वण्णो। अक्खि-
लोमानि' च भगवतो' यत्थ च अक्खिलोमानि पतिट्ठितानि तं नीलं
होति सुनीलं पासादिकं दस्सनेय्यं उमापुप्फसमानं'। तस्स परतो
पीतकं' होति सुपीतकं सुवण्णवण्णं पासादिकं दस्सनेय्यं कणिकार-
पुप्फसमानं'। उभयतो च अक्खिकूटानि भगवतो लोहितकानि होन्ति
सुलोहितकानि पासादिकानि दस्सनेय्यानि- इन्दगोपकसमानानि। मज्झे
कण्हं होति सुकण्हं अलखं सिनिद्धं पासादिकं दस्सनेय्यं अहारिदुक्-

B. 276,
R. 355

१. अकित्तयि - स्या०, रो०; एवमुपरि पि। २-२ अकित्तयि परिकित्तयि आचिक्खि
देसेसि पञ्चापेसि पट्टपेसि विवरि विमज्जि उत्तानिमकासि पकासेसी - स्या०, रो०। ३. सी०,
स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि। ४-४ सी०, स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि। ५ उम्मा पुप्फ-
समानं - सी०, 'उम्मापुप्फसमानं' - स्या०, रो०। ६ पीतं - सी०। ७ कणिकार० -
स्या०, रो०।

समानं^१ । तस्स परतो ओदातं होति सुओदातं सेतं पण्डरं पासादिकं दस्सनेय्यं ओसधितारकसमानं^२ । तेन भगवा पाकतिकेन मंसचक्खुना अत्तभावपरियापघ्नेन पुरिमसुचरितकम्माभिनिव्वत्तेन समन्ता योजन पस्सति दिवा चैव रत्ति च । यदा हिं पिं^३ चतुरङ्गसमन्नागतो अन्व-
 ५ कारो होति । सूरियो वा^४ अत्थङ्गतो^५ होति । काळपक्खो च उपो-
 सथो होति । तिब्बो च वनसण्डो होति । महा च काळमेघो^६ अब्भु-
 द्वितो होति । एवरूपे पि चतुरङ्गसमन्नागते अन्वकारे समन्ता योजनं
 पस्सति । नत्थि^७ सो कुट्टो^८ वा कवाटं वा पाकारो वा पन्वतो वा
 गच्छो^९ वा लता वा आवरणं रूपानं दस्सनाय । एकं चे तिलफलं
 १० निमित्तं कत्वा तिलवाहे पक्खिपेय्य, तञ्जेव तिलफलं उद्धरेय्य । एवं
 परिसुद्धं भगवतो पाकतिकं मंसचक्खु । एवं भगवा मंसचक्खुना पि
 विवटचक्खु ।

कथं भगवा दिव्वेन चक्खुना पि विवटचक्खु ? भगवा
 दिव्वेन चक्खुना विसुद्धेन अतिककन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने
 १५ उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुव्वण्णे सुगते दुग्गते । यथाकम्मूपगे
 सत्ते पजानाति - "इमे वत" भोन्तो सत्ता कायदुच्चरितेन समन्नागता
 वचीदुच्चरितेन समन्नागता मनोदुच्चरितेन समन्नागता अरियाणं उप-
 वादका मिच्छादिट्टिका मिच्छादिट्टिकम्मसमादाना,^{१०} ते कायस्स भेदा
 परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपन्ना । इमे वा पन
 २० भोन्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता वचीसुचरितेन समन्नागता
 मनोसुचरितेन समन्नागता अरियाणं अनुपवादका सम्मादिट्टिका
 सम्मादिट्टिकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सगं
 २५ सुगते दुग्गते, यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति । आकङ्खमानो च भगवा
 एक पि लोकघातुं पस्सेय्य, द्वे पि लोकघातुयो पस्सेय्य, तिस्सो पि
 लोकघातुयो पस्सेय्य, चतस्सो पि लोकघातुयो पस्सेय्य, पञ्च पि

B. ३६६

B. २७७

१. अळाण्डिकसमान - स्या०, रो० । २. ओसधितारकसमानं - सी० । ३. स्या०, रो०
 पोत्यकेभू नत्थि । ४. सी० पोत्यके नत्थि । ५. च सी० - स्या०, रो० । ६. अत्थगमितो - स्या०,
 रो० । ७. अकालमेघो - स्या०, रो० । ८. यत्थ - सी० । ९. कुट्टो - सी०; कूटो - स्या०,
 रो० । १०. गच्छ - सी०, स्या०, रो० । ११. ते - रो० । १२. ० कम्मसवन्नागता - सी० ।

लोकधातुयो पस्सेय्य, दस पि लोकधातुयो पस्सेय्य, वीसं पि लोक-
 धातुयो पस्सेय्य, तिस पि लोकधातुयो पस्सेय्य, चत्तालीसं पि लोक-
 धातुयो पस्सेय्य, पञ्चासं पि लोकधातुयो पस्सेय्य, सतं पि लोक-
 धातुयो पस्सेय्य, सहस्रं पि चूलनिकं लोकधातुं पस्सेय्य, द्विसहस्रि
 पि मज्झमिकं लोकधातु पस्सेय्य, तिसहस्रि पि लोकधातुं ५
 पस्सेय्य, महासहस्रि पि लोकधातुं पस्सेय्य। यावतकं वा पन
 आकङ्खेय्य तावतकं पस्सेय्य। एवं परिसुद्धं भगवतो दिव्वचक्खु।
 एवं भगवा दिव्वेन चक्खुना पि विवटचक्खु।

कथं भगवा पञ्चाचक्खुना पि विवटचक्खु? भगवा महा-
 पञ्चो पुथुपञ्चो हासपञ्चो जवनपञ्चो तिक्लपञ्चो निव्वेधिकपञ्चो 10
 पञ्चापभेदकुसलो पभिननापो अधिगतपटिसम्भदो चतुवेसारज्जप्पतो
 दसबलधारी पुरिसासभो पुरिससीहो पुरिसनागो पुरिसाजञ्चो
 पुरिसधोरहो अनन्तनापो अनन्ततेजो अनन्तयसो अङ्घो महद्धनो
 धनवा नेता विनेता अनुनेता पञ्चापेता अनिज्जापेता पेक्खेता 15
 पसादेता। सो हि भगवा अनुप्पन्नस्स मग्गस्स उप्पादेता, असञ्जातस्स
 मग्गस्स सञ्जनेता, अनक्खातस्स मग्गस्स अक्खाता, मग्गञ्चू मग्ग-
 विदू मग्गकोविदो मग्गानुगा च पन एतरहि सावका विहरन्ति पच्छा
 समन्नागता। सो हि भगवा जानं जानाति पस्सं पस्सति, चक्खुभूतो 20
 णाणभूतो धम्मभूतो ब्रह्मभूतो वत्ता पवत्ता अत्थस्स निज्जेता अमतस्स
 दाता धम्मस्सामी तथागतो। नत्थि तस्स भगवतो अञ्जातं अदिट्ठ
 अविदितं असच्छिकतं अफस्सितं पञ्जाय।

R 357

अतीतं अनागतं पच्चुप्पन्नं उपादाय सब्बे धम्मा सब्बाकारेण
 बुद्धस्स भगवतो णाणमुखे आपाथ आगच्छन्ति। यं किञ्चि नेय्यं
 नाम अत्थि जानितब्बं अत्तत्थो वा परत्थो वा उभयत्थो वा विट्ठ-

१-१. स्या०, रो० पोत्यकेषु नत्थि। २ सहस्स-सी०। ३ चुलनिक-सी०।
 ४-४ सी० पोत्यके नत्थि। ५ यावता-सी०, स्या०, रो०। ६ भगवता-सी०। ७ रो०
 पोत्यके नत्थि। ८ पञ्चापभेदकुसलो-स्या०, रो०। ९ पुरिसधोरहो-स्या०, रो०। १०
 अङ्घो-स्या०। ११-११ ० निज्जापेता-सी०, सञ्जापेता निज्जापेता-स्या०, रो०। १२
 पेक्खता-स्या०। १३ सञ्जानेता-रो०। १४ धम्मसामी-सी०, रो०; धम्मसामि-
 स्या०। १५ अवाल-स्या०, रो०। १६ अफुसित-स्या०, रो०। १७ धम्म जानितव्व-
 सी०, रो०।

B. 278

- धम्मिको वा अत्थो सम्परायिको वा अत्थो उत्तानो वा अत्थो गम्भीरो वा अत्थो गूळ्हो^१ वा अत्थो पटिच्छन्नो वा अत्थो नेय्यो वा अत्थो नीतो वा अत्थो अनवज्जो वा अत्थो निक्किलेसो वा अत्थो बोदानो^२ वा अत्थो परमत्थो वा अत्थो,^३ सच्चं तं अन्तो-
 ६ बुद्धभाणे परिवत्तति, सच्चं कायकम्मं बुद्धस्स भगवतो बाणानु-
 परिवत्ति सच्चं वचीकम्मं ... सच्चं मनोकम्मं . . अतीते बुद्धस्स भगवतो
 अप्पटिहृतं बाणं, अनागते पच्चुप्पन्ने अप्पटिहृतं बाणं। यावतकं नेय्यं
 तावतकं बाणं, यावतकं बाणं तावतकं नेय्यं; नेय्यपरियन्तिकं बाणं
 बाणपरियन्तिकं नेय्यं, नेय्यं अतिक्कमित्वा बाणं नप्पवत्तति, बाणं
 10 अतिक्कमित्वा नेय्यपथो नत्थि। अञ्जमञ्जपरियन्तद्वायिनो ते धम्मा।
 यथा द्विन्नं समुग्गपटलानं सम्माफुसितानं हेट्ठिमं समुग्गपटलं उपरिमं
 नातिवत्तति, उपरिमं समुग्गपटलं हेट्ठिमं नातिवत्तति, अञ्जमञ्ज-
 परियन्तद्वायिनो^४; एवमेव^५ बुद्धस्स भगवतो नेय्यं च बाणं च अञ्ज-
 मञ्जपरियन्तद्वायिनो। यावतकं नेय्यं तावतकं बाणं, यावतकं बाणं
 १ 368 15 तावतकं नेय्यं; नेय्यपरियन्तिकं बाणं बाणपरियन्तिकं नेय्यं।
 नेय्यं अतिक्कमित्वा बाणं नप्पवत्तति, बाणं अतिक्कमित्वा नेय्यपथो
 नत्थि। अञ्जमञ्जपरियन्तद्वायिनो ते धम्मा। सच्चधम्मेषु बुद्धस्स
 भगवतो बाणं पवत्तति^६। सच्चं धम्मा बुद्धस्स भगवतो आवज्जन-
 पटिवद्धा आकङ्खपटिवद्धा मनसिकारपटिवद्धा चित्तुप्पादपटिवद्धा।
 20 सच्चसत्तेसु बुद्धस्स भगवतो बाणं पवत्तति। सच्चं सत्तानं भगवा
 आसयं जानाति, अनुसयं जानाति, चरितं जानाति, अधिमुत्तिं
 जानाति, अप्परजक्खे महारजक्खे तिक्खिन्द्रिये मुदिन्द्रिये स्वाकारे
 द्वाकारे सुविञ्जापये दुविञ्जापये भव्वाभव्वे सत्ते पजानाति^७।
 सदेवको लोको समारको सन्नहाको सस्समणनाह्याणी पजा सदेव-
 25 मनुस्सा अन्तो बुद्धभाणे परिवत्तति।

यथा ये केचि मच्छकच्छपा अन्तमसो तिमितिमिङ्गलं उपा-
 दाय अन्तोमहासमुद्धे परिवत्तन्ति; एवमेवं सदेवको लोको समारको

१ गूळ्हो-रो०। २ बोदानो-स्या०। ३ सी०, स्या०, रो० पालकेसु नत्थि।
 ४ उपरिमं व-स्या०, रो०। ५ ० द्वायिनो ते-सी०। ६ एवमेव-सी०, एवमुपरि पि।
 ७ परिवत्तति-सी०, स्या०, रो०; एवमुपरि पि। ८ जानाति-स्या०, रो०।

सब्रह्मको सस्समणब्राह्मणी पजा सदेवमनुस्सा अन्तोबुद्धजाणे परि-
वत्तति। यथा ये केचि पक्खी अन्तमसो गच्छं वेनतेय्यं उपादाय
आकासस्स पदेसे परिवत्तन्ति, एवमेव ये पि ते सारिपुत्तसमा
पञ्जाय समन्नागता ते पि बुद्धजाणस्स पदेसे परिवत्तन्ति; बुद्धजाणं
देवमनुस्सानं पञ्चं^१ फरित्वा अभिभवित्वा तिट्ठति।

B. 279

ये पि^२ ते खत्तियपण्डिता ब्राह्मणपण्डिता गृहपतिपण्डिता
समणपण्डिता निपुणा कतपरप्पवादा^३ वालवेधिरूपा^४ वोभिन्दन्ता
मञ्जे चरन्ति पञ्जागतेन दिट्ठिगतानि, ते पञ्चं अभिसङ्घरित्वा अभि-
सङ्घरित्वा तथागतं उपसङ्कमित्वा पुच्छन्ति गूळहानि^५ च पटिच्छन्नानि
च^६। कथिता विसज्जिता च ते पञ्हा भगवता^७ होन्ति निदिट्ठकारणा।
उपक्खित्तका^८ च ते भगवतो सम्पज्जन्ति^९। अथ खो भगवा तत्थ
अतिरोचति यदिदं पञ्जाया ति। एवं भगवा पञ्जाचक्खुना पि
विवटचक्खु।

5

10

B. 359

कथं भगवा बुद्धचक्खुना पि विवटचक्खु? भगवा बुद्धचक्खुना
लोकं वोलोकेन्तो अहस सत्ते अप्परजक्खे महारजक्खे तिविखन्दित्रे
मुदिन्दित्रे स्वाकारे द्वाकारे सुविञ्जापये दुविञ्जापये अप्पेकच्चे
परलोकवज्जभयदस्साविनो विहरन्ते, अप्पेकच्चे^१ न परलोकवज्ज-
भयदस्साविनो विहरन्ते^२। सेय्यथापि नाम उप्पलिनियं वा पटुमि-
नियं वा पुण्डरीकिनियं वा अप्पेकच्चानि उप्पलानि वा पटुमानि
वा पुण्डरीकानि वा उदके जातानि उदके संवड्ढानि उदका अनु-
गतानि अन्तोनिमुग्गपोसीनि,^३ अप्पेकच्चानि उप्पलानि वा पटुमानि वा
पुण्डरीकानि वा उदके जातानि उदके संवड्ढानि समोदकं ठितानि,
अप्पेकच्चानि उप्पलानि वा पटुमानि वा पुण्डरीकानि वा उदके जातानि
उदके संवड्ढानि उदका अच्चुग्गम्म तिट्ठन्ति अनुपलित्तानि उदकेन;
एवमेव भगवा बुद्धचक्खुना लोकं वोलोकेन्तो अहस सत्ते अप्परजक्खे
महारजक्खे तिविखन्दित्रे मुदिन्दित्रे स्वाकारे द्वाकारे सुविञ्जापये दुवि-
ञ्जापये अप्पेकच्चे परलोकवज्जभयदस्साविनो विहरन्ते, अप्पे-

15

20

25

१ पञ्च-स्या०, रो०। २ च-सी०। ३. परप्पवादा-रो०। ४. बाल-
वेधिरूपा-स्या०, रो०। ५-५ गूळहानि-सी०; स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि। ६ भगवतो-
सी०। ७ उपक्खित्तका-स्या०, रो०। ८ सम्पज्जन्ते-रो०। ९-९ स्या०, रो०
पोत्थकेसु नत्थि। १० ० पोसितानि-स्या०, रो०।

कच्चे न परलोकवज्जभयदस्साविनो विहरन्ते । जानाति भगवा - "अय
 पुग्गलो रागचरितो, अयं दोसचरितो, अयं मोहचरितो, अय वितककचरितो,
 अयं सद्धाचरितो, अयं आणचरितो" ति । रागचरितस्स भगवा पुग्ग-
 लस्स असुभकथ कथेति, दोसचरितस्स भगवा पुग्गलस्स मेत्ताभावन
 ४ आचिक्खति, मोहचरितस्स' भगवा पुग्गलस्स' उद्देसे परिपुच्छाय
 कालेन धम्मस्सवने कालेन धम्मसाकच्छाय गरुसंवासे निवेशेति,
 वितककचरितस्स भगवा पुग्गलस्स आनापानस्साति आचिक्खति,
 सद्धाचरितस्स भगवा पुग्गलस्स पसादनीयं' निमित्तं आचिक्खति बुद्ध-
 सुबोधिं धम्मसुधम्मत्तं सङ्घसुप्पटिपत्तिं' सीलानि च; अत्तनो आण-
 10 चरितस्स भगवा पुग्गलस्स आचिक्खति विपत्सनानिमित्तं अनिच्चाकार
 दुक्खाकारं अनत्ताकार ।

. 280,
 . 380

सेले यथा पब्बतमुद्धनिद्धितो,
 यथा पि पस्से जनतं समन्ततो ।
 तथूपमं धम्ममयं सुमेध,
 15 पासादमारुह्य समन्तचक्खु ।
 सोकावत्तिण्णं' जनतमपेतसोको,
 अवेक्खस्सु जातिजराभिभूतं ति ॥

एव भगवा बुद्धचक्खुना पि विवटचक्खु ।
 कथं भगवा समन्तचक्खुना पि विवटचक्खु? समन्तचक्खु
 20 वुञ्चति सब्बञ्जुतव्राणं । भगवा सब्बञ्जुतव्राणेण उपेतो समुपेतो उप-
 गतो' समुपगतो उपपन्नो समुपपन्नो समन्नागतो ।

न तस्स अदिट्ठमिधत्थि किञ्चि,
 अथो अविञ्जातमजानितव्व ।
 सट्ठव अभिञ्जासि यदत्थि नेय्य,
 25 तथागतो तेन समन्तचक्खु ति ॥

एवं भगवा समन्तचक्खुना पि विवटचक्खु ति - अकित्तपि
 विवटचक्खु ।

१ मोहचरित - सी०, त्या०, रो० । २ पुग्गल - सी०, त्या०, रो० । ३ पसाद-
 नीय - त्या०, रो० । ४ सुपटिपत्ति - त्या०, रो० । ५ सोकावत्तिण्ण - त्या०, रो० । ६
 उपागतो - सी०; एवमुपरि पि ।

सक्खिधम्मं परिस्सयविनयं ति । सक्खिधम्मं ति । न इति-
 हितिहं, न इतिकिराय, न परम्पराय, न पिटकसम्पदाय, न तक्क-
 हेतु, न नयहेतु, न आकारपरिवितक्केन, न दिट्ठिनिज्झानक्खन्तिया
 सामं सयमभिञ्जातं अत्तपच्चक्खं धम्मं ति—सक्खिधम्मं । परि-
 स्सयविनयं ति । परिस्सया ति । द्वे परिस्सया—पाकटपरिस्सया च 5
 पटिच्छन्नपरिस्सया च । कतमे पाकटपरिस्सया ? सीहा व्यग्घा' दीपी
 अच्छा तरच्छा कोका महिसा' हत्थी अहि' विच्छिका सतपदी, चोरा
 वा अस्सु मानवा वा' कतकम्मा वा अकतकम्मा वा, चक्खुरोगो
 सोतरोगो धानरोगो जिह्वारोगो कायरोगो सीसरोगो कण्णरोगो मुख-
 रोगो दन्तरोगो कासो सासो पिनासो डाहो, जरो कुच्छिरोगो मुच्चा 10
 पक्खन्दिका सूला विसूचिका कुट्टं गण्डो किलासो सोसो अपमारो
 दद्दु कण्डु कच्छु रक्खसा वितच्छिका' लोहितपित्तं मधुमेहो अंसा
 पिळका भगन्दला, पित्तसमुट्टाना आबाधा सेम्हसमुट्टाना आबाधा
 वातसमुट्टाना आबाधा सन्निपातिका आबाधा उत्तुपरिणामजा आबाधा
 विसमपरिहारजा आबाधा ओपक्कमिका आबाधा कम्मविपाकजा 15
 आबाधा, सीतं उण्हं जिघच्छा पिपासा उच्चारो पस्सावो इंसमकस-
 वातातपसरीसपसम्फस्सा' इति वा—इमे वुच्चन्ति पाकटपरिस्सया ।

R 361

B. 281

कतमे पटिच्छन्नपरिस्सया ? कायदुच्चरितं वचीदुच्चरितं
 मनोदुच्चरितं कामच्छन्दनीवरणं व्यापादनीवरणं थिनमिद्धनीवरणं
 उद्धच्चकुक्कुच्चनीवरणं विचिकिच्छानीवरणं रागो दोसो मोहो कोधो 20
 उपनाहो मक्खो पळासो इस्सा मच्छरियं माया साठेय्यं थम्मो
 सारम्मो मानो अतिमानो मदो पमादो, सब्बे किलेसा सब्बे'
 दुच्चरिता' सब्बे दरथा सब्बे परिळाहा सब्बे सन्तापा सब्बाकुसला-
 भिसह्लारा—इमे वुच्चन्ति पटिच्छन्नपरिस्सया ।

परिस्सया ति । केनट्ठेन परिस्सया ? परिस्सहन्ती ति परि- 25
 स्सया, परिहानाय संवत्तन्ती ति परिस्सया, तत्रासया ति परिस्सया ।

१ व्यग्घा—सी० । २. महिसा—सी०, गोमहिसा—स्था०, रो० । ३. बही—
 सी० । ४. स्था०, रो० पौत्यकेसु नत्थि । ५. डहो—सी०, स्था०, रो० । ६. वितच्छीका—
 सी० । ७. ० सिरिसप०—सी०, स्था०, रो० । ८. व्यापादनीवरणं—सी०; एवमुपरि पि ।
 ९. थोमिद्धनीवरणं—सी०, स्था०, रो०; एवमुपरि पि । १०-१०. सव्वानि दुच्चरितानि—
 सी०, रो० ।

कथं परिसहन्ती ति परिस्सया? ते परिस्सया तं पुगलं सहन्ति
परिसहन्ति अभिभवन्ति अज्झोत्थरन्ति परियावियन्ति नहन्ति।
एवं परिसहन्ती ति - परिस्सया।

कथं परिहानाय संवत्तन्ती ति परिस्सया? ते परिस्सया
5 कुसलानं घम्मानं अन्तरायाय परिहानाय संवत्तन्ति। कतमेमं कुस-
लानं घम्मानं? सम्मापटिपदाय अनुलोमपटिपदाय अपच्चनीकपटि-
पदाय^१ अविस्सट्ठपटिपदाय^२ अन्वत्यपटिपदाय घम्मानुवम्मपटिपदाय
सीलेसु परिपूरकारिताय^३ इन्द्रियेसु गुत्तडास्ताय भोजने मत्तञ्जुताय
जागरियानुयोगस्स सतिसन्पजञ्जस्स चतुञ्चं सतिपट्टानानं भावनानु-
10 योगस्स चतुञ्चं सम्मप्पव्वानानं चतुञ्चं इद्धिपादानं पच्चञ्चं इन्द्रियानं
पच्चञ्चं वलानं सत्तञ्चं वोञ्जङ्गानं अरियस्स अट्टङ्गिक्कस्स मग्गस्स
भावनानुयोगस्स - इमेसं कुसलानं घम्मानं अन्तरायाय परिहानाय
संवत्तन्ति। एवं पि^४ परिहानाय संवत्तन्ती ति - परिस्सया।

B. 252

कथं तत्रासया ति परिस्सया? तत्थेते पापका अकुसला
15 धम्मा उप्पज्जन्ति अत्तभावन्नस्सिया। यथा विले विलासया पाणा
सयन्ति, व्के व्कासया पाणा सयन्ति, वने वनासया पाणा सयन्ति।
रक्खे रक्खासया पाणा सयन्ति; एवमेव तत्थेते पापका अकुसला
धम्मा उप्पज्जन्ति अत्तभावन्नस्सिया ति। एवं पि तत्रासया ति -
परिस्सया।

20 वुत्तं हेतं भगवता - "सान्तेवासिको, भिक्खवे, भिक्खु साच-
रियको दुक्खं न फासु विहरति। कथं च. भिक्खवे, भिक्खु सान्ते-
वासिको साचरियको दुक्खं न फासु विहरति? इध, भिक्खवे,
भिक्खुनो चक्खुना रूपं दिस्वा उप्पज्जन्ति पापका अकुसला धम्मा
सरसङ्कप्पा सञ्जोजनिया,^५ त्यस्स^६ अन्तो वसन्ति अन्वास्सवन्ति^७
25 पापका अकुसला धम्मा ति। तस्सा सान्तेवासिको ति वुच्चति। ते
नं समुदाचरन्ति, समुदाचरन्ति^८ नं पापका अकुसला धम्मा ति।
तस्सा साचरियको ति वुच्चति।

१. अपच्चनीक० - सी०। २. सी०, त्या०, रो० पोल्हेनु नन्थि। ३. परिद्वि० -
त्या०। ४. त्या०, रो० पोल्हेनु नन्थि। ५. सञ्जोजनियं - त्या०, रो०। ६. त्याम् -
सी०। ७. अन्वावसन्ति - रो०। ८-८ समुदाचरेत्ति नं - सी०; त्या० पोल्हे नन्थि।

“पुन चपरं, भिक्खवे, भिक्खुनो सोतेन सद्दं सुत्वा ...पे०...
 धानेन गन्धं द्वायित्वा ... जिञ्हाय रसं सायित्वा ... कायेन फोट्टुद्वं
 फुसित्वा ... मनसा धम्मं विञ्जाय उप्पज्जन्ति पापका अकुसला धम्मा
 सरसङ्कप्पा सञ्जोजनिया, त्यस्स अन्तो वसन्ति अन्वास्सवन्ति पापका
 अकुसला धम्मा ति। तस्मा सान्तेवासिको ति वुच्चति। ते नं 6
 समुदाचरन्ति, समुदाचरन्ति नं पापका अकुसला धम्मा ति। तस्मा
 साचरियको ति वुच्चति। एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु सान्तेवासिको
 साचरियको दुक्खं न फासु विहरती” ति। एवं पि तत्रासया ति—
 परिस्सया ।

R. 363

वृत्तं हेतं भगवता— “तयोमे, भिक्खवे, अन्तरामला अन्तरा- 10
 अमिता अन्तरासपत्ता अन्तरावधका अन्तरापच्चत्थिका। कतमे तयो ?
 लोभो, भिक्खवे, अन्तरामलो अन्तराअमित्तो अन्तरासपत्तो^१ अन्तरावधको
 अन्तरापच्चत्थिको, दोसो, भिक्खवे ...पे०... मोहो, भिक्खवे, अन्तरामलो
 अन्तराअमित्तो अन्तरासपत्तो अन्तरावधको अन्तरापच्चत्थिको। इमे
 खो, भिक्खवे, तयो अन्तरामला अन्तरा अमिता अन्तरासपत्ता 15
 अन्तरावधका अन्तरापच्चत्थिका” ति।

अनत्थजननो लोभो, लोभो चित्तप्पकोपनो।

B. 288

भयमन्तरतो जातं, तं जनो नावबुज्झति ॥

लुद्धो अत्थं न जानाति, लुद्धो धम्मं न पस्सति।

अन्धन्तमं तदा होति, यं लोभो सहते नरं ॥ 20

अनत्थजननो दोसो, दोसो चित्तप्पकोपनो।

भयमन्तरतो जातं, तं जनो नावबुज्झति ॥

कुद्धो अत्थं न जानाति, कुद्धो धम्मं न पस्सति।

अन्धन्तमं तदा होति, यं दोसो^१ सहते नरं ॥

अनत्थजननो मोहो, मोहो चित्तप्पकोपनो।

25 R. 364

भयमन्तरतो जातं, तं जनो नावबुज्झति ॥

मूळ्हो अत्थं न जानाति, मूळ्हो धम्मं न पस्सति।

अन्धन्तमं तदा होति, यं मोहो सहते नरं ति ॥

^१ अन्तरामित्तो—सी०। २ कोवो—सी०, स्था०, रो०।

एवं पि तत्रासया ति—परिस्सया

वुत्त हेतं भगवता—“तयो खो, महाराज’, पुरिसस्स घम्मा अज्झत्तं उप्पज्जमाना उप्पज्जन्ति अहिताय दुक्खाय अफासुविहाराय। कतमे तयो ? लोभो खो, महाराज, पुरिसस्स घम्मो अज्झत्तं
 5 उप्पज्जमानो उप्पज्जति अहिताय दुक्खाय अफासुविहाराय; दोसो खो, महाराज ...पे०.. मोहो खो, महाराज, पुरिसस्स घम्मो अज्झत्त उप्पज्जमानो उप्पज्जति अहिताय दुक्खाय अफासुविहाराय। इमे खो, महाराज, तयो पुरिसस्स घम्मा अज्झत्तं उप्पज्जमाना उप्प-
 ज्जन्ति अहिताय दुक्खाय अफासुविहाराय।

10 “लोभो दोसो च मोहो च, पुरिसं पापचेतस।
 हिंसन्ति अत्तसम्भूता, तच्चसारं व सम्फल” ति ॥

एवं पि तत्रासया ति—परिस्सया।

B 284

वुत्तं हेतं भगवता—

15 “रागो च दोसो च इतो निदाना,
 अरती रती’ लोमहंसो’ इतोजा’।
 इतो समुद्गाय मनोवितक्का,
 कुमारका’ घङ्कमिवोस्सजन्ती” ति ॥

एवं पि तत्रासया ति—परिस्सया।

R. 365

परिस्सयविनयं ति। परिस्सयविनयं परिस्सयप्पहान’ परिस्सय-
 20 वूपसमं परिस्सयपटिनिस्सगं परिस्सयपटिपत्सर्द्धि’ अमत निब्बान
 ति—सक्खिघम्मं परिस्सयविनयं।

पटिपदं वदेहि भद्दन्ते ति। पटिपदं वदेहि—सम्मापटिपद
 अनुलोमपटिपदं अपञ्चनीकपटिपदं अबिरुद्धपटिपदं अन्वत्थपटिपदं
 धम्मानुधम्मपटिपदं सीलेसु परिपूरकारितं इन्द्रियेसु गुत्तद्वारतं भोजनं
 25 मत्तञ्छ्रुतं जागरियानुयोगं सतिसम्पज्जं चत्तारो सतिपट्टाने चत्तारो
 सम्मप्पधाने चत्तारो इद्धिपादे पञ्चिन्द्रियानि पञ्च बलानि सत्त

१ मे महाराज—सी०। २ रति—स्या०। ३ लोमहंसा—सी०। ४ इतो जातो—
 स्या०, रो०। ५ कुमारक—सी०। ६ ० पहान—सी०, स्या०, रो०। ७ ० पत्तद—
 रो०। ८ सी०, स्या०, रो० पौत्यकेसु नत्थि।

बोञ्जङ्गे अरियं अट्टङ्गिकं मगं निब्बानं च निब्बानगामिनि च पटिपदं वदेहि आचिक्ख देसेहि पञ्जपेहि पट्टपेहि विवर विभज उत्तानीकरोहि पकासेही ति—पटिपदं वदेहि। भद्दन्ते ति। सो निम्मितो बुद्धं भगवन्त आलपति। अथ वा, यं त्वं धम्मं आचिक्खसि' देसेसि पञ्जपेसि पट्टपेसि विवरि विभजि उत्तानीअकासि 5 पकासेसि सब्बं तं सुन्दरं भद्दकं कल्याणं अनवज्जं सेवितब्बं ति—पटिपदं वदेहि भद्दन्ते।

पात्तिमोक्खं' अथ वा पि समाधिं ति। पात्तिमोक्खं ति। सीलं पतिट्ठा आदि चरणं संयमो संवरो मुखं पमुखं कुसलानं धम्मानं समापत्तिया। अथ वा पि समाधिं ति। या चित्तस्स ठिति सण्ठिति 10 अवट्ठिति अविसाहारो अविक्खेपो अविसाहतमानसता समथो समाधिन्द्रियं समाधिबलं सम्मासमाधी ति—पात्तिमोक्खं अथ वा पि समाधि। तेनाह सो निम्मितो—

“अकित्तयी' विवटचक्खु,
सक्खिधम्मं परिस्सयविनयं।
पटिपदं वदेहि भद्दन्ते,
पात्तिमोक्खं अथ वा पि समाधि” ति ॥

15

१५७. चक्खूहि नेव लोलस्स,
गमकथाय आवरये सोतं।
रसे च ननुगिञ्ज्जेय्य,
न च ममाथेथ किञ्चि लोकीस्सि ॥

B. 285

20

चक्खूहि नेव लोलस्सा ति। कथं चक्खुलोलो ति ? इधे-कच्चो चक्खुलोलियेन' समन्नागतो होति—“अदिट्ठं दक्खित्तब्बं, दिट्ठं समत्तिक्कमित्तब्बं” ति आरामेन आरामं उय्यानेन उय्याणं गामेन गामं निगमेन निगमं नगरेन नगरं रट्ठेन रट्ठं जनपदेन जनपदं दीघचारिकं 25 अनवट्ठितचारिकं अनुयुत्तो च' होति' रूपस्स दस्सनाय। एवं पि चक्खुलोलो होति।

R. 366

१. आचिक्खि—सी०, स्या०, रो०। २. पात्तिमोक्ख—स्या०। ३. अकित्तयी—सी०, अकित्तयि—स्या०, रो०; एवमुपरि पि। ४. होति—सी०, स्या०, रो०। ५. चक्खुलोलो चक्खुलोलियेन—स्या०, रो०। ६-६ सी० पोत्यके नत्थि; विहरति—स्या०, रो०।

अथ वा, भिक्खु^१ अन्तरघरं पविट्ठो वीथि पटिपन्नो असंवृतो गच्छति हत्थि ओलोकन्तो, अस्सं ओलोकन्तो, रथं ओलोकन्तो, पत्ति ओलोकन्तो, इत्थियो ओलोकन्तो, पुरिसं ओलोकन्तो, कुमारके ओलोकन्तो, कुमारिकायो ओलोकन्तो, अन्तरापणं ओलोकन्तो, घरमुखानि ओलोकन्तो, उद्वं ओलोकन्तो, अधो ओलोकन्तो, दिसाविदिसं विपेक्खमानो^२ गच्छति। एवं पि चक्खुलोलो होति।

अथ वा, भिक्खु चक्खुना रूपं दिस्वा निमित्तग्गाही होति अनुव्यञ्जनग्गाही। यत्त्वाधिकरणमेनं चक्खुन्द्रियं असंवृतं विहरन्तं अभिज्झादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्यु, तस्स सव-
10 राय न पटिपज्जति, न रक्खति चक्खुन्द्रियं, चक्खुन्द्रिये न संवर आपज्जति। एवं पि चक्खुलोलो होति।

यथा वा पनेके भोन्तो समणब्राह्मणा सद्दादेय्यानि भोजनानि भुञ्जित्वा ते एवरूपं विसूकदस्सनं अनुयुत्ता विहरन्ति, सेय्यधिदं^३ - नच्च गीतं चादितं पेक्खं अक्खानं पाणिस्सरं वेताळं कुम्भधूनं सोम-
16 नकं चण्डालं वंसं धोवनं हत्थियुद्धं अस्सयुद्धं म्हिंसयुद्धं उसभयुद्धं अजयुद्धं^४ मेण्डयुद्धं कुक्कुटयुद्धं वट्टकयुद्धं दण्डयुद्धं मुट्ठियुद्धं निब्बुद्ध उय्योधिकं बलगं सेनाव्युहं अनीकदस्सन इति वा। एव पि चक्खु-
लोलो होति।

R. 307

B. 286

कथं न चक्खुलोलो होति ? इध भिक्खु अन्तरघरं पविट्ठो
20 वीथि पटिपन्नो संवृतो गच्छति न हत्थि ओलोकन्तो, न अस्सं ओलो-
केन्तो, न रथं ओलोकन्तो, न पत्ति ओलोकन्तो, न इत्थियो ओलो-
केन्तो, न पुरिसं ओलोकन्तो, न कुमारके ओलोकन्तो, न कुमारिकायो
ओलोकन्तो, न अन्तरापणं ओलोकन्तो, न घरमुखानि ओलोकन्तो,
न उद्वं ओलोकन्तो, न अधो ओलोकन्तो, न दिसाविदिसाविपेक्खमानो
25 गच्छति। एवं पि न चक्खुलोलो होति।

अथ वा, भिक्खु चक्खुना रूपं दिस्वा न निमित्तग्गाही होति नानुव्यञ्जनग्गाही। यत्त्वाधिकरणमेनं चक्खुन्द्रियं असंवृतं विहरन्तं

१ स्या०, रो० पोत्थकेषु नत्थि। २ पेक्खमानो-स्या०, रो०। ३ सेय्यधिदं-सी०, स्या०, रो०; एवमुपरि पि। ४ सोमनगरक-सी०, स्या०, रो०। ५ गोयुद्धं-सी०, गोयुद्धं-रो०।

अभिज्झादोमनस्सा पापका अकुसला घम्मा अन्वास्सवेय्यं, तस्स संव-
राय पटिपज्जति, रक्खति चक्खुन्द्रियं, चक्खुन्द्रिये संवरं आपज्जति ।
एवं पि न चक्खुलोलो होति ।

यथा वा पत्तेके भोन्तो समणब्राह्मणा सद्भादेय्यानि भोज-
नानि भुञ्जित्वा ते एवरूपं विसूकदस्सनं अननुयुत्ता^१ विहरन्ति, 5
सेय्यथिदं—नच्चं गीतं वादितं पेक्खं अक्खानं...पे०... अनीकदस्सनं^२
इति वा । एवरूपा विसूकदस्सना पटिविरतो होति । एवं पि न
चक्खुलोलो होति ।

चक्खूहि नेव लोलस्सा ति । चक्खुलोलियं पजहेय्य विनोदेय्य
व्यान्ति करेय्य अनभावं गमेय्य, चक्खुलोलिया आरतो अस्स विरतो 10
पटिविरतो निक्खन्तो निस्सटो^३ विप्पमुत्तो विसञ्चुत्तो विमरि-
यादिकतेन चेतसा विहरेय्या ति—चक्खूहि नेव लोलस्स ।

गामकथाय आवरये सोतं ति । गामकथा वुच्चति^४ बार्त्तिसं^५
तिरच्छानकथा, सेय्यथिदं—राजकथा चोरकथा महामत्तकथा सेना-
कथा भयकथा युद्धकथा अन्नकथा पानकथा वत्थकथा यानकथा सयन- 15
कथा मालाकथा गन्धकथा जातिकथा गामकथा निगमकथा नगरकथा
जनपदकथा इत्थिकथा सूरकथा^६ विसिखाकथा^७ कुम्भट्टानकथा^८ पुब्ब-
पेतकथा नानत्तकथा लोकवखायिका समुद्दवखायिका इति भवाभवकथा
इति वा । गामकथाय आवरये सोतं ति । गामकथाय सोतं आवरेय्य 20
निवारयेय्य संवरेय्य^९ रक्खेय्य गोपेय्य पिदहेय्य पच्छिन्देय्या ति—
गामकथाय आवरये सोतं ।

B. 868

B. 287

रसे च नानुगिञ्झेय्या ति । रसे^{१०} चा ति^{११} । मूलरसो खन्व-
रसो तचरसो पत्तरसो पुप्परसो फलरसो अम्बिलं मधुरं तित्तकं^{१२}
कटुकं लोणिकं^{१३} खारिकं लम्बिकं^{१४} कसावो साडु^{१५} असाडु^{१६} सीतं उण्हं ।
सन्तेके समणब्राह्मणा रसगिद्धा; ते जिह्वुगेन रसग्गानि परियेसन्ता 25

१ अनुयुत्ता—रो० । २ अनीकदस्सन—स्या०, रो० । ३ निस्सटो—स्या०, रो०,
एवमुपरि पि । ४ वुच्चन्ति—स्या०, रो० । ५ वत्तिस—सी०, स्या०, रो० । ६ पुरिसकथा
सूरकथा—सी०, स्या०, रो० । ७ विसिक्खाकथा—स्या०, रो० । ८ कुम्भट्टानकथा—सी० ।
९ सन्निवारयेय्य—सी०, स्या०, रो० । १०-११ रसो ति—सी०, स्या०, रो० । ११. तित्तिकं—
स्या०, रो० । १२ लोणिकं—सी० । १३ लम्बिल—सी०, स्या०, रो० । १४-१५. साडु
असाडु—सी०, रो० ।

आहिण्डन्ति, ते अम्बिलं लभित्वा अनम्बिलं परियेसन्ति, अनम्बिल
लभित्वा अम्बिलं परियेसन्ति ...पे०... सीतं लभित्वा उण्हं परियेसन्ति,
उण्हं लभित्वा सीतं परियेसन्ति। ते यं यं लभित्वा तेन तेन न
नुस्सन्ति, अपरापरं परियेसन्ति, मनापिकेसु रसेसु रत्ता गिद्धा गधिता
५ मुच्छिता अज्झोसन्ना^१ लग्गा लग्गिता पल्लुद्धा। यस्सेसा रसतण्हा
पहीना समुच्छिन्ना ..पे०.. आणग्गिना दद्धा, सो पटिसङ्खा योनिसो
आहारं आहारेति नेव दवाय ...पे०... अनवज्जता च फासुविहारो चा ति।

यथा वणं आलिम्पेय्य यावदेव आरुहणत्थाय, यथा वा पन
अक्खं अब्भञ्जेय्य यावदेव भारस्स नित्थरणत्थाय, यथा वा^२ पुत्त-
१० मंसं आहारं आहारेय्य यावदेव कन्तारस्स नित्थरणत्थाय, एवमेव
R. ३६९ भिक्खु पटिसङ्खा योनिसो आहार आहारेति, नेव दवाय ...पे०.. अन-
वज्जता च फासुविहारो चा ति रसतण्हं पजहेय्य विनोदेय्य व्यन्ति
करेय्य अनभावं गमेय्य, रसतण्हाय आरतो अस्स विरतो पटिविरतो
निकखन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसञ्जुत्तो विमरिधादिकतेन चेतसा
१५ विहरेय्या ति - रसे च नानुगिज्जेय्य।

न च ममायेथ किञ्चि लोकास्मि ति। ममत्ता ति। द्वे ममत्ता
-तण्हाममत्तं च दिट्ठिममत्तं च ...पे०... इदं तण्हाममत्तं . पे० . इद
दिट्ठिममत्तं। तण्हाममत्तं पहाय दिट्ठिममत्तं पटिनिस्सज्जित्वा चक्खु
न ममायेय्य न गण्हेय्य न परामसेय्य नाभिनिविसेय्य, सोतं .. धान
२० जिह्वं ... कायं ... हपे ... सद्दे ... गन्धे ... रसे... फोट्टुब्बे .. कुलं .. गणं .
आवासं ... लाभं ... यसं ... पसंसं ... सुखं ... चीवरं .. पिण्डपातं .. सेनासन
... गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारं ... कामघातु . रूपघातु ... अरूपघातु
... कामभवं ... रूपभवं .. अरूपभवं... सञ्जाभवं .. असञ्जाभवं .. नेव-
सञ्जानासञ्जाभवं ... एकवोकारभवं . . चतुवोकारभवं ... पञ्चवोकार-
B २६९ भवं ... अतीतं .. अनागत .. पच्चुप्पन्नं ... दिट्ठिसुतमुतविञ्जातब्बे धम्म
२५ न ममायेय्य न गण्हेय्य न परामसेय्य नाभिनिविसेय्य। किञ्ची ति।
किञ्चि रूपगतं वेदनागतं सञ्जागतं सङ्खारगतं विञ्जाणगतं। लोकास्मि
ति। अपायलोके ...पे०... आयतनलोके ति - न च ममायेथ किञ्चि
लोकास्मि। तेनाह भगवा -

१ अञ्छोपन्ना - सी०, स्या०, रो०। २ वा पन - स्या०, रो०।

“चक्खूहि नेव लोलस्स,
गामकथाय आवरये सोत्तं ।
रसे च नानुगिज्जेय्य,
न च ममायेथ किञ्चि लोकास्मि” ति ॥

१५८. फस्सेन यदा फुट्टस्स,
परिदेवं भिक्खु न करेय्य कुहिञ्चि ।
भवं च नाभिजप्पेय्य,
भेरवेसु च न सम्पवेधेय्य ॥

6

फस्सेन यदा फुट्टस्सा ति । फस्सो' ति । रोगफस्सो' । रोग-
फस्सेन फुट्टो परेतो समोहितो समन्नागतो अस्स ; चक्खुरोगेन फुट्टो 10
परेतो समोहितो समन्नागतो अस्स, सोत्तरोगेन .. धानरोगेन ... जिब्हा-
रोगेन ... कायरोगेन ... सीसरोगेन ... कण्ठरोगेन ... मुखरोगेन ... दन्त-
रोगेन ... कासेन ... सासेन ... पिनासेन ... डाहेन ... जरेन ... कुच्छिरोगेन
... मुच्छाय ... पक्खन्दिकाय ... सुलाय .. विसूचिकाय ... कुट्टेन ... गण्डेन
.. किलासेन ... सोसेन ... अपमारणेन ... दद्दुया ... कण्डुया ... कच्छुया ... 15
रखसाय .. वितच्छिकाय ... लोहितेन ... पित्तेन .. मधुमेहेन ... अंसाय...
पिळकाय ... भगन्दलेन' ... पित्तसमुद्धानेन' आबाधेन ... सेम्हसमुद्धानेन
आबाधेन ... वातसमुद्धानेन आबाधेन ... सन्निपातिकेन आबाधेन ... उत्तु-
परिणामजेन आबाधेन ... विसमपरिहारजेन आबाधेन ... ओपक्कमिकेन
आबाधेन ... कम्मविपाकजेन आबाधेन ... सीतेन ... उण्हेन ... जिघच्छाय 20
... पिपासाय .. उच्चारेण ... पस्सावेण ... डंसमकसवातातपसरीसपसम्फ-
स्सेहि फुट्टो परेतो समोहितो समन्नागतो अस्सा ति — फस्सेन यदा फुट्टस्स ।

B. 370

परिदेवं भिक्खु न करेय्य कुहिञ्ची ति । आदेवं परिदेवं
आदेवनं परिदेवनं आदेवितत्तं परिदेवितत्तं वाचा पलापं विप्पलापं
लालपं लालप्पायनं लालप्पायितत्तं न करेय्य न जनेय्य न सञ्जनेय्य 25
न निब्बत्तेय्य नाभिनिब्बत्तेय्य । कुहिञ्ची ति । कुहिञ्चि किम्हिचि
कत्थचि अज्झत्तं वा बहिद्धा वा अज्झत्तबहिद्धा वा ति — परिदेवं
भिक्खु न करेय्य कुहिञ्चि ।

B. 289

१-१ स्या० पोत्थके न विस्सति । २ भगवलाय — स्या०, रो० । ३. पित्तसमुद्धानेहि —
स्या०, रो० ; एवमुपरि पि ।

भवं च नाभिजप्येय्या ति । कामभवं न जप्येय्य, रूपभवं न जप्येय्य, अरूपभवं न जप्येय्य न पजप्येय्य नाभिजप्येय्या ति-भवं च नाभिजप्येय्य ।

- R. 371 5 भयं पि भेरवं पि तञ्जेव । वृत्तं हेतं भगवता - "एतं नूनं तं भयं भेरवं नं जहे आगच्छती" ति । बहिद्वारम्मर्षं वृत्तं सीहा व्यग्धा दीपी अञ्छा तरञ्छा कोका महिसा अस्सा हृत्यी अहिर्विच्छिका सतपदी, चोरा वा अस्तु मानवा वा कतकम्मा वा अकतकम्मा वा । अथापरेण आकारेण भयं वृच्चति अञ्भत्तिकं चित्तसमुद्धानं भयं भयानकं छम्भितत्तं लोमहंसो चेतसो उव्वेगो उत्रासो, जातिभयं जराभयं व्याधिभयं मरणभयं राजभयं चोरभयं अग्निभयं उदकभयं अत्तानुवादभयं परानुवादभयं दण्डभयं दुग्गतिभयं ऊमिभयं कुम्भीलभयं आवट्टभयं सुसुकाभयं आजीविकभयं असिलोकभयं परिसाय सारज्जभयं मदनभयं दुग्गतिभयं भयं भयानकं छम्भितत्तं लोमहंसो चेतसो उव्वेगो उत्रासो । भेरवेसु च न सम्पवेधेय्या ति । भेरवे पस्सित्वा वा सृणित्वा वा न वेधेय्य न पवेधेय्य न सम्पवेधेय्य न तसेय्य न उत्तसेय्य न परित्तसेय्यं न भायेय्य न सन्तासं आपज्जेय्य, अभिरू अस्स अछम्भी अनुत्रासी अपलायी, पहीनभयभेरवो विगतलोमहंसो विहरेय्या ति - भेरवेसु च न सम्पवेधेय्य । तेनाह भगवा -

- 20 "फत्सेन यदा फुट्टस्स,
परिदेवं भिक्खु न करेय्य कुहिञ्चि ।
भवं च नाभिजप्येय्य,
भेरवेसु च न सम्पवेधेय्या" ति ॥

- 25 १५९. अज्ञानमथो पानानं,
खादनीयानमथो पि वत्थानं ।
लद्धा न सन्निधि कथिरा,
न च परित्तसे तानि अलभमानो ॥

१-१. सी०, स्या०, रो० पोत्वकेषु नत्थि । २ भयानकत्तं - सी० । ३ कुम्भीलभय - स्या०, रो० । ४ सुसुकारभय - स्या०, रो० । ५ आजीविकभय - सी०, स्या०, रो० । ६ परित्तसेय्य - म० । ७ अलभमानो - स्या०, रो० ।

अन्नानमथो पानानं खादनीयानमथो पि वत्थानं ति । अन्नानं ति । ओदनो कुम्मासो सत्तु मच्छो मंसं । पानानं ति । अट्ट पानानि — अम्बपानं, जम्बुपानं, चोचपानं, मोचपानं, मधुपानं, मुद्दिकपानं, सालुकपानं, फारसकपानं । अपरानि पि अट्ट पानानि — कोसम्बपानं, कोलपानं, बदरपानं, घतपानं,^१ तेलपानं, पयोपानं, यागुपानं, रसपानं । 5
खादनीयानं ति । पिट्टखज्जकं, पूवखज्जकं, मूलखज्जकं, तचखज्जकं, पत्तखज्जकं, पुप्फखज्जकं, फलखज्जकं । वत्थानं ति । छ चीवरानि — खोमं, कप्पासिकं, कोसेय्यं, कम्बलं, साणं, भङ्गं ति — अन्नानमथो पानानं खादनीयानमथो पि वत्थानं । ।

लद्धा न सन्निधिं कयिरा ति । लद्धा ति । लद्धा लभित्वा 10
अधिगन्त्वा विन्दित्वा^२ पटिलभित्वा न कुहनाय, न लपनाय, न नेमित्तिकताय^३, न निप्पेसिकताय, न लाभेन लाभं निजिगीसनताय^४, न कट्टुदानेन^५, न वेळुदानेन, न पत्तदानेन, न पुप्फदानेन, न फलदानेन, न सिनानदानेन, न चुण्णदानेन, न मत्तिकादानेन^६, न दत्तकट्टुदानेन, न मुखोदकदानेन, न चाटुकम्यताय^७, न मुग्गसूप्यताय^८, न परिभट्टय- 16
ताय^९, न पीठमद्दिकताय^{१०}, न बत्थुविज्जाय, न तिरच्छानविज्जाय, न अङ्गविज्जाय, न नक्खत्तविज्जाय, न दूतगमनेन, न पह्णिगमनेन, न जङ्घपेसनियेन^{११}, न वेज्जकम्मेन, न नवकम्मेन, न पिण्डपटिपिण्डकेन, न दानानुप्यदानेन घम्मेन समेन लद्धा लभित्वा अधिगन्त्वा विन्दित्वा पटिलभित्वा ति — लद्धा । न सन्निधिं कयिरा ति । अन्नसन्निधिं 20
पानसन्निधिं वत्थसन्निधिं यानसन्निधिं सयनसन्निधिं गन्धसन्निधिं आमिस-
सन्निधिं न करेय्यं न जनेय्यं न सञ्जनेय्यं न निव्वत्तेय्यं नाभिनिव्व-
त्तेय्या ति — लद्धा न सन्निधिं कयिरा ।

न च परित्तसे तानि अलभमानो ति । अन्नं वा न लभामि,
पानं वा न लभामि, वत्थं वा न लभामि, कुलं वा न लभामि, गणं 25
वा न लभामि, आवासं वा न लभामि, लाभं वा न लभामि, यंसं

१. घटपानं—स्या०, रो० । २. रो० पोत्थके नत्थि । ३. नेमित्तिकताय—स्या०, रो० ।
४. निजिगिसनताय—सी०, स्या०, रो० । ५. दाखदानेन—स्या०, रो० । ६. मत्तिकदानेन—
स्या०, रो० । ७. पाहुकम्यताय—स्या०, रो० । ८. मुग्गसूप्यताय—सी०; मुग्गसूपताय—
स्या०, रो० । ९. पारिभट्टताय—सी० । १०. पिट्टिमसिकताय—सी० । ११. जङ्घपेसनिकेन—
स्या०, रो० ।

वा न लभामि, पसंसं वा न लभामि, सुखं वा न लभामि, चीवरं
 वा न लभामि, पिण्डपातं वा न लभामि, सेनासनं वा न लभामि,
 गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारं वा न लभामि, गिलानुपट्टाकं^१ वा न
 लभामि, "अप्पञ्जातोम्ही" ति न तसेय्य न उत्तसेय्य न परित्तसेय्य
 B. 291 5 न भायेय्य न सन्तासं आपज्जेय्य, अभीरू अस्स अछम्भी अनुत्रासी
 अपलायी, पहीनभयभेरवो विगतलोमहंसो विहरेय्या ति - न च परित्तसे
 तानि अलभमानो। तेनाह भगवा -

"अन्नानमथो पानानं,
 खादनीयानमथो पि वत्थानं।

10 लद्धा न सन्निधिं कयिरा,
 न च परित्तसे तानि अलभमानो" ति ॥

१६०. भ्रायी न पादलोलस्स,
 विरमे कुक्कुच्चा नप्पमज्जेय्य।
 अथासनेसु सयनेसु,
 15 अप्पसहेसु भिक्खु विहरेय्य ॥

भ्रायी न पादलोलस्सा ति। भ्रायी ति। पठमेन पि भ्रानेन
 भ्रायी, दुतियेन पि भ्रानेन भ्रायी, ततियेन पि भ्रानेन भ्रायी, चतु-
 त्थेन पि भ्रानेन भ्रायी, सवितक्कसविचारेण पि भ्रानेन भ्रायी,
 अवितक्कविचारमत्तेण पि भ्रानेन भ्रायी, अवितक्कविचारेण पि
 20 भ्रानेन भ्रायी, सप्पीतिकेण पि भ्रानेन भ्रायी, निप्पीतिकेण पि भ्रानेन
 भ्रायी, पीतिसहगतेण पि भ्रानेन भ्रायी, सातसहगतेण पि भ्रानेन भ्रायी,
 सुखसहगतेण पि भ्रानेन भ्रायी, उपेक्खासहगतेण पि भ्रानेन भ्रायी,
 सुञ्जतेण पि भ्रानेन भ्रायी, अनिमित्तेण पि भ्रानेन भ्रायी, अप्प-
 णिहितेण पि भ्रानेन भ्रायी, लोकियेण पि भ्रानेन भ्रायी, लोक्कत्तरेण
 25 पि भ्रानेन भ्रायी, भ्रानरतो एकत्तमनुयुत्तो^३ परमत्थगक्को^३ ति -
 भ्रायी।

B. 374

न पादलोलस्सा ति। कथं पादलोलो होति? इधेकच्चो
 पादलोलियेण समन्नागतो होति आरामेण आरामं उय्यानेण उय्यानं

१ गिलानुपट्टाक - सी०। २. एकम्ममनुयुत्तो - स्या०, रो०। ३ सदत्थगक्को - सी०,
 स्या०, रो०।

गामेन गामं निगमेन निगमं नगरेण नगरं रुट्ठेण रुट्ठं जनपदेन जनपदं दीघ-
चारिकं अनवट्ठितचारिकं अनुयुत्तो विहरति । एवं पि पादलोलो होति ।

अथ वा, भिक्खु अन्तो पि सञ्चारामे पादलोलियेन समन्नागतो
होति । न अत्थहेतु न कारणहेतु उद्धतो अवूपसन्तचित्तो परिवेणतो
परिवेणं गच्छति विहारतो विहारं गच्छति अङ्गयोगतो अङ्गयोगं 5 B. 202
गच्छति पासादतो पासादं गच्छति हम्मियतो हम्मियं गच्छति गुहायं
गुहं गच्छति लेणतो लेणं गच्छति कुटितो कुटिं गच्छति कूटागारतो
कूटागारं गच्छति अट्टतो अट्ठं गच्छति माळतो^१ माळं^२ गच्छति
उट्ठतो^३ उट्ठं^३ गच्छति उपट्टानसालतो^३ उपट्टानसालं^३ गच्छति
मण्डलमाळतो मण्डलमाळं गच्छति रक्खमूलतो रक्खमूलं गच्छति । 10
यत्थ वा पण भिक्खु निसीदन्ति तर्हि गच्छति, तत्थ एकस्स वा दुतियो
होति, द्विजं वा ततियो होति, तिण्णं वा चतुत्थो होति । तत्थ बहुं
सम्फप्पलापं पलपति, सेय्यथिदं - राजकथं चोरकथं महामत्तकथं सेना-
कथं भयकथं युद्धकथं अन्नकथं पानकथं वत्थकथं यानकथं सयनकथं 15
मालाकथं गन्धकथं वातिकथं गामकथं निगमकथं नगरकथं जनपदकथं
इत्थिकथं सुरकथं विसिखाकथं कुम्भट्टानकथं पुब्बपेतकथं नानत्तकथं
लोकक्खायिकं समुद्धक्खायिकं इति भवाभवकथं इति वा । एवं पि
पादलोलो होति ।

न पादलोलस्सा ति । पादलोलियं पजहेय्य विनोदेय्य व्यन्ति
करेय्य अनभावं गमेय्य, पादलोलिया आरतो अस्स विरतो पटिविरतो 20 B. 375
निक्खन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसञ्चुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा
विहरेय्य चरेय्य विचरेय्य इरियेय्य वत्तेय्य पालेय्य यपेय्य थापेय्य,
पटिसल्लानारामो अस्स पटिसल्लानरतो अज्झत्तं चेतोसमथमनुयुत्तो
अनिराकतज्झानो विपस्सनाय समन्नागतो ब्रूहेता सुञ्जागारानं भायी
ज्ञानरतो एकत्तमनुयुत्तो परमत्थगरुको ति - भायी न पादलोलस्स । 25

विरमे कुक्कुच्चा नप्पमज्जेय्या ति । कुक्कुच्चं ति । हत्थ-
कुक्कुच्चं पि कुक्कुच्चं, पादकुक्कुच्चं पि कुक्कुच्चं, हत्थपादकुक्कुच्चं

१ गुह्यतो - स्या०, रो० । २ मालतो माल - सी० । ३-३ उट्ठतो उट्ठ - रो० ।

४ उद्दोषिततो उद्दोषित गच्छति उपट्टानसालतो - सी०; उद्दोषिततो उद्दोषितं गच्छति
उपट्टानसालतो - स्या०, रो० ।

पि कुक्कुच्चं, अकप्पिये कप्पियसञ्जिता, कप्पिये अकप्पियसञ्जिता, अवज्जे वज्जसञ्जिता, वज्जे अवज्जसञ्जिता, यं एवरूपं कुक्कुच्चं कुक्कुच्चायना कुक्कुच्चायितत्तं चेतसो विप्पटिसारो मनोविलेखो-इदं वुच्चति कुक्कुच्चं।

5 अपि च, द्वीहि कारणेहि उप्पज्जति कुक्कुच्चं चेतसो विप्पटिसारो मनोविलेखो - कतत्ता च अकतत्ता च। कथं कतत्ता च अकतत्ता च उप्पज्जति कुक्कुच्चं चेतसो विप्पटिसारो मनोविलेखो? "कतं मे कायदुच्चरितं, अकतं मे कायसुचरितं" ति उप्पज्जति कुक्कुच्चं चेतसो विप्पटिसारो मनोविलेखो, "कतं मे वचीदुच्चरितं, अकतं मे वचीसुचरितं" ति उप्पज्जति कुक्कुच्चं चेतसो विप्पटिसारो मनोविलेखो, "कतं मे मनोदुच्चरितं, अकतं मे मनोसुचरितं ... कतो मे पाणातिपातो, अकता मे पाणातिपाता वेरमणी" ति उप्पज्जति कुक्कुच्चं ...पे०... मनोविलेखो, "कतं मे अदिन्नादानं ... कतो मे कामेसु मिच्छाचारो ... कतो मे मुसावादो ... कता मे पिसुणवाचा ... कता मे फरुसवाचा ... कतो मे सम्फप्पलापो ... कता मे अभिज्झा ... कतो मे व्यापादो ... कता मे मिच्छादिट्ठि, अकता मे सम्मादिट्ठि"-ति उप्पज्जति कुक्कुच्चं चेतसो विप्पटिसारो मनोविलेखो। एवं कतत्ता च अकतत्ता च उप्पज्जति कुक्कुच्चं चेतसो विप्पटिसारो मनोविलेखो।

B. 376

अथ वा, "सीलेसुम्हि न परिपूरकारी" ति उप्पज्जति कुक्कुच्चं चेतसो विप्पटिसारो मनोविलेखो, "इन्द्रियेसुम्हि अगुत्तद्वारो" ति .. "भोजने अमत्तञ्चुम्ही" ति ... "जागरियं अननुयुत्तोम्ही" ति .. "न सतिसम्पज्जनेन समन्नागतोम्ही" ति ... "अभाविता मे चत्तारो सतिपट्टाना" ति ... "अभाविता मे चत्तारो सम्मप्यधाना" ति ... "अभाविता मे चत्तारो इद्धिपादा" ति ... "अभावितानि मे पञ्चिन्द्रियानी" ति ... "अभावितानि मे पञ्च बलानी" ति ... "अभाविता मे सत्त वोक्कङ्गा" ति ... "अभावितो मे अरियो अट्टङ्गिको मग्गो" ति ... "दुक्खं मे अपरिज्जातं" ति ... "समुदयो मे अप्पहीनो" ति ... "मग्गो मे अभावितो" ति ... "निरोधो मे असञ्चिकतो" ति उप्पज्जति कुक्कुच्चं चेतसो विप्पटिसारो मनोविलेखो। विरमे कुक्कुच्चा ति। कुक्कुच्चा आर-

मेय्य विरमेय्य पटिविरमेय्य कुक्कुच्चं पजहेय्य विनोदेय्य व्यन्ति
करेय्य अनभावं गमेय्य । कुक्कुच्चा आरतो अस्स विरतो पटिविरतो
निक्खन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसञ्जुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा
विहरेय्या ति - विरमे कुक्कुच्चा ।

नप्पमज्जेय्या ति । सक्कच्चकारी अस्स सातच्चकारी 5
अट्टितकारी अनोलीनवृत्तिको अनिक्खत्तच्छन्दो अनिक्खत्तधुरो अप्प-
मादो कुसलेसु धम्मेसु । “कदाहं अपरिपूरं वा सीलक्खन्धं परिपूरेय्यं,
परिपूरं वा सीलक्खन्धं तत्थं तत्थं पञ्जाय अनुगण्हेय्यं” ति ? यो
तत्थ छन्दो च वायामो च उस्साहो च उस्सोळ्ही च थामो च
अप्पटिवानी च सति च सम्पजञ्जं च आतप्पं पधानं अधिट्टानं 10
अनुयोगो अप्पमादो कुसलेसु धम्मेसु । “कदाहं अपरिपूरं वा समाधि-
क्खन्धं ... पञ्जाक्खन्धं .. विमुत्तिक्खन्धं ... विमुत्तिवाणदस्सनक्खन्धं ?
कदाहं अपरिञ्जातं वा दुक्खं परिजानेय्यं, अप्पहीने वा किलेसे पजहेय्यं,
अभावितं वा मगं भावेय्यं, असच्छिकतं वा^१ निरोधं सच्छिकरेय्यं”
ति ? यो तत्थ छन्दो च वायामो च उस्साहो च उस्सोळ्ही च थामो 15
च अप्पटिवानी च सति च सम्पजञ्जं च आतप्पं पधानं अधि-
ट्टानं अनुयोगो अप्पमादो कुसलेसु धम्मेसु ति - विरमे कुक्कुच्चा
नप्पमज्जेय्य ।

B. 284

B. 377

अथासनेसु सयनेसु अप्पसद्देसु भिक्खु विहरेय्या ति । अथा ति ।
पदसन्धि...पे०...आसनं वुच्चति यत्थ निसीदति - मच्चो पीठं भिसि 20
तट्टिका चम्मखण्डो^४ तिणसन्थारो पण्णसन्थारो^५ पलालसन्थारो^६ ।
सयनं वुच्चति सेनासनं विहारो अड्डयोगो पासादो हम्मियं गुहा ति
- अथासनेसु सयनेसु ।

अप्पसद्देसु भिक्खु विहरेय्या ति । अप्पसद्देसु अप्पनिग्घोसेसु
विजनवातेसु मनुस्साराहस्सेय्यकेसु पटिसल्लानसारूपेसु^७ सेनासनेसु 25
चरेय्य विचरेय्यं^८ विहरेय्य इरियेय्य वत्तेय्य पालेय्य अपेय्य यापेय्या
ति - अथासनेसु सयनेसु अप्पसद्देसु भिक्खु विहरेय्य । तेनाह भगवा -

१ अप्पमत्तो - सी०, स्या० । २-२. तत्थ - स्या०, रो० । ३. सी० पोत्यके नत्थि ।
४ चम्मखण्डो - रो० । ५ रो० पोत्यके नत्थि । ६ पलास० - स्या०, रो० । ७ सारूपेसु -
स्या०, रो० । ८ स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि ।

“भायी न पादलोलस्र,
विरमे कुक्कुच्चा नप्पमज्जेय्य ।
अथासनेसु सयनेसु,
अप्पसद्देसु भिक्खु विहरेय्या” ति ॥

5 १६१. निद्दं न बहुलीकरेय्य,
जागरियं भजेय्य आतापी ।
तन्दिं मायं हस्सं^१ खिद्धं,
मेथुनं विप्पजहे सविभूसं ॥

निद्दं न बहुलीकरेय्या ति । रत्तिन्दिवं छकोट्टासं कारेत्वां
10 पञ्चकोट्टासं पटिपज्जेय्य^२ एककोट्टासं निप्पज्जेय्या ति—निद्दं न
बहुलीकरेय्य ।

जागरियं भजेय्य आतापी ति । इध भिक्खु दिवसं चङ्कमेन
निसज्जाय आवरणीयेहि धम्मोहि चित्तं परिसोघेय्य, रत्तिया पठमं
यामं चङ्कमेन निसज्जाय आवरणीयेहि धम्मोहि चित्तं परिसोघेय्य,
15 रत्तिया मज्झिमं यामं दक्खिणेन पस्सेन सीहसेय्यं कप्पेय्य पादेपादं^३
अच्चाधाय सतो सम्पजानो उट्टानसञ्जं मनसिकरित्वा, रत्तिया
पच्छिमं यामं पच्चुट्टाय चङ्कमेन निसज्जाय आवरणीयेहि धम्मोहि
चित्तं परिसोघेय्य ।

जागरियं भजेय्या ति । जागरियं भजेय्य सम्भजेय्य सेवेय्यं^४
20 निसेवेय्य संसेवेय्यं^५ पटिसेवेय्या ति—जागरियं भजेय्य ।

आतापी ति । आतप्पं बुच्चति वीरियं । यो चेतसिको वीरिया-
रम्भो निक्कमो^६ परक्कमो उय्यामो वायामो उस्साहो उस्सोळ्ही
थामो ठित्तिं^७ असिथिलपरक्कमता अनिक्खित्तच्छन्दता अनिक्खित्त-
धुरता धुरसम्पगाहो^८ वीरियं वीरियिन्द्रियं वीरियवलं सम्मावायामो ।
25 इमिना आतापेन उपेतो समुपेतो उपगतो समुपगतो उपपन्नो समुपपन्नो
समन्नागतो सो बुच्चति आतापी ति—जागरियं भजेय्य आतापी ।

१ हस्सं—स्या०, रो० । २ करित्वा—सी०, स्या०, रो० । ३ पटिपज्जेय्य—सी०,
जागरिय्य—स्या०, रो० । ४ पदे पादं—रो० । ५-६ स्या०, रो० पौत्वकेसु नत्ति । ६
निक्कमो—सी० । ७ वित्ति—स्या०, रो० । ८ धुरसम्पगाहो—म० । ९ मय्यन्नो—मी० ।

तन्दि मायं हस्सं खिड्डं मेथुनं विष्पजहे सविभूसं ति। तन्दी
 ति। तन्दी' तन्दिद्यना तन्दिद्यित्तं तन्दिमनकता' आलस्यं आलस्या-
 यना आलस्यायित्तं'। माया वुच्चति वञ्चनिका चरिया। इधे-
 कच्चो कायेन दुच्चरितं चरित्वा ... वाचाय . . पे० ... मनसा दुच्चरितं
 चरित्वा तस्स पटिच्छादनहेतु पापिकं इच्छं पणिदहति'। मा मं 5
 जञ्जा ति इच्छति, मा मं जञ्जा ति सङ्कप्पेति, मा मं जञ्जा
 ति वाचं भासति, मा मं जञ्जा ति कायेन परक्कमति। या एवरूपा
 मायाविता' अच्चसरा वञ्चना निकति निकिरणा परिहरणा'
 गूहना परिगूहना छादना परिच्छादना' अनुत्तानीकम्मं अनाविकम्मं
 बोच्छादना पापकिरिया - अयं वुच्चति माया। हस्सं ति। इधेकच्चो 10
 अतिवेलं दन्तविदंसकं हसति। वुत्तं हेतं भगवता - "कुमारकमिदं",
 भिक्खवे, अरियस्स विनये यदिदं अतिवेलं दन्तविदंसकं हसितं" ति।

R. 379

खिड्डा ति। द्वे खिड्डा - कायिका च खिड्डा वाचसिका च
 खिड्डा। कतमा कायिका खिड्डा? हत्थीहि पि कीळन्ति, अस्सेहि
 पि कीळन्ति, रथेहि पि कीळन्ति, धनूहि पि कीळन्ति, अट्टपदेहि पि 16
 कीळन्ति, दसपदेहि पि कीळन्ति, आकासे पि' कीळन्ति, परिहारपथे
 पि कीळन्ति, सन्तिकाय पि कीळन्ति, खलिकाय पि कीळन्ति, घटिकाय
 पि कीळन्ति, सलाकहत्थेन पि कीळन्ति, अक्खेन पि कीळन्ति,
 पङ्कचिरेन' पि कीळन्ति, वङ्ककेन पि कीळन्ति, मोक्खचिकाय पि
 कीळन्ति, चिड्गुलकेन पि कीळन्ति, पत्ताळहकेन पि कीळन्ति, रथकेन 20
 पि कीळन्ति, धनुकेन पि कीळन्ति, अक्खरिकाय पि कीळन्ति,
 मनेसिकाय पि कीळन्ति, यथावज्जेन पि कीळन्ति - अयं कायिका
 खिड्डा। कतमा वाचसिका खिड्डा? मुखभेरिकं" मुखालम्बरं"
 मुखडिण्डिमकं" मुखवल्लिमकं मुखभेरिकं" मुखदहरिकं नाटकं" लाप"
 गीतं दवकम्मं - अयं वाचसिका खिड्डा। 25

B. 296

25

१ या तन्दी - सी०, स्या०, रो०। २-२ तन्दिमनत्तं आलस्यं आलसायना आलसा-
 यित्तं अय वुच्चति तन्दि मायाति - सी०, स्या०, रो०। ३ पदहति - स्या०; पनिदहति - रो०।
 ४ माया मायाविता - सी०, स्या०, रो०। ५ निहरणा परिहरणा - स्या०। ६ पटिच्छादना -
 सी०, रो०। ७ कुमारकमिदं - सी०। ८ कीळन्ति - रो०; एवमुपरि पि। ९ हि - सी०,
 स्या०, रो०। १०. पङ्कचिरेन - रो०। ११-११. मुख भेरियं मुखालम्बरं - स्या०, रो०।
 १२. मुखवेण्डिमकं - सी०, स्या०, रो०। १३ मुखभेरिकं - सी०। १४-१४. ० लासं - सी०;
 नाटिकं लासं - स्या०, रो०।

- मेथुनधम्मो नाम यो सो असद्धम्मो गामधम्मो वसलधम्मो
 बुट्टुल्लो ओदकन्तिको रहस्सो द्वयं द्वयसमापत्ति'। किकारणा वुच्चति
 मेथुनधम्मो? उभिन्नं रत्तानं सारत्तानं अवस्सुतानं परियुट्ठितानं
 परियादिन्नचित्तानं उभिन्नं सदिसानं धम्मो ति, तंकारणा वुच्चति
 ४ मेथुनधम्मो। यथा उभो कलहकारका मेथुनका' ति वुच्चन्ति,
 उभो भण्डनकारका .. उभो भस्सकारका . उभो अधिकरणकारका ...
 उभो विवादकारका .. उभो वादिनो ... उभो सल्लापका मेथुनका ति
 वुच्चन्ति; एवमेव उभिन्नं रत्तानं सारत्तानं अवस्सुतानं परियुट्ठितानं
 परियादिन्नचित्तान उभिन्नं सदिसानं धम्मो ति, तंकारणा वुच्चति
 10 मेथुनधम्मो।

- विभूसा ति। द्वे विभूसा-अत्थि अगारियस्स' विभूसा,
 अत्थि पव्वजितस्स विभूसा। कतमा अगारियस्स विभूसा? केसा च
 मस्सु च माला च गन्धा च विलेपना च आभरणा च पिलन्धनां च
 वत्थं च सयनासनं च वेठनं च उच्छादनं परिमह्दं न्हापनं सम्भा-
 15 हनं आदासं अञ्जनं मालाविलेपनं मुखचुण्णकं मुखलेपं हृत्यवन्धं
 सिखावन्धं दण्डनालियं खगं छत्तं चित्रा उपाहना उण्हीसं मणिं
 वाळवीजनीं ओदातानि वत्थानि दीघदसानि" इति वा-अयं अगा-
 रियस्स विभूसा। कतमा पव्वजितस्स विभूसा? चीवरमण्डना पत्त-
 मण्डना सेनासनमण्डना" इमस्स वा पूतिकायस्स बाहिरानं वा" परि-
 20 क्खारानं मण्डना विभूसना केळना परिकेळना गेधितता" गेधिततं
 चपलता" चापल्यं-अयं पव्वजितस्स विभूसा।

तान्दि मायं हस्सं खिड्डं मेथुनं विप्पजहे सविभूसं ति।
 तान्दि च मायं च हस्सं च खिड्डं च मेथुनधम्मं च सविभूसं सपरिवारं
 सपरिभण्डं सपरिक्खारं पजहेय्य विनोदेय्य व्यन्ति करेय्य अनमावं

१. द्वयद्वयसमापत्ति-स्या०, रो०। २-२ स्या०, रो० पोत्यकेषु नत्थि। ३ अग-
 रियस्स-स्या०, रो०। ४ पिलन्धना-स्या०। ५ पसाधन-स्या०; पसाधन-रो०।
 ६. वेठन-स्या०, रो०। ७ न्हापन-सी०। ८ हृत्यवन्धन-सी०। ९ वित्तिवस्त्रावन्ध-
 स्या०, रो०। १० दण्डनालिय-सी०; दण्ड नालिय-स्या०; दण्ड नालिक-रो०। ११.
 उण्हीस-स्या०। १२-१२ ० वाळवीजनी-सी०; मणि वालविजनी-स्या०, रो०। १३.
 दीघरस्सानि-स्या०, रो०। १४. स्या०, रो० पोत्यकेषु नत्थि। १५ स्या०, रो० पोत्यकेषु
 नत्थि। १६. गेधिकता-स्या०, रो०। १७. चपलता-स्या०, रो०।

गमेय्या ति—तन्दि मायं हस्सं खिह्वं मेथुनं विप्पजहे सविभूसं ।
तेनाह भगवा—

“निह्वं न बहुलीकरेय्य,

B 297

जागरियं भजेय्य आतापी ।

तन्दि मायं हस्सं खिह्वं,

5

मेथुनं विप्पजहे सविभूसं” ति ॥

१६२. आथब्बणं सुपिनं लक्खणं,

B 381

नो विदहे अथो पि नक्खत्तं ।

विह्वं च गम्भकरणं,

तिक्किच्छं मानको न सेवेय्य ॥

10

आथब्बणं सुपिनं लक्खणं नो विदहे अथो पि नक्खत्तं ति ।
आथब्बणिका आथब्बणं पयोजेन्ति, नगरे वा रुद्धे सङ्गामे वा पच्चु-
पट्टिते परसेनपच्चत्थिकेसु^१ पच्चामित्तिसु ईति उप्पादेन्ति, उपह्वं
उप्पादेन्ति, रोगं उप्पादेन्ति, पज्जरकं करोन्ति, सूळं करोन्ति, विसू-
चिकं करोन्ति, पक्खन्दिकं करोन्ति । एवं आथब्बणिका आथब्बणं
पयोजेन्ति ।

16

सुपिनपाठका सुपिनं आदिसन्ति, यो पुव्वण्हसमयं सुपिनं
पस्सति, एवं विपाको होति । यो मज्झन्धिकसमयं^२ सुपिनं पस्सति,
एवं विपाको होति । यो सायन्हसमयं सुपिनं पस्सति, एवं विपाको
होति । यो पुरिमं यामे ... यो मज्झिमं यामे ... यो पच्छिमं यामे ... यो
दक्खिण्णेन पस्सेन निपन्नो ... यो वामेन पस्सेन निपन्नो . . यो उत्तानं
निपन्नो ... यो अवकुज्ज निपन्नो ... यो चन्दं पस्सति ... यो सूरियं पस्सति
... यो महासमुद्धं पस्सति ... यो सिनेहं पव्वतराजानं पस्सति .. यो हत्थि
पस्सति ... यो अस्सं पस्सति ... यो रथं पस्सति ... यो पत्तिं पस्सति ... यो
सेनाव्यूहं पस्सति ... यो आरामरामण्यकं पस्सति ... यो वनरामण्यकं
पस्सति ... यो भूमिरामण्यकं पस्सति ... यो पोक्खरणीरामण्यकं^३
पस्सति, एवं विपाको होती ति । एवं सुपिनपाठका सुपिनं आदि-
सन्ति ।

20

26

१ विह्वं—स्या०, रो० । २. परसेनायपच्चत्थिकेसु—सी०; पच्चत्थिकेसु—स्या०,
रो० । ३ मज्झन्तिकसमय—सी०, स्या०, रो०; एवमुपरि पि । ४ पोक्खरिणी०—सी० ।

11. 298,
R 352

लक्षणापाठका लक्षणं आदिसन्ति - मणिलक्षणं दण्ड-
लक्षणं वत्यलक्षणं असिलक्षणं उसुलक्षणं धनुलक्षणं आनु-
लक्षणं इत्यलक्षणं पुरिसलक्षणं कुमारिकालक्षणं कुमारलक्षणं
दासिलक्षणं दामलक्षणं हृत्यलक्षणं अस्सलक्षणं महिसलक्षणं
उसमलक्षणं गौणलक्षणं अजलक्षणं मेण्डलक्षणं कुक्कुटलक्षणं
वटुकलक्षणं गोपाललक्षणं कण्ठिकालक्षणं कच्छपलक्षणं मिंग-
लक्षणं इति वा ति । एवं लक्षणपाठका लक्षणं आदिसन्ति ।

नखत्तपाठका नखत्तं आदिसन्ति । अट्टवीमति नखत्तानि ।
इमिना नखत्तेन धरप्पवेसो कत्तच्चो, इमिना नखत्तेन मकुत्तं वन्धि-
10 तच्चं, इमिना नखत्तेन वारेय्यं कारेतच्चं, इमिना नखत्तेन वीज-
नीहारो कत्तच्चो, इमिना नखत्तेन संवासो गल्लच्चो ति । एवं
नखत्तपाठका नखत्तं आदिसन्ति ।

आयव्वणं सुपिनं लक्षणं नो विदहे अयो पि नखत्तं ति ।
आयव्वणं च सुपिनं च लक्षणं च नखत्तं च नो विदहेय्यं न चरेय्यं
15 न समाचरेय्यं न समादाय वत्तेय्यं । अय वा, न गण्हेय्यं न उग-
ण्हेय्यं न धारेय्यं न उपधारेय्यं न उपलक्षेय्यं नप्ययोजेय्यं ति -
आयव्वणं सुपिनं लक्षणं नो विदहे अयो पि नखत्तं ।

विस्तं च गम्भकरणं तिकिच्छं मामको न सेवेय्या ति ।
विस्तं वुच्चति मिंगवाक्कं । मिंगवाक्कपाठका मिंगवाक्कं आदिसन्ति -
20 सकुन्तानं वा चतुप्पदानं वा रत्तं वस्सितं जानन्ती ति । एवं मिंग-
वाक्कपाठका मिंगवाक्कं आदिसन्ति । गम्भकरणीया गम्भं सण्ठा-
पेन्ति । द्वीहि कारणेहि गम्भो न सण्ठाति - पाणकेहि वा वातकुप्पेहि
वा । पाणकानं वा वातकुप्पानं वा पटिघाताय ओसधं देन्ती ति ।
एवं गम्भकरणीया गम्भं सण्ठापेन्ति । तिकिच्छा ति । पञ्च तिकिच्छा -
25 सालाकियं, सल्लकत्तियं, कायतिकिच्छं, भूतियं, कोमारमच्चं । मामको

१. कुमारिलक्षणं - स्या०; कुमारिलक्षणं - रो० । २. दानिलक्षणं - सी०, स्या० ।
३. स्या० पौत्यके नत्थि; गोलक्षणं - रो० । ४. धरप्पवेसो - स्या०, रो० । ५-५ धरप्पयो
कत्तच्चो - स्या०, रो० । ६ सी० पौत्यके नत्थि । ७ नयोजेय्या - स्या०, रो० । ८ मिंग-
वाक्कं - सी०; मिंगवाक्कं - स्या०, रो०; एवमुपरि पि । ९ सकुन्तानं - स्या०, रो० । १०
रत्तं - स्या०, रो० । ११ ओसधं - स्या० । १२. कायतिकिच्छं - स्या०, रो० । १३. कोमा-
रकत्तं - स्या०, रो० ।

ति। बुद्धमामको धम्ममामको सङ्घमामको, सो वा भगवन्तं ममायति भगवा वा तं पुगलं परिगण्हाति^१। वुत्तं हेतं भगवता—“ये ते, भिक्खवे, भिक्खू कुहा थद्धा लपा सिङ्गी उन्नळा असमाहिता न मे ते, भिक्खवे, भिक्खू मामका, अपगता च ते, भिक्खवे, भिक्खू इमस्मा धम्मविनया, न च ते भिक्खू इमस्मि धम्मविनये वुद्धि विरूळिहं वेपुल्लं आपज्जन्ति। ये च खो, भिक्खवे^२, भिक्खू निक्कुहा निल्लपा धीरा अत्थद्धा^३ सुसमाहिता ते खो^४ मे, भिक्खवे^५, भिक्खू मामका न च अपगता ते, भिक्खवे, भिक्खू इमस्मा धम्मविनया, ते च भिक्खू इमस्मि धम्मविनये वुद्धि विरूळिहं वेपुल्लं आपज्जन्ति”^६।

R 383

कुहा थद्धा लपा सिङ्गी, उन्नळा असमाहिता।
न ते धम्मे विरूहन्ति, सम्मासम्बुद्धदेसिते ॥

10 B 299

निक्कुहा निल्लपा धीरा, अत्थद्धा सुसमाहिता।
ते वे धम्मे विरूहन्ति, सम्मासम्बुद्धदेसिते ॥

विरुत्तं च गम्भकरणं तिकिच्छं मामको न सेवेय्या ति।
विरुत्तं च गम्भकरणं च तिकिच्छं च मामको न सेवेय्य न निसेवेय्य
न^७ संसेवेय्य^८ नप्पटिसेवेय्य^९ न चरेय्य न समाचरेय्य न समादाय
वत्तेय्य। अथ वा, न गण्हेय्य न उग्गण्हेय्य न^{१०} धारेय्य^{११} न उपधारेय्य
न उपलक्खेय्य नप्पयोजेय्या^{१२} ति—विरुत्तं च गम्भकरणं तिकिच्छं
मामको न सेवेय्य। तेनाह भगवा—

16

“आथब्बणं सुपिनं लक्खणं,
नो विदहे अथो पि नक्खत्तं।
विरुत्तं च गम्भकरणं,
तिकिच्छं मामको न सेवेय्या” ति ॥

20

१६३. निन्दाय नप्पवेधेय्य,
न उन्नमेय्य पसंसितो भिक्खु।

R 384

25

१ परिगण्हाति—सी०। २ स्या० पोत्यके नत्थि, भिक्खवे भिक्खू—रो०। ३. ते भिक्खवे—स्या०, रो०। ४ अथद्धा—स०। ५ च खो—स्या०, रो०। ६ रो० पोत्यके नत्थि। ७-९ स्या०, रो० पोत्यकेषु नत्थि। ८ नपटिसेवेय्य—स्या०, रो०। ९-९ सी० पोत्यके नत्थि। १० नप्पयुज्जेय्या—स्या०, रो०।

लोभं सह मच्छरियेन,
कोषं पेसुणियं च पनुदेय्य' ॥

निन्दाय नप्पवेधेय्या ति । इधेकच्चे भिक्खू' निन्दन्ति जातिया वा गोत्तेन वा कोलपुत्तियेन' वा वण्णपोक्खरताय वा धनेन वा अज्जे-
नेन वा कम्मायतनेन वा सिप्पायतनेन वा विज्जाट्टानेन' वा सुतेन वा
पटिभानेन वा अञ्जतरञ्जतरेन वा वत्थुना निन्दन्ति गरहन्ति उप-
वदन्ति, निन्दतो गरहितो उपवदितो निन्दाय गरहाय उपवादेन
अकित्तिया अवण्णहारिकाय न वेधेय्य नप्पवेधेय्य न सम्पवेधेय्य न
तसेय्य न उत्तसेय्य न परित्तसेय्य' न भायेय्य न सन्तासं आपज्जेय्य,
अभीरू अस्स अछम्भी' अनुत्तासी अपलायी पहीनभयभेरवो विगत-
लोमहंसो विहरेय्या ति - निन्दाय नप्पवेधेय्य ।

न उन्नमेय्य पसंसितो भिक्खू ति । इधेकच्चे भिक्खू पस-
सन्ति जातिया वा गोत्तेन वा कोलपुत्तियेन वा वण्णपोक्खरताय वा
धनेन वा अज्जेनेन वा कम्मायतनेन वा सिप्पायतनेन वा विज्जा-
ट्टानेन वा सुतेन वा पटिभानेन वा अञ्जतरञ्जतरेन वा वत्थुना पसं-
सन्ति थोमेन्ति कित्तेन्ति वण्णेन्ति, पसंसितो थोमितो कित्तितो वण्णितो
पसंसाय थोमनेन कित्तिया वण्णहारिकाय उन्नति न करेय्य उन्नम' न
करेय्य मानं न करेय्य थम्भं न करेय्य, न तेन मानं जनेय्य न तेन
थद्धो अस्स पत्थद्धो पग्गहितसिरो ति - न उन्नमेय्य पसंसितो भिक्खू ।

लोभं सह मच्छरियेन कोषं पेसुणियं च पनुदेय्या ति ।
लोभो ति । यो लोभो लुब्भना लुब्भतत्त सारागो सारज्जना सार-
ज्जितत्तं अभिज्झा लोभो अकुसलमूलं । मच्छरियं ति । पञ्च
मच्छरियानि - आवासमच्छरियं ...पे०... गाहो वुच्चति मच्छरिय ।
कोषो ति । यो चित्तस्स आघातो पटिघातो पटिघ पटिविरोधो,
कोपो पकोपो सम्पकोपो, दोसो पदोसो सम्पदोसो, चित्तस्स व्यापत्ति
मनोपदोसो, कोषो कुज्झना कुज्झतत्त, दोसो दुस्सना दुस्सतत्त,
व्यापत्ति व्यापज्जना व्यापज्जतत्त, विरोधो पटिविरोधो चण्डिकं

R. 386

१ पनुदेय्य - स्या०, रो० । २ भिक्खू - सी०, स्या०, रो० । ३. कोलपुत्तियेन - स्या०,
रो० । ४ विज्जाट्टानेन - स्या०, रो० । ५ परित्तसेय्य - म०, एकमुपरि पि । ६ अछम्भी -
सी०, स्या० । ७ उन्नम - सी०, उन्नम - स्या०, रो० । ८ सारज्ज तत्त - रो० ।

असुरोपो' अनत्तमनता चित्तस्स । पेसुञ्जं' ति । इधेकच्चो पिसुण-
वाचो होति इतो सुत्वा अमुत्र अक्खाता इमेसं भेदाय, अमुत्र वा सुत्वा
इमेसं अक्खाता अमूसं भेदाय । इति समग्गानं वा भेत्ता भिन्नानं वा
अनुप्पदाता, वगारामो वग्गरतो वग्गनन्दी वग्गकरणं वाचं भासिता
होति — इदं वुच्चति पेसुञ्जं ।

5

अपि च, द्वीहि कारणेहि पेसुञ्जं उपसंहरति — पियकम्यताय
वा भेदाधिप्पायेन' वा । कथं पियकम्यताय पेसुञ्जं उपसंहरति ?
इमस्स पियो भविस्सामि मनापो भविस्सामि विस्सासिको भविस्सामि
अब्भन्तरिको भविस्सामि सुहृदयो भविस्सामी ति । एवं पियकम्यताय
पेसुञ्जं उपसंहरति । कथं भेदाधिप्पायेन पेसुञ्जं उपसंहरति ? कथं 10
इमे नाना अस्सु विना' अस्सु' वग्गा अस्सु द्वेषा' अस्सु द्वेज्जा अस्सु
द्वे पक्खा अस्सु भिज्जेय्यु' न समागच्छेय्यु दुक्खं न फासु विहरेय्युं
ति । एवं भेदाधिप्पायेन पेसुञ्जं उपसंहरति । लोभं सह मच्छरियेन
कोधं पेसुणियं च पनुदेय्या ति । लोभं च मच्छरियं च कोधं च पेसुञ्जं
च नुदेय्यं' पनुदेय्य पज्जेय्य विनोदेय्य व्यन्ति करेय्य अनभावं गमेय्या 15
ति — लोभं सह मच्छरियेन कोधं पेसुणियं च पनुदेय्य । तेनाह भगवा —

“निन्दाय नप्पवेधेय्य,

B. 301

न उन्नमेय्य पसंसितो भिक्खु ।

लोभं सह मच्छरियेन,

कोधं पेसुणियं च पनुदेय्या' ति ॥

20

१६४. कयविककये न तिट्ठेय्य,

उपवाढं भिक्खु न करेय्य कुहिञ्चि ।

गामे च नाभिसज्जेय्य,

लाभकम्या जर्नं न लपयेय्य' ॥

कयविककये न तिट्ठेय्या ति । ये कयविककया विनये पटि- 25
क्खित्ता न ते इमस्मि अत्थे अधिप्पेता । कथं कयविककये तिट्ठति ?

R. 386

१ असुरोपो—सी०, स्या०, रो० । २ पेसुणिय—सी०, स्या०, रो० । ३. भेदा-
धिप्पायो—स्या० । ४-४. सी० पोत्यके न विस्सति । ५. द्वेषा—सी०, स्या०, रो० । ६.
भिजेय्यु—सी०, स्या०, रो० । ७ स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि । ८ लपयेय्य—स्या०, रो० ।
म० नि०—४२

पञ्चस्रं सद्धि पत्तं वा चीवरं वा अञ्जं वा किञ्चि' परिक्रारं
 वञ्चनियं वा करोन्तो उदयं वा पत्थयन्तो परिवत्तेति। एवं क्य-
 विक्कये तिट्ठति। कथं क्यविक्कये न तिट्ठति? पञ्चस्रं सद्धि पत्तं
 वा चीवरं वा अञ्जं वा किञ्चि परिक्रारं न वञ्चनियं वा करोन्तो
 ५ न उदयं वा पत्थयन्तो परिवत्तेति। एवं क्यविक्कये न तिट्ठति।
 क्यविक्कये न तिट्ठेय्या ति। क्यविक्कये न तिट्ठेय्य न सन्तिहेय्य,
 क्यविक्कयं पजहेय्य विनोदेय्य व्यन्ति करेय्य अनभावं गमेय्य, क्य-
 विक्कया आरतो अस्स विरतो पटिविरतो निक्खन्तो निस्सटो विप्प-
 मुत्तो विसञ्चुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरेय्या ति - क्य-
 १० विक्कये न तिट्ठेय्य।

उपवादं भिक्खु न करेय्य कुहिञ्ची ति। कतमे उपवादकरा
 किलेसा? सन्तेके समणन्नाहाणा इद्धिमन्तो दिव्वचक्खुका परि-
 चित्तविदुनो, ते दूरतो पि पस्सन्ति आसन्ना पि न दिस्सन्ति चेतसा पि
 चित्तं पजानन्ति, देवता पि खो सन्ति इद्धिमन्तिनियो दिव्वचक्खुका
 १५ परचित्तविदुनियो, ता दूरतो पि पस्सन्ति, आसन्ना' पि न दिस्सन्ति
 चेतसा पि चित्तं पजानन्ति। ते ओळारिकेहि वा किलेसेहि मज्झि-
 मेहि वा किलेसेहि सुखुमेहि वा किलेसेहि उपवदेय्यु। कतमे ओळ-
 रिका किलेसा? कायदुच्चरितं वचीदुच्चरितं मनोदुच्चरितं - इमे
 वुच्चन्ति ओळारिका किलेसा। कतमे मज्झिमा किलेसा? काम-
 २० वितक्को व्यापादवितक्को विहिंसावितक्को - इमे वुच्चन्ति मज्झिमा
 किलेसा। कतमे सुखुमा किलेसा? आतिवितक्को, जनपदवितक्को,
 अपरवितक्को, परानुदयता' पटिसञ्चुत्तो वितक्को, लाभसक्कार-
 सिलोक्कपटिसञ्चुत्तो वितक्को, अनवञ्जत्तिपटिसञ्चुत्तो वितक्को -
 इमे वुच्चन्ति सुखुमा किलेसा। ते ओळारिकेहि वा किलेसेहि मज्झि-
 २५ मेहि वा किलेसेहि सुखुमेहि वा किलेसेहि न' उपवदेय्य' उपवादं
 न करेय्य उपवादकरे किलेसे न करेय्य न जनेय्य न सञ्जनेय्य न
 निव्वत्तेय्य नाभिनिव्वत्तेय्य, उपवादकरे किलेसे पजहेय्य विनोदेय्य
 व्यन्ति करेय्य अनभावं गमेय्य, उपवादकरेहि किलेसेहि आरतो

B. 302

B. 387

१. कञ्चि - सी०; एवमुपरि पि। २. आसन्ना - रो०। ३. अवरवितक्को - सी०,
 स्या०, रो०। ४. परानुदयता - सी०, स्या०, रो०। ५-५ उपवदेय्य - स्या०, रो०।

अस्स विरतो पटिविरतो निक्खन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसञ्जुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरेय्य। कुहिञ्ची ति। कुहिञ्चि किम्हिचि कत्थचि अज्झत्तं वा बहिद्धा वा अज्झत्तबहिद्धा वा ति—उपवादं भिक्खु न करेय्य कुहिञ्चि।

गामे च नाभिसज्जेय्या ति। कथं गामे सज्जति? इध भिक्खु 5
गामे गिहीहि संसट्ठो विहरति सहनन्दी सहसोकी सुखितेसु सुखितो दुक्खितेसु दुक्खितो, उप्पन्नेसु किञ्चकरणीयेसु अत्तना वोयोगं आपज्जति। एवं पि गामे सज्जति।

अथ वा, भिक्खु पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय गामं वा निगमं वा पिण्डाय पविसति^१ अरक्खितेनेव कायेन अरक्खिताय वाचाय अरक्खितेन चित्तेन अनुपट्ठिताय सतिया असंवुत्तेहि इन्द्रियेहि। सो तत्र तत्र सज्जति तत्र तत्र गण्हाति तत्र तत्र बज्झति तत्र तत्र अनयब्यसनं आपज्जति। एवं पि गामे सज्जति। 10

कथं गामे न सज्जति? इध भिक्खु गामे गिहीहि असंसट्ठो विहरति न सहनन्दी न सहसोकी न सुखितेसु सुखितो न दुक्खितेसु 15
दुक्खितो, उप्पन्नेसु किञ्चकरणीयेसु न अत्तना वोयोगं आपज्जति। एवं पि गामे न सज्जति।

अथ वा, भिक्खु पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय गामं वा निगमं वा पिण्डाय पविसति रक्खितेनेव कायेन रक्खिताय वाचाय रक्खितेन चित्तेन उपट्ठिताय सतिया संवुत्तेहि इन्द्रियेहि। सो 20
तत्र तत्र न सज्जति तत्र तत्र न गण्हाति तत्र तत्र न बज्झति तत्र तत्र न अनयब्यसनं आपज्जति। एवं पि गामे न सज्जति। गामे च नाभिसज्जेय्या ति। गामे न सज्जेय्य न गण्हेय्य न बज्झेय्य न पल्लि-
बज्झेय्य, अगिद्धो अस्स अगघितो अमुच्छित्तो अनज्झोसन्नो^२ वीतगेधो विगतगेधो चत्तगेधो^३ ...पे०... ब्रह्मभूतेन अत्तना विहरेय्या ति—गामे 25
च नाभिसज्जेय्य।

लाभकम्या ज्वं न लपयेय्या ति। कतमा लपना? लाभसक्का-
रसिलोकसच्चिस्सितस्स पापिच्छस्स इच्छापकतस्स आमिसचक्खुकस्स

१ वायोगं—रो०। २ पविसति—स्या०। ३ अनज्झोपन्नो—सी०, स्या०, रो०।
४ वत्तगेधो—सी०।

लोकधम्मगरुक्कस्स या परेसं आलपना लपना सल्लपना उल्लपना समु-
ल्लपना उल्लहना समुल्लहना उक्काचना^१ समुक्काचना^२ अनुपियभाणिता
चातुकम्म्यता^३ मुग्गसूप्यता^४ पारिभट्टयता^५ परिपिट्ठिमंसिकता, या तस्य
सण्हवाचता^६ सखिलवाचता^७ सिथिलवाचता^८ अफरसवाचता - अयं
६ वुच्चति लपना ।

अपि च द्वीहि कारणेहि जणं लपति - अत्तानं वा नीचं
ठपेन्तो परं उच्चं ठपेन्तो जणं लपति, अत्तानं वा उच्चं ठपेन्तो पर
नीचं ठपेन्तो जणं लपति । कथं अत्तानं नीचं ठपेन्तो परं उच्चं ठपेन्तो
जणं लपति? "तुम्हे मे बहूपकारा, अहं तुम्हे निस्साय लभामि
१० चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपञ्चयभेसज्जपरिक्खारं, ये पि मे अञ्जे
दातुं वा कातुं वा मञ्जन्ति, तुम्हे निस्साय तुम्हे सम्पस्सन्ता यं पि
मे पुराणं मातापेत्तिकं" नामधेयं तं पि मे अन्तरहितं । तुम्हेहि
अहं वायामि असुकस्स कुलूपको^९ असुकाय कुलूपको^{१०} ति । एवं
अत्तानं नीचं ठपेन्तो परं उच्चं ठपेन्तो जणं लपति ।

१५ कथं अत्तानं उच्चं ठपेन्तो परं नीचं ठपेन्तो जणं लपति ?
"अहं तुम्हाकं बहूपकारो, तुम्हे मं आगम्म वुद्धं सरणं गता, धम्मं
सरणं गता, सङ्घं सरणं गता, पाणातिपाता पटिविरता, अदिन्नादाना
पटिविरता, कामेसु मिच्छाचारा पटिविरता, मुसावादा पटिविरता,
सुरामेरयमज्जप्पमादद्धाना पटिविरता । अहं तुम्हाकं उद्देसं देमि,
२० परिपुच्छं देमि, उपोसथं आचिक्खामि, नवकम्म अधिद्वामि । अथ पनं^{११}
तुम्हे मं उज्झित्वा^{१२} अञ्जे सक्करोथ गरं करोथ मानेथ पूजेथा^{१३} ति ।
एवं अत्तानं^{१४} उच्चं ठपेन्तो परं नीचं ठपेन्तो जणं लपति ।

R. 389

B. 304

लाभकम्म्या जणं न लपयेम्या ति । लाभहेतु लाभपच्चया^{१५}
लाभकारणा लाभामिनिव्वत्तिया लाभं परिपाचेन्तो जणं न लपयेम्य,^{१६}
२५ लपनं पजहेम्य विनोदेम्य व्यन्ति करेम्य अनभ्रावं गमेम्य, लपना^{१७}

१-१ उक्कापना समुक्कापना - स्या०, रो० । २ चाटुकम्म्यता - सी०, पातु० - स्या०,
रो० । ३ मुग्गसूप्यता - सी०; मुग्गसूप्यता - स्या०, रो० । ४ पारिभट्टयता - सी० । ५
सण्हवाचकता - स्या०, रो०, एवमुपरि पि । ६ मेत्तवाचकता - स्या०, रो० । ७ मातापित्तिक-
स्या०, रो० । ८ कुलूपको - स्या०, रो० । ९ च पन - सी०, स्या०, रो० । १० उल्ल-
ज्जित्वा - स्या०, रो० । ११ पि० - सी०, स्या०, रो० । १२ स्या०, रो० पीत्यकेसु नत्ति ।
१३ लपेम्य - सी० । १४ आलपना - स्या० ।

आरतो अस्स विरतो पटिविरतो निक्खन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विस-
ञ्जुत्तो विमरियादिकत्तेन चेतसा विहरेय्या ति - लाभकम्या जनं न
लपयेय्य^१ । तेनाह भगवा -

“कयविककये न तिद्वेय्य,
उपवादं भिक्खु न करेय्य कुहिञ्चि ।
गामे च नाभिसज्जेय्य,
लाभकम्या जनं न लपयेय्या” ति ॥

१६५. न च कत्थिको^२ सिया भिक्खु,
न च वाचं पयुत्तं भासेय्य ।
पागब्भियं न सिक्खेय्य,
कथं विग्गाहिकं न कथयेय्य ॥

न च कत्थिको सिया भिक्खु ति । इधेकच्चो कत्थी होति
विकत्थी । सो कत्थति विकत्थति^३ अहमस्मि सीलसम्पन्नो ति वा
वतसम्पन्नो ति वा सीलव्वतसम्पन्नो ति वा जातिया वा गोत्तेन वा
कोलपुत्तियेन वा वण्णपोक्खरताय वा घनेन वा अज्जेनेन^४ वा^५
कम्मायतनेन वा सिप्पायतनेन वा विज्जाट्टानेन वा सुतेन वा पटि-
भानेन वा अञ्जतरञ्जतरेन वा वत्थुना । उच्चा कुला पव्वजितो ति
वा महाभोगकुला पव्वजितो ति वा उळारभोगकुला पव्वजितो ति
वा सुत्तन्तिको ति वा विनयघरो ति वा धम्मकथिको ति वा आर-
ञ्जिको ति वा ...पे०... नेवसञ्जानासञ्जायतनसमापत्तिया लाभी ति २०
वा कत्थति विकत्थति । एवं न^६ कत्थेय्य^७ न विकत्थेय्य, कत्थं^८ पज-
हेय्य विनोदेय्य व्यन्ति करेय्य अनभावं गमेय्य, कत्थना आरतो अस्स
विरतो पटिविरतो निक्खन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसञ्जुत्तो विम-
रियादिकत्तेन चेतसा विहरेय्या ति - न च कत्थिको सिया भिक्खु ।

न च वाचं पयुत्तं भासेय्या ति । कतमा पयुत्तवाचा ? इधे-
कच्चो चीवरपयुत्तं वाचं भासति, पिण्डपातपयुत्तं वाचं भासति, सेना- २५

B 305,
R. 390

१. लपयेय्य - म०; लपयेय्य - स्या०, रो० । २. कत्थिता - स्या०, रो०; एवमुपरि
पि । ३. स्या०, रो० पोत्यकेषु नत्थि । ४-५. रो० पोत्यके नत्थि । ५-५ स्या०, रो०
पोत्यकेषु नत्थि । ६. कत्थनं - सी०; विकत्थं - स्या०, रो० ।

सनपयुत्तं वाचं भासति, गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारपयुत्तं वाचं भासति - अयं पि' वुच्चति पयुत्तवाचा ।

- अथ वा, चीवरहेतु पिण्डपातहेतु सेनासनहेतु गिलानपच्चय-
भेसज्जपरिक्खारहेतु सच्चं पि भणति मुसा पि भणति, पिसुणं पि
५ भणति अपिसुणं पि भणति, फरुसं पि भणति अफरुसं पि भणति,
सम्फप्पलापं पि भणति असम्फप्पलापं पि भणति, मन्ता पि वाच
भासति - अयं पि वुच्चति पयुत्तवाचा । अथ वा, पसच्चित्तो परेस
धम्मं देसेति - "अहो वत मे धम्मं सुणेय्यु, सुत्वा व' धम्मं पसीदेय्यु,
पसन्ना च मे पसन्नाकारं करेय्यु" ति - अयं वुच्चति' पयुत्तवाचा ।
१० न च वाचं पयुत्तं भासेय्या ति । अन्तमसो धम्मदेसनं' वाचं उपा-
दाय पयुत्तवाचं न भासेय्य न कथेय्य न भणेय्य न दीपेय्य' न बोह-
रेय्य, पयुत्तं वाचं पजहेय्य विनोदेय्य व्यन्ति करेय्य अनभावं गमेय्य,
पयुत्तवाचाय आरतो अस्स विरतो पटिविरतो निक्खन्तो निस्सटो
विप्पमुत्तो विसञ्जुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरेय्या ति - न
१५ च वाचं पयुत्तं भासेय्य ।

पागब्भियं न सिक्खेय्या ति । पागब्भियं ति । तीणि पाग-
ब्भियानि - कायिकं पागब्भियं, वाचसिकं पागब्भियं, चेतसिकं पाग-
ब्भियं । कतमं कायिक पागब्भियं ? इधेकच्चो सङ्घगतो पि कायिकं
पागब्भियं दस्सेति, गणगतो पि कायिकं पागब्भियं दस्सेति, भोजन-
२० सालाय पि कायिकं पागब्भियं दस्सेति, जन्ताघरे पि कायिकं पाग-
ब्भियं दस्सेति, उदकतित्थे पि कायिकं पागब्भियं दस्सेति, अन्तरघरं
पविसन्तो पि कायिकं पागब्भियं दस्सेति, अन्तरघरं पविट्ठो पि कायिकं
पागब्भियं दस्सेति ।

कथं सङ्घगतो कायिकं पागब्भियं दस्सेति ? इधेकच्चो सङ्घ-
२५ गतो अचित्तीकारकतो' थरे भिक्खू घट्टयन्तो पि तिट्ठति, घट्टयन्तो
पि निसीदति, पुरतो पि तिट्ठति, पुरतो पि निसीदति, उच्चे पि
आसने निसीदति, ससीसं पाहपित्वा निसीदति', ठित्तको पि भणति,

R 391

१. स्या०, रो० पोत्वकेषु नत्वि । २. च - सी०, स्या०, रो० । ३. पि वुच्चति - सी० ।
४. धम्मदेसना - स्या०, रो० । ५. दीपयेय्य - स्या०, रो० । ६. अचित्तिकारकतो - स्या०,
रो० । ७. पि निसीदति - सी०, स्या०, रो० ।

बाह्याविकल्पकोऽपि भणति । एवं सङ्घगतो कायिकं पागम्भियं दस्सेति ।

कथं गणगतो कायिकं पागम्भियं दस्सेति ? इधेकच्चो गणगतो अचिन्तीकारकतो थेरानं भिक्खून् अनुपाहनानं चङ्कमन्तानं सउपाहनो चङ्कमति, नीचे चङ्कमे चङ्कमन्तानं उच्चे चङ्कमे चङ्कमति^१, छमाय चङ्कमन्तानं चङ्कमे चङ्कमति, घट्टयन्तो पि तिट्ठति, घट्टयन्तो पि निसीदति, पुरतो पि तिट्ठति, पुरतो पि निसीदति, उच्चे पि आसने निसीदति, ससीसं पारुपित्वा पि निसीदति, ठितो^२ पि भणति, बाह्याविकल्पकोऽपि भणति । एवं गणगतो कायिकं पागम्भियं दस्सेति ।

B. 306

कथं भोजनसालाय कायिकं पागम्भियं दस्सेति ? इधेकच्चो भोजनसालाय अचिन्तीकारकतो थेरे भिक्खू अनुपखज्ज निसीदति, नवे पि भिक्खू आसनेन पटिबाहति, घट्टयन्तो पि तिट्ठति, घट्टयन्तो पि निसीदति, पुरतो पि तिट्ठति, पुरतो पि निसीदति, उच्चे पि आसने निसीदति, ससीसं पारुपित्वा निसीदति, ठितको पि भणति, बाह्याविकल्पकोऽपि भणति । एवं भोजनसालाय कायिकं पागम्भियं दस्सेति ।

कथं जन्ताघरे कायिकं पागम्भियं दस्सेति ? इधेकच्चो जन्ताघरे अचिन्तीकारकतो थेरे भिक्खू घट्टयन्तो पि तिट्ठति, घट्टयन्तो पि निसीदति, पुरतो पि तिट्ठति, पुरतो पि निसीदति, उच्चे पि आसने निसीदति, अनापुच्छा पि कट्ठं पक्खिपति, अनापुच्छा पि द्वारं पिदहति । एवं जन्ताघरे कायिकं पागम्भियं दस्सेति ।

कथं उदकतित्थे कायिकं पागम्भियं दस्सेति ? इधेकच्चो उदकतित्थे अचिन्तीकारकतो थेरे भिक्खू घट्टयन्तो पि ओत्तरति, पुरतो पि ओत्तरति, घट्टयन्तो पि न्हायति, पुरतो पि न्हायति, उपरितो पि न्हायति, घट्टयन्तो पि उत्तरति, पुरतो पि उत्तरति* । एवं उदकतित्थे कायिकं पागम्भियं दस्सेति ।

कथं अन्तरघरं पविसन्तो कायिकं पागम्भियं दस्सेति ? इधेकच्चो अन्तरघरं पविसन्तो अचिन्तीकारकतो थेरे भिक्खू घट्ट-

१ चङ्कमेति—स्या० । २ ठितको—सी०, स्या०, रो० । * 'उपरि पि उत्तरति' इति मी०, स्या० पोत्यकेसु अधिको पाठो दिससति ।

यन्तो पि गच्छति, पुरतो पि गच्छति, बोक्कम्म पि थेरानं भिक्खून् पुरतो गच्छति । एवं अन्तरघरं पविसन्तो कायिकं पागब्भियं दस्सेति ।

कथं अन्तरघरं पविट्ठो कायिकं पागब्भियं दस्सेति ? इधे-
कच्चो अन्तरघरं पविट्ठो न पविस, भन्ते, ति वुच्चमानो पविसति,
न तिट्ठ, भन्ते, ति वुच्चमानो तिट्ठति, न निसीद, भन्ते, ति वुच्चमानो
निसीदति, अनोकासं पि पविसति, अनोकासें पि तिट्ठति, अनोकासे
पि निसीदति, यानि पि^१ तानि होन्ति कुलान ओवरकानि गूळहानि
च पटिच्छन्नानि च, यत्थ कुलित्थियो कुलधीतरो^२ कुलसुण्हायो कुल-
कुमारियो निसीदन्ति तत्थ पि सहसा पविसति, कुमारकस्स सीसं पि
10 परामसति । एवं अन्तरघरं पविट्ठो कायिकं पागब्भियं दस्सेति - इदं
कायिकं पागब्भियं ।

कतमं वाचसिकं पागब्भियं ? इधेकच्चो सङ्घगतो पि वाच-
सिकं पागब्भियं दस्सेति, गणगतो पि वाचसिकं पागब्भियं दस्सेति,
अन्तरघरं पविट्ठो पि वाचसिकं पागब्भियं दस्सेति । कथं सङ्घगतो
15 वाचसिकं पागब्भियं दस्सेति ? इधेकच्चो सङ्घगतो अचित्तीकारकतो
थेरे भिक्खू अनापुच्छं^३ वा अनज्झिट्ठो वा आरामगतानं भिक्खून्
धम्मं भणति, पञ्हं विसज्जेति, पातिमोक्खं उद्दिसति, ठित्तको पि
भणति, वाहाविक्खेपको पि भणति । एवं सङ्घगतो वाचसिकं पाग-
ब्भियं दस्सेति ।

20 कथं गणगतो वाचसिकं पागब्भियं दस्सेति ? इधेकच्चो गण-
गतो अचित्तीकारकतो थेरे भिक्खू अनापुच्छं वा अनज्झिट्ठो वा
आरामगतानं भिक्खून् धम्मं भणति, पञ्हं विसज्जेति, ठित्तको पि
भणति, वाहाविक्खेपको पि भणति ; आरामगतानं भिक्खुनीनं उपास-
कानं उपासिकानं धम्मं भणति, पञ्हं विसज्जेति, ठित्तको पि भणति,
25 वाहाविक्खेपको पि भणति । एवं गणगतो वाचसिकं पागब्भियं
दस्सेति ।

कथं अन्तरघरं पविट्ठो वाचसिकं पागब्भियं दस्सेति ? इधे-
कच्चो अन्तरघरं पविट्ठो इत्थि वा कुमारि वा एवमाह^४ - "इत्थ-

१ अनोकासं - सी० । २ स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि । ३ कुलधीतायो - सी०,
स्या०, रो० । ४ अनापुच्छा - सी०, स्या०, रो० । ५ आह - स्या०, रो० ।

ज्ञामे इत्थंगोत्ते किं अत्थि ? यागु अत्थि, भत्तं अत्थि, खादनीयं अत्थि ? किं पिविस्साम, किं भुञ्जिस्साम, किं खादिस्साम, किं वा अत्थि, किं वा भे दस्सथा' ति ? विप्पलपति । एवं अन्तरघरं पविट्ठो वाचसिकं पागब्भियं दस्सेति - इदं वाचसिकं पागब्भियं ।

B. 393

कतमं चेतसिकं पागब्भियं ? इधेकच्चो न उच्चा कुला पब्बजितो समानो उच्चा कुला पब्बजितेन सद्धिं सदिसं अत्तानं करोति चित्तेन, न महाभोगकुला' पब्बजितो समानो महाभोगकुला पब्बजितेन सद्धिं सदिसं अत्तानं करोति चित्तेन, न उल्लारभोगकुला पब्बजितो समानो उल्लारभोगकुला पब्बजितेन सद्धिं सदिसं अत्तानं करोति चित्तेन, न सुत्तन्तिको समानो सुत्तन्तिकेन सद्धिं सदिसं अत्तानं करोति चित्तेन, न विनयघरो समानो ... न धम्मकथिको समानो ... न आरञ्चिको समानो ... न पिण्डपातिको समानो ... न पंसुकूलिको समानो ... न तेचीवरिको समानो ... न सपदानचारिको समानो ... न खलुपच्छाभतिको समानो ... न नेसज्जिको समानो ... न यथासन्थतिको' समानो यथासन्थतिकेन सद्धिं सदिसं अत्तानं करोति चित्तेन, न पठमस्स भानस्स लाभी समानो पठमस्स भानस्स लाभिना सद्धिं सदिसं अत्तानं करोति चित्तेन, न दुतियस्स भानस्स ... न ततियस्स भानस्स ... न चतुत्थस्स भानस्स लाभी समानो ... न आकासानञ्चायतनसमापत्तिया लाभी समानो ... न विञ्जाणञ्चायतनसमापत्तिया ... न आकिञ्चञ्चायतनसमापत्तिया ... न नेवसञ्जानासञ्जायतनसमापत्तिया लाभी समानो नेवसञ्जानासञ्जायतनसमापत्तिया लाभिना सद्धिं सदिसं अत्तानं करोति चित्तेन - इदं चेतसिकं पागब्भियं । न' सिक्खेय्या ति । पागब्भियं न सिक्खेय्य न' चरेय्य' न आचरेय्य न समाचरेय्य न समादाय वत्तेय्य, पागब्भियं पजहेय्य विनोदेय्य ब्यन्ति करेय्य अनभावं गमेय्य, पागब्भिया आरतो अस्स विरतो पटिविरतो निक्खन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसञ्चुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरेय्या ति - पागब्भियं न सिक्खेय्य ।

B. 398

15

10

20

25

कथं विग्गाहिकं न कथयेय्या ति । कतमा विग्गाहिका' कया ? इधेकच्चो एवरूपि कथं कत्ता हौति - "न त्वं इमं धम्मविनयं

B. 394

१. महाकुला - स्या०, रो० । २. यथासन्थतिकङ्गी - सी० । ३. न पागब्भिय - सी० ; पागब्भियं न - स्या०, रो० । ४-४ स्या०, रो० पालकेषु नत्थि । ५. विग्गाहिका - सी० ; विग्गाहिक - स्या०, रो० ।

आजानासि ...पे०.. निव्वेठेहि' वा सचे पहासी' ति। वुत्तं हेतु
 भगवता - "विग्गाहिकाय त्वा, मोगल्लान, कयाय सति कथावाहुल्लं
 पाटिकल्लं, कथावाहुल्ले सति उद्धच्चं, उद्धतस्स असंवरो, असंवुत्तस्स
 आरा चित्तं समाधिम्हा" ति। कथं विग्गाहिकं न कथयेय्या ति।
 ६ विग्गाहिकं कथं न कथेय्य न भणेय्य न दीपेय्य न वोहरेय्य, विग्गा-
 हिकं कथं पजहेय्य विनोदेय्य व्यन्ति करेय्य अनभावं गमेय्य, विग्गा-
 हिककथाय आरतो अस्स विरतो पटिविरतो निक्खन्तो निस्सटो विप्य-
 मुत्तो विसञ्जुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरेय्या ति - कथ
 विग्गाहिकं न कथयेय्य। तेनाह भगवा -

B. 309 10

"न च कत्थिको सिया भिक्खु,
 न च वाचं पयुत्तं भासेय्य।
 पागट्ठिभयं न सिक्खेय्य,
 कथं विग्गाहिकं न कथयेय्या" ति॥

16

१६६. मोसवज्जे न निघ्येथ,
 सम्पजानो सठानि न कयिरा।
 अथ जीवितेन पञ्जाय,
 सीलव्वतेन^१ नाञ्जमतिमञ्जे॥

मोसवज्जे न निघ्येथा ति। मोसवज्जं वुच्चति मुसावादो।
 इकेकच्चो सभगगतो^२ वा परिसगगतो^३ वा .. पे०... आमिसकिञ्चिक्खहेतु
 20 वा सम्पजानमुसा भासिता होति - इदं वुच्चति मोसवज्जं। अपि च,
 तीहाकारेहि मुसावादो होति - पुव्वेवस्स^४ होति "मुसा भणित्त्वं" ति,
 भणन्तस्स होति "मुसा भणामी" ति, भणितस्स होति "मुसा मया
 भणितं" ति, इमेहि तीहाकारेहि मुसावादो होति। अपि च चतूहाकारेहि
 ... पञ्चहाकारेहि ... छहाकारेहि ... सत्तहाकारेहि ... अट्ठहाकारेहि ..
 25 मुसावादो होति - पुव्वेवस्स होति "मुसा भणित्त्वं" ति, भणन्तस्स
 होति "मुसा भणामी" ति, भणितस्स होति "मुसा मया भणितं"
 ति विनिघाय दिट्ठि विनिघाय खन्ति विनिघाय रुचि विनिघाय सञ्ज
 विनिघाय भावं - इमेहि अट्ठहाकारेहि मुसावादो होति। मोसवज्जे न

. 395

१. निव्वेठेहि - स्या०, रो०, एकमुपरि पि। २. सीलव्वतेन - स्या०, एकमुपरि पि।
 ३. सभगगतो - सी०। ४. परिसगतो - सी०। ५. पुव्वेव तस्स - स्या०, रो०।

निय्येथा ति । मोसवज्जे न यायेय्य न निय्यायेय्य न वहेय्य न संहरेय्य, मोसवज्जं पजहेय्य विनोदेय्य व्यन्ति करेय्य अनभावं गमेय्य, मोसवज्जा आरतो अस्स विरतो पटिविरतो निक्खन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसञ्चुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरेय्या ति — मोसवज्जेन निय्येथ ।

सम्पज्जानो सठानि न कयिरा ति । कतमं साठेय्यं ? इधे- 5
कच्चो सठो होति परिसठो, यं तत्थ सठं सठता साठेय्यं कक्करता^१
कक्करियं^२ परिक्खत्तता पारिक्खत्तिर्यं^३ — इदं वुच्चति साठेय्यं । सम्प-
ज्जानो सठानि न कयिरा ति । सम्पज्जानो हुत्वा साठेय्यं न करेय्य
न जनेय्य न सञ्जनेय्य न निब्बत्तेय्य नाभिनिव्वत्तेय्य, साठेय्यं पज-
हेय्य विनोदेय्य व्यन्ति करेय्य अनभावं गमेय्य, साठेय्या आरतो अस्स 10 B. 310
विरतो पटिविरतो निक्खन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसञ्चुत्तो
विमरियादिकतेन चेतसा विहरेय्या ति — सम्पज्जानो सठानि न कयिरा ।

अथ जीवितेन पञ्चाय सीलब्बतेन नाञ्जमतिमञ्जे ति । अथा
ति । पदसन्धि ...पे०... पदानुपुब्बतापेतं^१ — अथा ति । इधेकच्चो लूख-
जीवितं^२ जीवन्तो परं पणीतजीवितं जीवन्तं अतिमञ्जति — “किं 15
पनायं बहुलाजीवो^३ सब्बं संभक्खेति^४, सेय्यथिदं^५ — मूलबीजं खन्ध-
बीजं फल्लुबीजं^६ अग्गबीजं बीजबीजमेव पञ्चमं असनिविचक्कदन्त-
कूटसमाणप्यधानेना^७” ति । सो ताय लूखजीविताय परं पणीतजीवितं
जीवन्तं अतिमञ्जति ।

इधेकच्चो पणीतजीवितं जीवन्तो परं लूखजीवितं जीवन्तं 20
अतिमञ्जति — “किं पनायं अप्पपुञ्जो अप्पेसक्खो न लाभी चीवर-
पिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारानं^८” ति । सो ताय
पणीतजीविताय परं लूखजीवितं जीवन्तं अतिमञ्जति ।

इधेकच्चो पञ्चासम्पन्नो होति । सो पुट्ठो पञ्चं विसज्जेति ।
तस्स एवं होति — “अहमस्मि पञ्चासम्पन्नो, इमे पनञ्जे न पञ्चा- 25
सम्पन्ना” ति । सो ताय पञ्चासम्पदाय परं अतिमञ्जति ।

१-१ कक्करता कक्करियं — सी०, कक्करिता कक्करियं — रो० । २. परिक्खत्तिर्यं
— स्या०, रो० । ३. पदानुपुब्बतापेतं — स्या०, रो० । ४ लूखजीविकं — सी०, स्या०, रो० । ५
बहुलाजीवो — स्या०, रो० । ६. सम्भक्खति — स्या०, रो० । ७ सेय्यथिदं — सी०, स्या०, रो० ।
८. फल्लुबीज — सी०, स्या०, रो० । ९ असनिविचक्क दन्तकूटं समणप्यधानो — सी०; असविच-
क्कदन्तकूटसमाणप्यधानातिण्णो — स्या०; असविचक्कदन्तकूटसमाणप्यधानातिण्णो — रो० ।

इधेकच्चो सीलसम्पन्नो होति, पातिभोक्खसंवरसंनुतो विहरति आचारगोचरसम्पन्नो, अणुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु। तस्स एवं होति—“अहमस्मि सीलसम्पन्नो, इमे पनञ्जे भिक्खू दुस्सीला पापधम्मा” ति। सो ताय सीलसम्पदाय परं अतिमञ्जति।

इधेकच्चो वतसम्पन्नो होति आरञ्जिको वा पिण्डपातिको वा पंसुकूलिको वा तेचीवरिको वा सपदानचारिको वा खलुपच्छाभतिको वा नेसज्जिको वा यथासन्थतिको वा। तस्स एवं होति—“अहमस्मि वत सम्पन्नो, इमे पनञ्जे न वतसम्पन्ना” ति। सो ताय वतसम्पदाय परं अतिमञ्जति।

अथ जीवितेन पञ्जाय सीलब्बतेन नाञ्जमतिमञ्जे ति। लूखजीविताय वा पणीतजीविताय वा पञ्जासम्पदाय वा सीलसम्पदाय वा वतसम्पदाय वा परं नातिमञ्जेय्य, नावजानेय्य, न तेन मानं जनेय्य, न तेन थद्धो अस्स, पत्थद्धो पग्गहितसिरो ति—अथ जीवितेन पञ्जाय सीलब्बतेन नाञ्जमतिमञ्जे। तेनाह भगवा—

“मोसवज्जं न निथ्येथ,
सम्पजानो सठानि न कयिरा।
अथ जीवितेन पञ्जाय,
सीलब्बतेन नाञ्जमतिमञ्जे” ति॥

B. 311 20 १६७. सुत्वा हसितो^१ बहुं वाचं,
समणानं वा पुथुजनानं^२।
फरसेन ने न पटिवज्जा,
न हि सन्तो पटित्तेनं^३ करोन्ति^४ ॥

R. 397 सुत्वा हसितो बहुं वाचं समणानं पुथुजनानं ति। हसितो
26 ति। हसितो हसितो घट्टितो वम्भितो गरहितो उपवदितो। सम-
णानं ति। ये केचि इतो बहिद्धा परिव्वज्जुपगता परिव्वज्जसमापन्ना।
पुथुजनानं ति। खत्तिया च ब्राह्मणा च वेस्सा च सुद्धा च गह्हुा च

१ स्या० पोत्थके नत्थि। २. हसितो—सी०, स्या०, रो०; एवमुपरि पि। ३ पु-
वचनानं—सी०, स्या०, रो०; एवमुपरि पि। ४ पटित्तेनि—स्या०, रो०। ५ करोति—स्या०।
६. समणानं वा—स्या० रो०। ७. समणा—सी०। ८. परिव्वज्जुपगता—सी०; परिव्व-
जुपगता—स्या०, रो०।

पव्वजिता च देवा च मनुस्सा च, ते बहुकाहि वाचाहि अनिट्ठाहि
अकन्ताहि अमनापाहि अक्कोसेय्युं परिभासेय्युं रोसेय्युं विरोसेय्युं
हिसेय्युं विहिसेय्युं हेठेय्युं विहेठेय्युं घातेय्युं उपघातेय्युं उपघातं
करेय्युं तेसं बहुं वाचं अनिट्ठं अकन्तं अमनापं सुत्वा सुणित्वा उग्ग-
हित्वा उपघारयित्वा उपलक्खयित्वा' ति - सुत्वा रुसितो बहुं वाचं ६
समणानं वा पुथुजनानं ।

फरुसेन ने न पटिवज्जा ति । फरुसेना ति । फरुसेनं कक्ख-
ल्लेनं न पटिवज्जा नप्पटिभणेय्य, अक्कोसन्तं न पच्चक्कोसेय्य, रोसन्तं
नप्पटिरोसेय्य, भण्डनं नप्पटिभण्डेय्य न कलहं करेय्य न भण्डनं
करेय्य न विग्गहं करेय्य न विवादं करेय्य न मेघगं करेय्य, कलह- 10
भण्डनविग्गहविवादमेघगं पजहेय्य विनोदेय्य ब्यन्ति करेय्य अनभावं
गमेय्य, कलहभण्डनविग्गहविवादमेघगा आरतो अस्स विरतो पटि-
विरतो निक्खन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसञ्चुत्तो विमरियादिकतेन
चेतसा विहरेय्या ति - फरुसेन ने न पटिवज्जा ।

न हि सन्तो पटिसेंनि करोन्ती ति । सन्तो ति । रागस्स 15
सन्तत्ता सन्तो, दोसस्स ... मोसहस्स ... कोघस्स ... उपनाहस्स ... पे० ...
सब्बा कुसलाभिसङ्खारानं सन्तत्ता समितत्ता बूपसमितत्ता विज्झातत्ता
निब्बुतत्ता विगतत्ता पटिपस्सद्धत्ता सन्तो उपसन्तो बूपसन्तो निब्बुतो
पटिपस्सद्धो ति - सन्तो । न हि सन्तो पटिसेंनि करोन्ती ति । सन्तो
पटिसेंनि पटिमल्लं पटिकण्ठकं पटिपक्खं न करोन्ति न जनेन्ति 20
न सञ्जनेन्ति न निब्बत्तेन्ति नाभिनिब्बत्तेन्ती ति - न हि सन्तो पटिसेंनि
करोन्ति । तेनाह भगवा -

R. 398
B. 312,

“सुत्वा रुसितो बहुं वाचं,
समणानं वा पुथुजनानं ।
फरुसेन ने न पटिवज्जा,
न हि सन्तो पटिसेंनि करोन्ती” ति ॥ 25

१६८. एतं च धम्ममञ्जाय,
विचिनं भिक्खु सदा सतो सिक्खे ।

१-१. त्या०, रो० पोत्यकेषु नत्व । २. उपलक्खित्वा - त्या०, रो० । ३. त्या०
पोत्यके नत्व । ४. कक्खल्लेन - सी० । ५. भण्डन्तं - सी० । ६. पटिभण्डनं - सी०; पटि-
कण्ठं - रो० । ७. जनेति - त्या० ।

सन्तीति निवृत्तिं क्त्वा,
सासने गोतमस्स नप्पमज्जेय्य ॥

एतं च धम्ममञ्जाया त्ति । एतं त्ति । आचिक्खितं देसितं
पञ्चपितं पट्टपितं विवटं विभत्तं उत्तानीकत्तं पकासितं धम्मं अञ्जाय
5 जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं क्त्वा त्ति । एवं
पि एतं च धम्ममञ्जाय । अथ वा, समं च विसमं च पथं च विपथ
च सावज्जं च अनवज्जं च हीनं च पणीत्तं च कण्हं च सुककं च
विञ्जुगरहितं च विञ्जूपसत्थं च धम्मं अञ्जाय जानित्वा तुलयित्वा
तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं क्त्वा त्ति । एवं पि एतं च धम्म-
10 मञ्जाय । अथ वा, सम्मापटिपदं अनुलोमपटिपदं अपच्चनीकपटिपदं
अविरुद्धपटिपदं^१ अन्वत्यपटिपदं धम्मानुधम्मपटिपदं सीलसु परिपूर-
कारितं^२ इन्द्रियेषु गुत्तहारत्तं भोजने मत्तञ्चुत्तं जागरियानुयोगं सति-
सम्पज्जं, चत्तारो सत्तिपट्टाने चत्तारो सम्पपधाने चत्तारो इड्ढिपादे
पञ्चिन्द्रियानि पञ्च वलानि सत्त वोक्कङ्गे अरियं अट्टङ्गिकं मग्गं,
15 निव्वानं च निव्वानगामिनिं च पटिपदं धम्मं अञ्जाय जानित्वा
तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं क्त्वा त्ति । एवं पि एतं
च धम्ममञ्जाय ।

विचिनं भिक्खु सदा सतो सिक्खे त्ति । विचिनं त्ति । विचि-
नन्तो पविचिनन्तो तुलयन्तो तीरयन्तो विभावयन्तो विभूतं करोन्तो ।
20 “सव्वे सङ्गारा अनिच्चा” त्ति ...पे०... यं किञ्चि समुदयधम्मं सव्वं तं
निरोधधम्मं” त्ति विचिनन्तो पविचिनन्तो तुलयन्तो तीरयन्तो विभाव-
यन्तो विभूतं करोन्तो त्ति — विचिनं भिक्खु । सदा त्ति । सदा सव्वदा
सव्वकालं ... पे०...पच्छिमे बयोखन्वे । सतो त्ति । चत्तुहि कारणेहि
सतो — काये कायानुपस्सनासत्तिपट्टानं भावेन्तो सतो ...पे०... सो बुच्चति
3. 313 25 सतो । सिक्खे त्ति । तित्तो सिक्खायो^३ — अधिशीलसिक्खा, अधिचित्त-
सिक्खा, अधिपञ्जासिक्खा...पे०... अयं अधिपञ्जासिक्खा । इमा तित्तो
सिक्खायो^३ आवज्जन्तो सिक्खेय्य ...पे०... सिक्खेय्य आचरेय्य समा-
चरेय्य समादाय वत्तेय्या त्ति — विचिनं भिक्खु सदा सतो सिक्खे ।

१. सी०, स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि । २. परिपूरिकारितं — स्या०, रो०, एवमुपरिपि ।
३. तं—म० । ४. सिक्खा — स्या०, रो० ।

सन्ती ति निब्बुतिं अत्वा ति । रागस्स निब्बुतिं सन्ती ति
अत्वा, दोसस्स ... मोहस्स ... पे०... सब्बाकुसलाभिसङ्घारानं निब्बुति
सन्ती ति अत्वा जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं
कत्वा ति - सन्ती ति निब्बुतिं अत्वा ।

सासने गोतमस्स नप्पमज्जेय्या ति । गोतमस्स सासने 5
बुद्धसासने जिनसासने तथागतसासने देवसासने अरहन्तसासने । नप्प-
मज्जेय्या ति । सक्कच्चकारी अस्स सातच्चकारी अट्टितकारी अनो-
लीनवृत्तिको अनिक्खित्तच्छन्दो' अनिक्खित्तधुरो कुसलेसु' धम्मसेसु ।
“कदाहं अपरिपूरं वा सीलक्खन्धं परिपूरेय्यं...पे०...अपरिपूरं वा समाधि-
क्खन्धं...पञ्जाक्खन्धं...विमुत्तिक्खन्धं ... विमुत्तिबाणदस्सनक्खन्धं ? कदाहं 10
अपरिञ्जातं वा दुक्खं परिजानेय्यं, अप्पहीने वा किलेसे पजहेय्यं,
अभावितं वा मगं भावेय्यं, असञ्चिकतं वा' निरोधं सञ्चिकरेय्यं”
ति ? यो तत्थ छन्दो च वायामो च उस्साहो च उस्सोळ्ही च थामो
च अप्पट्टिवानी च सति च' सम्पजञ्जं च आतप्पं पधानं अधिट्टानं
अनुयोगो अप्पमादो कुसलेसु धम्मसेसू ति - सासने गोतमस्स नप्पमज्जेय्य । 15
तेनाह भगवा -

“एतं च धम्ममञ्जाय,
विचिनं भिक्खु सदा सतो सिक्खे ।
सन्ती ति निब्बुतिं अत्वा,
सासने गोतमस्स नप्पमज्जेय्या” ति ॥

१६९. अभिभू हि सो अनभिभूतो,
सक्खिधम्ममनीतिहमद्दसि' ।

तस्मा हि तस्स भगवतो सासने,
अप्पमत्तो सदा नमस्समनुसिक्खे ॥ (इति भगवा)

अभिभू हि सो अनभिभूतो ति । अभिभू ति' । रूपाभिभू 25
सद्दाभिभू गन्धाभिभू रसाभिभू फोट्टुब्बाभिभू धम्माभिभू, अनभिभूतो

१ अनिक्खित्तच्छन्दो - सी०, रो० । २ अप्पमत्तो कुसलेसु - स्या०, रो० । ३ सी०
पोत्यके नत्थि । ४ स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि । ५ ० मवस्सी - सी०, स्या०, रो० । ६-६
अभिभूतरूपा अभिभूतसद्दा अभिभूतगन्धा अभिभूतरसा अभिभूतफोट्टुब्बा अभिभूतधम्मा
अभिभू - स्या० ।

केहिचि किलेसेहि, अभिभोसि' ने' पापके अकुसले घम्मे संकिलेसिके
पोनोभविके' सदरे दुक्खविपाके आर्याति जातिजरामरणिये ति-
अभिभू हि सो अनभिभूतो ।

सक्खिधम्ममनीतिहमद्दसी ति । सक्खिधम्मं ति । न इतिहि-
तिहं न इतिकिरियाय' न परम्पराय न पिटकसम्पदाय न तक्कहेतु
न नयहेतु न आकारपरिवितक्केन न विट्ठिनिज्झानक्खन्तिया सामं
सयमभिञ्जातं अत्तपच्चक्खधम्मं अद्दसि अद्दक्खि अपस्सि पटिविज्झी
ति - सक्खिधम्ममनीतिहमद्दसि ।

तस्मा हि तस्स भगवतो सासने ति । तस्मा ति । तस्मा
तंकारणा तंहेतु तप्पच्चया तंनिदाना । तस्स भगवतो सासने ति ।
तस्स भगवतो सासने गोतमसासने बुद्धसासने जिनसासने तथा-
गतसासने देवसासने' अरहन्तसासने ति - तस्मा तस्स भगवतो
सासने ।

अप्पमत्तो सदा नमस्समनुसिक्खे इति भगवा ति । अप्पमत्तो
ति । सक्कच्चकारी ...पे०... अप्पमादो कुसलेसु घम्मेसु । सदा
ति । सदा' सव्वकालं ...पे०... पच्छिमे वयोखन्वे । नमस्सं ति । कायेन
वा नमस्समानो वाचाय वा नमस्समानो चित्तेन वा नमस्समानो
अन्वत्थपटिपत्तिया वा' नमस्समानो धम्मानुधम्मपटिपत्तिया वा'
नमस्समानो सक्कुरुमानो' गस्कुरुमानो' मानयमानो पूजयमानो
अपचयमानो' । अनुसिक्खे ति । तिस्सो सिक्खायो - अधिसील-
सिक्खा, अधिचित्तसिक्खा, अधिपञ्जासिक्खा . . पे०... अयं अधिपञ्जा-
सिक्खा । इमा तिस्सो सिक्खायो आवज्जन्तो सिक्खेय्य .. पे० ..
सच्छिकातत्त्वं सच्छिकरोन्तो सिक्खेय्य चरेय्य आचरेय्य समाचरेय्य
समादाय वत्तेय्य । भगवा ति । गारवाधिवचनं .. पे०... सच्छिका पञ्जति
यदिदं भगवा ति - अप्पमत्तो सदा नमस्समनुसिक्खे इति भगवा ।
तेनाह भगवा -

१. अभिभूहि - सी०, स्या०, रो० । २ ने हि ने - सी०, स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि ।
३ पोनोभविके - स्या०, रो०; एवमुपरि पि । ४. इतिहीतिहं - सी० । ५ इतिकिराय -
सी०, स्या० । ६ देवदेवसासने - सी० । ७ सदा सव्वदा - सी०, स्या०, रो० । ८ स्या०,
रो० पोत्यकेसु नत्थि । ९-९ सक्कारमानो गस्कारमानो - स्या०, रो० । १० अपचायमानो -
स्या०, रो० ।

“अभिभू हि सो अनभिभूतो,
सविखधम्ममनीतिहमद्दसि ।
तस्मा हि तस्स भगवतो सासने,
अप्पमत्तो सदा नमस्समनुसिक्खे” ॥ (इति भगवा ति)
तुवट्टकसुत्तनिर्देशो बुद्धसभो ।

१५. अत्तदण्डसुत्तनिर्देशो

अथ अत्तदण्डसुत्तनिर्देशं वक्खति -

5

१७०. अत्तदण्डा भयं जातं, जनं पस्सथ मेधगं ।
संवेगं कित्तथिस्सामि, यथा संविजितं मया ॥

R. 402

अत्तदण्डा भयं जातं ति । दण्डा ति । तयो दण्डा - काय-
दण्डो, वचीदण्डो, मनोदण्डो । तिविधं कायदुच्चरितं कायदण्डो, चतु-
ब्बिधं वचीदुच्चरितं वचीदण्डो, तिविधं मनोदुच्चरितं मनोदण्डो । 10
भयं ति । द्वे भयानि - दिट्ठधम्मिकं च भयं सम्परायिकं च भयं ।
कतमं दिट्ठधम्मिकं भयं ? इधेकच्चो कायेन दुच्चरितं चरति, वाचाय
दुच्चरितं चरति, मनसा दुच्चरितं चरति, पाणं पि हनति^१, अदिल्लं
पि आदियति, सन्धि पि छिन्दति, निल्लोपं पि हरति, एकागारिकं पि
करोति, परिपन्थे पि तिट्ठति, परदारं पि गच्छति, मुसा पि भणति । 15
तमेनं गहेत्वा रञ्जो दस्सेन्ति - “अयं, देव, चोरो आगुचारी ।
इमस्स यं इच्छसि^२ तं दण्डं पणेही” ति । तमेनं राजा परिभासति ।
सो परिभासपच्चया^३ भयं* पि^४ उप्पादेति,* दुक्खं दोमनस्सं पटि-
संवेदेति । एतं भयं दुक्खं दोमनस्सं कुतो तस्स ? अत्तदण्डतो जातं
सञ्जातं निब्बत्तं अभिचिब्बत्तं पातुभूतं । 20

एतकेन पि राजा न तुस्सति । तमेनं राजा बन्धापेति
अन्दुबन्धनेन वा रञ्जुबन्धनेन वा सङ्कलिकबन्धनेन वा वेत्तबन्धनेन
वा लताबन्धनेन वा पक्खेपबन्धनेन^५ वा परिकखेपबन्धनेन वा गाम-

R. 403

१. हन्ति - सी० । २ इच्छति - सी० । ३. परिभासपच्चया पि - स्या०, रो० । ४. सी० पोत्यके नत्थि । *.* स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि । ५. पक्खबन्धनेन - स्या०, रो० ।
म० नि० - ४४

B. 316

बन्धनेन वा निगमबन्धनेन' वा नगरबन्धनेन वा रदुबन्धनेन वा जनपदबन्धनेन वा अन्तमसोऽसवच्चनीर्यं पि करोति —“न ते लब्धा इतो पक्कमित्तुं” ति। सो बन्धनपच्चया पि दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति। एतं भयं दुक्खं दोमनस्सं कुतो तस्स ? अत्तदण्डतो जातं सञ्जातं ६ निब्बत्तं अभिनिब्बत्तं पातुभूतं।

एत्तकेन पि राजा न तुस्सति। राजा' तस्स धनं आहरापेति —सतं वा सहस्सं वा सतसहस्सं वा। सो धनजानिपच्चया पि दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति। एतं भयं दुक्खं दोमनस्सं कुतो तस्स ? अत्तदण्डतो जातं सञ्जातं निब्बत्तं अभिनिब्बत्तं पातुभूतं।

- 10 एत्तकेन पि राजा न तुस्सति। तमेनं राजा विविधा कम्मकारणा' कारापेति —कसाहि पि ताळ्हेति, वेत्तेहि पि ताळ्हेति, अद्दुदण्डकेहि पि ताळ्हेति, हत्थं पि छिन्दति, पादं पि छिन्दति, हत्थपाद पि छिन्दति, कण्णं पि छिन्दति, नासं पि छिन्दति, कण्णनासं पि छिन्दति, विलङ्गथालिकं पि करोति, सङ्खमुण्डिकं पि करोति, राहु-
 15 मुखं पि करोति, जोतिमालिकं पि करोति, हत्थपज्जोतिकं पि करोति, एरकपत्तिकं' पि करोति, चीरकवासिकं' पि करोति, एणेय्यकं पि करोति, बल्लिसमंसिकं' पि करोति, क्हापणिकं पि करोति, खारापतच्छिकं पि करोति, पल्लिपरिवत्तकं' पि करोति, पलालपीठकं' पि करोति, तत्तेन पि तेल्लेन ओसिञ्चति, सुनखेहि पि खादापेति, जीवन्तं
 20 पि सूले उत्तासेति, असिना पि सीसं छिन्दति। सो कम्मकारणपच्चया पि दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति। एतं भयं दुक्खं दोमनस्सं कुतो तस्स ? अत्तदण्डतो जातं सञ्जातं निब्बत्तं अभिनिब्बत्तं पातुभूतं। राजा इमेसं चतुस्रं दण्डानं इस्सरो।

: 404

- सो सकेन कम्मेन कायस्सु भेदा परं मरणा अपायं दुमार्तिं
 25 विनिपातं निरयं उपपज्जति। तमेनं निरयपाला पञ्चविधबन्धनं नाम कम्मकारणं' कारेन्ति —तत्तं अयोखिलं हत्थे गमेन्ति, तत्तं अयोखिलं दुतिये हत्थे गमेन्ति, तत्तं अयोखिलं पादे गमेन्ति, तत्तं अयोखिलं

१ स्या०, रो० पोत्थकेषु नखि। २. तमेन राजा—स्या०, रो०। ३ कम्मकरणा—सी०। ४ एरकवत्तिकं—सी०, स्या०, रो०। ५ चिरक०—स्या०, रो०। ६ वल्लिस०—सी०, स्या०। ७. ० परिवत्तिकं—सी०, स्या०, रो०। ८ पलालपिट्टकं—सी०। ९ कारण—सी०।

दुतिये पादे गमेन्ति, तत्तं अयोखिलं मज्झे उरस्मि गमेन्ति । सो तत्थ
दुक्खा तिब्बा^१ कटुका वेदना वेदेति; न च ताव कालं करोति याव
न तं पापकम्मं व्यन्तीहोति । एतं भयं दुक्खं दोमनस्सं कुतो
तस्स ? अत्तदण्डतो जातं सञ्जातं निब्बत्तं अभिनिब्बत्तं पातुभूतं ।

तमेनं निरयपाला संवेसेत्वा^२ कुठारीहिं^३ तच्छेन्ति । सो ८ B. 317
तत्थ दुक्खा तिब्बा कटुका वेदना वेदेति; न च ताव कालं करोति
याव न तं पापकम्मं व्यन्तीहोति । तमेनं निरयपाला उद्धंपादं
अधोसिरं गहेत्वा वासीहिं तच्छेन्ति । तमेनं निरयपाला रथे योजेत्वा
आदित्ताय पथविद्या सम्पज्जलिताय सज्जोतिभूताय^४ सारंन्ति^५ पि
पच्चासारंन्ति^६ पि ... पे०... तमेनं निरयपाला महन्तं अङ्गार- 10
पब्बतं आदित्तं सम्पज्जलितं सज्जोतिभूतं आरोपेन्ति पि ओरो-
पेन्ति पि ... पे०... तमेनं निरयपाला उद्धंपादं अधोसिरं गहेत्वा
तत्ताय लोहकुम्भिया पक्खिपन्ति आदित्ताय सम्पज्जलिताय सज्जोति-
भूताय । सो तत्थ फेणुहेहकं^७ पच्चति । सो तत्थ फेणुहेहकं पच्च-
मानो सकिं पि उद्धं गच्छति, सकिं पि अधो गच्छति, सकिं पि 15
तिरियं गच्छति । सो तत्थ दुक्खा तिब्बा कटुका वेदना वेदेति; न च
ताव कालं करोति याव न तं पापकम्मं व्यन्तीहोति । एतं भयं दुक्खं
दोमनस्सं कुतो तस्स ? अत्तदण्डतो जातं सञ्जातं निब्बत्तं अभिनिब्बत्तं
पातुभूतं । तमेनं निरयपाला महानिरये पक्खिपन्ति । सो खो पन
महानिरयो - 20

चतुक्कण्णो चतुद्धारो, विभत्तो भागसो मितो ।

अयोपाकारपरियन्तो^१, अयसा पटिकुज्जितो ॥

तस्स अयोमया भूमि, जलिता तेजसा युता ।

समन्ता योजनसतं, फरित्वा तिट्ठति सब्बदा ॥

कदरियातपसा^२ घोरा, अच्चिमन्तो दुरासदा । 25

लोमहंसनरूपा च, भिस्सा पटिभया दुखा^३ ॥

१. तिप्पा - स्या०, रो० । २-२ संवेसेत्वा कुठारीहिं - स्या०, रो० । ३ संजोति-
भूताय - स्या०, रो० । ४-४ हारेन्ति पि पच्चाहारंन्ति - सी० । ५. पेणुहेहकं - सी०; फेणुहेहकं -
स्या०, रो०, एवमुपरि पि । ६ अयोपाकारपरियन्तो - स्या० रो० । ७ कदरियातपसा -
सी० । ८. दुक्खा - स्या०, रो० ।

B. 318

5

10

15

20

25

. 408

पुरत्थिमाय^१ भित्तिया, अच्चिक्खन्धो समुद्धितो।
 दहन्तो^२ पापकम्मन्ते, पच्छिमाय पटिहञ्जति ॥
 पच्छिमाय च भित्तिया, अच्चिक्खन्धो समुद्धितो।
 दहन्तो पापकम्मन्ते, पुरत्थिमाय पटिहञ्जति ॥
 उत्तराय च भित्तिया, अच्चिक्खन्धो समुद्धितो।
 दहन्तो पापकम्मन्ते, दक्खिणाय पटिहञ्जति ॥
 दक्खिणाय च भित्तिया, अच्चिक्खन्धो समुद्धितो।
 दहन्तो पापकम्मन्ते, उत्तराय पटिहञ्जति ॥
 हेट्ठतो^३ च समुद्धाय, अच्चिक्खन्धो भयानको।
 दहन्तो पापकम्मन्ते, छदनस्मि पटिहञ्जति ॥
 छदनम्हा समुद्धाय, अच्चिक्खन्धो भयानको।
 दहन्तो पापकम्मन्ते, भूमियं पटिहञ्जति ॥
 अथोकपालमादित्तं, सन्तत्तं जलितं यथा।
 एवं अवीचिनिरयो, हेट्ठा उपरि पस्सतो ॥
 तत्थ सत्ता महालुद्धा, महाकिब्बिसकारिणो।
 अच्चन्तपापकम्मन्ता, पच्चन्ति न च मिय्यरे ॥
 जातवेदसमो कायो, तेसं निरयवासितं।
 पस्स कम्मानं दलहत्तं, न भस्सा होति^४ न^५ पि मसि^६ ॥
 पुरत्थिमेन पि धावन्ति, ततो धावन्ति पच्छिमं।
 उत्तरेण पि धावन्ति, ततो धावन्ति दक्खिणं ॥
 यं यं दिसं पधावन्ति, तं तं द्वारं पिषीयति^७।
 अभिनिक्खमितासा ते, सत्ता भोक्खगवेसिनो^८ ॥
 न ते ततो निक्खमितुं, लभन्ति कम्मपच्चया।
 तेसं च^९ पापकम्मन्तं, अविपक्कं कत्तं बहुं ति ॥

एतं भयं दुक्खं दोमनस्सं कुतो तस्स ? अत्तदण्डतो जातं
 सञ्जातं निब्बत्तं अभिनिब्बत्तं पातुभूतं। यानि च नेरयिकानि

१ पुरत्थिमाय च-सी०, स्या०, रो०। २ दहन्तो-स्या०, रो०, एवमुपरि पि।
 ३ हेट्ठतो-स्या०, रो०। ४ होन्ति-स्या०, रो०। ५-५. न मली-सी०, नपी मधि-
 म०। ६. पिषीयति-सी०, स्या०, रो०। ७. पायोक्खं गवेसिनो-रो०। ८. वे-रो०।

दुक्खानि यानि च तिरच्छानयोनिकानि दुक्खानि यानि च पत्ति-
विसयिकानि^१ दुक्खानि यानि च मानुसिकानि दुक्खानि; तानि कुतो
जातानि कुतो सञ्जातानि कुतो निव्वत्तानि कुतो अभिनिव्वत्तानि
कुतो पातुभूतानि? अत्तदण्डतो जातानि सञ्जातानि निव्वत्तानि
अभिनिव्वत्तानि पातुभूतानी ति - अत्तदण्डा भयं जातं ।

5

जनं पस्सथ मेघगं ति । जनं^२ ति^३ । खत्तिया च ब्राह्मणा च
वेस्सा च सुद्धा च गहट्ठा च पव्वजिता च देवा^४ च मनुस्सा च मेघगं^५
जनं कलहं जनं विरुद्धं जनं पटिविरुद्धं जनं आहतं जनं पच्चाहतं
जनं आघातितं जनं पच्चाघातितं जनं पस्सथ दक्खथ ओलोकेथ
निज्जायेथ उपपरिक्खथा ति - जनं पस्सथ मेघगं ।

B 319

10

संवेगं कित्तयिस्सामी ति । संवेगं उब्बेगं उत्रासं भयं पीळनं
घट्टनं उपह्वं उपसगं । कित्तयिस्सामी ति । पकित्तयिस्सामि आचि-
क्खिस्सामि देसेस्सामि पञ्चपेस्सामि^६ पट्टपेस्सामि विवरिस्सामि
विभजिस्सामि उत्तानीकरिस्सामि पकासिस्सामी ति - संवेगं कित्त-
यिस्सामि ।

हंवेगं

15

यथा संविजितं मया ति । यथा मया अत्तना^७ येव अत्तानं^८
संवेजितो उब्बेजितो संवेगमापादितो ति - यथा संविजितं मया ।
तेनाह भगवा -

“अत्तदण्डा भयं जातं, जनं पस्सथ मेघगं ।

संवेगं कित्तयिस्सामि, यथा संविजितं मया” ति ॥

20

१७१. फन्दमानं पजं दिस्वा, मच्छे अप्पोदके यथा ।

अञ्जमञ्जेहि ब्यारुद्धे, दिस्वा सं भयमाविसि ॥

फन्दमानं पजं दिस्वा ति । पजा ति । सत्ताधिवचनं । पजं
तण्हाफन्दनाय फन्दमानं दिट्ठिफन्दनाय फन्दमानं किलेसफन्दनाय
फन्दमानं दुच्चरितफन्दनाय फन्दमानं पयोगफन्दनाय फन्दमानं विपाक-
फन्दनाय फन्दमानं रत्तं रागेन फन्दमानं दुट्ठं दोसेन फन्दमानं मूळ्हं

R 407

25

१. पित्तिसयिकानि - स्या०, रो०; एवमुपरि पि । २-२. सी० पोल्यके नत्थि । ३.
तेपता - सी० । ४. मेघग ति मेघगं - स्या०, रो० । ५. पञ्चापिस्सामि - स्या०, रो०; एव-
मुपरि पि । ६-६ अत्तनायेव - स्या०; अत्तायेव - रो० ।

- मोहेन फन्दमानं विनिबद्धं मानेन फन्दमानं परामद्धं दिद्विया फन्द-
 मानं विकल्पेगतं उद्धृत्त्वेन फन्दमानं अनिदृङ्गतं विचिकिच्छाय
 फन्दमानं थामगतं अनुसयेहि फन्दमानं लाभेन फन्दमानं अलाभेन फन्द-
 मानं यसेन फन्दमानं अयसेन फन्दमानं पसंसाय फन्दमानं निन्दाय
 ४ फन्दमानं सुखेन फन्दमानं दुःखेन फन्दमानं जातिया फन्दमानं जराय
 फन्दमानं व्याधिना फन्दमानं मरणेन फन्दमानं सोकपरिदेवदुःखदोमन-
 स्सुपायासेहि' फन्दमानं नेरयिकेन दुःखेन फन्दमानं तिरच्छानयोनि-
 केन दुःखेन फन्दमानं पत्तिविसयिकेन दुःखेन फन्दमानं मानुसिकेन
 दुःखेन फन्दमानं गवभोक्कान्तिमूलकेन दुःखेन गवमद्वितिमूलकेन
 10 दुःखेन ... गवभावुद्धानमूलकेन दुःखेन ... जातस्सूपनिबन्धकेन' दुःखेन ...
 जातस्स पराघेय्यकेन दुःखेन ... अत्तूपक्कमेन दुःखेन ... परूपक्कमेन
 दुःखेन ... दुःखदुःखेन ... सङ्खारदुःखेन ... विपरिणामदुःखेन ... चक्खुरोगेन
 320 दुःखेन ... सौतरोगेन ... घानरोगेन. जिह्वारोगेन ... कायरोगेन ... सीस-
 रोगेन . कण्णरोगेन ... मुखरोगेन ... दन्तरोगेन ... कासेन ... सासेन .
 15 पिनासेन ... डाहेन' ... जरेन .. कुच्छिरोगेन ... मुच्छाय ... पक्खन्दिकाय ...
 सूलाय ... विसूचिकाय .. कुट्टेन ... गण्डेन ... किलासेन .. सोसेन ... अप-
 मारेन ... दद्दुया' ... कण्डुया ... कच्छुया .. रक्खसाय' ... वितच्छिकाय ...
 लोहितेन ... पित्तेन ... मधुमेहेन ... अंसाय ... पिळकाय ... भगन्दलेन' ...
 पित्तसमुद्धानेन' आबाधेन' ... सेम्हसमुद्धानेन आबाधेन ... वातसमुद्धानेन
 20 आबाधेन ... सन्निपातिकेन आबाधेन ... उत्तुपरिणामजेन आबाधेन ... विसम-
 परिहारजेन आबाधेन ... औपक्कमिकेन आबाधेन ... कम्मविपाकजेन
 108 आबाधेन ... सीतेन ... उण्हेन ... जिघच्छाय ... पिपासाय ... उच्चारेन ...
 पत्सावेन ... ङंसमकसवातातपसरीसपसम्फत्सेन दुःखेन' ... मातुमरणेन
 दुःखेन ... पित्तुमरणेन दुःखेन ... भातुमरणेन दुःखेन ... भगिनिमरणेन
 25 दुःखेन ... पुत्तमरणेन' दुःखेन' ... धीतुमरणेन दुःखेन ... ब्रातिमरणेन
 दुःखेन ... भोगव्यसनेन दुःखेन ... रोगव्यसनेन दुःखेन ... सीलव्यसनेन

१-१. सी० पोत्थके नत्थि । २. अनिद्वागतं - सी० । ३. सोकपरिदेवदुःखदोमनस्सुपाया-
 सेहि - सी० । ४. जातस्सूपनिबन्धकेन - सी० ; जातस्सुपनिबन्धकेन - स्या०, रो० ।
 ५. डाहेन - सी०, स्या० । ६. दन्दुया - रो० । ७. वक्खसाय - सी० । ८. अपन्दाय - स्या०,
 रो० । ९-९. पित्तसमुद्धानेहि आबाधेहि - स्या०, रो०, पक्कमुगारि पि । १०. स्या०, रो० पोत्थके
 नत्थि । ११-११ रो० पोत्थके नत्थि ।

दुक्खेन ... दिट्ठिव्यसनेन दुक्खेन फन्दमानं सम्फन्दमानं विप्फन्दमानं वेधमानं पवेधमानं सम्पवेधमानं। दिस्वा ति। दिस्वा' पस्सित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा ति - फन्दमानं पजं दिस्वा।

मच्छे अप्पोदके यथा ति। यथा मच्छा अप्पोदके' उदक- 5
परियादाने काकेहि वा कुललेहि वा बलाकाहि' वा परिपातियमाना उक्खिपियमाना खज्जमाना फन्दन्ति सम्फन्दन्ति विप्फन्दन्ति वेधन्ति' पवेधन्ति सम्पवेधन्ति, एवमेव पजा तण्हाफन्दनाय फन्दन्ति ...पे०... दिट्ठिव्यसनेन दुक्खेन फन्दन्ति सम्फन्दन्ति विप्फन्दन्ति वेधन्ति पवेधन्ति सम्पवेधन्ती ति - मच्छे अप्पोदके यथा। 10

अञ्जमञ्जेहि ब्यारुद्धे ति। अञ्जमञ्जं सत्ता विरुद्धा पटि-
विरुद्धा आहता पच्चाहता आघातिता पच्चाघातिता। राजानो पि राजूहि विवदन्ति, खत्तिया पि खत्तियेहि विवदन्ति, ब्राह्मणा पि ब्राह्मणेहि विवदन्ति, गहपती पि गहपतीहि विवदन्ति, माता पि पुत्तेन विवदति, पुत्तो पि मातरा विवदति, पिता पि पुत्तेन विवदति, 15
पुत्तो पि पितरा विवदति, भाता पि भातरा विवदति', भगिनी पि' भगिनिया विवदति', भाता पि भगिनिया विवदति, भगिनी पि भातरा विवदति, सहायो पि सहायेन विवदति; ते तत्थ कलहविग्गहविवादा-
पन्ना अञ्जमञ्जं पाणीहि पि उपक्कमन्ति, लेड्डूहि पि उपक्कमन्ति, 20
दण्डेहि पि उपक्कमन्ति, सत्थेहि पि उपक्कमन्ति, ते तत्थ मरणं पि निगच्छन्ति' मरणंमत्तं पि दुक्खं ति - अञ्जमञ्जेहि ब्यारुद्धे।

दिस्वा मं भयमाविसी ति। दिस्वा ति। दिस्वा पस्सित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा भयं पीळनं घट्टनं उपट्टवो उपसग्गो' आविसी" ति - दिस्वा मं भयमाविसि। तेनाह भगवा - 25

"फन्दमानं पजं दिस्वा, मच्छे अप्पोदके यथा।

अञ्जमञ्जेहि ब्यारुद्धे, दिस्वा मं भयमाविसी" ति ॥

१ स्या, रो० पोत्यकेसु नत्वि। २. अप्पोदके परित्तोदके - स्या०, रो०। ३. बला-
काय - रो०। ४ वेधेन्ति - स्या०, रो०, एवमुपरि पि। ५ विवदन्ति - रो०। ६-६. रो०
पोत्यके नत्वि। ७ गच्छन्ति - स्या०, रो०। ८ घटन - रो०। ९ उपसग्गो - सी०।
१० आविसती - स्या०, रो०।

R. 163

१७२. समन्तमसारो लोको, दिसा सब्बा समेरिता ।
इच्छं भवनमत्तनो, नाहसामि' अनोसितं ॥

समन्तमसारो लोको ति । लोको' ति' । निरयलोको तिरच्छान-
योनिलोको पेंतिविसयलोको मनुस्सलोको देवलोको, खन्धलोको
6 धातुलोको आयतनलोको, अयं लोको परो लोको, ब्रह्मलोको' देव-
लोको' - अयं वुच्चति लोको । निरयलोको असारो निस्सारो सारापगतो
निच्चसारसारेण वा सुखसारसारेण वा अत्तसारसारेण वा निच्चेन
वा धुवेण वा सस्सतेण वा अविपरिणामधम्मेण वा । तिरच्छानयोनि-
लोको ... पेंतिविसयलोको ... मनुस्सलोको ... देवलोको ... खन्धलोको ...
10 धातुलोको ... आयतनलोको ... अयं लोको ... परो लोको ... ब्रह्मलोको
... देवलोको असारो निस्सारो सारापगतो निच्चसारसारेण वा सुख-
सारसारेण वा अत्तसारसारेण वा निच्चेन वा धुवेण वा सस्सतेण वा
अविपरिणामधम्मेण वा ।

R 410

यथा पन' नळो असारो निस्सारो सारापगतो, यथा एरण्ढो
15 असारो निस्सारो सारापगतो, यथा जदुम्बरो असारो निस्सारो सारा-
पगतो, यथा सेतकच्छो' असारो निस्सारो सारापगतो, यथा पारि-
भट्ठको' असारो निस्सारो सारापगतो, यथा फेणपिण्डो' असारो
निस्सारो सारापगतो, यथा उदकपुब्बुळ्ळ' असार निस्सार सारापगतं,
यथा मरीचि' असारो' निस्सारो' सारापगता, यथा कदलिकखन्धो
B 322 20 असारो निस्सारो सारापगतो, यथा माया असारो निस्सारो सारा-
पगता, एवमेव निरयलोको असारो निस्सारो सारापगतो । निच्चसार-
सारेण वा सुखसारसारेण वा अत्तसारसारेण वा निच्चेन वा धुवेण वा
सस्सतेण वा अविपरिणामधम्मेण वा ।

तिरच्छानयोनिलोको ... पेंतिविसयलोको ... मनुस्सलोको ...
25 देवलोको असारो निस्सारो सारापगतो निच्चसारसारेण वा सुख-
सारसारेण वा अत्तसारसारेण वा निच्चेन वा धुवेण वा सस्सतेण वा

१. नाहसामि - सी० । २-३ स्या० पोत्थके नत्थि । ३-३. स ब्रह्मलोको खवेवलोको
- स्या०, रो० । ४ स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि । ५ सेतगच्छो - स्या०, रो० । ६ पारि-
भट्ठको - स्या०, रो० । ७ फेणुपिण्डो - स्या०, रो० । ८ उदकपुब्बुळ्ळ - सी०, ० पुब्बुळ्ळ -
स्या० । ९-९ असारो निस्सारो - सी० ।

अविपरिणामधम्मेन वा । खन्धलोको ... घातुलोको ... आयतनलोको ... अयं लोको ... परो लोको ... ब्रह्मलोको ... देवलोको असारो निस्सारो सारा-पगतो निन्वसारसारेन वा सुखसारसारेन वा अत्तसारसारेन वा निन्वनेन वा धुवेन वा सस्सतेन वा अविपरिणामधम्मेन वा त्ति - समन्तमसारो लोको ।

दिसा सब्बा समेरिता त्ति । ये पुरत्थिमाय^१ दिसाय सङ्खारा, ते पि एरिता समेरिता चलिता घट्टिता अनिच्चताय जातिया अनुगता जराय अनुसटा व्याधिना अभिभूता मरणेन अब्भाहता दुक्खे पतिट्टिता अताणा अलेणा असरणा असरणीभूता । ये पच्छिमाय दिसाय सङ्खारा ... ये उत्तराय दिसाय सङ्खारा ... ये दक्खिणाय दिसाय सङ्खारा ... ये पुरत्थिमाय अनुदिसाय सङ्खारा ... ये पच्छिमाय अनुदिसाय सङ्खारा .. ये उत्तराय अनुदिसाय सङ्खारा ... ये दक्खिणाय अनुदिसाय सङ्खारा .ये हेट्ठिमाय दिसाय सङ्खारा .. ये उपरिमाय^२ दिसाय सङ्खारा ... ये दससु^३ दिसासु सङ्खारा, ते पि एरिता समेरिता चलिता घट्टिता अनिच्चताय जातिया अनुगता जराय अनुसटा व्याधिना अभिभूता मरणेन अब्भाहता दुक्खे पतिट्टिता अताणा अलेणा असरणा असरणी-भूता । भासितं पि चेतं -

“किञ्चा पि चेतं जलती विमानं,
ओभासयं उत्तरियं दिसाय ।
रूपे रणं दिस्वा सदा पवेधितं,
तस्मा न रूपे रमती सुमेधो ॥

R 411

“मच्चुनाब्भाहतो लोको, जराय परिवारितो ।
तण्हासल्लेन ओतिण्णो, इच्छाधूमायित्तो^४ सदा ॥

“सब्बो आदीपित्तो लोको, सब्बो लोको पधूपित्तो^५ ।
सब्बो पज्जलित्तो लोको, सब्बो लोको पकम्पित्तो^६” त्ति ॥

B. 323

दिसा सब्बा समेरिता ।

इच्छं भवनमत्तनो त्ति । अत्तनो भवनं ताणं लेणं सरणं गति परायणं इच्छन्तो सादियन्तो पत्थयन्तो पिहयन्तो अभिजप्पन्तो त्ति -

१. पुरित्थिमाय - स्या० । २ उत्तराय - सी० । ३ दस - स्या०, रो० । ४ इच्छा-धुमायिको - स्या०, रो० । ५ पजीपित्तो - स्या०, रो० । ६ भवं - स्या०, रो० ।

इच्छं भवनमत्तनो । नाहसासि अनोसितं ति । अज्झोसितं येव अहसं,
अनज्झोसितं नाहसं, सब्बं योब्बञ्जं जराय ओसितं, सब्बं आरोग्यं
व्याधिना ओसितं, सब्बं जीवितं मरणेन ओसितं, सब्बं लाभं अला-
मेन ओसितं, सब्बं यसं अयसेन ओसितं, सब्बं पससं निन्दाय
६ ओसितं, सब्बं सुखं दुक्खेन ओसितं ।

लाभो अलाभो यसो अयसो च,
निन्दा पससा च सुखं दुखं च ।
एते अनिच्चा मनुजेषु धम्मा,
असस्सता विपरिणामधम्मा ति ॥

10 नाहसासि अनोसितं । तेनाह भगवा -

“समन्तमसारो लोको, दिसा सब्बा समेरिता ।
इच्छं भवनमत्तनो, नाहसासि अनोसितं” ति ॥

l. 412

१७३. ओसाने त्वेव व्यारुद्धे, दिस्वा मे अरती अह् ।
अथेत्थ सल्लमहक्खिं, दुहसं हवयस्सितं ॥

15 ओसाने त्वेव व्यारुद्धे ति । ओसाने त्वेवा ति । सब्ब
योब्बञ्जं जरा ओसापेति, सब्बं आरोग्यं व्याधि ओसापेति, सब्ब
जीवितं मरण ओसापेति, सब्बं लाभं अलाभो ओसापेति, सब्बं यसं
अयसो ओसापेति, सब्बं पससं निन्दा ओसापेति, सब्बं सुखं दुक्खं
ओसापेती ति - ओसाने त्वेव । व्यारुद्धे ति । योब्बञ्जकामा सत्ता
20 जराय पटिविरुद्धा, आरोग्यकामा सत्ता व्याधिना पटिविरुद्धा,
जीवितुकामा' सत्ता मरणेन पटिविरुद्धा, लाभकामा सत्ता अलाभेन
पटिविरुद्धा, यसकामा सत्ता अयसेन पटिविरुद्धा, पससकामा सत्ता
निन्दाय पटिविरुद्धा, सुखकामा सत्ता दुक्खेन पटिविरुद्धा आहता
पच्चाहता आघातिता पच्चाघातिता ति - ओसाने त्वेव व्यारुद्धे ।

324 25

दिस्वा मे अरती अह् ति । दिस्वा ति । दिस्वा पस्सित्वा
तुल्यित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा ति - दिस्वा । मे
अरती ति । या अरति या अनभिरति या अनभिरमना या उक्क-
पिठता' या परित्तसित्ता अह् ति - दिस्वा मे अरती अह् ।

१. जीवितकामा - स्या० । २. उक्कपिठता ति - सी०; उक्कपिठ्वा - स्या०, रो० ।

अथेत्य सल्लमद्दक्खि ति । अथा ति । पदसन्धि...पे०...पदानु-
पुब्बतापेतं— अथा ति । एत्था ति । सत्तेसु । सल्लं ति । सत्त सल्लानि —
रागसल्लं, दोससल्लं, मोहसल्लं, मानसल्लं, दिट्ठिसल्लं, सोकसल्लं,
कथं कथासल्लं । अद्दक्खि ति । अद्दसं अदक्खि अपस्सि पटिविज्झि
ति — अथेत्य सल्लमद्दक्खि ।

5

दुद्दसं हृदयस्सितं ति । दुद्दसं ति । दुद्दस दुद्दक्खं दुप्पस्सं दुव्वुज्झं
दुरनुव्वुज्झं दुप्पटिविज्झं ति — दुद्दसं । हृदयस्सितं ति । हृदयं वुच्चति
चित्तं । यं चित्तं मनो मानसं हृदयं पण्डरं मनो मनायतनं मनिन्द्रियं
विञ्जाणं विञ्जाणक्खन्धो तज्जा मनोविञ्जाणघातु । हृदयस्सितं ति ।
हृदयनिस्सितं चित्तसितं चित्तनिस्सितं चित्तेन सहगतं सहजातं संसट्टं
सम्पयुत्तं एकुप्पादं एकनिरोधं एकवत्थुकं एकारम्मणं ति — दुद्दसं
हृदयस्सितं । तेनाह भगवा —

10

R 413

“ओसाने त्वेव ब्यारुद्धे, दिस्वा मे अरती अहु ।
अथेत्य सल्लमद्दक्खि, दुद्दसं हृदयस्सितं” ति ॥

१७४. येन सल्लेन ओतिण्णो, दिसा सब्बा विधावति ।
तमेव सल्लमब्बुद्दह, न धावति न सीदति ॥

15

येन सल्लेन ओतिण्णो दिसा सब्बा विधावती ति । सल्लं
ति । सत्त सल्लानि — रागसल्लं, दोससल्लं, मोहसल्लं, मानसल्लं,
दिट्ठिसल्लं, सोकसल्लं, कथं कथासल्लं । कतमं रागसल्लं ? यो रागो
सारगो अनुनयो अनुरोधो नन्दिरागो चित्तस्स सारागो ..पे० ..
अभिज्झा लोभो अकुसलमूलं — इदं रागसल्लं ।

20

कतमं दोससल्लं ? “अनत्थं मे अचरी” ति आघातो जायति
“अनत्थं मे चरती” ति आघातो जायति, “अनत्थं मे चरिस्सती” ति
आघातो जायति ..पे०...चण्डिकं असुरोपो अनत्तमनता चित्तस्स —
इदं दोससल्लं ।

25

कतमं मोहसल्लं ? दुक्खे अञ्जाणं...पे०... दुक्खनिरोधगामि-
निया पटिपदाय अञ्जाणं, पुब्बन्ते अञ्जाणं, अपरन्ते अञ्जाणं,

१ पदानुपुब्बतापेतं — सी०, स्या०, रो० । २ अद्दक्खि — स्या०, रो० । ३ स्या०, रो०
पोत्यकेसु नत्थि । ४ नन्दि नन्दिरागो — स्या०, रो० । ५ अञ्जाणं — स्या०, रो० ; एवमुपरि पि ।

B. 325

पुब्बन्तापरत्ते अञ्जाणं, इदप्पच्चयतापटिच्चसमुप्पत्तेसु धम्मोसु अञ्जाणं।
यं एवरूपं अदस्सनं अनभिसमयो अननुबोधो असम्बोधो अपट्टिवेधो
असङ्गाहणा^१ अपरियोगाहणा^२ असमपेक्खना^३ अपच्चवेक्खना अपक्क-
कम्मं दुम्मेज्जं बाल्यं मोहो पमोहो सम्मोहो अविज्जा अविज्जोधो
६ अविज्जायोगो अविज्जानुसयो अविज्जापरियुद्धानं अविज्जालङ्घी^४
मोहो अकुसलमूलं - इदं मोहसल्लं।

कतमं मानसल्लं? "सेय्योहमस्मी" ति मानो, "सदिसो-
हमस्मी" ति मानो, "हीनोहमस्मी" ति मानो। यो एवरूपो मानो
मञ्जना मञ्जितत्तं उज्जति^५ उज्जमो^६ धजो सम्पगाहो केतुकम्यता
10 चित्तस्स - इदं मानसल्लं।

B. 414

कतमं दिट्ठिसल्लं? बीसतिवत्थुका सक्कायदिट्ठि, दस-
वत्थुका मिच्छादिट्ठि, दसवत्थुका अन्तगाहिकादिट्ठि। या एवरूपा
दिट्ठि दिट्ठिगतं दिट्ठिगहनं दिट्ठिकन्तारो दिट्ठिविसूकायिकं दिट्ठि-
विप्फन्दितं दिट्ठिसञ्जीजनं गाहो पटिग्गाहो^७ अभिनिवेशो परामासो
15 कुम्मगो मिच्छापथो मिच्छत्तं तित्थायतनं विपरियासगाहो^८ विपरीत-
ग्गाहो^९ विपल्लासगाहो^{१०} मिच्छागाहो अयाथावकस्मि^{११} "याथावक"
ति गाहो यावता द्वासट्ठि दिट्ठिगतानि - इदं दिट्ठिसल्लं।

कतमं सोकसल्लं? आतिव्यसनेन वा फुट्टस्स रोगव्यसनेन^{१२}
वा फुट्टस्स^{१३} भोगव्यसनेन वा फुट्टस्स सीलव्यसनेन वा फुट्टस्स दिट्ठि-
20 व्यसनेन वा फुट्टस्स अञ्जतरञ्जतरेन^{१४} व्यसनेन समन्नागतस्स अञ्ज-
तरञ्जतरेन दुक्खधम्मेन फुट्टस्स सोको सोचना सोचित्तं अन्तोसोको
अन्तोपरिसोको अन्तोडाहो अन्तोपरिडाहो चेतसो परिज्झायना
दोमनस्सं - इदं सोकसल्लं।

कतमं कथं कथासल्लं? दुक्खे कङ्खा, दुक्खसमुदये कङ्खा,
25 दुक्खनिरोधे कङ्खा, दुक्खनिरोधगामिनिया पटिपदाय कङ्खा, पुब्बन्ते

१ असङ्गाहना - सी०; असङ्गाहता - स्या०, रो०। २ अपरियोगाहता - स्या०,
रो०। ३ असमपेक्खता - स्या०, रो०, एवमुपरि पि। ४ अविज्जालङ्घी - सी०, अविज्जा-
सङ्घी - रो०। ५-५. उज्जति उज्जमो - स्या०, रो०, एवमुपरि पि। ६. पटिग्गाहो - सी०।
७. विपरियेसगाहो - सी०, रो०; विपरियेसगाहो - स्या०। ८-८. विपरीतगाहो विपल्लास-
गाहो - सी०, रो०। ९-९. सी० पत्थके नत्थि। १०. अञ्जतरञ्जतरेन वा - स्या०, रो०,
एवमुपरि पि।

कङ्क्षा, अपरन्ते कङ्क्षा, पुब्बन्तापरन्ते कङ्क्षा, इदप्पच्चयतापटिच्च-
समुप्पन्नेसु धम्मोसु कङ्क्षा। या एवरूपा कङ्क्षा कङ्क्षायना कङ्क्षायितत्तं
विमति विचिकिच्छा द्वेळ्हकं द्वेधापथो संसयो अनेकंसग्गाहो आस-
प्पना परिसप्पना अपरियोगाहणा छम्भितत्तं चित्तस्स मनोविलेखो —
इदं कथं कथासल्लं।

5

येन सल्लेन ओतिण्णो विसा सब्बा विधावती ति। राग-
सल्लेन ओतिण्णो विद्धो फुट्ठो परेतो समोहितो समन्नागतो कायेन
दुच्चरितं चरति, वाचाय दुच्चरितं चरति, मनसा दुच्चरितं चरति,
पाणं पि हनति, अदिन्नं पि आदियति, सन्धि पि छिन्दति, निल्लोपं
पि हरति, एकागारिकं पि करोति, परिपन्थे पि तिट्ठति, परदारं पि
गच्छति, भुसा पि भणति; एवं पि रागसल्लेन ओतिण्णो विद्धो
फुट्ठो परेतो समोहितो समन्नागतो धावति विधावति सन्धावति
संसरति। अथ वा, रागसल्लेन ओतिण्णो विद्धो फुट्ठो परेतो समो-
हितो समन्नागतो भोगे परियेसन्तो नावाय महासमुद्धं पक्खन्दति।
सीतस्स पुरक्खतो उण्हस्स पुरक्खतो इंसमकसवातातपसरीसप-
सम्फस्सेहि पीळियमानो^१ खुप्पिपासाय मिय्यमानो तिगुम्बं^२ गच्छति,
तक्कोलं गच्छति, तक्कसीलं गच्छति, काळमुखं^३ गच्छति, पुरपूरं^४
गच्छति, वेसुङ्गं गच्छति, बेरापथं गच्छति, जवं गच्छति, तामालं^५
गच्छति, वङ्गं गच्छति, एळबन्धनं^६ गच्छति, सुवण्णकूटं गच्छति,
सुवण्णभूमिं गच्छति, तम्बपणिं गच्छति, सुप्पादकं^७ गच्छति, भार-
कच्छं गच्छति, सुरद्धं^८ गच्छति, भङ्गलोकं^९ गच्छति, भङ्गणं^{१०}
गच्छति, परमभङ्गणं गच्छति, योनं गच्छति, परमयोनं^{११} गच्छति,^{१२}
विनकं^{१३} गच्छति,^{१४} मूलपदं^{१५} गच्छति, मरुकन्तारं गच्छति, जण्णुपथं
गच्छति, अजपथं गच्छति, मेण्हपथं गच्छति, सङ्कुपथं गच्छति, छत्त-

B. 326

10

15 B. 415

20

१-१ रिस्समानो खुप्पिपासाय पीळियमानो गुम्ब - सी०, स्या०, रिस्समानो खुप्पिपा-
साय मिय्यमानो गुम्ब - रो०। २ कालमुखं - सी०, स्या०, रो०। ३ मरणपार - सी०,
स्या०, रो०। ४ तमालि - सी०, तम्बलिङ्ग - स्या०, तमालि - रो०। ५ वङ्ग - सी०,
रो०। ६ एळबद्धनं - स्या०, रो०। ७ सुप्पारक - सी०, सुप्पारं - स्या०, रो०। ८
भरुकं - स्या०; भरुकच्छ - रो०। ९ सुरद्धं - स्या०। १० अङ्गलोकं - सी०, अङ्गणेकं -
स्या०, रो०। ११ गङ्गण - सी०, स्या०, रो०। १२-१३ स्या० पौत्यके नत्थि। १३-१३.
वीतक गच्छति - सी०; पिनक गच्छति - स्या०, रो० पौत्यके नत्थि। १४. अल्लसण्डं -
स्या०, रो०।

पथं गच्छति, वंसपथं गच्छति, सकुणपथं गच्छति, मूसिकपथं गच्छति, दरिपथं गच्छति, वेत्ताचारं^१ गच्छति; परियेसन्तो न लभति, अलाभमूलकं पि दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति, परियेसन्तो लभति, लद्धा आरक्खमूलकं पि दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति "किन्ति मे भोगे नेव राजानो हरेय्युं न चोरा हरेय्युं न अग्गि दहेय्यं^२ न उदक वहेय्यं न अप्पिया दायदा हरेय्युं"^३ ति। तस्स एवं आरक्खतो गोपयतो ते भोगा विप्पलुज्जन्ति, सो विप्पयोगमूलकं पि दुक्खं दोमनस्स पटिसंवेदेति। एवं पि रागसल्लेन ओतिण्णो विद्धो फुट्ठो परेतो समोहितो समन्नागतो धावति विधावति सन्धावति संसरति।

R. 310

दोससल्लेन .. मोहसल्लेन ... मानसल्लेन ओतिण्णो विद्धो फुट्ठो परेतो समोहितो समन्नागतो कायेन दुच्चरितं चरति, वाचाय दुच्चरितं चरति, मनसा दुच्चरितं चरति, पाण पि हनति, अदिन्नं पि आदियति, सन्धि पि छिन्दति, निल्लोपं पि हरति, एकागारिकं पि करोति, परिपन्थे पि तिट्ठति, परदारं पि गच्छति, मुसा पि भणति। एवं मानसल्लेन ओतिण्णो विद्धो फुट्ठो परेतो समोहितो समन्नागतो धावति विधावति सन्धावति संसरति।

B. 327

दिट्ठिसल्लेन ओतिण्णो विद्धो फुट्ठो परेतो समोहितो समन्नागतो अचेलको होति मुत्ताचारो हत्थापलेखनो,^४ न एहिमदन्तिको, न तिट्ठभदन्तिको, नाभिहटं, न उद्दिस्सकत्तं, न निमन्तन सादियति, सो न कुम्भिमुखा पटिगण्हाति,^५ न कळोपिमुखा^६ पटिगण्हाति, न एळकमन्तरं, न दण्डमन्तरं, न मुसलमन्तरं, न द्विन्नं भुञ्जमानानं, न गट्ठिभनिया, न पायमानाय, न पुरिसन्तरगताय, न सङ्घीसु, न यत्थ सा उपट्ठितो होति, न यत्थ मक्खिका सण्डसण्डचारिनी। न मच्छं न मंसं न^७ सुरं^८ न मेरयं न थुसोदकं पिबति। सो एकागारिको वा होति एकालोपिको, द्वागारिको वा होति द्वालोपिको ...पे०... सत्तागारिको वा होति सत्तालोपिको। एकिस्सा पि भत्तिथा^९ यापेति, द्वीहि पि भत्तीहि यापेति ...पे०... सत्तहि पि भत्तीहि यापेति।

१ वेत्ताचारं—सी०, स्या०, रो०। २ डहेय्य—स्या०, रो०। ३ हत्थापलेखनो—स्या०, रो०। ४. पटिगण्हाति—सी०। ५ कळोपिमुखा—सी०। ६-६ स्या०, रो०। ७ पौत्तके नत्थि। ८ दत्तिथा—सी०, स्या०, रो०।

एकाहिकं पि आहारं आहारेति, द्वीहिकं पि आहारं आहारेति...पे०...
सत्ताहिकं पि आहारं आहारेति। इति एवरूपं अड्डुमासिकं पि
परियाभत्तभोजनानुयोगमनुयुत्तो विहरति। एवं पि दिट्टिसल्लेन
ओतिण्णो विद्धो परेतो समोहितो समन्नागतो धावति विधावति
सन्धावति संसरति।

अथ वा, दिट्टिसल्लेन ओतिण्णो विद्धो फुट्ठो परेतो समोहितो
समन्नागतो सो साकभक्खो वा होति, सामाकभक्खो वा होति,
नीवारभक्खो वा होति, दद्दुलभक्खो वा होति, हट्टभक्खो वा होति,
कणभक्खो वा होति, आचामभक्खो वा होति, पिञ्जाकभक्खो
वा होति, तिलभक्खो वा होति, तिणभक्खो वा होति, गोमयभक्खो
वा होति, वनमूलफलाहारो यापेति पवत्तफलभोजनो। सो साणानि
पि धारेति, मसाणानि पि धारेति, छवदुस्सानि पि धारेति, पंसु-
कूलानि पि धारेति, तिरीटानि पि धारेति, अजिनानि पि धारेति,
अजिनक्खिपं पि धारेति, कुसचीरं पि धारेति, वाकचीर पि धारेति,
फलकचीरं पि धारेति, केसकम्बलं पि धारेति, उलूकपक्ख पि धारेति,
केसमस्सुलोचको पि होति, केसमस्सुलोचनानुयोगमनुयुत्तो विहरति।
उब्भट्टको पि होति आसनपटिक्खत्तो, उक्कुटिको पि होति उक्कुटिक-
प्पधानमनुयुत्तो, कण्टकापस्सयिको होति, कण्टकापस्सये सेय्य
कप्पेति, फलकसेय्यं पि कप्पेति, थण्डिलसेय्यं पि कप्पेति, एकापस्स-
यिको होति रजोजल्लघरो, अब्भोकासिको पि होति यथासन्यतिको,
वेकटिको पि होति विकटभोजनानुयोगमनुयुत्तो, अपानको पि होति
अपानकत्तमनुयुत्तो, सायत्ततियकं पि उदकोरोहनानुयोगमनुयुत्तो
विहरति। इति एवरूपं अनेकविहितं कायस्स आतापनपरितापना-
नुयोगमनुयुत्तो विहरति। एवं पि दिट्टिसल्लेन ओतिण्णो विद्धो फुट्ठो
परेतो समोहितो समन्नागतो धावति विधावति सन्धावति संसरति।

सोकसल्लेन ओतिण्णो विद्धो फुट्ठो परेतो समोहितो समन्ना-
गतो सोचति किलमति परिदेवति उरत्ताळि कन्दति सम्मोहं आप-

१ द्वाहिक - सी० । २ हट्टभक्खो - स्या०, रो० । ३-३ स्या०, रो० पोत्यकेषु नत्थि ।
४-४ स्या०, रो० पोत्यकेषु नत्थि । ५ वा यापेति - सी० । ६ पवत्तफलभोजनी - स्या०, रो० ।
७ रो० पोत्यके नत्थि । ८ पि होति - सी०, स्या०, रो० । ९, सी० पोत्यके नत्थि । १०
अपानमत्तमनुयुत्तो - सी०, स्या०, रो० ।

ज्जति । वृत्तं हेतं भगवता — “भूतपुत्रं, ब्राह्मण, इमिस्सायेव साव-
त्थिया अञ्जतरिस्सा इत्थिया माता कालमकासि । सा तस्सा काल
किरियाय उम्मत्तिका खित्तचित्ता रथियाय रथियं, सिञ्चाटकेन
सिञ्चाटकं उपसङ्कमित्वा एवमाह — ‘अपि मे मातरं अहस्सथ, अपि
६ मे मातरं अहस्सथा’ ति ।

R 418

“भूतपुत्रं, ब्राह्मण, इमिस्सायेव सावत्थिया अञ्जतरिस्सा
इत्थिया पिता कालमकासि ... भाता कालमकासि ... भगिनी कालमकासि
. पुत्तो कालमकासि ... धीता कालमकासि ... सामिको कालमकासि । सा
तस्स कालं किरियाय उम्मत्तिका खित्तचित्ता रथियाय रथिय,
10 सिञ्चाटकेन सिञ्चाटकं उपसङ्कमित्वा एवमाह — ‘अपि मे सामिक
अहस्सथ, अपि मे सामिकं अहस्सथा’ ति ।

“भूतपुत्रं, ब्राह्मण, इमिस्सायेव सावत्थिया अञ्जतरस्स
पुरिसस्स माता कालमकासि । सो तस्सा कालं किरियाय उम्मत्तको
खित्तचित्तो रथियाय रथियं, सिञ्चाटकेन सिञ्चाटकं उपसङ्कमित्वा
15 एवमाह — ‘अपि मे मातरं अहस्सथ, अपि मे मातरं अहस्सथा’ ति ।

329

“भूतपुत्रं, ब्राह्मण, इमिस्सायेव सावत्थिया अञ्जतरस्स
पुरिसस्स पिता कालमकासि ... भाता कालमकासि ... भगिनी कालम-
कासि . पुत्तो कालमकासि ... धीता कालमकासि .. पजापति^१ कालम-
कासि । सो तस्सा कालं किरियाय उम्मत्तको खित्तचित्तो रथियाय
20 रथियं, सिञ्चाटकेन सिञ्चाटकं उपसङ्कमित्वा एवमाह — ‘अपि मे
पजापति अहस्सथ, अपि मे पजापति अहस्सथा’ ति ।

“भूतपुत्रं, ब्राह्मण, इमिस्सायेव सावत्थिया अञ्जतरा इत्थी
वातिकुलं अगमासि । तस्सा ते वातका सामिकं अञ्छिन्दित्वा अञ्जस्स
दातुकामा, सा च नं न इच्छति । अथ खो सा इत्थी सामिक
25 एतदवोच — ‘इमे,^२ अय्यपुत्त, वातका तव अञ्छिन्दित्वा अञ्जस्स
दातुकामा, उभो मयं मरिस्सामा’ ति । अथ खो सो पुरिसो तं इत्थि
द्विधा छेत्वा अत्तानं ओपातेति^३ — ‘उभो पेच्च भविस्सामा’” ति । एव

१ पजापती — स्या०, रो०, एवमुपरि पि । २ इमे मं — सी०, स्या०, रो० । ३
ओपातेसि — स्या०, रो० ।

सोकसल्लेन ओतिण्णो विद्धो फुट्ठो परेतो समोहितो समन्नागतो धावति विधावति सन्धावति संसरति ।

कथंकथासल्लेन ओतिण्णो विद्धो फुट्ठो परेतो समोहितो समन्नागतो संसयपक्खन्दो^१ होति विमतिपक्खन्दो द्वे^२हकजातो—
 “अहोसि नु खो अहं अतीतमद्धानं, न नु खो अहोसि अतीतमद्धानं, किं
 नु खो अहोसि अतीतमद्धानं, कथं नु खो अहोसि अतीतमद्धानं, किं
 हुत्वा किं अहोसि नु खो अतीतमद्धानं, भविस्सामि नु खो अहं अना-
 गतमद्धानं, न नु खो भविस्सामि अनागतमद्धानं, किं नु खो भविस्सामि
 अनागतमद्धानं, कथं नु खो भविस्सामि अनागतमद्धानं, किं हुत्वा
 किं भविस्सामि नु खो^३ अनागतमद्धानं, एतरहि वा^४ पच्चुप्पन्नं अद्धानं
 अञ्जत्तं^५ कथंकथी होति, अहं नु खोस्मि, नो नु खोस्मि, किं नु खोस्मि
 कथं नु खोस्मि, अयं नु खो सत्तो कुतो आगतो, सो कुहि गामी
 भविस्सती” ति । एवं कथंकथासल्लेन ओतिण्णो विद्धो फुट्ठो
 परेतो समोहितो समन्नागतो धावति विधावति सन्धावति संसरति ।

R. 419

ते सल्ले^६ अभिसङ्खरोति, ते सल्ले अभिसङ्खरोन्तो सल्ला-
 भिसङ्खारवसेन पुरत्थिमं दिसं धावति, पच्छिमं दिसं धावति, उत्तरं
 दिसं धावति, दक्खिणं दिसं धावति । ते सल्लाभिसङ्खारा अप्पहीना;
 सल्लाभिसङ्खारानं अप्पहीनत्ता गतिया धावति, निरये धावति,
 तिरच्छायोनिया धावति, पेत्तिविसये धावति, मनुस्सलोके धावति,
 देवलोके धावति, गतिया गति, उपपत्तिया उपपत्ति, पटिसन्धिया पटि-
 सन्धि, भवेन भवं, संसारेण संसारं, वट्टेण वट्टं धावति विधावति
 सन्धावति संसरती ति—येन सल्लेन ओतिण्णो दिसा सव्वा विधावति ।

20 B. 830

तनेव सल्लमब्बुट्ठह न धावति न सीदती ति । तमेव रागसल्लं
 दोससल्लं मोहसल्लं मानसल्लं^७ दिट्ठिसल्लं सोकसल्लं कथंकथासल्लं
 अब्बुट्ठह अब्बुहित्वा उद्धरित्वा समुद्धरित्वा उप्पाटयित्वा^८ समुप्पाट-
 यित्वा^९ पज्जहित्वा विनोदेत्वा व्यन्ति करित्वा अनभावं गमेत्वा नेव
 पुरत्थिमं दिसं धावति न पच्छिमं दिसं धावति न उत्तरं दिसं धावति

25

१ ससयपक्खन्नो—सी०, स्या०, रो०, एवमुपरि पि । २ खो अहं—स्या०, रो० ।
 ३ स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि । ४ आरद्धं—सी० । ५ च सल्ले—स्या०, रो० । ६ रो०
 पोत्यके नत्थि । ७-८. उप्पाटयित्वा समुप्पाटयित्वा—स्या०, रो० ।
 ९ म० नि०—४६

न दक्खिणं दिसं धावति । ते सल्लाभिसङ्घारं पहीना; सल्लाभिसङ्घारानं पहीनत्ता गतिया न धावति, निरये न धावति, तिरच्छान-
 योनिया न धावति, पेत्तिविसये न धावति, मनुस्सलोके न धावति,
 देवलोके न धावति, न गतिया गति, न उपपत्तिया उपपत्ति, न
 ६ पटिसन्धिया पटिसन्धि, न भवेन भवं, न संसारेन संसारं, न वट्टेन
 वट्टं धावति विधावति^१ सन्धावति संसरती ति - तमेव सल्लमब्बुय्ह
 न धावति । न सीदती ति । कामोघे न सीदति, भवोघे न सीदति,
 दिट्ठोघे न सीदति, अविज्जोघे न सीदति, न संसीदति न ओसीदति
 न अवसीदति न^२ गच्छति^३ न अवगच्छती ति - तमेव सल्लमब्बुय्ह
 १० न धावति न सीदति । तेनाह भगवा -

“येन सल्लेन ओतिण्णो, दिसा सव्वा विधावति ।
 तमेव सल्लमब्बुय्ह, न धावति न सीदती” ति ॥

१७५. तत्थ सिक्खानुगीयन्ति, यानि लोके गधितानि ।
 न तेसु पसुतो सिया, निब्बिज्जं सव्वसो कामे ।
 १५ सिक्खे निब्बानमत्तनो ॥

तत्थ सिक्खानुगीयन्ति यानि लोके गधितानी ति । सिक्खा
 ति । हत्थिसिक्खा अस्ससिक्खा रथसिक्खा धनुसिक्खा सालाकियं सल्ल-
 कत्तियं कायतिकिच्छं भूतियं कोमारभच्चं^१ । अनुगीयन्ती^२ ति । गीयन्ति
 निग्गीयन्ति^३ कथीयन्ति भणीयन्ति दीपीयन्ति वोहरीयन्ति । अथ वा,
 २० गीयन्ति गण्हीयन्ति उग्गण्हीयन्ति धारीयन्ति उपधारीयन्ति उपलक्खी-
 यन्ति गधितपटिलाभाय । गधिता वुच्चन्ति पञ्च कामगुणा -
 चक्खुविञ्जेय्या रूपा इट्ठा कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसञ्जिता
 रजनीया, सोतविञ्जेय्या सद्दा ...पे०... धानविञ्जेय्या गन्धा.. जिक्खा-
 विञ्जेय्या रसा...कायविञ्जेय्या फोट्टब्बा इट्ठा कन्ता मनापा पियरूपा
 २५ कामूपसञ्जिता रजनीया । किकारणा गधिता वुच्चन्ति पञ्च काम-
 गुणा ? येभुय्येन देवमनुस्सा पञ्च कामगुणे इच्छन्ति सादियन्ति
 पत्थयन्ति पिहयन्ति अभिजप्पन्ति तंकारणा गधिता वुच्चन्ति पञ्च

१ सी० पोत्वके नत्थि । २-२. स्या० पोत्वके नत्थि । ३ कोमारतिकिच्छ - स्या०,
 रो० । ४ गीयन्ती - सी०, स्या०, रो० । ५ स्या०, रो० पोत्वकेसु नत्थि ।

कामगुणा । लोके ति । मनुस्सलोके ति - तत्थ सिक्खानुगीयन्ति यानि लोके गधितानि ।

न तेसु पसुतो सिया ति । तासु वा सिक्खासु तेसु वा पञ्चसु कामगुणेषु न पसुतो सिया, न तन्निन्नो अस्स, न तप्पोणो, न तप्प-
भमारो, न तदधिमुत्तो, न तदधिपतेय्यो' ति - न तेसु पसुतो सिया । 5

निब्बिज्झ सव्वसो कामे ति । निब्बिज्झा ति । पटिविज्झित्वा ।
“सव्वे सङ्खारा अनिच्चा” ति पटिविज्झित्वा, “सव्वे सङ्खारा दुक्खा”
ति पटिविज्झित्वा ...पे०... “यं किञ्चि समुदयधम्मं सव्वं तं निरोधधम्मं”
ति पटिविज्झित्वा । सव्वसो ति । सव्वेन सव्वं सव्वथा सव्वं असेसं
निस्सेसं परियादियनवचनमेतं^१ - सव्वसो ति । कामा ति । उद्दानतो द्वे 10
कामा - वत्थुकामा च किलेसकामा च ..पे०... इमे वुच्चन्ति वत्थु-
कामा .पे०...इमे वुच्चन्ति किलेसकामा ति - निब्बिज्झ सव्वसो कामे ।

R 421

सिक्खे निब्बानमत्तनो ति । सिक्खा ति । तिस्सो सिक्खा -
अधिशीलसिक्खा, अधिचित्तसिक्खा, अधिपञ्जासिक्खा ...पे०... अयं
अधिपञ्जासिक्खा । निब्बानमत्तनो ति । अत्तनो रागस्स निव्वापनाय' 15
दोसस्स निव्वापनाय मोहस्स निव्वापनाय ...पे०... सव्वाकुसलामि-
सङ्खारानं समाय उपसमाय वूपसमाय निव्वापनाय पटिनिस्सग्गाय
पटिपस्सद्धिया अधिशीलं पि सिक्खेय्य अधिचित्तं पि सिक्खेय्य अधि-
पञ्जं पि सिक्खेय्य, इमा तिस्सो सिक्खायो आवज्जन्तो^२ सिक्खेय्य
जानन्तो सिक्खेय्य ...पे०... सच्छिकातव्वं सच्छिकरोन्तो सिक्खेय्य 20
आचरेय्य समाचरेय्य समादाय वत्तेय्या ति - सिक्खे निब्बानमत्तनो ।
तेनाह भगवा -

“तत्थ सिक्खानुगीयन्ति, यानि लोके गधितानि ।
न तेसु पसुतो सिया, निब्बिज्झ सव्वसो कामे ।
सिक्खे निब्बानमत्तनो” ति ॥

B. 392

25

१७६. सच्चो सिया अप्पगब्भो, अमायो रित्तपेसुणो ।
अक्कोघनो लोभपायं^३, वेविच्छं वितरे मुनि ॥

१. तदाधिपतेय्यो - स्या०, रो० । २ परियादायवचन० - स्या०, रो० । ३ निव्वा-
नाय - स्या०, रो०; एवमुपरि पि । ४ अवज्जन्तो - सी०, आवज्जेन्तो - स्या०, रो० । ५
लोभपापकं - स्या०, रो०; एवमुपरि पि ।

१. ४२२

सच्चो सिया अप्पगव्भो ति । सच्चो सिया ति । सच्चवाचाय
समन्नागतो सिया, सम्मादिट्ठिया समन्नागतो सिया, अरियेन अट्ठङ्गि-
केन मग्गेन समन्नागतो सिया ति - सच्चो सिया । अप्पगव्भो ति ।
तीणि पागट्ठिभयानि - कायिकं पागट्ठिभय, वाचसिकं पागट्ठिभय,
५ चेतसिकं पागट्ठिभयं ..पे०... इदं चेतसिकं पागट्ठिभय । यस्सिमानि
तीणि पागट्ठिभयानि पहीनानि समुच्छिन्नानि बूपसन्तानि पटिपस्सट्ठानि
अभव्वुप्पत्तिकानि बाणग्गिना दड्ढानि, सो वुच्चति अप्पगव्भो ति -
सच्चो सिया अप्पगव्भो ।

अमायो रित्तपेसुणो ति । माया वुच्चति वञ्चनिका चरिया ।
१० इधेकच्चो कायेन दुच्चरितं चरित्वा वाचाय दुच्चरितं चरित्वा मनसा
दुच्चरितं चरित्वा तस्स पटिच्छादनहेतु पापिकं इच्छं पणिदहति,
मा मं जञ्जा ति इच्छति, मा मं जञ्जा ति सङ्कप्पेति, मा म
जञ्जा ति वाचं भासति, मा मं जञ्जा ति कायेन परक्कमति । या
एवरूपा माया मायाविता अञ्चसरा वञ्चना निकति निकिरणा^१
१५ परिहरणा गूहना परिगूहना छादना परिच्छादना^२ अनुत्तानीकम्म
अनाविकम्मं वोच्छादना^३ पापकिरिया - अयं वुच्चति माया । यस्सेसा
माया पहीना समुच्छिन्ना बूपसन्ता पटिपस्सट्ठा अभव्वुप्पत्तिका बाण-
ग्गिना दड्ढा, सो वुच्चति अमायो । रित्तपेसुणो ति । पेसुञ्जं ति-
इधेकच्चो पिसुणवाचो होति ...पे०... एवं भेदाधिप्पायेन पेसुञ्जं
२० उपसंहरति । यस्सेतं पेसुञ्जं पहीनं समुच्छिन्नं बूपसन्तं पटिपस्सट्ठ
अभव्वुप्पत्तिकं बाणग्गिना दड्ढं, सो वुच्चन्ति रित्तपेसुणो विवित्त-
पेसुणो पविवित्तपेसुणो ति - अमायो रित्तपेसुणो ।

१. ३३३

अक्कोधनो लोभपापं वेविच्छं वितरे मुनी ति । अक्कोधनो ति ।
हि खो^४ वुत्तं, अपि च कोधो ताव वत्तव्वो । दसहाकारेहि कोधो
१५ जायति । "अनत्थं मे अचरी" ति कोधो जायति ...पे०... यस्सेसो कोधो
पहीनो समुच्छिन्नो बूपसन्तो पटिपस्सट्ठो अभव्वुप्पत्तिको बाणग्गिना
दड्ढो, सो वुच्चति अक्कोधनो । कोधस्स पहीनत्ता अक्कोधनो, कोध-
वत्थुस्स परिञ्जातत्ता अक्कोधनो, कोधहेतुस्स उपच्छिन्नत्ता अक्को-

१ निकिरणा - सी०; निकिरणा निहरणा - स्या०, रो० । २ पटिच्छादना - सी० ।
३ वोच्छादना - सी० । ४ सी०. पोत्यके नत्थि ।

धनो । लोभो ति । यो लोभो लुब्धना लुब्धितत्तं ...पे०... अभिञ्जा
लोभो अकुसलमूलं । वेविच्छं वुच्चति पञ्च मच्छरियानि - आवास-
मच्छरियं ...पे०... गाहो वुच्चति मच्छरियं । मुनी ति । मोनं वुच्चति
आणं .पे०...सङ्गजालमतिच्च सो मुनि । अक्कोधनो लोभपापं
वेविच्छं वितरे मुनी ति । मुनि लोभपापं च वेविच्छं च अतरि 5
उत्तरि पतरि' समतिक्कमि' वीतिवत्तयी ति - अक्कोधनो लोभपापं
वेविच्छं वितरे मुनि । तेनाह भगवा -

“सच्चो सिया अप्पगव्भो, अमायो रित्तपेसुणो ।
अक्कोधनो लोभपापं, वेविच्छं वितरे मुनी” ति ॥

१७७. निहं त्तिन्द सहे थिन्नं, पमादेन नं संवसे ।
अतिमाने न तिट्ठेय्य, निब्बानमनसो नरो ॥

निहं त्तिन्द सहे थिन्नं ति । निह्वा ति । या कायस्स अकल्यता
अकम्मञ्जता ओनाहो परियोनाहो अन्तोसमोरोधो मिद्धं सुप्पं
पचलायिका' सुप्पं' सुप्पना' सुप्पितत्तं' । त्तिन्द ति । या तन्दी तन्दिद्यना
तन्दिद्यितत्तं' तन्दिमनकता आलस्यं' आलस्यायना' आलस्यायितत्तं' । 15
थिन्नं ति । या चित्तस्स अकल्यता अकम्मञ्जता ओलीयना सल्लीयना
लीनं लीयना लीयितत्तं, थिन्नं थियना थियितत्तं' चित्तस्स । निहं
त्तिन्द सहे थिन्नं ति । निहं च त्तिन्द च थिन्नं' च' सहे' सहेय्य
परिसहेय्य अभिभवेय्य अज्झोत्थरेय्य परियादियेय्य महेय्या ति -
निहं त्तिन्द सहे थिन्नं । 20

पमादेन न संवसे ति । पमादो वत्तव्भो कायदुच्चरिते" वा
वचीदुच्चरिते वा मनोदुच्चरिते वा पञ्चसु वा" कामगुणेषु । चित्तस्स
वोसग्गो" वोसग्गानुप्पादनं" वा कुसलानं वा धम्मानं भावनाय असक्क-

१ पतरि-स्या०, रो० । २. समतिक्कमि वीतिक्कमि-सी०, स्या०, रो० । ३
निब्बानमानसो-सी० । ४ सोप्पं-स्या०, रो० । ५ पचलायिका-सी०; चपलायिका-स्या०,
रो० । ६ स्या०, रो० पोत्यकेषु नत्थि । ७-७ सुप्पिना सुप्पितत्तं-स्या०, रो० । ८ सी०, स्या०,
रो० पोत्यकेषु नत्थि । ९ आलस्यं-सी०, आलसिय-स्या०, रो० । १० आलसायना-सी०,
स्या०, रो० । ११. आलसायितत्तं-सी०, स्या०; आलसयितत्तं-रो० । १२ थियितत्तं-सी०,
स्या०, रो० । १३-१३. रो० पोत्यके नत्थि । १४ स्या०, रो० पोत्यकेषु नत्थि । १५ काय-
दुच्चरितेन-स्या०, रो०; एवमुपरि पि । १६. सी०, स्या०, रो० पोत्यकेषु नत्थि । १७
वोस्सग्गो-सी०, स्या०, रो०; एवमुपरि पि । १८ वोस्सग्गानुप्पादानं-स्या०, रो०

B. 334

च्चकिरियता असातच्चकिरियता अनद्वितकिरियता ओलीनवुत्तिता
निक्खित्तच्छन्दता निक्खित्तधुरता अनासेवना अभावना अबहुलीकम्म
अनधिद्वानं अननुयोगो पमादो । यो एवरूपो पमादो पमज्जना पमज्जि-
तत्तं—अयं वुच्चति पमादो । पमादेन न संवसे ति । पमादेन
5 न' वसेय्य न' संवसेय्य न आवसेय्य न परिवसेय्य, पमादं पज-
हेय्य विनोदेय्य व्यन्ति करेय्य अनभावं गमेय्य, पमादा आरतो अस्स
विरतो पटिविरतो निक्खन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसञ्जुत्तो विम-
रियादिकतेन चेतसा विहरेय्या ति—पमादेन न संवसे ।

B. 424

अतिमाने न तिद्वेय्या ति । अतिमानो ति । इधेकच्चो पर
10 अतिमञ्जति जातिया वा गोत्तेन वा...पे०...अञ्जतरञ्जतरने वा
वत्थुना । यो एवरूपो मानो मञ्जना मञ्जितत्तं उन्नति उन्नतो धजो
सम्पग्गाहो केतुकम्यता चित्तस्स—अयं वुच्चति अतिमानो । अतिमाने
न तिद्वेय्या ति । अतिमाने न तिद्वेय्य न संतिद्वेय्य, अतिमान
पजहेय्य विनोदेय्य व्यन्ति करेय्य अनभावं गमेय्य, अतिमाना आरतो
15 अस्स विरतो पटिविरतो निक्खन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसञ्जुत्तो
विमरियादिकतेन चेतसा विहरेय्या ति—अतिमाने न तिद्वेय्य ।

निब्बानमनसो नरो ति । इधेकच्चो दानं देन्तो सील समा-
दियन्तो उपोसथकम्मं करोन्तो पानीयं परिभोजनीयं उपद्वेपन्तो परि-
वेणं सम्मज्जन्तो चेतियं वन्दन्तो चेतिये गन्धमालं आरोपेन्तो चेतिय
20 पदक्खिणं करोन्तो यं किञ्चि तेघातुकं कुसलाभिसङ्खारं अभिसङ्ख-
रोन्तो न गतिहेतु न उपपत्तिहेतु न पटिसन्धिहेतु न भवहेतु न संसार-
हेतु न वट्टहेतु, सत्त्वं तं विसंयोगाधिप्पायो निब्बाननिम्भो निब्बान-
पोषो निब्बानपम्भारो अभिसङ्खरोती ति । एवं पि निब्बानमनसो
नरो । अयं वा, सब्बसङ्खारधातुया चित्तं पटिवापेत्वा अमत्ताय धातुया
25 चित्तं उपसंहरति—“एतं सन्तं एतं पणीतं यदिदं सब्बसङ्खारसमथो
सब्बूपधिपटिनिस्सग्गो तण्हक्खयो विरागो निरोधो निब्बानं” ति ।
एवं पि निब्बानमनसो नरो ।

न पण्डिता उपधिसुखस्स हेतु,
ददन्ति दानानि पुनम्भवाय ।

कामं च ते उपधिपरिक्खयाय,
ददन्ति दानं अपुनब्भवाय ॥

न पण्डिता उपधिसुखस्स हेतु,
भावेन्ति भानानि पुनब्भवाय ।

B. 335

कामं च ते उपधिपरिक्खयाय,
भावेन्ति भानं^१ अपुनब्भवाय ॥

5

ते निव्वुत्ति आसिसमानसा^२ ददन्ति,
तन्नित्तचित्ता तदधिमुत्ता^३ ।

R. 425

नज्जो यथा सागरमज्जमुपेता,^४
भवन्ति निव्वानपरायना ते ति ॥

10

निव्वानमनसो नरो । तेनाह भगवा -

“निहं तन्दि सहे थीनं, पमादेन न संवसे ।

अतिमाने न तिट्ठेय्य, निव्वानमनसो नरो” ति ॥

१७८. मोसवज्जे न निव्वेय्ये, रूपे स्नेहं न कुव्वये ।

मानं च परिजानेय्य, साहसा विरतो चरे ॥

15

मोसवज्जे न निव्वेय्या ति । मोसवज्ज वुच्चति मुसावादो ।

इधेक्कच्चो सभग्गतो^५ वा परिसग्गतो^६ वा आतिमज्जगतो वा पूग-
मज्जगतो वा राजकुलमज्जगतो वा अभिनीतो सक्खिपुट्टो -

“एहम्मो पुरिस, यं जानासि तं वदेही” ति, सो अजानं वा आह^७

- “जानामी” ति, जानं वा आह - “न जानामी” ति, अपस्सं^८

20

वा आह - “पस्सामी” ति, पस्सं वा आह - “न पस्सामी” ति ।

इति अत्तहेतु वा परहेतु वा आमिसकिञ्चिक्खहेतु वा सम्पजान-

मुसा भासिता^९ होति^{१०} - इदं वुच्चति मोसवज्जं । अपि च, तीहा-

कारेहि ... चतूहाकारेहि ... पञ्चहाकारेहि ... छहाकारेहि ... सत्तहाकारेहि

.. अट्टहाकारेहि .. पे० .. इमेहि अट्टहाकारेहि मुसावादो होति । मोस-

25

वज्जे न निव्वेय्या ति । मोसवज्जे न यायेय्य न निव्वयायेय्य न वहेय्य^{११}

१ भानानि - स्या०, रो० । २ आसिसमाना - सी०, अभिमना - स्या०, रो० । ३ तदाधिमुत्ता - सी०; तदाधिमुत्ता - स्या०, रो० । ४ सागरमज्जगता - स्या०, रो० । ५-५ नभगगतो वा परिसग्गतो - सी० । ६ अह - सी०, एवमुपरिपि । ७-७ भासति - सी० । ८ वुद्धेय्य - सी०, स्या०, रो० ।

न संहरेय्य, मोसवज्जं पजहेय्य विनोदेय्य व्यन्ति करेय्य अनभावं
गमेय्य, मोसवज्जा आरतो अस्स विरतो पटिविरतो निक्खन्तो
निस्सटो विप्पमुत्तो विसञ्चुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरेय्या
ति - मोसवज्जे न निय्येथ।

B. 330,
R 426

6

रूपे स्नेहं न कुब्बये ति। रूपं ति। चत्तारो च महाभूता,
चतुन्नं च महाभूतानं उपादाय रूपं। रूपे स्नेहं न कुब्बये ति। रूपे
स्नेहं न करेय्य छन्दं न करेय्य पेमं न करेय्य रागं न करेय्य न
जनेय्य न सञ्जनेय्य न' निब्बत्तेय्य नाभिनिब्बत्तेय्या ति - रूपे स्नेह
न कुब्बये।

10

मानं च परिजानेय्या ति। मानो ति। एकविधेन मानो -
या' चित्तस्स उन्नति। दुविधेन मानो - अत्तुक्कंसनमानो, परवम्भन-

15

मानो। तिविधेन मानो - "सेय्योहमस्मी" ति मानो, "सदिसो-
हमस्मी" ति मानो, "हीनोहमस्मी" ति मानो। चतुर्विधेन मानो -

15

सुखेन मान जनेति। पञ्चविधेन मानो - "लाभिस्मिह मनापिकान
रूपानं" ति मान जनेति, "लाभिस्मिह मनापिकानं सदानं ... गन्थानं ..
रसानं .. फोट्टुब्बानं" ति मान जनेति। छट्ठविधेन मानो - चक्खुसम्प-

20

दाय मानं जनेति, सौतसम्पदाय .. धानसम्पदाय .. जिन्हासम्पदाय ..
कायसम्पदाय . मनोसम्पदाय मान जनेति। सत्तविधेन मानो - अति-

25

मानो, मानातिमानो, ओमानो, सदिसमानो, अधिमानो, अस्मिमानो,
मिच्छामानो। अट्ठविधेन मानो - लाभेन मान जनेति, अलाभेन
ओमानं जनेति, यसेन मानं जनेति, अयसेन ओमान जनेति, पससाय
मान जनेति, निन्दाय ओमानं जनेति, सुखेन मानं जनेति, दुक्खेन
ओमान जनेति। नवविधेन मानो - सेय्यस्स "सेय्योहमस्मी" ति

मानो, सेय्यस्स "सदिसोहमस्मी" ति मानो, सेय्यस्स "हीनोहमस्मी"
ति मानो, सदिसस्स "सेय्योहमस्मी" ति मानो, सदिसस्स "सदिसो-

हमस्मी" ति मानो, सदिसस्स "हीनोहमस्मी" ति मानो, हीनस्स
"सेय्योहमस्मी" ति मानो, हीनस्स "सादिसोहमस्मी" ति मानो,

१ सी० पोत्यके नत्थि। २ स्या०, रो० पोत्यकेषु नत्थि। ३ चतुर्विधेन - म०।
४ मानो मानो - स्या० रो०। ५ स्या०, रो० पोत्यकेषु नत्थि।

हीनस्स “हीनोहमस्मी” ति मानो। दसविधेन मानो—इधेकच्चो मानं जनेति जातिया वा गोत्तेन वा...पे०...अञ्जतरञ्जतरेन वा वत्थुना। यो एवरूपो मानो मञ्जना मञ्जितत्तं उन्नति उन्नमो घञो सम्पग्गाहो केतुकम्पता चित्तस्स—अयं वुच्चति मानो।

मानं च परिजानेय्या ति। मानं तीहि परिञ्जाहि परि- 5
जानेय्य—वातपरिञ्जाय, तीरणपरिञ्जाय, पहानपरिञ्जाय। कतमा
वातपरिञ्जा? मानं जानाति। अयं एकविधेन मानो—या चित्तस्स B. 427
उन्नति। अयं दुविधेन मानो—अत्तुक्कंसनमानो परवम्भनमानो...पे०...
अयं दसविधेन मानो—इधेकच्चो मानं जनेति जातिया वा गोत्तेन B. 337
वा...पे०...अञ्जतरञ्जतरेन वा वत्थुना ति जानाति पस्सति—अयं 10
जातपरिञ्जा।

कतमा तीरणपरिञ्जा? एतं वातं कत्वा^१ मानं तीरेति
अनिच्चतो दुक्खतो...पे०...निस्सरणतो^२ तीरेति—अयं तीरणपरिञ्जा।

कतमा पहानपरिञ्जा? एवं तीरयित्वा^३ मानं पजहति
विनोदेति व्यन्ति करोति अनभावं गमेति—अयं पहानपरिञ्जा। 15
मानं च परिजानेय्या ति। मानं इमाहि तीहि परिञ्जाहि परिजानेय्या
ति—मानं च परिजानेय्य।

साहसा चिरतो चरे ति। कतमा साहसा चरिया? रत्तस्स
रागचरिया साहसा चरिया, दुट्टस्स दोसचरिया साहसा चरिया,
मूळहस्स मोहचरिया साहसा चरिया, विनिवद्धस्स^४ मानचरिया 20
साहसा चरिया, परामट्टस्स दिट्ठिचरिया साहसा चरिया, विक्खेप-
गतस्स उद्धच्चचरिया साहसा चरिया, अनिट्ठुत्तस्स^५ विक्किच्छा-
चरिया साहसा चरिया, थामगतस्स अनुसयचरिया साहसा चरिया—
अयं साहसा चरिया। साहसा चिरतो चरे ति। साहसा चरियाय
आरतो अस्स विरतो पटिविरतो निक्खन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो 25
विसञ्जुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरेय्य^६ चरेय्य विचरेय्य

१-१ एवं कत्वा—स्या०, रो०। २ अनिस्सरणतो—सी०, स्या०। ३ तिरेत्वा—
स्या०, रो०। ४ विनिवद्धस्स—स्या०, रो०; एवमुपरि पि। ५ अनिट्ठुगतस्स—सी०। ६
विहरेय्या ति चरेति—रो०।

इरियेय्य वत्तेय्य पालेय्य यपेय्य थापेय्या ति - साहसा विरतो चरे।
तेनाह भगवा -

“मोसवज्जे न निय्येथ, रूपे स्नेहं न कुब्बये।
मानं च परिजानेय्य, साहसा विरतो चरे” ति ॥

5 १७९. पुराणं नाभिनन्देय्य, नवे खन्ति' न कुब्बये'।
हीयमाने न सोचेय्य, आकासं' न सितो सिया ॥

R 428

पुराणं नाभिनन्देय्या ति। पुराणं वुच्चति अतीता रूपवेदना-
सञ्जासङ्खारविञ्जाणा'। अतीते सङ्खारे तण्हावसेन दिट्ठिवसेन नाभि-
नन्देय्य' नाभिवदेय्य न अज्झोसेय्य, अभिनन्दनं अभिवदन अज्झो-
सानं गाहं परामासं अभिनिवेस पजहेय्य विनोदेय्य व्यन्ति करेय्य
B. 888 10 अनभावं गमेय्या ति - पुराण नाभिनन्देय्य।

नवे खन्ति न कुब्बये ति। नवा वुच्चति पच्चुप्पन्ना रूप-
वेदनासञ्जासङ्खारविञ्जाणा। पच्चुप्पन्ने सङ्खारे तण्हावसेन दिट्ठि-
वसेन खन्ति न करेय्य छन्दं न करेय्य पेम न करेय्य राग न करेय्य
15 न जनेय्य न सञ्जनेय्य न निब्बत्तेय्य नाभिनिब्बत्तेय्या ति - नवे
खन्ति न कुब्बये।

हीयमाने न सोचेय्या ति। हीयमाने हायमाने परिहायमाने
वेमाने विगच्छमाने अन्तरघायमाने न सोचेय्य न किलमेय्य न परा-
मसेय्य न परिदेवेय्य न उरत्ताळि कन्देय्य न सम्मोह आपज्जेय्य।
20 चक्खुस्मि हीयमाने हायमाने परिहायमाने वेमाने विगच्छमाने अन्तर-
घायमाने, सोतस्मि .. पे०... धानस्मि ... जिन्हाय ... कायस्मि ...
रूपस्मि ... सद्दस्मि ... गन्धस्मि ... रसस्मि ... फोट्टब्बस्मि ... कुलस्मि ..
गणस्मि ... आवासस्मि .. लाभस्मि ... यस्मि .. पसंसाय .. सुखस्मि
... चीवरस्मि ... पिण्डपातस्मि ... सेनासनस्मि .. गिलानपच्चयभेसज्ज-
25 परिक्खारस्मि हीयमाने हायमाने परिहायमाने वेमाने विगच्छमाने
अन्तरघायमाने न सोचेय्य न किलमेय्य न परामसेय्य न परिदेवेय्य
न उरत्ताळि कन्देय्य न सम्मोहं आपज्जेय्या ति - हीयमाने न सोचेय्य।

१-१ खन्तिमकुब्बये - स्या०, रो०। २ आकस्स - स्या०, एवमुपरि पि। ३ ०
विञ्जाण - सी०।

आकासं न सितो सिया ति । आकासं वुच्चति तण्हा । यो रागो सारागो ...पे०... अभिज्झा लोभो अकुसलमूलं । किकारणा आकासं वुच्चति तण्हा ? याय तण्हाय रूपं आकस्सति समाकस्सति गण्हाति परामसति अभिनिविसति, वेदनं ..सञ्जं.. सङ्कारे .. विञ्जाणं .. गति ... उपपत्ति .. पटिसन्धि ... भवं ..संसारं.. वट्टं आकस्सति समा- 5 कस्सति गण्हाति परामसति अभिनिविसति; तंकारणा आकासं वुच्चति तण्हा । आकासं न सितो सिया ति । तण्हानिस्सितो^१ न^१ सिया । तण्हं पजहेय्य विनोदेय्य व्यन्ति करेय्य अनभावं गमेय्य, तण्हाय आरतो अस्स विरतो पटिविरतो निक्खन्तो निस्सटो विप्प- 10 मुत्तो विसञ्चुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरेय्या ति - आकासं न सितो सिया । तेनाह भगवा -

“पुराणं नाभिनन्देय्य, नवे खन्ति न कुव्वये ।

हीयमाने न सोचेय्य, आकासं न सितो सिया” ति ॥

१८०. गेधं ब्रूमि महोघो ति, आजवं^२ ब्रूमि जप्पनं ।

आरम्मणं पकम्पनं^३, कामपङ्को दुरच्चयो ॥

गेधं ब्रूमि महोघो ती ति । गेधो वुच्चति तण्हा । यो रागो सारागो ...पे०... अभिज्झा लोभो अकुसलमूलं । महोघो वुच्चति तण्हा । यो रागो सारागो . .पे०... अभिज्झा लोभो अकुसलमूलं । गेधं ब्रूमि महोघो ती ति । गेधं “महोघो” ति ब्रूमि आचिक्खामि देसेमि पञ्जा- 20 पेमि पट्टपेमि विवरामि विभजामि उत्तानीकरोमि पकासेमी ति - गेधं ब्रूमि महोघो ति ।

आजवं ब्रूमि जप्पनं ति । आजवा वुच्चति तण्हा । यो रागो सारागो ...पे०... अभिज्झा लोभो अकुसलमूलं । जप्पना पि वुच्चति तण्हा । यो रागो सारागो ...पे०... अभिज्झा लोभो अकुसलमूलं । आजवं ब्रूमि जप्पनं ति । आजवं “जप्पना” ति ब्रूमि आचिक्खामि 25 ..पे०...उत्तानीकरोमि पकासेमी ति - आजवं ब्रूमि जप्पनं ।

आरम्मणं पकम्पनं ति । आरम्मणं पि वुच्चति तण्हा । यो रागो सारागो ...पे०... अभिज्झा लोभो अकुसलमूलं । पकम्पना पि

१-१ तण्हं न सितो - स्या०, रो० । २ आकस्सं - स्या० । ३ आजवं - स्या०, रो० । ४ पकम्पनं - स्या०, रो० ।

वुच्चति तण्हा । यो रागो सारागो ...पे०... अभिज्झा लोभो अकुसल.
मूलं ति - आरम्मणं पकम्पनं ।

कामपङ्को दुरच्चयो ति । कामपङ्को कामकद्दमो कामकिलेसो
कामपल्लपो कामपल्लिबोधो' दुरच्चयो दुरतिवत्तो दुत्तरो दुप्यतरो
६ दुस्समतिक्कमो दुब्बीतिवत्तो ति - कामपङ्को दुरच्चयो । तेनाह
भगवा -

B. 430

‘गेघं ब्रूमि महोधो ति, आजवं ब्रूमि जप्पन ।
आरम्मणं पकम्पनं, कामपङ्को दुरच्चयो’ ति ॥

१८१. सच्चा अवोक्कमं' मुनि, थले तिट्ठति ब्राह्मणो ।
१० सब्बं सो पट्टिनिस्सज्ज, स वे सन्तो ति वुच्चति ॥

सच्चा अवोक्कमं मुनी ति । सच्चवाचाय अवोक्कमन्तो,
सम्मादिट्ठिया अवोक्कमन्तो, अरिया अट्टुङ्गिका मग्गा अवोक्कमन्तो ।
मुनी ति । मोनं वुच्चति आणं ...पे०... सज्जजालमतिच्च सो मुनी
ति - सच्चा अवोक्कमं मुनि ।

B. 340

15

थले तिट्ठति ब्राह्मणो ति । थलं वुच्चति अमतं निब्बानं । यो
सो सब्बसङ्खारसमथो सब्बूपधिपट्टिनिस्सग्गो तण्हक्खयो विरागो
निरोधो निब्बानं । ब्राह्मणो ति । सत्तन्नं धम्मानं बाहितत्ता ब्राह्मणो
..पे०... असितो' तादि पवुच्चते स' ब्रह्मा' । थले तिट्ठति ब्राह्मणो
ति' । थले तिट्ठति दीपे तिट्ठति ताणे तिट्ठति लेणे तिट्ठति सरणे
२० तिट्ठति अभये तिट्ठति अच्चुते तिट्ठति अमते तिट्ठति निब्बाने तिट्ठती
ति - थले तिट्ठति ब्राह्मणो ।

सब्बं सो पट्टिनिस्सज्जा ति । सब्बं वुच्चति द्वादसायतनानि
- चक्खु चैव रूपा च ..पे०... मनो चैव धम्मा च । यतो अज्झत्तिक-
बाहिरेसु आयतनेसु छन्दरागो पहीनो होति उच्छिन्नमूलो तालावत्थु-
२५ क्तो अनभावकतो' आर्याति अनुप्पादधम्मो, एत्तावता पि सब्ब
चत्तं होति वन्तं मुत्तं पहीनं पट्टिनिस्सट्ठं । यतो तण्हा च दिट्ठि च

१. कामपल्लिरोधो - सी० । २ अवोक्कम - रो०; एवमुपरि पि । ३. अनिस्सित्तो-
स्या०, रो० । ४-४. ब्रह्मा - रो० । ५ ति ब्राह्मणो - स्या०, रो० । ६ अनभावकतो - सी०;
अनभावङ्गतो - स्या०, रो०; एवमुपरि पि ।

मानो च पहीना होन्ति उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावकता
 आयति अनुप्पादधम्मा, एत्तावता पि सब्बं चत्तं होति वन्तं मुत्तं पहीनं
 पटिनिस्सट्ठं। यतो पुञ्जाभिसङ्कारो च अपुञ्जाभिसङ्कारो च
 आनेञ्जाभिसङ्कारो च पहीना होन्ति उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता
 अनभावकता आयति अनुप्पादधम्मा, एत्तावता पि सब्बं चत्तं होति 5 R 431
 वन्तं मुत्तं पहीनं पटिनिस्सट्ठं ति—सब्बं सो पटिनिस्सज्ज।

स वे सन्तो ति वुच्चती ति। सो सन्तो उपसन्तो वूपसन्तो
 निब्बुतो पटिपस्सद्धो ति वुच्चति कथीयति भणीयति दीपीयति
 वोहरीयती ति—स वे सन्तो ति वुच्चति। तेनाह भगवा—

“सच्चा अवोक्कमं मुनि, थले तिट्ठति ब्राह्मणो। 10
 सब्बं सो पटिनिस्सज्ज, स वे सन्तो ति वुच्चती” ति ॥

१८२. स वे विद्वा' स वेदगू, अत्वा धम्मं अनिस्सितो।
 सम्मा सो लोके इरियानो, न पिहेतीध कस्सचि ॥

स वे विद्वा स वेदगू ति। विद्वा ति। विद्वा विज्जागतो
 आणी विभावी' मेघावी। वेदगू ति। वेदा' वुच्चन्ति' चतूसु 15
 मग्गेसु आणं ...पे०... सब्बवेदनासु वीतरागो सब्बवेदमतिच्च वेदगू सो
 ति—स वे विद्वा स वेदगू।

अत्वा धम्मं अनिस्सितो ति। अत्वा ति। अत्वा जानित्वा
 तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा। “सब्बे सङ्कारा
 अनिच्चा” ति अत्वा जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा 20
 विभूतं कत्वा, “सब्बे सङ्कारा दुक्खा” ति ..पे०... “यं किञ्चि समु-
 दयधम्मं सब्बं तं निरोधधम्मं” ति अत्वा जानित्वा तुलयित्वा तीर-
 यित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा। अनिस्सितो ति। द्वे निस्सया—
 तण्हानिस्सयो च दिट्ठिनिस्सयो च ..पे०... अयं तण्हानिस्सयो ..पे०..
 अयं दिट्ठिनिस्सयो। तण्हानिस्सयं पहाय दिट्ठिनिस्सयं पटिनिस्सज्जित्वा 25
 चक्खुं अनिस्सितो ... सोतं अनिस्सितो .. घानं अनिस्सितो ..पे० .
 दिट्ठसुतमुतविञ्जातब्बे धम्मे अनिस्सितो अनल्लीनो अनुपगतो अनज्झो-

१ विद्वा—स्या०; एवमुपरि पि। २ बुद्धिमा विभावी—स्या०, रो०। ३ वेदो—
 स्या०। ४ वुच्चति—स्या०, रो०।

सितो अनधिमुत्तो निक्खन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसञ्जुत्तो विमरिक्का-
दिकतेन चेतसा विहरती ति - अत्वा धम्मं अनिस्सितो।

- सम्मा सो लोके इरियानो ति। यतो अज्झत्तिकवाहिरेसु
आयतनेसु छन्दरागो पहीनो होति उच्छिन्नमूलो तालावत्थुकतो अन-
R 432 5 भावकतो आयति अनुप्पादधम्मो, एत्तावता पि सम्मा सो लोके
चरति विहरति' इरियति वत्तति पालेति यपेति यापेति ...पे०... यतो
पुञ्जाभिसङ्कारो च अपुञ्जाभिसङ्कारो च आनेञ्जाभिसङ्कारो च
पहीना होन्ति उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावकता आयति
अनुप्पादधम्मा, एत्तावता पि सम्मा सो लोके चरति विहरति
10 इरियति वत्तति पालेति यपेति यापेती ति - सम्मा सो लोके इरि-
यानो।

- न पिहेतीध कस्सची ति। पिहा वुच्चति तण्हा। यो रागो
सारारो ...पे०... अभिज्झा लोभो अकुसलमूलं। यस्सेसा पिहा तण्हा
पहीना समुच्छिन्ना वूपसन्ता पटिपस्सद्धा अभव्वुप्पत्तिका ग्राणगिगना
15 दड्ढा, सो कस्सचि न पिहेति खत्तियस्स वा ब्राह्मणस्स वा वेस्सस्स
वा सुद्दस्स वा गहट्टस्स वा पव्वजितस्स वा देवस्स वा मनुस्सस्स वा
ति - न पिहेतीध कस्सचि। तेनाह भगवा -

“स वे विद्वा स वेदगू, अत्वा धम्मं अनिस्सितो।
सम्मा सो लोके इरियानो, न पिहेतीध कस्सची” ति॥

- 20 १८३. योध' कामे अच्चतरि, सङ्गं लोके बुरच्चयं।
न सो सोचति नाज्जेति, छिन्नसोतो अबन्धनो॥

- B 342 योध कामे अच्चतरि सङ्गं लोके बुरच्चयं ति। यो ति।
यो यादिसो यथायुत्तो' यथानिहितो यथापकारो यं ठानप्पत्तो य
धम्मसमन्नागतो खत्तियो वा ब्राह्मणो वा वेस्सो वा सुद्धो वा गहट्टो
25 वा पव्वजितो वा देवो वा मनुस्सो वा। कामा ति। उद्दानतो द्वे
कामा - वत्थुकामा च किलेसकामा च ...पे०... इमे वुच्चन्ति वत्थु-
कामा ...पे०... इमे वुच्चन्ति किलेसकामा। सङ्गं ति। सत्त सङ्गं -
रागसङ्गो, दोससङ्गो, मोहसङ्गो, मानसङ्गो, दिट्ठिसङ्गो, किलेससङ्गो,

१. सो० पोत्थके नत्थि। २. यो च - सी०, स्या०, रो०। ३. यथायुत्तो - जी०।

दुच्चरितसङ्गो। लोके ति। अपायलोके मनुस्सलोके देवलोके खन्ध-
लोके धातुलोके आयतनलोके। सङ्गं लोके दुरच्चयं ति। यो
कामे च सङ्गे च लोके दुरच्चये दुरतिवत्ते दुत्तरे दुप्पतरे दुस्समतिक्कमे
दुब्बोतिवत्ते अतरि उत्तरि पतरि समतिक्कमि वीतिवत्तयी ति—
योध कामे अच्चतरि सङ्गं लोके दुरच्चयं।

5

न सो सोचति नाज्जेती ति। विपरिणतं वा वत्थु न
सोचति, विपरिणतास्मि वा वत्थुस्मि न सोचति। “चक्खु मे विपरि-
णत” ति न सोचति, सोतं मे... घानं मे... जिन्हा मे... कायो मे... रूपा
मे... सहा मे... गन्धा मे... रसा मे... फोट्टब्बा मे... कुलं मे... गणो मे...
आवासो मे... लाभो मे. यसो मे.. पसंसा मे... सुखं मे.. चीवरं मे...
पिण्डपातो मे... सेनासनं मे... गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारा मे... माता
मे .. पिता मे .. भाता मे... भगिनी मे .. पुत्तो मे... धीता मे... मित्ता मे ...
अमच्चा मे ... आती मे ... सालोहिता मे विपरिणता” ति न सोचति न
किलमति न परिदेवति न उरत्ताळि कन्दति न सम्मोह आपज्जती
ति—न सोचति। नाज्जेती ति। नज्जेति न अज्जेति न उपनिज्ज्हा-
यति न निज्जायति न पज्जायति। अथ वा, न जायति न जिज्यति
न मिय्यति न चवति न उपपज्जती ति—नाज्जेती ति—न सो
सोचति नाज्जेति।

R 433

10

15

छिन्नसोतो अबन्धनो ति। सोतं वुच्चति तण्हा। यो रागो
सारागो... पे०... अभिज्जा लोभो अकुसलमूलं। यस्सेसा सोता तण्हा
पहीना समुच्छिन्ना .. पे०.. बाणग्गिना दद्धा, सो वुच्चति छिन्नसोतो।
अबन्धनो ति। रागबन्धनं दोसबन्धनं मोहबन्धनं मानबन्धनं दिट्ठि-
बन्धनं किलेसबन्धनं दुच्चरितबन्धनं, यस्सेते बन्धना पहीना समु-
च्छिन्ना . पे०... बाणग्गिना दद्धा, सो वुच्चति अबन्धनो ति—छिन्न-
सोतो अबन्धनो। तेनाह भगवा—

20

B 343

“योध कामे अच्चतरि, सङ्गं लोके दुरच्चयं।

न सो सोचति नाज्जेति, छिन्नसोतो अबन्धनो” ति ॥

१-१ स्या०, रो० पोत्यकेषु नत्थि। २ सो—सी०। ३ सी० पोत्यके नत्थि। ४
नाज्जेति—सी०, स्या०। ५-५ स्या०, रो० पोत्यकेषु नत्थि। ६ सोता—सी०, स्या०, रो०।
७-७ यस्सेतानि बन्धनानि—सी०, स्या०, रो०, एवमुपरि पि।

१८४. यं पुब्बे तं विसोसेहि, पच्छा ते माहु किञ्चनं ।
मज्झे चे नो गहेस्ससि, उपसन्तो चरिस्ससि ॥

R. 494

यं पुब्बे तं विसोसेही ति । अतीते सङ्घारे आरब्ध ये किलेसा
उप्पज्जेय्यु ते किलेसे सोसेहि विसोसेहि सुक्खापेहि विसुक्खापेहि'
५ अवीजं करोहि' पजह' विनोदेहि व्यन्ति करोहि अनभावं गमेही ति ।
एवं पि यं पुब्बे तं विसोसेहि । अथ वा, ये अतीता कम्माभिसङ्घारा
अविपक्कविपाका ते कम्माभिसङ्घारे सोसेहि विसोसेहि सुक्खापेहि
विसुक्खापेहि' अवीजं करोहि पजह विनोदेहि व्यन्ति करोहि अनभाव
गमेही ति । एवं पि यं पुब्बे तं विसोसेहि ।

१० पच्छा ते माहु किञ्चनं ति । पच्छा वुच्चति अनागत ।
अनागते सङ्घारे आरब्ध यानि उप्पज्जेय्यु रागकिञ्चन दोसकिञ्चन
मोहकिञ्चनं मानकिञ्चन दिट्ठिकिञ्चनं किलेसकिञ्चनं दुच्चरित-
किञ्चनं, इमानि किञ्चनानि तुय्हं मा अहु मा अकासिं मा जनेसिं
मा सञ्जनेसि मा निव्वत्तेसि मा अभिनिव्वत्तेसि पजह विनोदेहि
१५ व्यन्ति करोहि अनभावं गमेही ति - पच्छा ते माहु किञ्चन ।

मज्झे चे नो गहेस्ससी ति । मज्झं वुच्चति पच्चुप्पन्ना रूप-
वेदनासञ्जासङ्घारविञ्जाणा' । पच्चुप्पन्ने सङ्घारे तण्हावसेन दिट्ठि-
वसेन न गहेस्ससि न उग्गहेस्ससि न गण्हिस्ससि न परामसिस्ससि
नाभिनन्दिस्ससि नाभिचरिस्ससि' न अज्झोसिस्ससि', अभिनन्दन
२० अभिवदन अज्झोसानं गाह परामासं अभिनिवेशं पजहिस्ससि विनो-
देस्ससि' व्यन्ति करिस्ससि अनभावं गमेस्ससी" ति - मज्झे चे नो
गहेस्ससि ।

उपसन्तो चरिस्ससी ति । रागस्स सन्तता समितता" उप-
समितता", दोसस्स सन्तता समितता उपसमितता ...पे०. सब्वा-
२५ कुसलाभिसङ्घारानं सन्तता समितता उपसमितता" वूपसमितता ।

१-१ स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि । २ पजहेहि - स्या०, रो० । ३ स्या०, रो०
पोत्यकेसु नत्थि । ४ पातुदकासि - सी०, पातुमकासि - स्या०, रो० । ५ जनेहि - सी०;
एवमुपरि पि । ६ ० विञ्जाण - सी०, स्या०, रो० । ७ नाभिवदिसि - सी०, स्या०, रो० ।
८ आज्झेस्ससि - सी० । ९ विनोदिसि - स्या०, रो० । १० गमित्तमि - स्या०, रो० ।
११-११ सन्तो - स्या०, रो० । १२ स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि ।

विज्झातत्ता निव्वुत्ता विगतत्ता पटिप्पसद्धत्ता सन्तो उपसन्तो
वूपसन्तो निव्वुतो पटिप्पसद्धो चरिस्ससि विहरिस्ससि इरियिस्ससि
वत्तिस्ससि पालिस्ससि^१ यपिस्ससि यापिस्ससी^२ ति—उपसन्तो
चरिस्ससि। तेनाह भगवा—

“यं पुब्बे तं विसोसेहि, पच्छा ते माहु किञ्चनं। ५
मज्जे चे नो गहेस्ससि, उपसन्तो चरिस्ससी” ति ॥

१८५. सब्बसो नामरूपस्मि, यस्स नत्थि ममायितं।

असता च न सोचति, स चे लोके न जीयति ॥

सब्बसो नामरूपस्मि यस्स नत्थि ममायितं ति। सब्बसो
ति। सब्बेन सब्बं सब्बथा सब्बं असेसं निस्सेसं परियादियनवचन- 10
मेतं—सब्बसो ति। नामं ति। चत्तारो अरूपिनो खन्धा। रूपं
ति। चत्तारो च महाभूता, चतुस्रं च महाभूतानं उपादाय रूपं।
यस्सा ति। अरहतो खीणासवस्स। ममायितं ति। द्वे ममत्ता—
तण्हाममत्तं च दिट्ठिममत्तं च ...पे०... इदं तण्हाममत्तं ...पे०... इदं दिट्ठि-
ममत्तं। सब्बसो नामरूपस्मि यस्स नत्थि ममायितं ति। सब्बसो 15
नामरूपस्मि ममत्ता यस्स नत्थि न^३ सन्ति^३ न संविज्जन्ति नुप-
लब्भन्ति, पहीना समुच्छिन्ना वूपसन्ता पटिप्पसद्धा अभव्वुप्पत्तिका
आणग्गिना दड्ढा ति—सब्बसो नामरूपस्मि यस्स नत्थि ममायितं।

असता च न सोचती ति। विपरिणतं वा वत्थुं न सोचति,
विपरिणतास्मि वा वत्थुस्मि न सोचति। “चक्खु मे विपरिणतं” 20
ति न सोचति, सोतं मे ... घानं मे ... जिब्हा मे ... कायो मे ... रूपा मे
.. सद्दा मे ... गन्धा मे ... रसा मे ... फोट्टब्बा मे ... कुलं मे ... गणो मे ...
आवासो मे ... लाभो मे ...पे०... “सालोहिता” मे विपरिणता” ति न
सोचति न किलमति न परिदेवति न उरत्ताळि कन्दति न सम्मोहं
आपज्जती ति। एवं पि^४ असता च न सोचति।

अथ वा, असताय^५ दुक्खाय वेदनाय फुट्ठो परेतो समोहितो
समन्नागतो न सोचति न किलमति न परिदेवति न उरत्ताळि 25

१. पालेस्ससि—सी०। २. यापेस्ससी—सी०। ३. जिय्यति—स्या०, रो०; एवमु-
परि पि। ४. परियादायवचनमेतं—स्या०, रो०, एवमुपरि पि। ५-६. स्या०, रो० पोत्थकेषु
नत्थि। ६. वातिसालोहिता—सी०, स्या०, रो०। ७. च—सी०। ८. असाताय—स्या०, रो०।
म० नि०—४८

R. 430 कन्दति न सम्मोहं आपज्जती ति । एवं पि असता च न सोचति ।
अथ वा, चक्खुरोगेन फुट्ठो परेतो ...पे०... ङंसमकसवातातपसरीसप-
सम्फस्सेन फुट्ठो परेतो समोहितो समन्नागतो न सोचति न किलमति
न परिदेवति न उरत्ताळि कन्दति न सम्मोहं आपज्जती ति । एवं
B. 346 ४ पि असता च न सोचति । अथ वा, असन्ते असंविज्जमाने अनुप-
लब्धमाने^१ “अहु वत मे, तं वत मे नत्थि, सिया वत मे, तं वताह
न लभामी” ति न सोचति न किलमति न परिदेवति न उरत्ताळि
कन्दति न सम्मोहं आपज्जती ति । एवं पि असता च न सोचति ।

स वे लोके न जीयती ति । यस्स “मय्हं वा इदं परेसं वा
10 इदं” ति किञ्चि रूपगतं वेदनागतं सञ्जागतं सङ्खारगतं विञ्जाण-
गतं गहितं परामट्ट अभिनिविट्ठ अज्झोसित अधिमुत्तं अत्थि, तस्स
जानि^२ अत्थि । भासितं पि हेतं -

“जीनो^३ रथस्स मणिकुण्डले च,
पुत्ते च दारे च तथेव जीनो^४ ।
15 सव्वेसु भोगेसु असेवितेसु,
कस्मा न सन्तप्पसि सोककाले ॥

“पुब्बेव मच्चं विजहन्ति भोगा,
मच्चो धने^५ पुब्बतरं जहासि^६ ।
असस्सता^७ भाविनो^८ कामकामी,
20 तस्मा न सोचामहं सोककाले ॥

“उदेति आपूरति वेति चन्दो,
अन्धं^९ तपेत्त्वानं^{१०} पलेति सूरियो^१ ।
विदिता मया सत्तुक^२ लोकधम्मा,
तस्मा न सोचामहं सोककाले” ति ॥

25 यस्स “मय्हं वा इदं परेसं वा इदं” ति किञ्चि रूपगतं
वेदनागतं सञ्जागतं सङ्खारगतं विञ्जाणगतं गहितं परामट्ट अभि-

१ अनुपलब्धिमयमाने - स्या०, रो० । २ जाति - सी० । ३ जिण्ये - सी०, जिन्नो -
स्या०, रो० । ४ व ने - सी०, स्या०, रो० । ५ जहाति - सी०, स्या०, रो० । ६ असस्सका -
सी०, स्या० । ७ भोगिनो - स्या०, रो० । ८-८ अत्थ गमित्वान - सी०, अत्थ गमेत्त्वान -
स्या०, रो० । ९ सूरियो - स्या०, रो० । १० अट्ठक - सी०; अट्ठ - स्या० ।

निविष्टुं अज्भोसितं अधिमुत्तं नत्थि, तस्स जानि नत्थि । भासितं
पि हेतं - “नन्दसि, समणा ति, किं लद्धा, आवुसो ति ? तेन हि,
समण, सोचसी ति, किं जीयित्थ, आवुसो ति ? तेन हि, समण,
नेव नन्दसि न सोचसी ति । एवमावुसो ति -

“चिरस्सं वत पस्साम, ब्राह्मणं परिनिव्वुत्तं ।

5 B 346,

अनन्दि अनीघं भिक्खुं, तिण्णं लोके विसत्तिकं” ति ॥

B. 437

स वे लोके न जीयति । तेनाह भगवा -

“सब्बसो नामरूपस्मि, यस्स नत्थि ममायितं ।

असता च न सोचति, स वे लोके न जीयती” ति ॥

१८६. यस्स नत्थि इदं मे ति, परेसं वा पि किञ्चनं । 10

ममत्तं सो असंविन्दं, नत्थि मे ति न सोचति ॥

यस्स नत्थि इदं मे ति परेसं वा पि किञ्चनं ति । यस्सा
ति । अरहतो खीणासवस्स । यस्स “मय्हं वा इदं परेसं वा इदं” ति
किञ्चि रूपगतं वेदनागतं सञ्जागतं सङ्खारगतं विञ्जाणगतं गहितं
परामट्टं अभिनिविष्टुं अज्भोसितं अधिमुत्तं नत्थि न सन्ति न संवि- 15
ज्जति नुपलब्धति, पहीनं समुच्छिन्नं दूपसन्तं पटिपस्सदं^१ अभव्वुप्पत्तिकं
वाणग्गिना दड्ढं ति । एवं पि यस्स नत्थि इदं मे ति परेसं वा
पि किञ्चनं ।

वुत्तं हेतं भगवता - “नार्यं, भिक्खवे, कायो तुम्हाकं, न पि
अञ्जेसं । पुराणमिदं, भिक्खवे, कम्मं अभिसङ्गतं अभिसञ्चेतयितं 20
वेदनीयं दट्ठब्बं । तत्र, भिक्खवे, सुतवा अरियसावको पटिच्चसमुप्पादं
येव साधुकं योनिंसो मनसिकरोति - ‘इति इमस्मि सति इदं होति
इमस्सुप्पादा इदं उप्पज्जति, इमस्मि असति इदं न होति इमस्स
निरोधा इदं निरुज्जति, यदिदं अविज्जापच्चया सङ्खारा, सङ्खार-
पच्चया विञ्जाणं ...पे०... एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समु- 25
दयो होति । अविज्जाय त्वेव असेसविरागनिरोधा सङ्खारनिरोधो

१. जियित्थ - स्या०, रो० । २. अनिघं - स्या०, रो० । ३. पटिपस्सद - सी०,
स्या०, एवमुपरि पि ।

...पे०... एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स निरोधो होती" ति। एवं पि यस्स नत्थि इदं मे ति परेसं वा पि किञ्चनं।

वुत्तं पि हेतं भगवता -

R 438

"सुञ्जतो लोकं अवेक्खस्सु, मोघराज सदा सतो।

5

अत्तानुदिट्ठिं ऊहच्च, एवं मच्चुतरो' सिया।

एवं लोकं अवेक्खन्तं, मच्चुराजा न पस्सती" ति॥

एवं पि यस्स नत्थि इदं मे ति परेसं वा पि किञ्चनं।

B 347

वुत्तं पि हेतं भगवता - "यं, भिक्खवे, न तुम्हाकं, तं पजहथ। तं वो पहीनं दीघरत्तं हिताय सुखाय भविस्सति। किं च, भिक्खवे, न तुम्हाकं? रूपं, भिक्खवे, न तुम्हाकं, तं पजहथ। तं वो पहीनं दीघरत्तं हिताय सुखाय भविस्सति। वेदना... सञ्जा... सङ्खारा... विञ्जाण न तुम्हाकं, तं पजहथ। तं वो पहीनं दीघरत्तं हिताय सुखाय भविस्सति। तं किं मञ्जथ, भिक्खवे, यं इमस्मिं जेतवने तिणकट्टसाखापलासं, तं जनो हरेय्य वा डहेय्य वा यथापच्चयं वा करेय्य, अपि नु तुम्हाकं एवमस्स - 'अम्हे जनो हरति वा डहति वा यथापच्चयं वा करोती,' ति ?

"नो हेतं, भन्ते"।

"तं किस्स हेतु" ?

"न हि नो एतं, भन्ते, अत्ता वा अत्तनियं वा" ति। "एवमेव खो, भिक्खवे, यं न तुम्हाकं, तं पजहथ। तं वो पहीनं दीघरत्तं हिताय सुखाय भविस्सति। किं च, भिक्खवे, न तुम्हाकं? रूपं, भिक्खवे, न तुम्हाकं, तं पजहथ। तं वो पहीनं दीघरत्तं हिताय सुखाय भविस्सति। वेदना... सञ्जा... सङ्खारा... विञ्जाणं न तुम्हाकं, तं पजहथ। तं वो पहीनं दीघरत्तं हिताय सुखाय भविस्सती" ति। एवं पि यस्स नत्थि इदं मे ति परेसं वा पि किञ्चनं। भासितं पि हेतं -

"सुद्धघम्मसमुप्पादं," सुद्धसङ्खारसन्ततिं।

पस्सन्तस्स यथाभूतं, न भयं होति गामणि ॥

१. मच्चुतरो - स्या०। २. स्या०, रो० पोत्यकेषु नत्थि। ३. सुद्धम्मसमुप्पाद - सी०, सुद्धगमसमुप्पाद - स्या०, रो०।

“तिणकट्टसमं लोकं, यदा पञ्जाय पस्सति ।

नाञ्जं पत्थयते किञ्चि, अञ्जत्र अप्पटिसन्धिया” ति ॥

एवं^१ पि यस्स नत्थि इदं मे ति परेसं वा पि किञ्चनं^२ ।

वजिरा भिक्खुनी मारं पापिमन्तं एतदवोच —

R 439

“कं नु सत्तो ति पच्चेसि, मारदिट्ठिगतं नु ते ।

5

सुद्धसङ्खारपुञ्जोयं, नयिघ सत्तुपलम्भति^३ ।

यथा हि^४ अङ्गसम्भारा, होति सद्दो^५ रथो इति ।

एवं खन्धेसु सन्तेसु, होति सत्तो ति सम्मुति^६ ।

दुक्खमेव हि सम्भोति, दुक्खं तिट्ठति वेति^७ च ।

नाञ्जत्र दुक्खा सम्भोति, नाञ्जं दुक्खा निरुञ्जती” ति ॥ 10

एवं पि यस्स नत्थि इदं मे ति परेसं वा पि किञ्चनं ।

B. 348

“एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्खु रूपं समन्नेसति यावता रूपस्स

गति, वेदनं ... सञ्जं ... सङ्खारे ... विञ्जाणं समन्नेसति यावता विञ्जा-

णस्स गति । तस्स रूपं समन्नेसतो यावता रूपस्स गति, वेदनं .

सञ्जं ... सङ्खारे ... विञ्जाणं समन्नेसतो यावता विञ्जाणस्स गति, यं 15

पिस्स होति ‘अहं’ ति वा ‘ममं’ ति वा, ‘अस्मी’ ति वा, तं पि

तस्स न होती” ति । एवं पि यस्स नत्थि इदं मे ति परेसं वा पि

किञ्चनं ।

आयस्मा, आनन्दो, भगवन्तं एतदवोच — “सुञ्जो लोको,

सुञ्जो लोको’ ति, भन्ते, वुच्चति । कित्तावता नु खो, भन्ते, सुञ्जो 20

लोको ति वुच्चती” ति ?

“यस्मा खो, आनन्द, सुञ्जं अत्तेन वा अत्तनियेन वा, तस्मा

सुञ्जो लोको ति वुच्चति । कि चानन्द, सुञ्जं अत्तेन वा अत्तनियेन

वा ? चक्खुं खो, आनन्द, सुञ्जं अत्तेन वा अत्तनियेन वा । रूपा

सुञ्जा, चक्खुविञ्जाणं^१ सुञ्जं, चक्खुसम्फस्सो सुञ्जो, यदिदं चक्खु- 25

सम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं

१. पटिसन्धिया—सी० । २-२ स्या०, रो० पोत्थकेसु न दिस्सति । ३ सत्तोपलम्भति—
सी०, सत्तुपलम्भति—स्या०, रो० । ४. पि—सी०, स्या०, रो० । ५ सञ्जो—रो० । ६ सम्मति—
स्या० । ७ वेति—सी० । ८. चक्खुं—सी० । ९. चक्खुविञ्जाणानं—रो० ।

वा तं पि सुञ्जं .. सोतं सुञ्जं ... सद्दा' सुञ्जा' .. घानं सुञ्जं'
 गन्वा' सुञ्जा' .. जिह्वा सुञ्जा ... रसा सुञ्जा .. कायो सुञ्जो
 फोद्धुब्बा सुञ्जा ... मनो सुञ्जो ... धम्मा' सुञ्जा' .. मनोविञ्जाणं सुञ्जं ..
 मनोसम्फस्सो सुञ्जो, यदिदं मनोसम्फस्सपच्चया उपपज्जति वेदयित
 5 सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि सुञ्जं अत्तेन वा अत्तनियेन
 वा। यस्मा खो, आनन्द, सुञ्जं अत्तेन वा अत्तनियेन वा, तस्मा
 सुञ्जो लोको ति वुच्चती' ति। एवं पि यस्स नत्थि इदं मे ति
 परेसं वा पि किञ्चनं।

ममत्तं सो असंविन्दं ति। ममत्ता ति। द्वे ममत्ता - तण्हा-
 10 ममत्तं च' दिट्ठिममत्तं च .. पे० .. इदं तण्हाममत्तं .. पे० .. इदं
 दिट्ठिममत्तं। तण्हाममत्तं पहाय दिट्ठिममत्तं पटिनस्सज्जित्वा ममत्तं
 अविन्दन्तो असंविन्दन्तो अनघिगच्छन्तो अप्पटिलभन्तो ति - ममत्त
 सो असंविन्दं।

नत्थि मे ति न सोचती ति। विपरिणतं वा वत्थु न सोचति,
 15 विपरिणतस्मिं वा वत्थुस्मिं न सोचति। "चक्खु मे विपरिणतं"
 ति न सोचति, "सोतं मे ... पे० ... सालोहिता मे विपरिणता" ति
 न सोचति न किलमति न परिदेवति न उरत्ताळि कन्वति न सम्मोहं
 आप्पज्जती ति - नत्थि मे ति न सोचति। तेनाह भगवा -

B 349 "यस्स नत्थि इदं मे ति, परेसं वा पि किञ्चनं।
 20 ममत्तं सो असंविन्दं, नत्थि मे ति न सोचती" ति ॥

१८७. अनिट्ठुरी अननुगिद्धो, अनेजो सब्बधी समो।
 तमानिसंसं पब्बूमि, पुच्छित्तो अविकम्पिनं ॥

अनिट्ठुरी अननुगिद्धो अनेजो सब्बधी समो ति। कतम
 निट्ठुरियं? इधेकेच्चो निट्ठुरियो होति, परलामसक्कारगत्कारमान-
 25 नवन्दनपूजनासु इस्सति उसूयति' इस्सं बन्धति। यं एवरूपं निट्ठु-
 रियं निट्ठुरियकम्मं इस्सा इस्सायना इस्सायिततं उसूया उसूयना

१. सद्दं - स्या०, रो०। २ सुञ्ज - स्या०, रो०। ३ सुञ्जा - सी०। ४-४. एव
 सुञ्जं - स्या०, रो०। ५-५ धम्मो सुञ्जो - स्या०, रो०। ६. सी० पोत्यके नत्थि। ७
 अनावुगिद्धो - स्या०, रो०; एवमुपरि पि। ८. उत्सूयति - स्या०, उपसूयति - रो०।

उसूयितत्तं—इदं वुच्चति निट्ठुरियं। यस्सेतं निट्ठुरियं पहीनं समु-
 च्छिन्नं...पे०... आणग्गिना दड्ढु, सो वुच्चति अनिट्ठुरी ति। अननु-
 गिद्धो ति। गेधो वुच्चति तण्हा। यो रागो सारागो...पे०... अभिज्झा
 लोभो अकुसलमूलं। यस्सेसो गेधो पहीनो समुच्छिन्नो...पे०... आण-
 ग्गिना दड्ढो, सो वुच्चति अननुगिद्धो। सो रूपे अगिद्धो सद्दे...पे०... 5
 दिट्ठसुतमुतविज्जातव्वेसु धम्मेषु अगिद्धो अगघितो अमुच्छित्तो अन-
 ज्झोसन्नो, वीतगेधो विगतगेधो चत्तगेधो वन्तगेधो मुत्तगेधो पहीनगेधो
 पटिनिस्सट्ठगेधो, वीतरागो विगतरागो चत्तरागो वन्तरागो मुत्तरागो
 पहीनरागो पटिनिस्सट्ठरागो, निच्छातो निव्वुतो सीत्तिभूतो सुखप्पटि-
 सवेदी^१ ब्रह्माभूतेन अत्तना विहरती ति—अनिट्ठुरी अननुगिद्धो। 10

अनेज्जां सब्बधी समो ति। एजा वुच्चति तण्हा। यो रागो
 सारागो...पे०... अभिज्झा लोभो अकुसलमूलं। यस्सेसा एजा तण्हा
 पहीना समुच्छिन्ना...पे०... आणग्गिना दड्ढा, सो वुच्चति अनेजो।
 एजाय पहीनत्ता अनेजो। सो लाभे पि न इज्जति, अलाभे पि न
 इज्जति, यसे पि न इज्जति, अयसे पि न इज्जति, पसंसाय पि 15
 न इज्जति, निन्दाय पि न इज्जति, सुखे पि न इज्जति, दुक्खे पि
 न इज्जति, न चलति न वेधति नप्पवेधति न सम्पवेधती ति—
 अनेजो। सब्बधी समो ति। सब्बं वुच्चति द्वादसायतनानि। चक्खु
 चैव रूपा च...पे०... मनो चैव धम्मा च। यतो अज्झत्तिकवाहिरेसु
 आयतनेसु छन्दरागो पहीनो होति उच्छिन्नमूलो तालावत्थुकतो 20
 अनभावकतो आयति अनुप्पादधम्मो, सो वुच्चति सब्बधि^२ समो। सो
 सब्बत्थ तादि सब्बत्थ मज्झत्तो सब्बत्थ उपेक्खको ति—अनेजो
 सब्बधी समो।

तमानिसंसं पन्नमि पुच्छित्तो अविकम्पिनं ति। अविकम्पिनं
 पुगलं^३ पुट्ठो पुच्छित्तो याचितो अज्झेसितो पसादितो इमे चत्तारो 25
 आनिसंसे पन्नमि। यो^४ सो अनिट्ठुरी^५ अननुगिद्धो अनेजो सब्बधि
 समो ति ब्रूमि आचिक्खामि। पे०... पकासेमी ति—तमानिसंसं पन्नमि
 पुच्छित्तो अविकम्पिनं। तेनाह भगवा—

१ अनज्झोपन्नो—सी०, स्या०, रो०, एवमुपरि पि। २. सुखपटिसवेदी—सी०,
 स्या०। ३. सब्बत्थ—स्या०, रो०। ४. पुगलान—स्या०, रो०। ५. सी० पीत्यके नत्वि।
 ६. अनिट्ठुरी—सी०।

“अनिदृष्टोरी अननुगिद्धो, अनेजो सब्वघी समो।
तमानिसंसं पब्रूमि, पुच्छितो अविकम्पिन” ति ॥

R. 442

१८८. अनेजस्स विजानतो, नत्थि काचि निसङ्खति^१।
विरतो सो वियारम्भा^२, खेमं पस्सति सब्वधि ॥

- 6 अनेजस्स विजानतो ति। एजा वुच्चति तण्हा। यो रागो सारागो...पे०... अभिञ्जा लोभो अकुसलमूल। यस्सेसा एजा तण्हा पहीना समुच्छिन्ना...पे०... भाणग्गिना दड्ढा, सो वुच्चति अनेजो। एजाय पहीनत्ता अनेजो। सो लाभे पि न इञ्जति, अलाभे पि न इञ्जति, यसे पि न इञ्जति, अयसे पि न इञ्जति, पसंसाय पि न इञ्जति, निन्दाय पि न इञ्जति, सुखे पि न इञ्जति, दुक्खे पि न इञ्जति न चलति न वेधति नप्पवेधति^३ न सम्पवेधती ति—अनेजस्स। विजानतो ति। जानतो^४ आजानतो^५ विजानतो पटिविजानतो पटिविज्झतो। “सब्बे सङ्खारा अनिच्चा” ति जानतो आजानतो विजानतो पटिविजानतो पटिविज्झतो, “सब्बे सङ्खारा दुक्खा” ति पे०.. “यं किञ्चि समुदयधम्मं सब्बं त निरोधधम्मं” ति जानतो आजानतो विजानतो पटिविजानतो पटिविज्झतो ति—अनेजस्स विजानतो।

नत्थि काचि निसङ्खती ति। निसङ्खतियो वुच्चन्ति पुञ्जाभिसङ्खारो अपुञ्जाभिसङ्खारो आनेञ्जाभिसङ्खारो। यतो पुञ्जाभिसङ्खारो च अपुञ्जाभिसङ्खारो च आनेञ्जाभिसङ्खारो च पहीना होन्ति उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावकता आर्याति अनुप्पादधम्मा, एतावता निसङ्खतियो नत्थि न सन्ति न संविज्जन्ति नुपलब्धन्ति, पहीना समुच्छिन्ना वूपसन्ता पटिपस्सद्धा अभव्वुप्पत्तिका भाणग्गिना दड्ढा ति—नत्थि काचि निसङ्खति।

26 विरतो सो वियारम्भा ति। वियारम्भो वुच्चति पुञ्जाभिसङ्खारो अपुञ्जाभिसङ्खारो आनेञ्जाभिसङ्खारो। यतो पुञ्जाभिसङ्खारो च अपुञ्जाभिसङ्खारो च आनेञ्जाभिसङ्खारो च पहीना होन्ति उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावकता आर्याति अनुप्पाद-

B 351,
R 448

१ निसङ्खति—सी०, स्था०, रो०। २. वियारम्भा—सी०, स्था०, रो०। ३ सी० पोत्यके नत्थि। ४-५ सी० पोत्यके नत्थि।

धम्मा, एत्तावता आरब्भा^१ वियारब्भा आरतो अस्स विरतो पटि-
विरतो निक्खन्तो^२ निस्सटो^३ विप्पमुत्तो विसञ्चुत्तो विमरियादिकतेन
चेतसा विहरती ति - विरतो सो वियारब्भा ।

खेमं पस्सति सब्बधी ति । भयकरो रागो भयकरो दोसो
भयकरो मोहो ...पे०... भयकरा किलेसा । भयकरस्स रागस्स पहीनत्ता^४
...पे०... भयकरानं किलेसानं पहीनत्ता सव्वत्थ खेमं पस्सति सव्वत्थ^५
अभयं पस्सति सव्वत्थ अनीतिकं पस्सति सव्वत्थ अनुपद्दवं पस्सति
सव्वत्थ^६ अनुपसग्ग पस्सति^७ सव्वत्थ अनुपसद्दत्तं^८ पस्सती ति - खेमं
पस्सति सब्बधि । तेनाह भगवा -

“अनेजस्स विजानतो, नत्थि काच्चि निसङ्गति ।
विरतो सो वियारब्भा, खेमं पस्सति सव्वधी” ति ॥^{१०}

१८९. न समेसु न ओमेषु, न उस्सेसु वदते मुनि ।
सन्तो सो वीतमच्छरो, नादेति न निरस्सति ॥
(इति भगवा)

न समेषु न ओमेषु न उस्सेसु वदते मुनी^१ ति^२ । मुनी ति ।^{१५}
मोनं वुच्चति आणं .. पे०... सङ्गजालमतिच्च सो मुनि । “सेव्योहमस्मी”
ति वा “सदिसोहमस्मी” ति वा “हीनोहमस्मी” ति वा न वदति
न कथेति न भणति न दीपयति न बोहरती ति - न समेषु न ओमेषु
न उस्सेसु वदते मुनि ।

सन्तो सो वीतमच्छरो ति । सन्तो ति । रागस्स सन्तत्ता समितत्ता^३
सन्तो, दोसस्स ... मोहस्स ...पे०... सब्बाकुसलाभिसङ्खारानं सन्तत्ता^४
समितत्ता वूपसमितत्ता विज्झातत्ता निव्वुत्ता विगतत्ता पटिपस्सद्धत्ता^५
सन्तो उपसन्तो वूपसन्तो निव्वुतो पटिपस्सद्धो ति - सन्तो । सो वीत-
मच्छरो ति । पञ्च मच्छरियाणि आवासमच्छरियं ...पे०... गाहो
वुच्चति^६ मच्छरियं । यस्सेतं मच्छरियं पहीनं समुच्छिन्नं ...पे०...^७
आणग्गिना दद्धं, सो वुच्चति वीतमच्छरो विगतमच्छरो चत्तामच्छरो^८

B. 444

१ स्या०, रो० पोत्यकेभ्यु नत्थि । २ निक्खित्तो - रो० । ३ निस्सट्टो - स्या०,
रो०, एवमुपरि पि । ४-४ सी० पोत्यके नत्थि । ५ पस्सद्ध - स्या०, रो० । ६-६ सी०,
स्या०, रो० पोत्यकेभ्यु नत्थि । ७ इद वुच्चति - सी०, स्या० ।

वन्तमच्छरो मुत्तमच्छरो पहीनमच्छरो पटिनिस्सट्टमच्छरो ति - सन्तो सो वीतमच्छरो ।

B. 352

नादेति न निरस्सति इति भगवा ति । नादेती ति । रूपं नादियति^१ न उपादियति न गण्हाति न परामसति नाभिनविसति, वेदनं ... सञ्चं ... सङ्खारे .. विञ्जाणं ... गति ... उपपत्ति ... पटिसन्धि ... भवं ... संसारं .. वट्टं नादियति न उपादियति न गण्हाति न परामसति नाभिनविसती ति - नादेति । न निरस्सती ति । रूपं न पजहति न विनोदेति न व्यन्ति करोति न अनभावं गमेति, वेदनं ... सञ्चं .. सङ्खारे ... विञ्जाणं ... गति ... उपपत्ति .. पटिसन्धि .. भवं . संसार .. वट्ट न पजहति न विनोदेति न व्यन्ति करोति न अनभावं गमेति^२ । भगवा ति । गारवाधिवचन ... पे० ... सच्छिका पञ्चत्ति यदिदं भगवा ति । तेनाह भगवा -

16

“न समेसु न ओमेषु, न उस्सेसु वदते मुनि ।

सन्तो सो वीतमच्छरो, नादेति न निरस्सति” ॥

(इति भगवा)

अत्तदण्डसुत्तनिर्देशो पञ्जरसमो ।

१६. सारिपुत्तसुत्तनिर्देशो

अथ सारिपुत्तसुत्तनिर्देशे वक्खति -

B. 143

१९०. न मे दिट्ठो इतो पुब्बे, (इच्चायस्मा सारिपुत्तो)

न सुतो उद कस्सचि ।

एवं वग्गुवदो सत्था, तुसिता गणिमागतो ॥

20

न मे दिट्ठो इतो पुब्बे ति । इतो पुब्बे मे मया न दिट्ठपुब्बो सो भगवा इमिना चक्खुना इमिना अत्तभावेन । यदा भगवा तावत्तिसभवने पारिच्छत्तकमूले पण्डुकम्बलसिलायं वस्संवुत्थो^१ देवगणपरिवृतो मज्जे मणिमयेन सोपाणेन सङ्कस्सनगरं ओतिण्णो इमदस्सनं पुब्बे न दिट्ठो ति - न मे दिट्ठो इतो पुब्बे ।

१. न वति न वियति - स्या०, रो०, एवमुपरि पि । * 'न निरस्सति' इति पाठो स्या०, रो० पोत्यकेमु अधिको विस्सति । २. वस्स बुद्धो - स्या० रो० ।

इच्चायस्मा सारिपुत्तो ति । इच्चा ति । पदसन्धि पदसंसगो
पदपारिपूरी अक्खरसमवायो व्यञ्जनसिलिट्ठता पदानुपुब्बतापेतं^१ —
इच्चा ति । आयस्मा ति । पियवचनं गरुवचनं^२ सगारवसप्पतिस्सवचन-
मेतं — आयस्मा ति । सारिपुत्तो ति । तस्स थेरस्स नामं सङ्घा समञ्जा
पञ्चत्ति बोहारो नामं नामकम्मं नामधेय्यं निरुत्ति व्यञ्जनं अभि-
लापो ति — इच्चायस्मा सारिपुत्तो ।

B 353

न सुतो उद कस्सची ति । ना ति । पटिक्खेपो । उदा ति ।
पदसन्धि पदसंसगो पदपारिपूरी अक्खरसमवायो व्यञ्जनसिलिट्ठता
पदानुपुब्बतापेतं — उदा ति । कस्सची ति । खत्तियस्स वा ब्राह्मणस्स वा
वेस्सस्स वा सुहस्स वा गह्दस्स वा पव्वजितस्स वा देवस्स वा मनु-
स्सस्स वा ति — न सुतो उद कस्सचि ।

10

एवं वग्गुवदो सत्था ति । एवं वग्गुवदो मधुरवदो पेमनीयवदो
हृदयङ्गमवदो करवीकरुतमञ्जुघोसो^३ । अट्ठङ्गसमन्नागतो खो पन तस्स
भगवतो मुखतो घोसो निच्छरति — विसट्ठो^४ च विञ्जेय्यो^५ च
मञ्जु च सवनीयो च बिन्दु^६ च अविंसारी च गम्भीरो च
निन्नादि च । यथा परिसं खो पन सो भगवा सरेन^७ विञ्जापेति,
न अस्स^८ बहिद्धा परिसाय घोसो निच्छरति, ब्रह्मास्सरो खो पन सो
भगवा करवीकभाणी ति — एवं वग्गुवदो ।

R 446

सत्था ति । सत्था^१ भगवा सत्थवाहो । यथा सत्थवाहो सत्ते
कन्तारं तारेति, चोरकन्तारं^२ तारेति, वाळकन्तारं तारेति,^३ दुट्ठिमक्ख-
कन्तारं तारेति, निरुदककन्तारं तारेति उत्तारेति नित्तारेति पता-
रेति^४ खेमन्तभूमि सम्पापेति, एवमेव भगवा सत्थवाहो सत्ते कन्तारं
तारेति, जातिकन्तारं तारेति, जराकन्तारं तारेति, व्याधिकन्तारं ..पे०.
भरणकन्तारं ... सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासकन्तारं तारेति ... राग-
कन्तारं तारेति .. दोसकन्तारं .. मोहकन्तारं ... मानकन्तारं .. दिट्ठि-
कन्तारं ... किलेसकन्तारं ... दुच्चरितकन्तारं तारेति... रागगहनं तारेति

25

१ पदानुपुब्बतामेत — सी०, स्या०, रो०, एवमुपरि पि । २ गरुवचनं — रो० । ३
करवीकरुदमञ्जुस्सरो — स्या०, रो० । ४ विसट्ठो — स्या० । ५ सुविञ्जेय्यो — स्या०, रो० ।
६ विन्दु — स्या०, रो० । ७ सारेन — रो० । ८ तस्स — स्या०, रो० । ९ स्या० पोत्यके
नत्थि । १०-१० सी० पोत्यके नत्थि । ११. पत्तारेति — स्या० ।

... दोसगहनं .. मोहगहनं .. मानगहनं ... दिद्विगहनं ... किलेसगहनं
दुच्चरितगहनं' तारेति उत्तारेति नित्तारेति पतारेति खेमन्तं अयत्
निव्वानं सम्पापेती ति। एवं पि भगवा सत्यवाहो।

अथ वा, भगवा नेता विनेता अनुनेता पञ्चापेता' निज्झ-
६ पेता पेक्खेता' पसादेता ति। एवं पि भगवा सत्यवाहो।

३. ३५४

अथ वा भगवा अनुप्पन्नस्स मग्गस्स उप्पादेता, असञ्जातस्स
मग्गस्स सञ्जनेता, अनक्खातस्स मग्गस्स अक्खाता, मग्गञ्चू मग्ग-
विदू मग्गकोविदो मग्गानुगा च पन एतरहि सावका विहरन्ति पच्छा
समन्नागता ति। एवं पि भगवा सत्यवाहो ति - एवं वम्बुवदो
१० सत्था।

तुसिता गणिमागतो ति। भगवा तुसितकाया' चवित्वा सतो
सम्पजानो मातुक्काच्छ ओक्कन्तो ति। एवं पि तुसिता गणिमागतो।

१. ४४७

अथ वा, देवा वुच्चन्ति तुसिता। ते तुट्ठा सन्तुट्ठा अत्तमना
पमुदिता पीतिसोमनस्सजाता देवलोकतो' गणि आगतो ति। एव
१६ पि तुसिता गणिमागतो। अथ वा, अरहन्तो वुच्चन्ति तुसिता। ते
तुट्ठा सन्तुट्ठा अत्तमना परिपुण्णसङ्कप्पा अरहन्तानं गणि आगतो ति।
एवं पि तुसिता गणिमागतो। गणी ति। गणी भगवा। गणाचरियो
ति गणी, गणस्स सत्था ति गणी, गणं परिहरती ति गणी, गणं
ओववती ति गणी, गणमनुसासती ति गणी, विसारदो गणं उपसङ्क-
२० मती ति गणी, गणस्स सुस्सुसति' सोतं ओदहति अञ्जा चित्तं उपट्ट-
पेती ति गणी, गणं अकुसला वृट्ठापेत्वा कुसले पतिट्ठापेती ति गणी,
भिक्खुगणस्स गणी, भिक्खुनिगणस्स' गणी, उपासकगणस्स गणी,
उपासिकागणस्स गणी, राजगणस्स गणी, खत्तियगणस्स .. ब्राह्मणगणस्स
... वेस्सगणस्स ... सुट्ठगणस्स ... देवगणस्स ... ब्रह्मगणस्स गणी, सङ्घी
२५ गणी गणाचरियो। आगतो ति। उपगतो' समुपगतो' समुपपन्नो' सङ्घस्स-
नगरं ति - तुसिता गणिमागतो। तेनाह थेरो सारिपुत्तो -

१. सी०, त्या०, रो० पोत्वकेनु नत्थि। २. मञ्जापेता - त्या०, रो०। ३. पेक्खता -
त्या०, रो०। ४. तुमिनाकाया - सी०, त्या०, रो०। ५. तुमित्तदेवलोकतो - त्या०, रो०।
६. तुस्सति - रो०। ७. भिक्खुणीगणस्स - नी०; भिक्खुनीगणस्स - रो०। ८. उपगतो -
सी०। ९. सी० पोत्वके नत्थि। १०. सम्पत्तो - त्या०, रो०।

“न मे दिद्वो इतो पुब्बे, (इच्चायस्मा सारिपुत्तो)

न सुतो उव कस्सचि ।

एवं वग्गुवदो सत्था, तुसिता गणिमागतो” ति ॥

१९१. सदेवकस्स लोकस्स, यथा दिस्सति चक्खुमा ।

सब्बं तभं विनोदेत्त्वा, एको व रतिमच्चग्गा ॥

5

सदेवकस्स लोकस्सा ति । सदेवकस्स लोकस्स समारकस्स
ब्रह्मकस्स सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साया ति — सदेवकस्स
लोकस्स ।

B 355

यथा दिस्सति चक्खुमा ति । यथा भगवन्तं तावतिसभवने
परिच्छत्तकमूले पण्डुकम्बलसिलायं निसिन्नं धम्मं देसेन्तं देवता
स्सन्ति तथा मनुस्सा पस्सन्ति । यथा मनुस्सा पस्सन्ति तथा देवता
पस्सन्ति । यथा देवानं दिस्सति तथा मनुस्सानं दिस्सति । यथा मनु-
स्सानं दिस्सति तथा देवानं दिस्सती ति । एवं पि यथा दिस्सति
चक्खुमा । यथा वा पनेके^१ भोन्तो समणब्राह्मणा अदन्ता दन्त-
वण्णेन दिस्सन्ति, असन्ता सन्तवण्णेन दिस्सन्ति, अनुपसन्ता उपसन्त-
वण्णेन दिस्सन्ति, अनिब्बुता निब्बुतवण्णेन दिस्सन्ति ।

10

R 448

15

पतिरूपको^२ मत्तिकाकुण्डलो व,

लोहह्मसासो^३ व सुवण्णच्छन्नो ।

चरन्ति लोके परिवारच्छन्ना,^४

अन्तो असुद्धा बहि सोममाना ति ॥

20

न भगवा एव^५ दिस्सति । भगवा भूतेन तच्छेन तथेन याथा-
वेन अविपरीतेन सभावेन दन्तो दन्तवण्णेन दिस्सति, सन्तो सन्त-
वण्णेन दिस्सति, उपसन्तो उपसन्तवण्णेन दिस्सति, निब्बुतो निब्बुत-
वण्णेन दिस्सति, अकम्पितहरियापथा^६ च बुद्धा भगवन्तो पणिधि-
सम्पन्ना ति । एवं पि यथा दिस्सति चक्खुमा ।

25

अथ वा, भगवा विसुद्धसद्दो गतकित्तिसद्दिसिलोको^७ नाग-
भवने च सुपण्णभवने च यक्खभवने च असुरभवने च गन्धब्बभवने च

१. पनेते — स्या०, रो० । २. पतिरूपको — स्या० । ३. लोहह्मसासो — स्या०, रो० ।
४. परिवारच्छन्ना — स्या०, रो० । ५. एव पि — स्या०, रो० । ६. अकम्पित — स्या०,
रो० । ७. भटकित्तिसि — स्या०, रो० ।

महाराजभवने च इन्दभवने च ब्रह्मभवने च देवभवने' च' एविसो
च तादिसो च ततो च भिय्यो ति। एवं पि यथा दिस्सति चक्खुमा।

अथ वा, भगवा दसहि वलेहि समन्नागतो, चतूहि वेसारज्जेहि,
चतूहि पटिसम्भदाहि, छहि अभिञ्जाहि, छहि बुद्धघम्मोहि, तेजेन च
५ वलेन च गुणेन च वीरियेन' च पञ्जाय च दिस्सति वायति
पञ्जायति।

B. 379

दूरे सन्तो पकामेन्ति, हिमवन्तो च पव्वतो।

असन्तेत्थ न दिस्सन्ति, रत्ति' खित्ता यथा सरा ति॥

एवं पि यथा दिस्सति चक्खुमा। -

10 चक्खुमा ति। भगवा पञ्चहि चक्खुहि चक्खुमा-मंस-
चक्खुना पि चक्खुमा, दिव्वचक्खुना पि चक्खुमा, पञ्जाचक्खुना पि
चक्खुमा, बुद्धचक्खुना पि चक्खुमा, समन्तचक्खुना पि चक्खुमा।

B. 149

कयं भगवा मंसचक्खुना पि चक्खुमा? मंसचक्खुमिह भग-
वतो पञ्च वण्णा संविज्जन्ति- नीलो च वण्णो, पीतको' च वण्णो,
15 लोहितको च वण्णो, कण्हो च वण्णो, ओदातो च वण्णो। अक्खि-
लोमानि च भगवतो। यत्थ च अक्खिलोमानि पतिट्ठितानि तं नील
होति सुनीलं पासादिकं दस्सनेय्यं उम्मापुप्फसमानं'। तस्स परतो पीतकं
होति सुपीतकं सुवण्णवण्णं पासादिकं दस्सनेय्यं कणिकारपुप्फसमानं'।
उभतो अक्खिकूटानि' भगवतो लोहितकानि होन्ति सुलोहितकानि
20 पासादिकानि दस्सनेय्यानि इन्दगोपकसमानानि। मज्जे कण्हं होति
सुकण्हं अलूखं सुद्धं' पासादिकं दस्सनेय्यं अहारिडुकसमानं'। तस्स
परतो ओदातं होति सुओदातं सेतं' पण्डरं पासादिकं दस्सनेय्य
ओसधितारकसमानं'। तेन भगवा पाकतिकेन मंसचक्खुना अत्तभाव-
परियापन्नेन पुरिमसुचरितकम्माभिनिव्वत्तेन समन्ता योजनं पस्सति
25 दिवा चैव रत्ति च। यदा पि चतुरङ्गसमन्नागतो अन्धकारो होति

१-१ स्या०, रो० पोत्यकेषु नत्वि। २ एवादिता-स्या०, रो०। ३ विरियेन-
नी०, स्या०, रो०। ४. रत्ति-सी०। ५. पीतको-सी०। ६ उम्मापुप्फसमान-सी०,
उम्मारपुप्फसमानं-स्या०, रो०। ७ कणिकार०-स्या०, रो०। ८ च अक्खिकुपानि-
स्या०; च अक्खिकुटानि-रो०। ९ सिनिद्धं-स्या०, रो०। १० अत्तारिडुकसमान-स्या०
रो०। ११ सी० पोत्यके नत्वि। १२ ओसधीतारकसमान-सी०।

सूरियो च अत्यङ्गतो^१ होति; कालपक्वो^२ च उपोसथो होति, तिब्बो च वनसण्डो होति, महा च कालमेघो^३ अब्मुद्धितो होति। एवरूपे पि चतुरङ्गसमन्नागते अन्धकारे समन्ता योजनं पस्सति। नत्थि सो कुट्टो^४ वा कवाटं वा पाकारो वा पव्वतो वा गच्छो वा लता वा आवरणं रूपानं दस्सनाय। एकं चे तिलफलं निमित्तं कत्वा तिल-
वाहे पक्खिपेय्य, तञ्जेव तिलफलं उद्धरेय्य। एवं परिसुद्धं भगवतो
पाकतिकमंसचक्खु। एवं भगवा मंसचक्खुना पि चक्खुमा।

कथं भगवा दिव्वेन चक्खुना पि^५ चक्खुमा? भगवा दिव्वेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमाने^६ हीने पणीते सुवण्णे दुव्वण्णे सुगते दुग्गते; यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति—“इमे वत भोन्तो सत्ता कायदुच्चरितेन समन्नागता वची-
दुच्चरितेन समन्नागता मनोदुच्चरितेन समन्नागता अरियानं उपवादका मिच्छादिट्टिका मिच्छादिट्टिकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपन्ना; इमे वा पन भोन्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता वचीसुचरितेन समन्नागता मनोसुचरितेन
समन्नागता अरियानं अनुपवादका सम्मादिट्टिका सम्मादिट्टिकम्म-
समादाना, ते कायस्स भेदा परं मरणा सुर्गात्तं सग्गं लोकं उपपन्ना”
ति। इति दिव्वेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुव्वण्णे सुगते दुग्गते; यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति। आकङ्खमानो च भगवा एकं पि लोक-
धातु पस्सेय्य, द्वे पि लोकधातुयो पस्सेय्य, तिस्सो पि लोकधातुयो पस्सेय्य, चतस्सो^७ पि लोकधातुयो पस्सेय्य, पञ्च पि लोकधातुयो पस्सेय्य, दस पि लोकधातुयो पस्सेय्य, बीसं^८ पि लोकधातुयो पस्सेय्य, तिस पि लोकधातुयो पस्सेय्य, चत्तालीसं^९ पि लोकधातुयो पस्सेय्य, पञ्चासं पि लोकधातुयो पस्सेय्य, सतं^{१०} पि लोकधातुं पस्सेय्य,^{११} सहस्सि^{१२} पि चूलनिकं^{१३} लोकधातुं पस्सेय्य, द्विसहस्सि पि मज्झिमिकं

१. अत्यङ्गमितो—स्या०, रो०। २. कालपक्वो—सी०, रो०। ३. कालमेघो—सी०, अकालमेघो—स्या०, रो०। ४. कुट्टो—सी०; कूटो—स्या०, रो०। ५. सी० पौत्यके नत्थि। ६. उपपज्जमाने—सी०। ७. चतुस्सो—रो०। ८. बीसति—सी०। ९. चत्तालीसं—सी०, स्या०, रो०। १०-१० सी०, स्या०, रो० पौत्यकेसु नत्थि। ११. सहस्सं—सी०। १२. चूलनिकं—सी०।

3

10

B. 337

P. 450

15

20

25

लोकघातुं पस्सेय्य, तिसहस्सिस्स पि लोकघातुं पस्सेय्य, महासहस्सिस्स पि लोकघातुं पस्सेय्य, यावतकं' पन' आकह्वेय्य तावतकं पस्सेय्य। एवं परिसुद्धं भगवतो दिव्वचक्खु। एवं भगवा दिव्वेन चक्खुना पि चक्खुमा।

- 6 कथं भगवा पञ्जाचक्खुना पि चक्खुमा ? भगवा महापञ्जो पुथुपञ्जो हासपञ्जो जवनपञ्जो तिकखपञ्जो निव्वेधिकपञ्जो पञ्जा-
 R 471 पभेदकुसलो' पभिन्नबाणो अधिगतपटिसम्भियो चतुवेसारज्जप्पत्तो दसवल्लधारी पुरिसासभो पुरिससीहो पुरिसनागो पुरिसाज्जो पुरिस-
 धोरय्हो' अनन्तबाणो अनन्ततेजो अनन्तयसो अड्डो' महद्धनो धनवा
 10 नेता विनेता अनुनेता पञ्जापेता निज्जापेता पेक्खेता पसावेता। सो हि भगवा अनुप्पन्नस्स मग्गस्स उप्पादेता, असज्जातस्स मग्गस्स
 B. 358 सज्जनेता, अनक्खातस्स मग्गस्स अक्खाता, मग्गञ्जु मग्गविदू मग्ग-
 कोविदो मग्गानुगा च पन एतरहि सावका विहरिन्त पञ्जा समन्ना-
 गता। सो हि भगवा जानं जानाति, पस्सं पस्सति, चक्खुभूतो बाण-
 15 भूतो धम्मभूतो' ब्रह्मभूतो वत्ता पवत्ता अत्थस्स निज्जेता अमतस्स दाता धम्मस्सामी' तथागतो। नत्थि तस्स भगवतो अज्जातं अविद्धु
 अविदितं असच्छिकतं अफस्सितं' पञ्जाय।

- अतीतं अनागतं पच्चुप्पन्नं उपादाय सब्बे धम्मा सव्वाकारेण बुद्धस्स भगवतो बाणमुखे आपाथं आगच्छन्ति। यं किञ्चि नेय्यं नाम
 20 अत्थि जानितब्बं अत्तत्थो वा, परत्थो वा, उभयत्थो वा, दिट्ठ-
 धम्मिको' वा अत्थो, सम्परायिको वा अत्थो, उत्तानो वा अत्थो,
 गम्भीरो वा अत्थो, गूळहो वा अत्थो, पटिच्छन्नो वा अत्थो, नेयो
 वा अत्थो, नीतो वा अत्थो, अनवज्जो वा अत्थो, निक्किलेसो वा
 अत्थो, वोदानो वा अत्थो, परमत्थो वा अत्थो, सब्बं तं अन्तोवुद्धबाणे
 25 परिवत्तति।

अतीते बुद्धस्स भगवतो अप्पटिहत्तं बाणं, अनागते अप्पटिहत्तं बाण, पच्चुप्पन्ने अप्पटिहत्तं बाणं। सब्बं कायकम्मं बुद्धस्स भगवतो

१-१ सो यावतकं-स्या०, रो०। २ पञ्जपभेदकुसलो-स्या०, रो०। ३ पुरिस-
 धोरय्हो-स्या०, रो०। ४ अड्डो-स्या०। ५ मग्गभूतो-सी०। ६ धम्मसापि-स्या०,
 रो०। ७ अफस्सित-स्या०, रो०। ८ दिट्ठि०-स्या०, रो०।

बाणानुपरिवत्ति। सब्बं वचीकम्मं ... सब्बं मनोकम्मं बुद्धस्स भगवतो
 बाणानुपरिवत्ति। यावतकं नेय्यं तावतकं बाणं, यावतकं बाणं ताव-
 तकं नेय्यं; नेय्यपरियन्तिकं बाणं, बाणपरियन्तिकं नेय्यं; नेय्यं अति-
 क्कमित्वा बाणं नप्पवत्तति, बाणं अतिक्कमित्वा नेय्यपथो नत्थि;
 अञ्जमञ्जपरियन्तद्वायिनो ते धम्मा। यथा द्विञ्चं समुग्गपटलानं 5
 सम्माफुसितानं हेट्ठिमं समुग्गपटलं उपरिमं नातिवत्तति, उपरिमं
 समुग्गपटलं हेट्ठिमं नातिवत्तति, अञ्जमञ्जपरियन्तद्वायिनो'; एव-
 मेवं बुद्धस्स भगवतो नेय्यं च बाणं च अञ्जमञ्जपरियन्तद्वायिनो।
 यावतकं नेय्यं तावतकं बाणं, यावतकं बाणं तावतकं नेय्यं, नेय्य-
 परियन्तिकं बाणं, बाणपरियन्तिकं नेय्यं; नेय्यं अतिक्कमित्वा बाणं 10
 नप्पवत्तति, बाणं अतिक्कमित्वा नेय्यपथो नत्थि; अञ्जमञ्जपरियन्त-
 द्वायिनो ते धम्मा।

R. 462

सब्बधम्मेषु बुद्धस्स भगवतो बाणं पवत्तति'। सब्बे धम्मा
 बुद्धस्स भगवतो आवज्जनपटिबद्धा आकङ्खपटिबद्धा' मनसिकारपटि-
 बद्धा चित्तुप्पादपटिबद्धा। सब्बसत्तेसु बुद्धस्स भगवतो बाणं पव- 15
 त्ति। सब्बेसं सत्तानं भगवा आसयं जानाति, अनुसयं जानाति,
 चरितं जानाति, अधिमुत्तिं जानाति, अप्परजक्खे महारजक्खे तिक्खि-
 न्द्रिये मुदिन्द्रिये स्वाकारे द्वाकारे सुविञ्चापये दुविञ्चापये भब्बा-
 मब्बे सत्ते पजानाति'। सदेवको लोको समारको सब्रह्मको सस्समण-
 ब्राह्मणी पजा सदेवमनुस्सा अन्तोबुद्धबाणे परिवत्तति। 20

B. 359

यथा ये केचि मच्छकच्छपा अन्तमसो तिमितिमिञ्जलं उपा-
 दाय अन्तोमहासमुद्दे परिवत्तन्ति, एवमेव सदेवको लोको समारको
 सब्रह्मको सस्समणब्राह्मणी पजा सदेवमनुस्सा अन्तोबुद्धबाणे परि-
 वत्तति। यथा ये केचि पक्खी अन्तमसो गच्छं वेनतय्यं उपादाय
 आकासस्स पदेसे परिवत्तन्ति, एवमेव ये पि ते सारिपुत्तसमा पञ्जाय 25
 ते पि बुद्धबाणस्स पदेसे परिवत्तन्ति; बुद्धबाणं देवमनुस्सानं पञ्चं
 फरित्वा अभिभवित्वा तिट्ठति। ये पि ते खत्तिपण्डिता ब्राह्मण-
 पण्डिता गहपतिपण्डिता' समणपण्डिता निपुणा कतपरप्पवादा वाल-

१ ० परियन्तद्वायिनो होन्ति - सी०, स्या०, रो०। २. एवमेव - स्या०, रो०। ३
 परिवत्तति - स्या०, रो०। ४ आकङ्खपटिबद्धा - सी०। ५ जानाति - सी०। ६. सी०
 गोत्वके नत्थि।

वेधिरूपा वोभिन्दन्ता मञ्जे चरन्ति पञ्चागतेन दिट्टिगतानि, ते पञ्हे^१ अभिसङ्खरित्वा अभिसङ्खरित्वा तथागतं उपसङ्कमित्वा पुच्छन्ति गूळहानि^२ च पटिच्छन्नानि च^३। कथिता विसज्जिता^४ व^५ ते पञ्हा भगवता होन्ति निट्ठिक्कारणा उपक्खित्तका च। ते भगवतो सम्प-
 403 5 ज्जन्ति। अथ खो भगवा^६ व^७ तत्थ अतिरोचति, यदिदं पञ्चाया ति।
 एवं भगवा पञ्चाचक्खुना पि चक्खुमा।

कथं भगवा बुद्धचक्खुता पि चक्खुमा? भगवा बुद्धचक्खुना लोकं बोलोकेन्तो अद्दस सत्ते अप्परजक्खे महारजक्खे त्तिक्खिन्दिये मुदिन्दिये स्वाकारे द्वाकारे सुविञ्जापये दुविञ्जापये अप्पेकच्चे
 10 परलोकवज्जभयदस्साविनो विहरन्ते अप्पेकच्चे^८ न परलोकवज्जभय-
 दस्साविनो विहरन्ते^९। सेय्यथापि नाम उप्पलिनियं वा पदुमिनियं
 वा पुण्डरीकिनियं वा अप्पेकच्चानि^{१०} उप्पलानि वा पदुमानि वा
 पुण्डरीकानि^{११} वा उदके जातानि उदके संवड्डानि^{१२} उदकानुग्गतानि
 अन्तोनिमुग्गपोसीनि, अप्पेकच्चानि उप्पलानि वा पदुमानि वा
 15 पुण्डरीकानि वा उदके जातानि उदके संवड्डानि समोदकं ठितानि,
 अप्पेकच्चानि उप्पलानि वा पदुमानि वा पुण्डरीकानि वा उदके
 जातानि उदके संवड्डानि उदक^{१३} अच्चुम्मम तिट्ठन्ति अनुपलित्तानि
 उदकेन, एवमेवं भगवा बुद्धचक्खुना लोकं बोलोकेन्तो अद्दस सत्ते
 अप्परजक्खे महारजक्खे त्तिक्खिन्दिये मुदिन्दिये स्वाकारे द्वाकारे
 20 सुविञ्जापये दुविञ्जापये अप्पेकच्चे परलोकवज्जभयदस्साविनो
 विहरन्ते अप्पेकच्चे न परलोकवज्जभयदस्साविनो विहरन्ते। जानाति
 भगवा — “अयं पुग्गलो रागचरितो, अयं दोसचरितो, अयं मोहचरितो,
 अयं वितक्कचरितो, अयं सद्धाचरितो, अयं वाणचरितो” ति।
 रागचरितस्स भगवा पुग्गलस्स असुभकथं कथेति; दोसचरितस्स
 25 भगवा पुग्गलस्स मेत्ताभावन आचिक्खति; मोहचरितस्स^{१४} भगवा
 पुग्गलस्स^{१५} उद्देसे परिपुच्छाय कालेन धम्मस्सवने कालेन धम्म-
 साकच्छाय गरुसंवासे निवेसेति, वितक्कचरितस्स भगवा पुग्गलस्स

B 300

१ पञ्हे — स्या०, रो०। २-२ स्या०, रो० पोत्यकेषु नत्थि। ३-३ च विसज्जिता
 च — स्या०, रो०। ४-४ भगवा — स्या० रो०। ५-५ स्या०, रो० पोत्यकेषु नत्थि। ६ अप्पे-
 कच्चे — सी०। ७ पुण्डरीकानि — म०। ८ संवड्डानि — म०। ९ उदका — सी०, स्या०, रो०।
 १० मोहचरित — सी०, स्या०, रो०। ११ पुग्गल — सी०, स्या०, रो०।

आनापानस्सति आचिक्खति; सद्वाचरितस्स भगवा पुग्गलस्स पासाद-
नीयं' निमित्तं आचिक्खति बुद्धसुबोधि धम्मसुधम्मतं सङ्खसुप्पटिपत्ति'^१
सीलानि च अत्तनो; आणचरितस्स भगवा पुग्गलस्स विपस्सना-
निमित्तं आचिक्खति अनिच्चाकारं दुक्खाकारं अनत्ताकारं।

सेले यथा पव्वतमुद्धनिट्ठितो, 5
यथा पि पस्से जनतं समन्ततो।
तथूपमं धम्ममयं सुमेध,
पासादमारुह् समन्तचक्खु। B. 454
सोकावतिण्ण'^२ जनतमपेतसोको,
अवेक्खस्सु जातिजराभिभूतं ति ॥ 10

एवं भगवा बुद्धचक्खुना पि चक्खुमा।

कथं भगवा समन्तचक्खुना पि चक्खुमा? समन्तचक्खु
वुच्चति सब्बञ्चुतवाणं। भगवा सब्बञ्चुतवाणेन उपेतो समुपेतो
उपगतो समुपगतो उपपन्नो समुपपन्नो समन्नागतो।

न तस्स अदिट्ठमिधत्थि किञ्चि, 15
अथो अविञ्जातमजानितब्बं।
सब्बं अभिञ्जासि यदत्थि नेय्यं,
तथागतो तेन समन्तचक्खू ति ॥

एवं भगवा समन्तचक्खुना पि चक्खुमा ति—यथा दिस्सति
चक्खुमा। 20

सब्बं तमं विनोदेत्वा ति। सब्बं रागतमं दोसतमं मोहूतमं
मानतमं दिट्ठितमं किलेसतमं दुच्चरिततमं अन्धकरणं अचक्खुकरणं
अञ्जानकरणं पञ्जानिरोधिकं विघातपक्खिकं अनिब्बानसंबत्तनिकं
नुदित्वा'^३ पनुदित्वा'^४ जहित्वा'^५ पजहित्वा विनोदेत्वा' व्यन्ति करित्वा
अनभावं गमेत्वा ति—सब्बं तमं विनोदेत्वा। 25

१. पासादनीयं—म०। २ सङ्खसुपटिपत्ति—स्या०, रो०। ३ सोकावकिण्ण—
स्या०। ४ सी० पोत्यके नत्थि। ५ स्या० पोत्यके नत्थि। ६ पनुदित्वा—स्या०। ७ स्या०,
रो० पोत्यकेसु नत्थि। ८. विनोदेत्वा—स्या०, रो०।

एको व' रतिमञ्जगा ति । एको ति । भगवा पव्वज्जासङ्घातेन
 एको, अदुत्तियट्ठेन' एको, तण्हाय पहानट्ठेन एको, एकन्तवीतरागो
 ति एको, एकन्तवीतदोसो ति एको, एकन्तवीतमोहो ति एको,
 एकन्तनिक्किलेसो ति एको, एकायनमग्गं गतो ति एको, अनुत्तर
 5 सम्मासम्बोधिं अभिसम्बुद्धो ति एको ।

कथं भगवा पव्वज्जासङ्घातेन एको ? भगवा दहरो व समानो
 सुसु काळकेसो भद्रेन' योव्वनेन' समन्नागतो पठमेन वयसा अकाम-
 कानं मातापितूनं अस्सुमुखानं रुदन्तानं विलपन्तानं नातिसङ्घं पहाय
 सव्वं धरावासपलिवोधं' छिन्दित्वा पुत्तदारपलिवोधं छिन्दित्वा नाति-
 10 पलिवोधं छिन्दित्वा मित्तामच्चपलिवोधं' छिन्दित्वा' सन्निधिपलिवोध
 छिन्दित्वा केसमस्सुं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा
 अगारस्सा अनगारियं पव्वजित्वा अकिञ्चनभावं' उपगत्त्वा एको
 चरति विहरति इरियति वत्तति पालेति यपेति यापेति - एवं भगवा
 पव्वज्जासङ्घातेन एको ।

B. 466

16 कथं भगवा अदुत्तियट्ठेन एको ? सो एवं पव्वजितो समानो
 एको अरञ्जवनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवति अप्पसद्धानि
 अप्पनिग्घोसानि विजनवातानि मनुस्सराहस्सेय्यकानि पटिसल्लान-
 सारुप्पानि' । सो एको' चरति,' एको गच्छति, एको तिट्ठति, एको"
 निसीदति," एको सेय्यं कप्पेति, एको गामं पिण्डाय पविसति, एको
 20 पटिक्कमति, एको रहो निसीदति, एको चङ्कमं अधिद्व्वाति, एको
 चरति विहरति" इरियति वत्तति पालेति यपेति यापेति - एवं भगवा
 अदुत्तियट्ठेन एको ।

I. 362

26 कथं भगवा तण्हाय पहानट्ठेन एको ? सो एवं एको अदु-
 त्तियो अप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरन्तो नज्जा नेरञ्जराय तीरे
 बोधिरुक्खमूले महापधानं पदहन्तो मारं ससेनं कण्हं" नमुच्चिं पमत-

१. व-रो० । २ अदुत्तियत्थेन-रो० । ३ एको एको-स्या० । ४ महेन-स्या०,
 रो० । ५. योव्वञ्जेन-स्या०, रो० । ६. यसपलिवोध-स्या०, रो० । ७-७ सी० पोत्यके
 नत्थि । ८. अकिञ्चनभाव-स्या०, रो० । ९. ० सारुप्पानि-स्या०, रो० । १०-१० स्या०
 पोत्यके नत्थि । ११-११ सी० पोत्यके नत्थि । १२ एको विहरति-रो० । १३ स्या०, रो०
 पोत्यकेषु नत्थि ।

बन्धुं विधमित्वा तण्हाजालिनिं विसरितं^१ विसत्तिकं पजहसि^२ विनो-
देसि^३ ब्यन्ति^४ अकासि^५ अनभावं गमेसि^६ ।

“तण्हाडुतियो पुरिसो, दीघमद्धानसंसरं ।
इत्थभावञ्चथाभावं, संसारं^७ नातिवत्तति ॥
एतमादीनवं अत्वा, तण्हं दुक्खस्स सम्भवं ।
वीततण्हो अनादानो, सतो भिक्खु परिब्बजे” ति ॥

एवं भगवा तण्हाय पहानट्ठेन एको ।

कथं भगवा एकन्तवीतरागो ति एको ? रागस्स पहीनत्ता
एकन्तवीतरागो ति एको, दोसस्स पहीनत्ता एकन्तवीतदोसो ति एको,
मोहस्स पहीनत्ता एकन्तवीतमोहो ति एको, किल्लेसानं पहीनत्ता
एकन्तनिक्किल्लेसो ति एको ।

कथं भगवा एकायनमग्गं गतो ति एको ? एकायनमग्गो
वुच्चति चत्तारो सतिपट्टाना चत्तारो सम्मप्यधाना चत्तारो इद्धि-
पादा पञ्चिन्द्रियाणि पञ्च बलानि सत्त बोज्झङ्गा अरियो अट्टङ्गिको
मग्गो ।

“एकायनं जातिखयन्तदस्सी,
मग्गं पजानाति हितानुकम्पी ।
एतेन मग्गेन तरिसु^८ पुब्बे,
तरिस्सन्ति ये च^९ तरन्ति ओघं” ति ॥

एवं भगवा एकायनमग्गं गतो ति^{१०} एको ।

कथं भगवा एको अनुत्तरं सम्मासम्बोधिं अभिसम्बुद्धो ति
एको ? बोधि वुच्चति चतूसु मग्गेषु ञाणं पञ्जा^{११} पञ्चिन्द्रियं^{१२} पञ्चा-
बलं धम्मविचयसम्बोज्झङ्गो वीमंसा विपस्सना सम्मादिट्ठि । भगवा
तेन बोधिजाणेन “सब्बे सङ्खारा अनिच्चा” ति बुज्झि, “सब्बे सङ्खारा
दुक्खा” ति बुज्झि, “सब्बे धम्मा अनत्ता” ति बुज्झि, “अविज्जा-

१ सी० पोत्यके नत्थि, सरितं—स्या०, रो० । २ पजहि—सी०; पजहति—स्या०,
रो० । ३ विनोदेति—स्या०, रो० । ४-४. ब्यन्ती अकासि—सी०; ब्यन्ती करोति—स्या०,
रो० । ५. गमेति—स्या०, रो० । ६ संसर—सी० । ७ अतरिसु—स्या०, रो० । ८ व-
स्या०, रो० । ९-९ पञ्चिन्द्रियं—म०

पञ्चया सङ्घारा" ति बुज्झि...पे०.. "जातिपञ्चया जरामरण" ति बुज्झि; "अविज्जानिरोधा सङ्घारनिरोधो" ति बुज्झि...पे०.. "जातिनिरोधा जरामरणनिरोधो" ति बुज्झि; "इदं दुक्खं" ति बुज्झि, "अयं दुक्खसमुदयो" ति बुज्झि, "अयं दुक्खनिरोधो" ति बुज्झि, "अयं दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा" ति बुज्झि; "इमे आसवा" ति बुज्झि.. पे०... "अयं आसवनिरोधगामिनी पटिपदा" ति बुज्झि, "इमे धम्मा परिञ्जेय्या" ति बुज्झि... पहातब्बा ति... भावेतब्बा ति.. सच्छिकातब्बा ति बुज्झि, छन्नं फस्सायतनानं समुदय च अत्थङ्गम च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च बुज्झि, पञ्चन्नं उपादान-
 10 क्खन्धानं समुदयं च अत्थङ्गमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च बुज्झि, चतुन्नं महाभूतानं समुदयं च अत्थङ्गमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च बुज्झि, "यं किञ्चि समुदयधम्मं, सब्बं तं निरोधधम्मं" ति बुज्झि।

R 467

अथ वा, यं किञ्चि बुज्झित्तब्बं अनुबुज्झित्तब्बं पटिबुज्झित्तब्बं
 15 सम्बुज्झित्तब्बं अधिगन्तब्बं फस्सित्तब्बं सच्छिकातब्बं, सब्बं तं तेन बोधिभागेन बुज्झि अनुबुज्झि पटिबुज्झि सम्बुज्झि सम्माबुज्झि अधिगच्छि फस्सेसि^१ सच्छाकासि^२। एवं भगवा एको अनुत्तरं सम्मा-सम्बोधि अभिसम्बुद्धो ति एको।

रतिमज्झगा ति। रतिं ति। नेक्खम्मरतिं विवेकरतिं उप-
 20 समरतिं सम्बोधिरति अज्झगा समज्झगा^३ अधिगच्छि फस्सेसि सच्छाकासी ति—एको व रतिमज्झगा। तेनाह थेरो सारिपुत्तो—

"सदेवकस्स लोकस्स, यथा दिस्सति चक्खुमा।
 सब्बं तमं विनोदेत्वा, एको व रतिमज्झगा" ति ॥

१९२. तं बुद्धं असितं तादिं, अकुहं गणिमागतं।
 25 बहूनमिध^४ बद्धानं, अत्थि पञ्हेन आगमं ॥

तं बुद्धं असितं तादिं ति। बुद्धो ति। यो सो भगवा सयम्भू
 अनाचरियको पुब्बे अननुस्सुतेसु धम्मेषु सामं सच्चानि अभि-

१. स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि। २ पटिक्खि फुसेसि—स्या०, रो०। ३ सच्छि-
 कासि—स्या०, रो०। ४ पविवेकरतिं—स्या०, रो०। ५ सी०, स्या० पोत्यकेसु नत्थि।
 ६ बहून्मिध—स्या०, रो०।

सम्बुज्झि, तत्थ च सम्बञ्जुतं पापुणि,^१ बलेसु च वसीभावं पापुणि ।
 बुद्धो ति । केनट्ठेन^२ बुद्धो ? बुज्झिता सच्चानी ति बुद्धो, बोधेता
 पजाया ति बुद्धो, सम्बञ्जुताय बुद्धो, सम्बदस्साविताय बुद्धो, अनञ्ज-
 नेय्यताय^३ बुद्धो, विसविताय^४ बुद्धो, खीणासवसङ्घातेन बुद्धो, निरूप-
 विकलेससङ्घातेन बुद्धो, एकन्तवीतरापो ति बुद्धो, एकन्तवीतदोसो
 ति बुद्धो, एकन्तवीतमोहो ति बुद्धो, एकन्तनिकिकलेसो ति बुद्धो,
 एकायनमग्गं गतो ति बुद्धो, एको अनुत्तरं सम्मासम्बोधि अभिसम्बुद्धो
 ति बुद्धो, अबुद्धिविहतत्ता बुद्धिपटिलाभत्ता बुद्धो । बुद्धो ति नेतं^५ R 458
 मातरा कतं, न पितरा कतं, न भातरा कतं, न भगिनिया कतं,
 न मित्तामच्चेहि कतं, न आतिसालोहितेहि कतं, न समण्णाह्मणेहि
 कतं, न देवताहि कतं । विमोक्खन्तिकमेतं बुद्धानं भगवन्तानं बोधिया
 मूले सह सम्बञ्जुतवाणस्स पटिलाभा सञ्छिका पञ्जत्ति, यदिदं
 बुद्धो ति - तं बुद्धं । असितं ति । द्वे निस्सया - तण्हानिस्सयो च
 दिट्ठिनिस्सयो च । कतमो तण्हानिस्सयो ? याव^६ तण्हासङ्घातेन
 सीमकतं ओधिकतं^७ परियन्तकतं परिग्गहितं ममायितं - इदं 15
 मम, एतं मम, एत्तकं मम, एत्तावता मम, मम रूपा सद्दा गन्धा
 रसा फोट्टुब्बा, अत्थरणा पावुरणा^८ दासिदासा^९ अजेळका कुक्कुट-
 सूकरा हत्थिगवास्सवळवा, खेतं वत्थु हिरञ्जं सुवण्णं, गामनिगम-
 राजधानियो रट्ठं च जनपदो च कोसो च कोट्टागारं च, केवलं पि
 महापथवि^{१०} तण्हावसेन ममायति, यावता अट्टसतं तण्हाविचरितं^{११} - 20
 अयं तण्हानिस्सयो ।

कतमो दिट्ठिनिस्सयो ? वीसतिवत्थुका सक्कायदिट्ठि, दस-
 वत्थुका मिच्छादिट्ठि, दसवत्थुका अन्तग्गाहिका दिट्ठि । या एवरूपा
 दिट्ठि दिट्ठिगतं दिट्ठिगहनं दिट्ठिकन्तारो दिट्ठिविसूकायिकं^{१२} दिट्ठिविप्फ-
 न्दितं दिट्ठिसञ्जोजनं गाहो पटिग्गाहो^{१३} अभिनिवेशो परामासो कुम्मग्गो 25

१ पत्तो - स्या०, रो० । २ केनट्ठेन - स्या०, रो०, एवमुपरि पि । ३ अभिञ्जे-
 य्यताय - स्या०; अनञ्जेय्यताय - रो० । ४ विकसिताय - स्या०, रो० । ५ नेतं नाम -
 सी०, स्या०, रो० । ६ यावता - सी०, स्या०, रो० । ७ भयिदिकत ओधिकत - स्या० ।
 ८ परियन्ति कत - स्या०, रो० । ९-९ पापुरणा दासिदासा - सी०, पापुरणा दासीदासा
 - स्या०, रो० । १० महापथवि - सी०, स्या०, रो० । ११ तण्हा विपरीतं - स्या०,
 तण्हाविपरित - रो० । १२ दिट्ठिविसूकायिक - म० । १३ पटिग्गाहो - रो० ।

मिच्छापथो मिच्छतं तित्थायतनं विपरियासग्गाहो' विपरीतग्गाहो' विपल्लासग्गाहो' मिच्छागाहो "अयाथावकास्म याथावक" ति गाहो यावता द्वासट्ठि दिट्ठिगतानि - अयं दिट्ठिनिस्सयो।

- बुद्धस्स भगवतो तण्हानिस्सयो पहीनो, दिट्ठिनिस्सयो पटि-
- 5 निस्सट्ठो; तण्हानिस्सयस्स पहीनत्ता दिट्ठिनिस्सयस्स पटिनिस्सट्ठत्ता भगवा चक्खुं असितो, सोतं ... घानं ... जिह्वं ... कायं ... मनं असितो, रूपे ... सद्दे ... गन्धे .. रसे ... फोट्टब्बे ... कुलं ... गणं ... आवास .. लाभं ... यसं ... पसंसं ... सुखं ... चीवरं ... पिण्डपातं ... सेनासन ...
- B. 459 गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारं ... कामघातु ... रूपघातु ... अरूपघातु ..
- 10 कामभवं ... रूपभवं ... अरूपभवं ... सञ्जाभवं ... असञ्जाभवं .. नेव-सञ्जानासञ्जाभवं ... एकवोकारभवं ... चतुवोकारभव .. पञ्चवो-कारभवं ... अतीतं ... अनागतं ... पच्चुप्पन्नं ... दिट्ठसुतमुतविञ्जातब्बे धम्मं असितो' अनिस्सितो अनल्लीनो अनुपगतो अनज्झोसितो अनधिमुत्तो निक्खन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसञ्जुत्तो विमरियादिकतेन
- 15 चेतसा विहरती ति - तं बुद्धं असितं।

B 365

तादिं ति। भगवा पञ्चहाकारेहि तादी - इट्ठानिट्ठे तादी, चत्तावी ति तादी, तिण्णावी ति तादी, मुत्तावी ति तादी, तनिद्देशो तादी।

- कथं भगवा इट्ठानिट्ठे तादी? भगवा लाभे पि तादी,
- 20 अलाभे पि तादी, यसे पि तादी, अयसे पि तादी, पसंसाय पि तादी निन्दाय पि तादी, सुखे पि तादी, दुक्खे पि तादी; एकच्चे' बाह् गन्धेन लिम्पेय्युं, एकच्चे बाहं वासिया तच्छेय्युं, अमुकस्म नत्थि रागो, अमुकस्म नत्थि पटिघं, अनुनयपटिघविप्पहीनो उग्घातिनिग्घा-तिवीतिवत्तो' अनुरोधविरोधं समतिक्कन्तो। एवं भगवा इट्ठानिट्ठे तादी।
- 25 कथं भगवा चत्तावी ति तादी? भगवता' रागो चत्तो वन्तो मुत्तो पहीनो पटिनिस्सट्ठो, दोसो .. सोहो ... कोधो ... उपनाहो ... मक्खो

१ विपरियेसगाहो - सी०, रो०, विपरियेसगाहो - स्या०। २ विपरीतगाहो - सी०, विपरित्तगाहो - रो०। ३. विपल्लासगाहो - सी०; विप्पल्लासगाहो - स्या०, विप्पल्लासगाहो - रो०। ४ अनिस्सितो - स्या०, रो०। ५ स्या० पोत्यके नत्थि। ६ एकच्चे - स्या०, रो०। ७ उग्घातिनिग्घाति वीतिवत्तो - सी०। ८ भगवतो - स्या०, रो०।

पळासो ... इस्सा ... मच्छरियं ... माया ... साठेय्यं ... थम्मो ... सारम्मो ... मानो ... अतिमानो ... मदो ... पमादो ... सब्बे किलेसा ... सब्बे दुच्चरिता ... सब्बे दरथा ... सब्बे परिळाहा ... सब्बे सन्तापा ... सब्बाकुसलाभिसङ्गारा चत्ता वन्ता मुत्ता पहीना पटिनिस्सट्ठा। एवं भगवा चत्तावी ति तादी।

6

कथं भगवा तिण्णावी ति तादी ? भगवा कामोधं तिण्णो, भवोधं तिण्णो, दिट्ठोधं तिण्णो, अबिज्जोधं तिण्णो, सब्बं संसारपथं तिण्णो उत्तिण्णो नित्तिण्णो अतिक्कन्तो समतिक्कन्तो वीतिवत्तो। सो बुट्टवासो चिण्णचरणो गतद्धो गतदिसो गतकोटियो^१ पालितन्नह्यचरियो उत्तमदिट्ठिप्पत्तो भावितमग्गो पहीनकिलेसो पटिविद्धाकुप्पो सच्छिकतनिरोधो। दुक्खं तस्स परिञ्जातं, समुदयो पहीनो, मग्गो भावितो, निरोधो सच्छिकतो, अभिञ्जेय्यं अभिञ्जातं, परिञ्जेय्यं परिञ्जातं, पहातब्बं पहीनं, भावेतब्बं भावितं, सच्छिकातब्बं सच्छिकतं। सो उक्खित्तपलिघो^२ संकिण्णपरिक्खो अब्बूळ्हेसिको निरग्गळो अरियो पन्नद्धजो पन्नभारो विसञ्जुत्तो पञ्चङ्गविप्पहीनो छळङ्गसमन्नागतो एकारक्खो चतुरापस्सेनो पनुण्णपच्चेकसच्चो^३ समवयसट्ठेसनो अनाविलसङ्कप्पो पस्सद्धकायसङ्गारो सुविमुत्तचित्तो सुविमुत्तपञ्चो केवली वुसितवा उत्तमपुरिसो परमपुरिसो परमपत्तिप्पत्तो^४। सो नेवाचिनति,^५ नापचिनति; अपचिनित्वा ठितो नेव पजहति, न उपादियति, पजहित्वा ठितो नेव संसिब्बति,^६ न उसिनेति^७; विसिनेत्वा ठितो नेव विधूपेति, न सन्धूपेति; विधूपेत्वा ठितो, असेखेन सीलक्खन्धेन समन्नागतत्ता ठितो, असेखेन समाधिक्खन्धेन समन्नागतत्ता ठितो, असेखेन पञ्जाक्खन्धेन समन्नागतत्ता ठितो, असेखेन विमुत्तिक्खन्धेन समन्नागतत्ता ठितो, असेखेन विमुत्तिग्गणदस्सनक्खन्धेन समन्नागतत्ता ठितो, सच्चं सम्पटिपादियित्वा^८ ठितो, एजं^९ समतिक्कमित्वा ठितो, किलेसग्गि परियादियित्वा ठितो, अपरिग्गमनत्ताय ठितो,

B 460

15

B 366

25

१ गतकोटिका—स्या०, रो०। २ उक्खित्तपलिघो—म०। ३ पनुण्णो—सी०। ४ परमपत्तिपत्तो—सी०, परमपत्तिपत्तो—स्या०, परमपत्तिपत्तो—रो०। ५ नेवाचिनाति—सी०, स्या०, रो०, एवमुपरि पि। ६ विसिनेति—स्या०, रो०। ७ विसिनेति—सी०। ८ पटिपादयित्वा—स्या०, रो०। ९ एव—स्या०, रो०।

कटं' समादाय ठितो, 'मुत्तपटिसेवनताय' ठितो, मेत्ताय पारिसुद्धिया ठितो, करुणाय पारिसुद्धिया ठितो, मुद्धिताय पारिसुद्धिया ठितो, उपेक्खाय पारिसुद्धिया ठितो, अच्चन्तपारिसुद्धिया ठितो, अतम्मयताय' पारिसुद्धिया ठितो, विमुत्तत्ता ठितो, सन्नुसितत्ता ठितो, खन्धपरियन्ते
 5 ठितो, घातुपरियन्ते ठितो, आयतनपरियन्ते ठितो, गतिपरियन्ते ठितो, उपपत्तिपरियन्ते ठितो, पटिसन्धिपरियन्ते ठितो, भवपरियन्ते ठितो, ससारपरियन्ते ठितो, वट्टपरियन्ते ठितो, अन्तिमे भवे ठितो, अन्तिमे समुस्सये ठितो, अन्तिमदेहधरो भगवा ।

तस्सायं पच्छिमको भवो,^१ चरिमोयं समुस्सयो ।
 10 जातिमरणसंसारो, नत्थि तस्स पुनब्भवो ति ॥

एवं भगवा तिण्णावी ति तादी ।

R 401

कथं भगवा मुत्तावी ति तादी ? भगवतो रागा चित्तं मुत्त
 विमुत्तं सुविमुत्तं, दोसा चित्तं . . मोहा चित्तं ... कोधा . उपनाहा ... मक्खा
 .. पळासा ... इस्साय' . . मच्छरिया .. मायाय . साठेय्या ... थम्भा .
 15 सारम्भा ... माना .. अतिमाना ... मवा ... पमावा .. सब्बकिलेसेहि ...
 सब्बदुच्चरितेहि ... सब्बदरथेहि ... सब्बपरिळाहेहि ... सब्बसन्तापेहि ..
 सब्बाकुसलाभिसङ्खारेहि चित्तं मुत्तं विमुत्तं सुविमुत्तं । एव भगवा
 मुत्तावी ति तादी ?

s. 367

कथं भगवा तनिद्देशा तादी ? भगवा सीले सति सीलवा ति
 20 तनिद्देशा तादी, सद्धाय सति सद्धो ति तंनिद्देशा तादी, वीरिये सति
 वीरियवा ति तंनिद्देशा तादी, सतिया सति सतिमा ति तनिद्देशा
 तादी, समाधिस्मि सति समाहितो ति तंनिद्देशा तादी, पञ्जाय सति
 पञ्जवा ति तंनिद्देशा तादी, विज्जाय सति तेविज्जो ति तनिद्देशा
 तादी, अभिञ्जाय सति छल्लभिञ्जो ति तंनिद्देशा तादी, दसबले सति
 25 दसबलो ति तंनिद्देशा तादी । एवं भगवा तंनिद्देशा तादी ति - त
 बुद्धं असितं तादि ।

अकुहं गणिभागतं ति । अकुहो ति । तीणि कुहनवत्थूनि -

१ कथ - सी०, कूट - स्या० । २ मुत्तिपटिसेवनताय - स्या०, रो० । ३ अकम्म-
 च्चताय - स्या०, रो० । ४ सी० पीत्यके नत्थि । ५ इस्सा - सी०, रो० ।

पच्चयपटिसेवनसङ्घातं कुहनवत्थु, इरियापथसङ्घातं कुहनवत्थु, सामन्त-
जप्पनसङ्घातं कुहनवत्थु।

कतमं पच्चयपटिसेवनसङ्घातं कुहनवत्थु? इध गहपतिका
भिक्षु निमन्तेन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खा-
रेहि। सो पापिच्छो इच्छापकतो अत्थिको^१ चीवरपिण्डपातसेनासन- 5
गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारानं भिय्योकम्म्यतं उपादाय चीवरं
पच्चक्खाति, पिण्डपातं पच्चक्खाति, सेनासनं पच्चक्खाति, गिलान-
पच्चयभेसज्जपरिक्खारं पच्चक्खाति। सो एवमाह—“किं समणस्स
महग्घेन चीवरेन। एतं सारुप्पं, यं समणो सुसाना वा सङ्कारकूटा
वा पापणिका वा नन्तकानि उच्चिनित्वा सङ्घाटिं करित्वा धारेत्थु। 10
किं समणस्स महग्घेन पिण्डपातेन। एतं सारुप्पं, यं समणो उञ्छा-
चरियाय पिण्डयालोपेन जीवितं^२ कप्पेय्य। किं समणस्स महग्घेन
सेनासनेन। एतं सारुप्पं, यं समणो रुक्खमूलिको वा अस्स^३ सोसा-
निको^४ वा^५ अब्भोकासिको वा। किं समणस्स महग्घेन गिलान-
पच्चयभेसज्जपरिक्खारेन। एतं सारुप्पं, यं समणो पूतिमुत्तेन हरितकी- 15
खण्डेन ओसघं^६ करेय्या” ति तदुपादाय लूखं चीवरं धारेत्ति, लूखं
पिण्डपातं परिभुञ्जति,^६ लूखं सेनासनं पटिसेवति, लूखं गिलान-
पच्चयभेसज्जपरिक्खारं पटिसेवति। तमेनं गहपतिका एवं जानन्ति—
“अयं समणो अप्पिच्छो सन्तुट्ठो पविचित्तो असंसट्ठो आरद्धवीरियो
धुतवादो” ति भिय्यो भिय्यो निमन्तेन्ति चीवरपिण्डपातसेनासन- 20
गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारेहि। सो एवमाह—“तिण्णं सम्मुखी-
भावा सद्धो कुलपुत्तो बहं पुञ्जं पसवति, सद्धाय सम्मुखीभावा सद्धो
कुलपुत्तो बहं पुञ्जं पसवति, देय्यघम्मस्स सम्मुखीभावा सद्धो कुल-
पुत्तो बहं पुञ्जं पसवति, दक्खिण्य्यानं सम्मुखीभावा सद्धो कुलपुत्तो
बहं पुञ्जं पसवति। तुम्हाकं चेवायं सद्धा अत्थि, देय्यघम्मो च संवि- 25
ज्जति, अहं च पटिग्गाहको। सचे अहं न पटिग्गहेस्सामि, एवं तुम्हे
पुञ्जेन परिबाहिरा भविस्सथ, न मय्हं इमिना अत्थो, अपि च
तुम्हाकं येव अनुकम्पाय पटिग्गहामी” ति। तदुपादाय वहुं पि चीवरं

R. 462

B 369

१ अतित्तिको—सी०; इत्थिको—स्या०। २ जीविकं—सी०, स्या०। ३ रो०
पोत्वके नत्थि। ४-४ सी०, रो० पोत्वकेसु नत्थि। ५ ओमथं—स्या०। ६ भुञ्जति—
स्या०, रो०।

पटिग्गण्हाति,^१ बहुं पि पिण्डपातं पटिग्गण्हाति, बहुं पि सेनासं
पटिग्गण्हाति, बहुं पि गिलानपच्चयभेसज्जपरिकखारं पटिग्गण्हाति।
या एवरूपा भाकुटिका भाकुटियं कुहना कुहायना कुहितत्तं-इदं^२
पच्चयपटिसेवनसङ्घातं कुहनवत्थु।

- 5 कतमं इरियापथसङ्घातं कुहनवत्थु? इधेकच्चो पापिच्छो
इच्छापकतो सम्भावनाधिप्पायो, “एवं मं जनो सम्भावेस्सती” ति
गमनं सण्ठपेति, ठानं सण्ठपेति, निसज्जं सण्ठपेति, सयनं^३ सण्ठपेति,
पणिघाय गच्छति, पणिघाय तिट्ठति, पणिघाय निसीदति, पणिघाय
सेय्यं कप्पेति, समाहितो विय गच्छति, समाहितो विय तिट्ठति, समा-
10 हितो विय निसीदति, समाहितो विय सेय्यं कप्पेति, आपाथकज्जायी^४ व
होति। या एवरूपा इरियापथस्स आठपना ठपना सण्ठपना भाकुटिका
भाकुटियं कुहना कुहायना कुहितत्तं-इदं^२ इरियापथसङ्घातं कुहन-
वत्थु।

- कतमं सामन्तजप्पनसङ्घातं कुहनवत्थु? इधेकच्चो पापिच्छो
15 इच्छापकतो सम्भावनाधिप्पायो, “एवं मं जनो सम्भावेस्सती” ति,
अरियधम्मसन्निस्सितं वाचं भासति। “यो एवरूपं चीवरं धारेति सो
समणो महेसक्खो” ति भणति; “यो एवरूपं पत्तं धारेति .. लोहालक
धारेति ... धम्मकरणं धारेति ... परिस्सावनं धारेति ... कुञ्चिकं धारेति
... उपाहनं धारेति ... कायबन्धनं धारेति ... आयोगं धारेति, सो समणो
20 महेसक्खो” ति भणति; “यस्स एवरूपो उपज्जायो सो समणो महे-
सक्खो” ति भणति; “यस्स एवरूपो आचरियो ... एवरूपा^५ समानु-
पज्जायका ... समानाचरियका ... मित्ता ... सन्दिट्ठा ... सम्भत्ता ...
सहाया, सो समणो महेसक्खो” ति भणति; “यो एवरूपे विहारे वसति,
सो सामणो महेसक्खो” ति भणति; “यो एवरूपे अद्दुयोगे वसति ..
25 पासादे वसति ... हम्मिये वसति ... गुहायं वसति... लेणे वसति ... कुटिया
वसति ... कूटागारे वसति ... अट्ठे वसति ... माल्ले वसति ... उट्ठे^६
वसति ... उपट्टानसालायं वसति ... मण्डपे वसति ... रुक्खमूले वसति, सो
समणो महेसक्खो” ति भणति।

B 368

१ पटिग्गण्हाति-सी०, पटिग्गण्हाति-रो०, एवमुपरि पि। २ इदं वुञ्चति-
स्या०, रो०। ३ सेय्य-स्या०, रो०। ४ आपाथकज्जायी-सी०। ५ सी०, स्या०, रो०
पोत्थकेसु नत्थि। ६ उट्ठे-रो०।

अथ वा, कोरजिककोरजिको' भाकुटिकभाकुटिको कुहक-
कुहको' लपकलपको' मुखसम्भावितो "अयं समणो इमासं एवरूपानं"
विहारसमापत्तीनं लाभो" ति तादिसं गम्भीरं गूळहं निपुणं पटिच्छसं
लोकुत्तरं सुञ्जतापटिसञ्जुत्तं कथं कथेति"। या एवरूपा भाकुटिका
भाकुटियं कुहना कुहायना कुहितत्तं - इदं सामन्तजप्पनसङ्घातं कुहन- 5
वत्थु। बुद्धस्स भगवतो इमानि तीणि कुहनवत्थूनि पहीनानि समु-
च्छिन्नानि वूपसन्तानि पटिप्पसद्धानि अभब्बुप्पत्तिकानि आणग्गिना
दद्धानि। तस्मा बुद्धो अकुहो ति - अकुहं।

R 404

गणिमागतं ति। गणी ति। गणी भगवा। गणाचरियो ति
गणी, गणस्स सत्था ति गणी, गणं परिहरती ति गणी, गणं ओवदती 10
ति गणी, गणं अनुसासती ति गणी, विसारदो गणं उपसङ्कमती ति
गणी, गणस्स सुस्सूसत्तिं सोतं ओदहति अञ्जा चित्तं उपट्टपेती ति
गणी, गणं अकुसला वुट्ठापेत्वा कुसले पतिट्ठापेती ति गणी, भिक्खुगणस्स
गणी, भिक्खुनीगणस्स गणी, उपासकगणस्स गणी, उपासिकागणस्स
गणी, राजगणस्स गणी, खत्तियगणस्स गणी, ब्राह्मणगणस्स गणी, 15
वेस्सगणस्स गणी, सुद्दगणस्स गणी, ब्रह्मगणस्स गणी, देवगणस्स
गणी, सङ्घं गणिं गणाचरियं"। आगतं ति। उपगतं समुपगतं
समुपपन्नं सङ्घस्सनगरं ति - अकुहं गणिमागतं।

बहूनमिध बद्धानं ति। बहूनं खत्तियानं ब्राह्मणानं वेस्सान
सुद्धानं गहट्ठानं पब्बजितानं" देवानं मनुस्सानं। बद्धानं ति। बद्धानं 20
बद्धचरानं परिचारकानं" सिस्सानं ति - बहूनमिध बद्धानं।

अत्थि पञ्हेन आगमं ति। पञ्हेन अत्थिको आगतोमिह, पञ्हं
पुच्छित्तुकामो आगतोमिह, पञ्हं सोतुकामो आगतोमिह ति। एवं
पि अत्थि पञ्हेन आगमं। अथ वा, पञ्हत्थिकानं पञ्हं पुच्छित्तु-
कामानं" पञ्हं सोतुकामानं आगमनं अभिक्कमनं उपसङ्कमनं पयि- 25

१ कोरजिककोरजिको - सी०। २ कुहकुहो - स्या०, रो०। ३ लपलपो -
स्या०, रो०। ४ एवरूपानं सन्तान - स्या०, रो०। ५ कथेति - रो०। ६ सङ्घगणस्स - सी०,
सङ्घी - स्या०, रो०। ७-७ गणी गणं - सी०; गणी गणाचरियो - स्या०, रो०। ८
आगतो - स्या०, रो०; एवमुपरि पि। ९ सम्पन्नं - सी०; सम्पत्तो - स्या०, रो०। १०
रो० पोत्यके नत्थि। ११ परिचारिकानं - स्या०, रो०। १२ पुच्छकानं - सी०, स्या०,
पुच्छिकानं - रो०।

रूपासनं^१ सिया अत्थी^२ ति । एवं पि अत्थि पञ्हेन आगमं । अथ वा,
 870 पञ्हागमो तुय्हं अत्थि, त्वं^३ पि पहु,^४ त्वमसि अलमत्थो^५ मया
 पुच्छित्तुं^६ कथेतुं विसज्जेतु “वहस्सेतं^७ भारं” ति । एवं पि अत्थि
 पञ्हेन आगमं । तेनाह थेरो सारिपुत्तो -

. 405 5

“तं बुद्धं असितं तादि, अकुहं गणिमागतं ।
 बहूनमिध बद्धानं, अत्थि पञ्हेन आगमं” ति ॥

१९३. भिक्खुनो विजिगुच्छतो, भजतो रिक्तमासनं ।
 रुक्खमूलं सुसानं वा, पब्बतानं गुहासु वा ॥

भिक्खुनो विजिगुच्छतो ति । भिक्खुनो ति । पृथुज्जनकल्याणस्स
 10 वा भिक्खुनो सेक्खस्स^१ वा भिक्खुनो । विजिगुच्छतो ति । जातिया
 विजिगुच्छतो, जराय व्याधिना .. मरणेन .. सोकेहि . परिवेहेहि ..
 दुक्खेहि .. दोमनस्सेहि उपायासेहि विजिगुच्छतो, नेरयिकेन दुक्खेन
 तिरच्छानयोनिकेन दुक्खेन ... पेत्तिविसयिकेन दुक्खेन .. मानुसिकेन
 दुक्खेन .. गव्भोक्कन्तिमूलकेन दुक्खेन .. गम्भट्टितिमूलकेन दुक्खेन .
 15 गम्भवट्टानमूलकेन दुक्खेन .. जातस्सूपनिबन्धकेन^२ दुक्खेन .. जातस्स
 पराधेय्यकेन दुक्खेन ... अत्तुपक्कमेन^३ दुक्खेन .. परूपक्कमेन^४ दुक्खेन
 दुक्खदुक्खेन ... सङ्खारदुक्खेन ... विपरिणामदुक्खेन ... चक्खुरोगेन
 दुक्खेन .. सोतरोगेन दुक्खेन ... धानरोगेन दुक्खेन ... जिह्वारोगेन दुक्खेन
 ...कायरोगेन दुक्खेन .. सीसरोगेन दुक्खेन ... कण्णरोगेन दुक्खेन
 20 मुखरोगेन दुक्खेन .. दन्तरोगेन दुक्खेन ... कासेन ... सासेन ... पिनासेन
 ... डाहेन^५ .. जरेन .. कुच्छिरोगेन ... मुच्छाय . पक्खन्दिकाय .. सूलाय
 ... विसूचिकाय . कुट्टेन . गण्डेन .. किलासेन ... सोसेन .. अपमारेन
 ... दद्दुया . कण्डुया . कच्छुया . खसाय . वितच्छिकाय .. लोहि-
 तेन .. पित्तेन . मधुमेहेन .. अंसाय ... पिळकाय .. भगन्दलेन^६ ... पित्त-
 25 समुद्दानेन^७ आबाधेन ... सेम्हसमुद्दानेन आबाधेन .. वातसमुद्दानेन आबा-

१. पथिरूपासना - स्या०, रो० । २ स्या०, रो० पोत्थकेषु नत्थि । ३-३ स्या०, रो०
 पोत्थकेषु नत्थि । ४ अलमत्तो - स्या०, रो० । ५ पुच्छित्त - म० । ६ वतुस्सेत - स्या०,
 रो० । ७ सेक्खस्स - सी०, एवमुपरि पि । ८ जातस्सूपनिबन्धकेन - सी०, स्या०, रो०
 पोत्थके नत्थि । ९ अत्तुपक्कमेन - स्या० । १० परूपक्कमेन - स्या० । ११ डहेन - सी०, स्या० ।
 १२ भगन्दलाय - स्या०, रो० । १३ पित्तसमुद्दानेहि - स्या०, रो०, एवमुपरि पि ।

धेन ... सन्निपातिकेन आबाधेन ... उत्तुपरिणामजेन आबाधेन ... विसम-
परिहारजेन आबाधेन ... ओपक्कमिकेन आबाधेन ... कम्मविपाकजेन
आबाधेन ... सीतेन .. उप्पहेन ... जिघच्छाय' ... पिपासाय .. उच्चारेन
. पस्सावेन ... ङंसमकसवातात्तपसरीसपसम्फस्सेन दुक्खेन ... मातुमरणेन
दुक्खेन ... पितुमरणेन दुक्खेन ... भातुमरणेन भगिनिमरणेन .. पुत्त-
मरणेन ... धीतुमरणेन .. आतिव्यसनेन ... भोगव्यसनेन ... रोगव्यसनेन
.. सीलव्यसनेन ... दिट्ठिव्यसनेन दुक्खेन विजिगुच्छतो अट्ठीयतो
हरायतो जिगुच्छतो ति - भिक्खुनो विजिगुच्छतो।

R.466

6

B.371

भजतो रिक्तमासनं ति। आसनं वुच्चति यत्थ निसीदति -
मञ्चो पीठं भिसि तट्टिका चम्मखण्डो' तिणसन्थारो पण्णसन्थारो 10
पलालसन्थारो'। तं आसन असप्पायरूपदस्सनेन रिक्तं विवित्तं
पविवित्तं, असप्पायसदृस्सवनेन रिक्तं विवित्तं पविवित्तं, असप्पायेहि
पञ्चहि कामगुणेहि रिक्तं विवित्तं पविवित्तं। तं पविवित्तं आसनं
भजतो सम्भजतो सेवतो निसेवतो संसेवतो पटिसेवतो ति - भजतो
रिक्तमासनं। 15

एक्खमूलं सुसानं वा ति। एक्खमूलं येव एक्खमूलं, सुसान येव
सुसान ति - एक्खमूलं सुसानं वा। पब्बतानं गुहासु वा ति। पब्बता-
येव पब्बता, कन्दरायेव कन्दरा, गिरिगुहायेव गिरिगुहा। पब्बतन्तरि-
कायो वुच्चन्ति पब्बतपम्भारा' ति - पब्बतानं गुहासु वा। तेनाह
थेरो सारिपुत्तो - 20

“भिक्खुनो विजिगुच्छतो, भजतो रिक्तमासनं।

एक्खमूलं सुसानं वा, पब्बतानं गुहासु वा” ति ॥

१९४. उच्चावचेसु सयनेसु, फिवन्तो' तत्थ भेरवा।

येहि भिक्खु न वेधेय्य, निग्घोसे सयनासने ॥

उच्चावचेसु सयनेसु ति। उच्चावचेसु ति। उच्चावचेसु 25
हीनप्पणीतेसु छेकपापकेसु। सयनं वुच्चति सेनासनं' विहारो अङ्ग-

R.467

१ जिघच्छाय - सी०। २ चम्मखण्डो - रो०। ३ पलास० - सी०, स्या०। ४ रो०
पोत्यके नत्थि। ५ स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि। ६ पब्बतगम्भारा - स्या०, रो०। ७
गीवन्तो - स्या०, रो०। ८ सयनेसुति सयन - स्या०, रो०। ९ सी० पोत्यके नत्थि।

योगो पासादो हम्मिर्यं गुहा ति -- उच्चावचेषु सयनेसु । किवन्तो तत्थ भेरवा ति । किवन्तो ति । किवन्तो' कूजन्तो' नदन्तो सद्दं करोन्तो । अथ वा, किवन्तो ति । कति कित्ता कीवत्ता कीवत्तुका ते । भेरवा ति । सीहा व्यग्धा दीपी अच्छा तरच्छा कोका महिसा' ४ हत्थी अहि विच्छिका सतपदी, चोरा वा अस्सु मानवा' वा कत्तकम्मा वा अकत्तकम्मा वा ति -- किवन्तो तत्थ भेरवा ।

येहि भिक्खु न वेधेय्या ति । येही ति । येहि भेरवेहि' भेरवे' पस्सित्वा वा सुणित्वा वा न वेधेय्य नप्पवेधेय्य न सम्पवेधेय्य न' तसेय्य' न उत्तसेय्य न परित्तसेय्य न भायेय्य न सन्तासं आपज्जेय्य, 10 अभीरू' अस्स अच्छम्भी अनुत्तासी अपलायी, पहीनभयभेरवो विगत-लोमहंसो विहरेय्या ति -- येहि भिक्खु न वेधेय्य ।

निग्घोसे सयनासने ति । अप्पसद्दे अप्पनिग्घोसे विजनवाते मनुस्साराहस्सेय्यके' पटिसल्लानसारुपे सेनासने ति -- निग्घोसे सयनासने । तेनाह थेरो सारिपुत्तो --

15 "उच्चावचेषु सयनेसु , किवन्तो तत्थ भेरवा ।
येहि भिक्खु न वेधेय्य, निग्घोसे सयनासने" ति ॥

१९५. कति' परिस्सया लोके, गच्छतो अगतं विसं ।
ये भिक्खु अभिसम्भवे, पन्तम्हि सयनासने ॥

कति परिस्सया लोके ति । कती ति । कति कित्ता कीव- 20 त्ता कीवत्तुका । परिस्सया' ति । द्वे परिस्सया -- पाकटपरिस्सया च पटिच्छन्नपरिस्सया च । कतमे पाकटपरिस्सया ? सीहा व्यग्धा दीपी अच्छा तरच्छा कोका महिसा हत्थी अहि विच्छिका सतपदी, चोरा वा अस्सु मानवा वा कत्तकम्मा वा अकत्तकम्मा वा, चक्खुरोगो 30 सोत्तारोगो धानरोगो जिह्वारोगो कायरोगो सीसरोगो कण्ठरोगो मुखरोगो दन्तरोगो कासो सासो पिनासो डाहो जरो कुच्छिरोगो मुच्छा पक्खन्दिका सूला विसूचिका कुट्टं गण्ढो किलासो सोसो अप-

१ कुवन्तो -- सी० । २ कूजन्तो -- स्वा०, रो० । ३ महिसा -- सी० ; गोमहिसा -- स्वा०, रो० । ४. माणवा -- सी०, स्वा०, रो० । ५-५. भेरवे -- य० ६-६. सी० पौत्तके कति । ७ अभीरू -- स्वा० । ८ मनुस्साराहस्सेय्यके -- सी०, स्वा०, रो० । ९ कती -- स्वा०, रो० । १०. ते परिस्सया -- सी० ।

मारो ददु कण्डु कच्छु रखसा वितच्छिका लोहितं पित्तं मधुमेहो अंसा
पिळका भगन्दला, पित्तसमुद्धाना आबाधा ...पे०... सीतं उण्हं जिघच्छा
पिपासा उच्चारो पस्सावो डंसमकसवातातपसरीसपसम्फस्सा — इमे
वुच्चन्ति पाकटपरिस्सया ।

कतमे पटिच्छन्नपरिस्सया ? कायदुच्चरितं वचीदुच्चरितं मनो- 5
दुच्चरितं कामच्छन्दनीवरणं व्यापादनीवरणं थिनमिद्धनीवरणं उद्धच्च-
कुक्कुच्चनीवरणं विचिकिच्छानीवरणं रागो दोसो मोहो कोधो उपनाहो
मक्खो पळासो इस्सा मच्छरियं माया साठेय्यं थम्मो सारम्मो मानो
अतिमानो मदो पमादो, सब्बे किलेसा सब्बे दुच्चरिता सब्बे दरथा
सब्बे परिळाहा सब्बे सन्तापा सब्बाकुसलाभिसङ्गारा — इमे वच्चन्ति 10
पटिच्छन्नपरिस्सया ।

परिस्सया त्ति । केनहेन परिस्सया ? परिसहन्ती त्ति परि- B 373
स्सया, परिहानाय संवत्तन्ती त्ति परिस्सया, तत्रासया त्ति परिस्सया ।

कथं परिसहन्ती त्ति परिस्सया ? ते परिस्सया तं पुग्गलं
सहन्ति परिसहन्ति अभिभवन्ति अज्झोत्थरन्ति परियादियन्ति मद्दन्ति । 15
एवं परिसहन्ती त्ति — परिस्सया ।

कथं परिहानाय संवत्तन्ती त्ति परिस्सया ? ते परिस्सया
कुसलानं धम्मानं अन्तरायाय परिहानाय संवत्तन्ति । कतमेसं कुसलानं
धम्मानं ? सम्मापटिपदाय अनुलोमपटिपदाय अपच्चनीकपटिपदाय
अविरुद्धपटिपदाय^१ अन्वत्थपटिपदाय धम्मानुधम्मपटिपदाय सीलेसु 20
परिपूरकारिताय इन्द्रियेसु गुत्तद्वारताय भोजने मत्तञ्जुताय जाग-
रियानुयोगस्स सतिसम्पजञ्जस्स चतुस्रं सतिपट्टानानं भावनानुयोगस्स
चतुस्रं सम्मप्पघानानं चतुस्रं इद्धिपादानं पञ्चस्रं इन्द्रियानं पञ्चस्रं
बलानं सत्तन्नं बोज्जङ्गानं अरियस्स अट्टङ्गिकस्स मग्गस्स भावनानु-
योगस्स — इमेसं कुसलानं धम्मानं अन्तरायाय परिहानाय संवत्तन्ति । 25
एवं परिहानाय संवत्तन्ती त्ति — परिस्सया ।

कथं तत्रासया त्ति परिस्सया ? तत्थेते पापका अकुसला
धम्मा उप्पज्जन्ति अत्तभावसन्निस्सया । यथा बिले बिलासया पाणा

१. सी०, स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि ।

सयन्ति, दके दकासया पाणा सयन्ति, वने वनासया पाणा सयन्ति, खखे खखासया पाणा सयन्ति; एवमेव' तत्थेते पापका अकुसला धम्मा उप्पज्जन्ति अत्तभावसन्निससया ति । एवं पि तत्रासया ति-परिस्सया ।

- 6 वृत्तं हेतं भगवता — “सान्तेवासिको, भिक्खवे, भिक्खु साचरियको दुक्खं न फासु विहरति । कथं च, भिक्खवे, भिक्खु सान्तेवासिको साचरियको दुक्खं न फासु विहरति ? इध, भिक्खवे, भिक्खुनो चक्खुना रूपं दिस्वा उप्पज्जन्ति पापका अकुसला धम्मा सरसङ्कप्पा सञ्जोजनिया, त्यस्स” अन्तो वसन्ति अन्वास्सवन्ति पापका
10 अकुसला धम्मा ति । तस्मा सान्तेवासिको ति वुच्चति । ते नं समुदाचरन्ति, समुदाचरन्ति’ न’ पापका अकुसला धम्मा ति । तस्मा साचरियको ति वुच्चति ।

- “पुन चपरं, भिक्खवे, भिक्खुनो सोतेन सहं सुत्वा...पे०... धानेन गन्धं घायित्वा ... जिह्वाय रसं सायित्वा .. कायेन फोटुब्ब
B. 374 15 फुसित्वा ... मनसा धम्मं विञ्जाय उप्पज्जन्ति पापका अकुसला धम्मा सरसङ्कप्पा सञ्जोजनिया, त्यस्स अन्तो वसन्ति अन्वास्सवन्ति पापका अकुसला धम्मा ति । तस्मा सान्तेवासिको ति वुच्चति । ते नं समुदाचरन्ति, समुदाचरन्ति नं पापका अकुसला धम्मा ति । तस्मा साचरियको ति वुच्चति । एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु सान्तेवासिको
20 साचरियको दुक्खं न फासु विहरती” ति । एवं पि तत्रासया ति-परिस्सया ।

- R. 470 वृत्तं हेतं भगवता — “तयो मे, भिक्खवे, अन्तरामला अन्तरामित्ता अन्तरासपत्ता अन्तरावधका अन्तरापच्चत्थिका । कतमे तयो ? लोभो, भिक्खवे, अन्तरामलो” अन्तरामित्तो अन्तरासपत्तो अन्तरा-
26 वधको अन्तरापच्चत्थिको, दोसो, भिक्खवे...पे०.. मोहो, भिक्खवे, अन्तरामलो अन्तरामित्तो अन्तरासपत्तो अन्तरावधको अन्तरापच्चत्थिको । इमे खो, भिक्खवे, तयो अन्तरामला अन्तरामित्ता अन्तरासपत्ता अन्तरावधका अन्तरापच्चत्थिका ।

१. एवमेव — सी० । २. त्यास्स — सी० । ३-३. स्या० पेत्यके नत्थि, एवमुपरि पि ।
४. अन्तरामल — सी०, रो० ।

“अनत्यजननो लोभो, लोभो चित्तप्पकोपनो।

भयमन्तरतो जातं, तं जनो नावबुज्झति ॥

“लुद्धो अत्थं न जानाति, लुद्धो धम्मं न पस्सति।

अन्धन्तमं तदा होति, यं लोभो सहते नरं ॥

“अनत्यजननो दोसो, दोसो चित्तप्पकोपनो।

भयमन्तरतो जातं, तं जनो नावबुज्झति ॥

“कुद्धो अत्थं न जानाति, कुद्धो धम्मं पस्सति।

अन्धन्तमं तदा होति, यं दोसो सहते नरं ॥

“अनत्यजननो मोहो, मोहो चित्तप्पकोपनो।

भयमन्तरतो जातं, तं जनो नावबुज्झति ॥

“मूळ्हो अत्थं न जानाति, मूळ्हो धम्मं न पस्सति।

अन्धन्तमं तदा होति, यं मोहो सहते नरं” ति ॥

एवं पि तत्रासया ति - परिस्सया।

वुत्तं हेतं भगवता - “तयो खो, महाराज, पुरिसस्स धम्मा
अज्झत्तं उप्पज्जमाना उप्पज्जन्ति अहिताय दुक्खाय अफासुविहाराय। 16
कतमे तयो? लोभो खो, महाराज, पुरिसस्स धम्मो अज्झत्तं उप्पज्ज-
मानो उप्पज्जति अहिताय दुक्खाय अफासुविहाराय; दोसो खो,
महाराज ...पे०... मोहो खो, महाराज, पुरिसस्स धम्मो अज्झत्तं
उप्पज्जमानो उप्पज्जति अहिताय दुक्खाय अफासुविहाराय। इमे
खो, महाराज, तयो पुरिसस्स धम्मा अज्झत्तं उप्पज्जमाना उप्पज्जन्ति 20
अहिताय दुक्खाय अफासुविहाराया ति।

B 375

R. 471

“लोभो दोसो च मोहो च, पुरिसं पापचेतसं।

हिसन्ति अत्तसम्भूता, तच्चसारं व सम्फलं” ति ॥

एवं पि तत्रासया ति - परिस्सया।

वुत्तं हेतं भगवता -

“रागो च दोसो च इतोनिदाना,

अरती रती लोमहंसो इतोजा”।

25

१ अन्धन्तम - स्या०; एवमुपरि पि। २. लोमहसा - सी०। ३ इतोजातो - स्या०,
रो०।

इतो समुद्राय मनोवितक्का,
कुमारका घङ्कमिवोस्सजन्ती” ति ॥

एवं पि तत्रासया ति—परिस्सया। लोके ति। मनुस्सलोके
ति—कति परिस्सया लोके।

४ गच्छतो अगतं दिसं ति। अगता दिसा वुच्चति अमतं निब्बानं।
यो सो सब्बसङ्खारसमथो सब्बूपधिपटिनिस्सग्गो तण्हक्खयो विरगो
निरोधो निब्बानं। अगतपुब्बा सा' दिसा' न सा' दिसा गतपुब्बा
इमिना दीघेन अद्घुना।

समतित्तिक्कं अनवसेसं,
१० तेलपत्तं यथा परिहरेय्य।
एवं सचित्तमनुरक्खे,^१
पत्थयानो^२ दिसं अगतपुब्बं ॥

अगतपुब्बं दिसं वजतो गच्छतो अभिक्कमतो ति—गच्छतो
अगतं दिसं।

१५ ये भिक्खु अभिसम्भवे ति। ये^३ ति^३। ये परिस्सये अभि-
सम्भवेय्य अभिसम्भवेय्य अज्झोत्थरेय्य परियादियेय्य मद्देय्या ति—ये
भिक्खु अभिसम्भवे।

B ३७६ पन्तमिह् सयनासने ति। अन्ते पन्ते परियन्ते सेलन्ते वा
वनन्ते वा नदन्ते वा उदकन्ते वा यत्थ न कसीयति न वपीयति,
२० जनन्तं अतिक्कमित्वा मनुस्सानं अनुपचारे सेनासने ति—पन्तमिह्
सयनासने। तेनाह् धेरो सारिपुत्तो—

R ४७२ “कति परिस्सया लोके, गच्छतो अगतं दिसं।
ये भिक्खु अभिसम्भवे, पन्तमिह् सयनासने” ति ॥

१९६. क्यास्स ब्यप्पथयो अस्सु, क्यास्सस्सु इध गोवरा।
२५ कानि सीलब्बतानास्सु^४, पहित्तस्स भिक्खुनो ॥

१-१. स्या०, रो० पोत्वकेसु नत्वि। २. स्या०, रो० पोत्वकेसु नत्वि। ३. सचित्त-
मनुरक्खेय्य—स्या०, रो०। ४. पत्थयानो—स्या०, रो०। ५-५. स्या० पोत्वके नत्वि। ६
सीलब्बतानस्सु—सी०, स्या०, रो०।

क्यास्स व्यप्यथयो अस्सु ति । कीदिसेन व्यप्यथेन समन्नागतो
 अस्स किसिण्ठतेन किपकारेण किपटिभागेना ति वचीपारिसुद्धिं
 पुच्छति । कतमा वचीपारिसुद्धिं ? इध भिक्खु मुसावादं पहाय मुसा-
 वादा पटिविरतो होति सच्चवादी सच्चसन्वो थेतो पच्चयिको अविस्सं-
 वादको लोकस्स । पिसुणं वाचं पहाय पिसुणाय वाचाय पटिविरतो ६
 होति, इतो सुत्वा न अमुत्र अक्खाता इमेसं भेदाय, अमुत्र वा सुत्वा
 न इमेसं अक्खाता अमूसं भेदाय, इति भिन्नानं वा सन्धाता, सहितानं
 वा अनुप्पदाता समगारामो समग्गरतो समग्गनन्दी समग्गकरणं वाचं
 भासिता होति । फरुसं वाचं पहाय फरुसाय वाचाय पटिविरतो होति,
 या सा वाचा नेला कण्णसुखा पेमनीया हृदयङ्गमा पोरी बहुजनकन्ता १०
 बहुजनमनापा तथारूपिं वाचं भासिता होति । सम्फप्पलापं पहाय
 सम्फप्पलापा पटिविरतो होति कालवादी भूतवादी अत्थवादी धम्म-
 वादी विनयवादी, निघानवतिं वाचं भासिता होति कालेन सापदेसं
 परियन्तवति अत्थसंहितं । चतूहि वचीसुचरितेहि समन्नागतो चतुदोसा-
 पगतं^१ वाचं भासति, वार्त्तिसाय^२ तिरच्छानकथाय आरतो अस्स विरतो १५
 पटिविरतो निक्खन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसञ्जुत्तो विमरियादिकतेन
 चेतसा विहरति । दस कथावत्थूनि कथेति, सेय्यथिदं^३ - अप्पिच्छकथं
 सत्तुट्टिकथं पविवेककथं असंसग्गकथं वीरियारम्भकथं सीलकथं समाधि-
 कथं पञ्जाकथं विमुत्तिकथं विमुत्तिभाणदस्सनकथं सतिपट्टानकथं
 सम्मप्पधानकथं इद्धिपादकथं इन्द्रियकथं बलकथं बोज्झङ्गकथं मग्ग- २०
 कथं फलकथं निव्वानकथं कथेति । वाचाय यतो यत्तो पटियत्तो गुत्तो
 गोपितो रक्खितो संवुतो - अयं वचीपारिसुद्धिं । एदिसाय वचीपारि-
 सुद्धिया समन्नागतो अस्सा ति - क्यास्स व्यप्यथयो अस्सु ।

R 473,
B 377

क्यास्सस्सु इध गोचरा ति । कीदिसेन गोचरेण समन्नागतो
 अस्स किसिण्ठतेन किपकारेण किपटिभागेना ति गोचरं पुच्छति । २५
 अत्थि गोचरो, अत्थि अगोचरो ।

कतमो अगोचरो ? इधेकच्चो वेसियागोचरो^४ वा होति,
 विधवागोचरो^५ वा होति, थुल्लकुमारीगोचरो^६ वा होति, पण्डक-

१. चतुदोसापगत - स्या० । २. वार्त्तिसाय - सी०, स्या०, रो० । ३. सेय्यथिदं - सी०,
 स्या०, रो० । ४. वेसियगोचरो - सी०, स्या०, रो० । ५. विधवागोचरो - स्या०, रो० । ६
 थुल्लकुमारीगोचरो - स्या०, रो० ।

गोचरो वा होति, भिक्खुनीगोचरो वा होति, पानागारगोचरो वा होति, संसट्ठो विहरति राजजूहि राजमहाभत्तेहि तित्थियेहि तित्थिय-
सावकेहि अननुलोमिकेन संसग्गेन^१। यानि वा पन तानि कुलानि
अस्सद्धानि अप्पसन्नानि अनोपानभूतानि अक्कोसकपरिभासकानि
अनत्थकामानि अहितकामानि अफासुकामानि अयोगक्खेमकामानि
भिक्खूनं भिक्खुनीनं उपासकानं उपासिकानं, तथारूपानि कुलानि
सेवति भजति पयिरूपासति - अयं वुच्चति अगोचरो।

अथ वा, अन्तरघरं पविट्ठो वीथि पटिपन्नो असंबुतो गच्छति,
हत्थि ओलोकन्तो, अस्सं ओलोकन्तो, रथं ओलोकन्तो, पत्ति ओलो-
केन्तो, इत्थियो ओलोकन्तो, पुरिसे ओलोकन्तो, कुमारिकायो ओलो-
केन्तो, कुमारके ओलोकन्तो, अन्तरापणं ओलोकन्तो, घरमुत्थानि
ओलोकन्तो, उद्धं ओलोकन्तो, अघो ओलोकन्तो, दिसाविदिसं विपेक्ख-
मानो^२ गच्छति - अयं पि वुच्चति अगोचरो।

अथ वा, चक्खुना रूपं दिस्वा निमित्तगाही होति अनु-
व्यञ्जनगाही। यत्वाधिकरणमेनं .. पे० .. मनिन्द्रियं असंबुतं विहरन्तं
अभिज्झादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्युं, तस्स न
संवराय पटिपज्जति, न रक्खति मनिन्द्रियं मनिन्द्रिये न संवरं आप-
ज्जति - अयं पि वुच्चति अगोचरो।

B. 378

यथा वा पनेके भोन्तो समणब्राह्मणा सद्दादेव्यानि भोजनानि
भुञ्जित्वा ते एवरूपं विसूकदस्सनं अनुयुत्ता विहरन्ति, सेव्यथिदं -
नच्चं गीतं वादितं पेक्खं अक्खानं पाणिस्सरं वेताळं कुम्भथूणं^३ सोभ-
नकं^४ चण्डालं वंसं घोवनं हत्थियुद्धं अस्सयुद्धं महंसियुद्धं^५ उसभयुद्धं
अजयुद्धं मेण्डयुद्धं कुक्कुटयुद्धं वट्टकयुद्धं दण्डयुद्धं मट्ठियुद्धं निव्वुद्धं
उत्थोधिकं बलमं सेनाव्यूहं अनीकदस्सनं^६ इति वा, इति एवरूप
विसूकदस्सनं अनुयुत्तो होति - अयं पि वुच्चति अगोचरो।

B. 474

पञ्च पि कामगुणा अगोचरा^७। वृत्तं हेतं भगवता - "मा,
भिक्खवे, अगोचरे चरथ परविसये। अगोचरे, भिक्खवे, चरतं पर-

१. गिहिससग्गेन - स्या०, रो०। २. पेक्खमानो - स्या०, रो०। ३. कुम्भथूणं - सी०,
स्या०, रो०। ४. सोभनकरणं - सी०; सोभनगरक - स्या०, रो०। ५. महिसयुद्धं - सी०,
स्या०, रो०। ६. अणीकदस्सन - स्या०। ७. अगोचरो - स्या०, रो०।

विसये लच्छति मारो ओतारं, लच्छति मारो आरम्मणं। को च, भिक्खवे, भिक्खुनो अगोचरो परविसयो? यदिदं पञ्च कामगुणा। कतमे पञ्च? चक्खुविञ्जेय्या रूपा इट्ठा कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया, सोतविञ्जेय्या सद्दा ... धानविञ्जेय्या गन्धा . जिह्वाविञ्जेय्या रसा ... कायविञ्जेय्या फोट्टब्बा इट्ठा कन्ता मनापा 8 पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया। अयं वुच्चति, भिक्खवे, भिक्खुनो अगोचरो परविसयो” – अयं पि वुच्चति अगोचरो।

कतमो गोचरो? इध भिक्खु न वेसियागोचरो होति, न विषवागोचरो होति, न थुल्लकुमारीगोचरो होति, न पण्डकगोचरो होति, न भिक्खुनीगोचरो होति, न पानागारगोचरो होति, असंसट्ठो 10 विहरति राजूहि राजमहामत्तेहि तित्थियेहि तित्थियसावकेहि अननु-लोमिकेन संसग्गेन। यानि वा पन तानि कुलानि सद्दानि पसन्नानि ओपानभूतानि कासावपज्जोतानि इसिवातपटिवातानि अत्थकामानि हितकामानि फासुकामानि योगक्खेमकामानि भिक्खूनं भिक्खुनीनं उपासकानं उपासिकानं, तथारूपानि कुलानि सेवति भजति पथि- 15 रूपासति – अयं पि वुच्चति गोचरो।

अथ वा, भिक्खु अन्तरघरं पविट्ठो वीथि पटिपन्नो संबुतो गच्छति, न हत्थि ओलोकन्तो, न अस्सं ओलोकन्तो, न रथं ओलोकन्तो, न पत्ति ओलोकन्तो .. पे०... न दिसाविदिसं विपेक्खमानो गच्छति – अयं पि वुच्चति गोचरो। 20

अथ वा, भिक्खु^१ चक्खुना रूपं दिस्वा न निमित्तग्गाही होति .. पे०... मनिन्द्रिये संवरं आपज्जति – अयं पि वुच्चति गोचरो।

यथा वा पनेके भोन्तो समण्णाहाणा सद्दादेय्यानि भोजनानि भुञ्जित्वा ते एवरूपं विसूकदस्सनं अननुयुत्ता विहरन्ति, सेय्यथिदं – नच्चं गीतं वादितं .. पे०... अनीकदस्सनं इति वा, इति एव- 25 रूपा विसूकदस्सना^२ पटिविरतो होति – अयं पि वुच्चति गोचरो।

चत्तारो पि सतिपट्टाना गोचरो। वुत्तं हेतं भगवता – “गोचरे, भिक्खवे, चरथ सके पेत्तिके” विसये। गोचरे, भिक्खवे,

१ स्या०, रो० पोत्यकेषु नत्थि। २ विसूकदस्सानुयोया – स्या०, रो०। ३ पित्तिके – स्या०, रो०; एवमुपरि पि।

चरतं सके पेतिके विसये न लच्छति मारो ओतारं, न लच्छति मारो
 आरम्मणं । को च, भिक्खवे, भिक्खुनो गोचरो सको पेतिको
 विसयो ? यदिदं चत्तारो सतिपट्टाना । कतमे चत्तारो ! इध,
 भिक्खवे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति, वेदनासु...पे०..
 १ चित्ते...पे०... धम्मसेसु धम्मानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा
 विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्सं । अयं वुच्चति, भिक्खवे, भिक्खुनो
 गोचरो सको पेतिको विसयो—अयं पि वुच्चति गोचरो । एदिसेन'
 गोचरेण समन्नागतो अस्सा' ति—क्यास्सस्सु इध गोचरा ।

कानि सीलव्वतानास्सू ति । कीदिसेन सीलव्वतेन समन्नागतो
 10 अस्स किंसण्ठितेन किंपकारेण किंपटिभागोना ति सीलव्वतपारिसुद्धि
 पुच्छति । कतमा सीलव्वतपारिसुद्धि ? अत्थि सीलं चैव वतं' च,
 अत्थि वतं न सीलं । कतमं सीलं चैव वतं च ? इध भिक्खु सीलवा
 होति, पातिमोक्खसंवरसंवृतो विहरति आचारगोचरसम्पन्नो, अणु-
 मत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु । यो तत्थ
 15 सञ्जमो संवरो अवीतिकमो—इदं सीलं । यं समादानं—तं वतं ।
 संवरट्टेन सीलं, समादानट्टेन वतं—इदं वुच्चति सीलं चैव वतं च ।

कतमं वतं न सीलं ? अट्ठ घुतङ्गानि—आरञ्जिकङ्गं,
 पिण्डपातिकङ्गं, पंसुकूलिकङ्गं, तैचीवरिकङ्गं, सपदानचारिकङ्गं,
 खलुपच्छाभतिकङ्गं, नेसज्जिकङ्गं, यथासन्थतिकङ्गं—इदं वुच्चति
 20 वतं न सीलं । वीरियसमादानं पि वुच्चति वतं न सीलं । कामं तचो
 च न्हार च अट्ठि च अवसिस्सत्तु, सरीरे उपसुस्सत्तु मंसलोहितं,
 यं तं पुरिसथामेन पुरिसबलेन पुरिसवीरियेण पुरिसपरक्कमेण पत्तव्व
 न तं अपापुणित्वा वीरियस्स सण्ठानं भविससती ति—चित्तं पग्गह्हाति
 पदहति । एवरूपं पि वीरियसमादानं वुच्चति वतं न सीलं ।

नासिस्सं न पिविस्सामि, विहारतो न निक्खमे' ।
 25 न पि पस्सं निपातेस्सं, तण्हासल्ले अनूहते ति ॥

चित्तं पग्गह्हाति पदहति । एवरूपं पि वीरियसमादानं वुच्चति
 वतं न सीलं । न तावाहं इमं पल्लङ्कं भिन्दिस्सामि याव मे न अनु-

१ ईदिसेन—स्या० । २. वतं—स्या०, रो०; एवमुपरि पि । ३. अवसुस्सत्तु—स्या०,
 अवसुस्सत्तु—रो० । ४. निक्खमि—स्या०, रो० ।

पादाय आसवेहि चित्तं विमुच्चिस्सती ति—चित्तं पग्गण्हाति पद-
 हति। एवरूपं पि वीरियसमादानं वुच्चति वतं न सीलं। न तावाहं
 इमम्हा आसना वुट्टहिस्सामि ... न' तावाहं इमम्हा' चङ्कमा ओरो-
 हिस्सामि ... विहारा निक्खमिस्सामि ... अङ्गयोगा निक्खमिस्सामि ...
 पासादा निक्खमिस्सामि ... हम्मिया ... गुहाय ... लेणा ... कुटिया ... 5
 कूटागारा ... अट्टा ... माळा ... उट्टण्डा ... उपट्टानसालाय ... मण्डपा
 .. ँक्खमूला निक्खमिस्सामि याव मे न अनुपादाय आसवेहि चित्तं
 विमुच्चिस्सती ति—चित्तं पग्गण्हाति पदहति। एवरूपं पि वीरिय-
 समादानं वुच्चति वतं न सीलं। इमस्मि येव पुब्बण्हसमयं
 अरियधम्मं आहरिस्सामि समाहरिस्सामि अधिगच्छिस्सामि फस्स- 10 B. 477
 यिस्सामि सच्छिकरिस्सामी ति—चित्तं पग्गण्हाति पदहति। एवरूपं
 पि वीरियसमादानं वुच्चति वतं न सीलं। इमस्मि येव मज्झन्हिक्क-
 समयं' ... सायन्हसमयं ... पुरेभत्तं ... पच्छभत्तं ... पुरिमयामं ...
 मज्झिमयामं ... पच्छिमयामं ... काले' ... जुण्हे ... वस्से ... हेमन्ते ... गिम्हे
 . पुरिमे वयोखन्धे ... मज्झिमे वयोखन्धे ... पच्छिमे वयोखन्धे अरिय- 15
 धम्मं आहरिस्सामि समाहरिस्सामि अधिगच्छिस्सामि फस्सयिस्सामि'
 सच्छिकरिस्सामी ति—चित्तं पग्गण्हाति पदहति। एवरूपं पि वीरिय-
 समादानं वुच्चति वतं न सीलं—अयं सीलव्वतपारिसुद्धि। एदिसाय'
 सीलव्वतपारिसुद्धिया समन्नागतो अस्सा ति—कानि सीलव्वतानास्सु।

पहितत्तस्स भिक्खुनो ति। पहितत्तस्सा ति। आरद्धवीरियस्स 20
 थामगतस्स' दळहपरक्कमस्स अनिक्खित्तच्छन्दस्स अनिक्खित्तधुरस्स
 कुसलेसु धम्मेषु। अथ वा, पेसितत्तस्स यस्सत्थाय' पेसितो अत्तत्थे
 च आये च लक्खणे च कारणे च ठानाठाने च। "सब्बे सङ्गारा
 अनिच्चा" ति पेसितत्तस्स, "सब्बे सङ्गारा दुक्खा" ति पेसितत्तस्स,
 "सब्बे धम्मा अनत्ता" ति पेसितत्तस्स, "अविज्जापच्चया सङ्गारा" 25
 ति पेसितत्तस्स ...पे०... "जातिपच्चया जराभरणं" ति पेसितत्तस्स,
 "अविज्जानिरोधा सङ्गारनिरोधो" ति पेसितत्तस्स ...पे०... "जाति-

B. 881

१-१ स्या०, रो० पोत्यकेषु नत्थि। २ मज्झन्तिकसमयं—सी०, स्या०, रो०,
 एवमुपरि पि। ३. काले—सी०, रो०। ४ फस्सिस्सामि—सी०; फुसयिस्सामि—स्या०,
 रो०। ५ कीदिसाय—सी०, ईदिसाय—स्या०, रो०। ६ थामगतो—स्या०, रो०। ७.
 यस्सत्ता—स्या०, रो०।

निरोधा जरामरणनिरोधो' ति पेसितत्तस्स, "इदं दुक्खं" ति पेसितत्तस्स ...पे०... "अयं दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा" ति पेसितत्तस्स, "इमे आसवा" ति पेसितत्तस्स ...पे०... "अयं आसवनिरोधगामिनी पटिपदा" ति पेसितत्तस्स, "इमे धम्मा अभिञ्जेय्या" ति पेसितत्तस्स
 5 ...पे०... "इमे धम्मा सच्छिकातब्बा" ति पेसितत्तस्स, छन्नं फस्साय-
 तनानं समुदयं च अत्थङ्गमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं
 च पेसितत्तस्स, पञ्चन्नं उपादानक्खन्धानं ... चतुन्नं महाभूतानं समुदयं
 च अत्थङ्गमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च पेसितत्तस्स,
 "यं किञ्चिच्च समुदयधम्मं, सब्बं तं निरोधधम्मं" ति पेसितत्तस्स।
 10 भिक्खुनो ति। पुथुज्जनकल्याणकस्स वा भिक्खुनो सेक्खस्स वा
 भिक्खुनो ति - पहितत्तस्स भिक्खुनो। तेनाह थेरो सारिपुत्तो -

"क्यास्स व्यप्पथयो अस्सु, क्यास्सस्सु इध गोचरा,।
 कानि सीलब्बतानास्सु, पहितत्तस्स भिक्खुनो" ति॥

१९७. कं सो सिक्खं समादाया, एकोदि निपको सतो।

15 कम्मरारो रजतस्सेव, निद्धमे मलमत्तनो॥

कं सो सिक्खं समादाया ति। कं सो सिक्खं आदाय समादाय
 आदियित्वा समादियित्वा^१ गण्हित्वा परामसित्वा अभिनिविसित्वा ति
 - कं सो सिक्खं समादाय।

एकोदि निपको सतो ति। एकोदी ति। एकगचित्तो अवि-
 20 विखत्तचित्तो अविसाहटमानसो समयथो समाधिन्द्रिय समाधिबलं .पे०..
 सम्मासमाधि। निपको ति। निपको पण्डितो पञ्चवा बुद्धिमा
 जाणी विभावी मेधावी। सतो ति। चतूहि कारणेहि सतो - काये
 कायानुपस्सनासतिपट्टानं भावेन्तो सतो, वेदनासु .पे०.. चित्ते ..पे०.
 धम्मेसु धम्मानुपस्सनासतिपट्टानं भावेन्तो सतो। सो वुच्चति सतो
 25 ति - सतो। कं सो सिक्खं समादाया ति। अधिसीलसिक्खं पुच्छति।
 एकोदी ति। अधिचित्तसिक्खं पुच्छति। निपको ति। अधिपञ्जासिक्ख
 पुच्छति। सतो ति। पारिसुद्धि^२ पुच्छती ति - कं सो सिक्खं समादाय
 एकोदि निपको सतो।

१. स्वा०, रो० पोत्यकेसु मत्थि। २ सतिपारिसुद्धि - स्वा०, रो०।

कम्मारो रजतस्सेव निद्धमे मलमत्तनो ति । कम्मारो वुच्चति सुवण्णकारो, रजतं वुच्चति जातरूपं । यथा सुवण्णकारो जातरूपस्स ओळारिकं पि मलं धमति सन्धमति निद्धमति, मज्झिमकं पि मलं धमति सन्धमति निद्धमति, सुखुमकं पि मलं धमति सन्धमति निद्धमति; एवमेव भिक्खु अत्तनो ओळारिके पि किलेसे धमति सन्धमति निद्धमति पजहति विनोदेति व्यन्ति करोति अनभावं गमेति, मज्झिमके पि किलेसे ... सुखुमके' पि किलेसे' धमति सन्धमति निद्धमति पजहति विनोदेति व्यन्ति करोति अनभावं गमेति ।

अथ वा, भिक्खु अत्तनो रागमलं दोसमलं मोहमलं मानमलं दिट्ठिमलं किलेसमलं दुच्चरितमलं अन्धकरणं अचक्खुकरणं अञ्जाणकरणं^१ पञ्जानिरोधिकं विघातपक्खिकं अनिब्बानसंवत्तनिकं धमति सन्धमति निद्धमति पजहति विनोदेति व्यन्ति करोति अनभावं गमेति ।

अथ वा, सम्मादिट्ठिया मिच्छादिट्ठि धमति सन्धमति निद्धमति पजहति विनोदेति व्यन्ति करोति अनभावं गमेति । सम्मासङ्कप्पेन मिच्छासङ्कप्पं ... सम्मावाचाय मिच्छावाचं ... सम्माकम्मन्तेन मिच्छाकम्मन्तं ... सम्मायाजीवेन मिच्छायाजीवं ... सम्मावायामेन मिच्छावायामं ... सम्मासतिया मिच्छासति ... सम्मासमाधिना मिच्छासमाधि ... सम्मावाणेन मिच्छावाणं ... सम्माविमुत्तिया मिच्छाविमुत्ति धमति सन्धमति निद्धमति पजहति विनोदेति व्यन्ति करोति अनभावं गमेति ।

अथ वा, अरियेन अट्टङ्गिकेन मग्गेन सब्बे किलेसे सब्बे दुच्चरिते सब्बे दरथे सब्बे परिळाहे सब्बे सन्तापे सब्बाकुसलाभिसङ्कारे धमति सन्धमति निद्धमति पजहति विनोदेति व्यन्ति करोति अनभावं गमेती ति - कम्मारो रजतस्सेव निद्धमे मलमत्तनो । तेनाह थेरो सारिपुत्तो -

“कं सो सिक्खं समादाय, एकोदि निपको सतो ।

कम्मारो रजतस्सेव, निद्धमे मलमत्तनो” ति ॥

१९८. विजिगुच्छमानस्स यद्दिदं फासु, (सारिपुत्ता ति भगवा) रितासनं सयनं सेवतो वे' ।

१-१. स्या०, रो० पोत्यकेषु नत्थि । २ अजाणकरणं - स्या० । ३. वे - स्या०, रो० ।

सम्बोधिकामस्स यथानुधम्मं,
तं ते पक्कखामि यथा पजानं ॥

3. 388

3. 480

विजिगुच्छमानस्स यदिदं फासू ति । विजिगुच्छमानस्सा ति ।
जातिया विजिगुच्छमानस्स, जराय ... व्याधिना ... मरणेन ... सोकेहि
5 परिदेवेहि ... दुक्खेहि ... दोमनस्सेहि ... उपायासेहि .. पे० ... दिट्ठिव्यसनेन
दुक्खेन विजिगुच्छमानस्स अट्ठीयमानस्स हरायमानस्सा ति - विजि-
गुच्छमानस्स । यदिदं फासू ति । यं फासुविहारं^१ तं कथयिस्सामि^२ ।
कतमो फासुविहारो ? सम्मापटिपदा अनुलोमपटिपदा अपच्चनीकपटि-
पदा अविरुद्धपटिपदा अन्वत्थपटिपदा धम्मानुधम्मपटिपदा सीलेसु
10 परिपूरकारिता इन्द्रियेसु गुत्तद्वारता भोजने मत्तञ्चुता जागरियानु-
योगे सतिसम्पजञ्चं चत्तारो सतिपट्टाना चत्तारो सम्पम्पघाना
चत्तारो इद्धिपादा^३ पञ्चिन्द्रियानि पञ्च बलानि सत्त वोञ्ज्झा
अरियो अट्ठिञ्ज्झको भग्गो निब्बानं च निब्बानगामिनी च पटिपदा -
अयं फासुविहारो ति - विजिगुच्छमानस्स यदिदं फासु ।

15 सारिपुत्ता ति भगवा ति । तं थेरं नामेनालपति । भगवा ति ।
गारवाधिवचनं । अपि च, भग्गरागो ति भगवा, भग्गदोसो ति भगवा,
भग्गमोहो ति भगवा, भग्गमानो ति भगवा, भग्गविट्ठी ति भगवा,
भग्गकण्डको^४ ति भगवा, भग्गकिलेसो ति भगवा, भजि विभजि
पविभजि^५ धम्मरत्तनं ति भगवा, भवानं अन्तकरो ति भगवा, भावित-
20 कायो भावितसीलो भावितचित्तो भावितपञ्चो ति भगवा; भजि
वा भगवा अरञ्जवनपत्थानि पत्तानि सेनासनानि अप्पसद्धानि
अप्पनिग्घोसानि विजनवातानि मनुस्सराहस्सेय्यकानि पटिसल्लान-
सारूपानी ति भगवा, भागी वा भगवा चीवरपिण्डपातसेनासन-
गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारानं ति भगवा, भागी वा भगवा अत्थरसस्स
धम्मरसस्स विमुत्तिरसस्स अधिसीलस्स अधिचित्तस्स अधिपञ्चाया
25 ति भगवा, भागी वा भगवा चतुस्रं फ्फानानं चतुस्रं अप्पमञ्जानं
चतुस्रं आरूपसमापत्तीनं^६ ति भगवा, भागी वा भगवा अट्ठस्रं विभो-

१. फासु फासुविहारं - सी०, स्या०, रो० । २. कथयिस्सामि - स्या०, रो० । ३. इद्धि-
प्यादा - सी०, स्या०, रो० । ४. भग्गकण्डको - सी०, स्या०, रो० । ५. पटिपटिभजि - सी०,
स्या०, रो० । ६. अरूपसमापत्तीनं - स्या०, रो० ।

क्खानं अट्टञ्जं^१ अभिञ्जायतनानं^२ नवञ्जं अनुपुञ्चविहारसमापत्तीं ति भगवा, भागी वा भगवा दसञ्जं सञ्जाभावानं दसञ्जं कसिणसमापत्तीं आनापानस्सतिसमाधिस्स असुभसमापत्तिया ति भगवा, भागी वा भगवा चतुञ्जं सतिपट्टानानं चतुञ्जं सम्मप्पधानानं चतुञ्जं इद्धिपादानं पञ्चञ्जं इन्द्रियानं पञ्चञ्जं बलानं सत्तञ्जं बोज्झञ्जानं अरियस्स अट्ट- 5
 ङ्गिक्खस्स मग्गस्सा ति भगवा, भागी वा भगवा दसञ्जं तथागतबलानं चतुञ्जं वेसारज्जानं चतुञ्जं पटिसम्भिदानं छञ्जं अभिञ्जानं छञ्जं बुद्ध-
 धम्मानं ति भगवा; भगवा ति नेतं नामं मातरा कतं, न पितरा कतं, न भातरा कतं, न भगिनिया कतं, न मित्तामच्चेहि कतं, न 10
 वातिसालोहितेहि कतं, न समणब्राह्मणेहि कतं, न देवताहि कतं; विमोक्खन्तिकमेतं बुद्धानं भगवन्तानं बोधिया मूले सह सव्वञ्जुत-
 वाणस्स पटिलाभा सञ्छिका पञ्चत्ति यदिदं भगवा ति - सारिपुत्ता ति भगवा ।

R. 491

B. 394

रित्तासनं सयनं सेवतो वे ति । आसनं वुच्चति यत्थ निसी-
 दति - मञ्चो पीठं भिसि तट्टिका चम्मखण्डो तिणसन्थारो पण्ण- 15
 सन्थारो पलालसन्थारो । सयनं वुच्चति सेनासनं विहारो अद्भु-
 योयो पासादो हम्मियं गुहा । तं सयनासनं असप्पायरूपदस्सनेन रित्तं
 विवित्तं पविवित्तं, असप्पायसहस्सवनेन ...पे०... असप्पायेहि पञ्चहि
 कामगुणेहि रित्तं विवित्तं पविवित्तं । तं सयनासनं सेवतो निसेवतो
 संसेवतो पटिसेवतो ति - रितासनं सयनं सेवतो वे । 20

सम्बोधिकामस्स यथानुधम्मं ति । सम्बोधि वुच्चति चतूसु
 मग्गोसु वाणं पञ्चा पञ्चिन्द्रियं पञ्चाबलं ...पे०... धम्मविचयसम्बोज्झो
 वीमंसा विपस्सना सम्मादिट्ठि । तं सम्बोधि^३ बुज्झितुकामस्स अनु-
 बुज्झितुकामस्स पटिबुज्झितुकामस्स सम्बुज्झितुकामस्स अधिगन्तु-
 कामस्स फस्सितुकामस्स^४ सञ्छिकातुकामस्सा ति - सम्बोधिकामस्स । 25

यथानुधम्मं ति । कतमे बोधिया अनुधम्मा ? सम्मापटिपदा
 अनुलोमपटिपदा अपच्चनीकपटिपदा अवरुद्धपटिपदा अन्वत्थपटिपदा
 धम्मानुधम्मपटिपदा सीलेसु परिपूरकारिता इन्द्रियेसु गुत्तद्वारता

B. 492

१ चतुञ्जं - सी० । २ अभिजायतनान - सी०, स्या०, रो० । ३ बोधि - रो० ।
 ४ फस्सेतुकामस्स - स्या०, रो० ।

भोजने मत्तञ्जुता जागरियानुयोगो सतिसम्पजञ्जं—इमे वुच्चन्ति
बोधिया अनुधम्मा। अथ वा, चतुस्रं मग्गानं पुब्बभागे विपस्सता—
इमे वुच्चन्ति बोधिया अनुधम्मा ति—सम्बोधिकामस्स यथानुधम्मं।

तं ते पवक्खामि यथा पजानं ति। तं ति। बोधिया अनु-
५ धम्मं। पवक्खामी ति। पवक्खामि' आचिक्खिस्सामि देसेस्सामि'
पञ्जपेस्सामि पट्टपेस्सामि' विवरिस्सामि विभजिस्सामि उत्तानी-
करिस्सामि पकासिस्सामि। यथा पजानं ति। यथा' पजानं' यथा
पजानन्तो आजानन्तो विजानन्तो पटिविजानन्तो पटिविज्झन्तो
न इतिहितिहं न इतिकिराय न परम्पराय न पिटकसम्पदाय न तक्क-
१० हेतु न नयहेतु न आकारपरिवितक्केन न दिट्ठिनिज्झानक्खन्तिया साम
सयमभिञ्जातं' अत्तपच्चक्खं धम्मं, तं कथयिस्सामी ति—तं ते
पवक्खामि यथा पजानं। तेनाह भगवा—

385

“विजिगुच्छमानस्स यदिदं फासु, (सारिपुत्ता ति भगवा)
रित्तासनं सयनं सेवतो वे।

15

सम्बोधिकामस्स यथानुधम्मं,
तं ते पवक्खामि यथा पजानं” ति॥

१९९. पञ्चन्नं धीरो भयानं न भाये,
भिक्खु सतो सपरियन्तचारी।
डंसाधिपातानं सरीसपानं,
२० मनुस्सफस्सानं चतुप्पदानं ॥

483

पञ्चन्नं धीरो भयानं न भाये ति। धीरो ति। धीरो
पण्डितो पञ्जवा बुद्धिमा आणी विभावी मेधावी। धीरो' पञ्चन्नं
भयानं न भायेय्य न तसेय्य न' सन्तसेय्य' न उतसेय्य न परित्तसेय्य न
सन्तासं आपज्जेय्य, अभीरू अस्स अच्छम्मी अनुत्तासी अपलायी पहीन-
२५ भयभेरवो विगतलोमहंसो विहरेय्या ति—पञ्चन्नं धीरो भयानं न भाये।

भिक्खु सतो सपरियन्तचारी ति। भिक्खु ति। पुथुज्जन-
कल्याणको वा भिक्खु सेक्खो वा भिक्खु। सतो ति। चतूहि कारणेहि

१. वक्खामि पवक्खामि—स्या०, रो०। २. वेसिस्सामि—स्या०, रो०। ३. प-
पेस्सामि—म०। ४-५. स्या० पोत्यके नत्थि। ५. सयं अभिञ्जा—रो०। ६. धीरो—सी०।
७-७ स्या०, रो० पोत्यकेषु नत्थि।

सतो—काये कायानुपस्सनासत्तिपट्टानं भावेन्तो सतो, वेदनासु...पे० .
चित्ते ..पे०... धम्मसेसु धम्मानुपस्सनासत्तिपट्टानं भावेन्तो सतो—सो
वुच्चति सतो। सपरियन्तचारी ति। चत्तारो परियन्ता—सीलसंवरपरि-
यन्तो, इन्द्रियसंवरपरियन्तो, भोजने मत्तञ्जुतापरियन्तो, जागरियानु-
योगपरियन्तो।

5

कतमो सीलसंवरपरियन्तो? इध भिक्खु सीलवा होति,
पातिमोक्खसंवरसंवृतो विहरति आचारगोचरसम्पन्नो, अणुमत्तेसु
वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय सिकखति सिकखापदेसु। अन्तोपूति-
भावं पच्चवेक्खमानो अन्तो सीलसंवरपरियन्ते चरति, मरियादं
न भिन्दति—अयं सीलसंवरपरियन्तो।

10

कतमो इन्द्रियसंवरपरियन्तो? इध भिक्खु चक्खुना रूपं
दिस्वा न निमित्तग्गाही होति नानुव्यञ्जनग्गाही। यत्वाधिकरणमेनं
. पे०... चक्खुन्द्रिये सवरं आपज्जति। सोतेन सहं सुत्वा ... धानेन गन्धं
घायित्वा ... जिह्वाय रसं सायित्वा ... कायेन फोट्टब्बं फुसित्वा ... मनसा
धम्मं विञ्जाय न निमित्तग्गाही होति नानुव्यञ्जनग्गाही। यत्वाधि-
करणमेनं मनिन्द्रियं सुसंवृतं^१ विहरन्तं अभिज्झादोमनस्सा पापका
अकुसला घम्मा अन्वास्सवेय्युं,^२ तस्स संवराय पटिपज्जति, रक्खति
मनिन्द्रियं, मनिन्द्रिये संवरं आपज्जति। आदित्तपरियायं पच्चवेक्ख-
मानो अन्तो इन्द्रियसंवरपरियन्ते चरति, मरियादं न भिन्दति—
अयं इन्द्रियसंवरपरियन्तो।

B 386

15

20

कतमो भोजने मत्तञ्जुतापरियन्तो? इध भिक्खु पटिसङ्घा
योनिंसो आहारं आहारेति नेव दवाय न मदाय न मण्डनाय न
विभूसनाय, यावदेव इमस्स कायस्स ठित्तिया यापनाय विहिसूप-
रत्तिया ब्रह्मचरियानुग्गहाय। इति पुराणं च वेदनं पटिहङ्गामि नवं
च वेदनं न उप्पादेस्सामि, यात्रा च मे भविस्सति अनवज्जता च
फासुविहारो चा ति। अक्खब्भञ्जनवणपटिच्छादनपुत्तमंसूपमं पच्च-
वेक्खमानो अन्तो भोजने मत्तञ्जुतापरियन्ते चरति, मरियादं न
भिन्दति—अयं भोजने मत्तञ्जुतापरियन्तो।

R 484

25

१ असंवृत—सी०, स्या०, रो०। २. नान्वास्सवेय्युं—म०।

कतमो जागरियानुयोगपरियन्तो? इध भिक्खु दिवसं चङ्क-
मेन निसज्जाय आवरणीयेहि धम्मोहि चित्तं परिसोधेति, रत्तिया
पठमं यामं चङ्कमेन निसज्जाय आवरणीयेहि धम्मोहि चित्तं परिसोधेति,
रत्तिया मज्झिमं यामं दक्खिणेन पस्सेन सीहसेय्यं कप्पेति पादे पाद
6 अच्चाधाय सतो 'सम्पजानो उट्टानसञ्चं मनसि करित्वा, रत्तिया
पच्छिमं यामं पच्चुट्टाय चङ्कमेन निसज्जाय आवरणीयेहि धम्मोहि
चित्तं परिसोधेति। भद्देकरत्तविहारं पच्चवेक्खमानो अन्तो जागरिया-
नुयोगपरियन्तो चरति, मरियादं न भिन्दति - अयं जागरियानुयोग-
परियन्तो ति - भिक्खु सतो सपरियन्तचारी'।

10 डंसाधिपातानं सरीसपानं ति। डंसा वुच्चन्ति पिङ्गलमक्खि-
कायो'। अधिपातका' वुच्चन्ति सब्बा पि मक्खिकायो। किकारणा
अधिपातका' वुच्चन्ति सब्बा पि मक्खिकायो? ता उप्पतित्वा उप्प-
तित्वा खादन्ति; तंकारणा अधिपातका वुच्चन्ति सब्बा पि मक्खि-
कायो। सरीसपा वुच्चन्ति अही ति - डंसाधिपातानं सरीसपानं।

387 16 मनुस्सफस्सानं चतुप्पदानं ति। मनुस्सफस्सा वुच्चन्ति चोरा
वा अस्सु मानवा वा कतकम्मा वा अकतकम्मा वा। ते भिक्खु' पञ्च
वा पुच्छेय्यु दादं वा आरोपेय्यु अक्कोसेय्यु परिभासेय्यु रोसेय्यु
विरोसेय्यु हिसेय्यु विहिसेय्यु हेठेय्यु विहेठेय्यु घातेय्यु उपघातेय्यु
उपघातं वा करेय्यु। यो कोचि मनुस्सतो उपघातो - मनुस्सफस्सो।
486 20 चतुप्पदानं ति। सीहा व्यग्घा दीपि अच्छा तरच्छा कोका महिसा
हत्थी। ते भिक्खुं मद्देय्यु खादेय्यु हिसेय्यु विहिसेय्यु हेठेय्यु विहेठेय्यु
घातेय्यु उपघातेय्यु उपघातं वा करेय्यु। चतुप्पदतो उपघातो
यं किञ्चि चतुप्पदभयं ति - मनुस्सफस्सानं चतुप्पदानं। तेनाह
भगवा -

25 "पञ्चन्नं धीरो भयानं न भाये,
भिक्खु सतो सपरियन्तचारी।
डंसाधिपातानं सरीसपानं,
मनुस्सफस्सानं चतुप्पदानं" ति ॥

१ सपरियन्तचारी - सी०, स्या०। २ पिङ्गलमक्खिका - स्या०, रो०। ३ अक्कि-
पातिका - स्या०, रो०। ४. भिक्खु - रो०।

२००. परधम्मिकानं पि न सन्तसेय्य,
दिस्वा पि तेसं बहुभेरवानि ।
अथापरानि^१ अभिसम्भवेय्य^२,
परिस्सयानि^३ कुसलानुएसी ॥

परधम्मिकानं पि न सन्तसेय्य दिस्वा पि तेसं बहुभेरवानी ६
ति । परधम्मिका वुच्चन्ति सत्त सहधम्मिके ठपेत्वा ये केचि बुद्धे
घम्मे सङ्घे अप्पसत्ता । ते भिक्खुं पञ्हुं वा पुच्छेय्युं वादं वा आरो-
पेय्युं अक्कोसेय्युं^४ परिभासेय्युं रोसेय्युं विरोसेय्युं हिसेय्युं विहिसेय्युं
हेठेय्युं विहेठेय्युं घातेय्युं उपघातेय्युं उपघातं वा करेय्युं । तेसं बहु-
भेरवे^५ पस्सित्वा वा सुणित्वा वा न वेधेय्य न पवेधेय्य न सम्पवेधेय्य १०
न तसेय्य न सन्तसेय्य न उत्तसेय्य न परित्तसेय्य न भायेय्य^६ न सन्तासं
आपज्जेय्य, अभीरू अस्स अच्छम्भी अनुत्तासी अपलायी पहीनभय-
भेरवो विगतलोमहंसो विहरेय्या ति - परधम्मिकानं पि न सन्त-
सेय्य दिस्वा पि तेसं बहुभेरवानि ।

अथापरानि अभिसम्भवेय्य परिस्सयानि कुसलानुएसी ति । १५
अथापरानि पि अत्थि अभिसम्भोतब्बानि अभिभवित्त्बानि अज्झोत्थ-
रित्त्बानि परियादियित्त्बानि महित्त्बानि । परिस्सया ति । द्वे
परिस्सया - पाकटपरिस्सया च पटिच्छन्नपरिस्सया च ...पे०...एवं पि
तत्रासया ति - परिस्सया । कुसलानुएसी ति । सम्मापटिपदं अनुलोम-
पटिपदं अपच्चनीकपटिपदं अवरुद्धपटिपदं अन्वत्थपटिपदं ...पे०... अरियं २०
अट्टुङ्गिकं मगं निब्बानं च निब्बानगामिनि च पटिपदं एसन्तेन
गवेसन्तेन परियेसन्तेन परिस्सया अभिसम्भोतब्बा अभिभवित्त्बा
अज्झोत्थरित्त्बा परियादियित्त्बा महित्त्बा ति - अथापरानि अभि-
सम्भवेय्य परिस्सयानि कुसलानुएसी । तेनाह भगवा -

“परधम्मिकानं पि न सन्तसेय्य,
दिस्वा पि तेसं बहुभेरवानि ।

अथापरानि अभिसम्भवेय्य,

परिस्सयानि कुसलानुएसी” ति ॥

१. अथापरानी - स्या० । २. अभिसम्भवेय्युं - स्या०, रो० । ३. परिस्सयानी -
सी०, स्या० । ४. तं अक्कोसेय्युं - रो० । ५. बहुभेरवे - स्या०, रो० । ६. भासेय्य - रो० ।
म० नि० - ५४

२०१. आतङ्कफस्सेन खुदाय फुट्टो,
सीतं अयुण्हं' अधिवासयेय्य।
सो तेहि फुट्टो बहुधा अनोको,
वीरियपरक्कमं दळ्हं करेय्य ॥

६ आतङ्कफस्सेन खुदाय फुट्टो ति। आतङ्कफस्सो वुच्चति
रोगफस्सो। रोगफस्सेन फुट्टो परेतो समोहितो समन्नागतो अस्स,
चक्खुरोगेन फुट्टो परेतो समोहितो समन्नागतो अस्स, सोतरोगेन ..
घानरोगेन . . जिब्हारोगेन ... कायरोगेन . पे०... ङंसमकसवातातपसरी-
सपसम्फस्सेन फुट्टो परेतो समोहितो समन्नागतो अस्स। खुदा वुच्चति
१० छातको। छातकेन फुट्टो परेतो समोहितो समन्नागतो अस्सा ति-
आतङ्कफस्सेन खुदाय फुट्टो।

सीतं अयुण्हं अधिवासयेय्या ति। सीतं ति। द्वीहि कारणेहि
सीतं होति-अब्भन्तरघातुप्पकोपवसेन' वा सीतं होति, बहिद्धा
उतुवसेन वा सीतं होति। उण्हं ति। द्वीहि कारणेहि उण्हं होति-
१६ अब्भन्तरघातुप्पकोपवसेन' वा उण्हं होति, बहिद्धा उतुवसेन वा
उण्हं होती ति-सीतं अयुण्हं। अधिवासयेय्या ति। खमो अस्स
११. ४८७ सीतस्स उण्हस्स जिघच्छाय पिपासाय ङंसमकसवातातपसरीसपसम्फ-
३. ३६९ स्सानं दुरस्तानं दुरागतान वचनपथान उप्पन्नान सारीरिकानं वेद-
नानं दुक्खानं तिच्चानं' खरानं कटुकानं असातानं अमनापानं पाण-
२० हरानं अधिवासकजातिको' अस्सा ति-सीतं अयुण्हं अधिवासयेय्य।

सो तेहि फुट्टो बहुधा अनोको ति। सो तेही ति। आतङ्क-
फस्सेन च खुदाय च सीतेन च उण्हेन च फुट्टो परेतो समोहितो
समन्नागतो अस्सा ति-सो तेहि फुट्टो। बहुधा ति। अनेकविधेहि
आकारेहि फुट्टो परेतो समोहितो समन्नागतो अस्सा ति-सो
२६ तेहि फुट्टो बहुधा। अनोको ति। अभिसङ्खारसहगतविञ्जाणस्स
ओकासं न करोती ति पि-अनोको। अथ वा, कायदुच्चरितस्स
वचीदुच्चरितस्स मनोदुच्चरितस्स ओकासं न करोती ति पि-
अनोको ति-सो तेहि फुट्टो बहुधा अनोको।

१ अतुण्हं-सी०, अचुण्हं-रो०। २ अब्भन्तरघातुप्पकोपवसेन-सी०, अब्भन्तर-
घातुप्पकोपवसेन-स्या०, रो०। ३. तिप्पान-सी०, स्या०, रो०, एवमुपरि पि। ४. अधि-
वासिकजातिको-स्या०, रो०।

वीरियपरक्कमं' दळ्हं करेय्या ति । वीरियपरक्कमो वुच्चति
 यो चेतसिको वीरियारम्भो निक्कमो परक्कमो उय्यामो वायामो
 उस्साहो उस्सोळ्ही अप्पटिवानी थामो घिति' असिथिलपरक्कमतं
 अनिक्खत्तच्छन्दता अनिक्खत्तधुरता धुरसम्पग्गाहो वीरियं वीरियि-
 न्द्रियं वीरियबलं सम्मावायामो । वीरियपरक्कमं दळ्हं करेय्या ति । 5
 वीरियं परक्कमं दळ्हं करेय्य थिरं' करेय्य, १ दळ्हसमादानो अस्स
 अवत्थितसमादानो ति - वीरियपरक्कमं दळ्हं करेय्य । तेनाह भगवा -

“आतङ्कफस्सेन खुदाय फुट्ठो,
 सीतं अथुण्हं अधिवासयेय्य ।
 सो तेहि फुट्ठो बहुधा अनोको,
 वीरियपरक्कमं दळ्हं करेय्या” ति ॥

२०२. थेय्यं न कारे' न मुसा भणेय्य,
 मेत्ताय फस्से तसथावरानि ।
 यदाविलत्तं मनसो विज्जञ्जा,
 कण्हस्स पक्खो ति विनोदयेय्य ॥

थेय्यं न कारे न मुसा भणेय्या ति । थेय्यं न कारे ति । इध
 भिक्खु अदिन्नादानं' पहाय अदिन्नादाना पटिविरतो अस्स दिन्नादायी
 दिन्नपाटिकङ्खी, अथेनेन सुच्चिभूतेन अत्तना विहरेय्या ति - थेय्यं न
 कारे । न मुसा भणेय्या ति । इध भिक्खु मुसावादां पहाय मुसावादा
 पटिविरतो अस्स सच्चवादी सच्चसन्धो थेतो पच्चयिको अविस्वादाको 20
 लोकस्सा ति - थेय्यं न कारे न मुसा भणेय्य ।

मेत्ताय फस्से तसथावरानी ति । मेत्ता ति । या सत्तेसु मेत्ति
 मेत्तायना मेत्तायितत्तं अनुदया' अनुदयना अनुदयितत्तं' हितेसिता
 अनुकम्पा अब्यापादो अब्यापज्जो' अदोसो कुसलमूलं । तस्सा ति ।
 येसं तसिता' तण्हा अप्पहीना, येसं च' भयभेरवा अप्पहीना । किंकारणा 25

१ वीरियपरक्कमं - सी०, स्या०; विरियं परक्कम - रो०, एवमुपरि पि । २. ठिति -
 सी० । ३-३ स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि । ४. करेय्य - स्या०, रो०; एवमुपरि पि । ५
 अदिन्न - स्या०, रो० । ६-६. अनुदया अनुदयना अनुदयितत्त - सी०; अनुदा अनुदायना
 अनुदायितत्तं - स्या०, रो० । ७ अब्यापज्जो - स्या०, रो०; एवमुपरि पि । ८ तसिणा -
 स्या०, रो०, तसिना - सी० ।

बुच्चन्ति तसा' ? ते तसन्ति उत्तसन्ति परितसन्ति भायन्ति सन्तासं
 आपज्जन्ति; तंकारणा बुच्चन्ति तसा। थावरा ति। येसं तसिता
 तण्हा पहीना, येसं च भयभेरवा पहीना। किंकारणा बुच्चन्ति थावरा ?
 ते न तसन्ति न उत्तसन्ति न परितसन्ति न भायन्ति सन्तासं न आप-
 5 ज्जन्ति; तंकारणा बुच्चन्ति थावरा। मेत्ताय फस्से तसथावरानी ति।
 तसे च थावरे च मेत्ताय फस्सेय्य फरेय्य, मेत्तासहगतेन चेतसा
 विपुलेन' महगतेन अप्पमाणेन अवेरेन अब्यापज्जेन फरित्वा विह-
 रेय्या ति - मेत्ताय फस्से तसथावरानि।

यदाविलत्तं मनसो विज्जञ्जा ति। यदा ति। यदा। मनसो
 10 ति। यं चित्तं मनो मानसं हृदयं पण्डरं मनो मनायतनं मनिन्द्रियं
 विञ्जाणं विञ्जाणक्खन्धो तज्जा मनोविञ्जाणघातु। कायदुच्चरितेन
 चित्तं आविलं होति लुळितं एरितं घट्टितं चलितं भन्तं अवूपसन्त,
 वचीदुच्चरितेन ... मनोदुच्चरितेन ... रागेन ... दोसेन...मोहेन ... कोधेन
 ... उपनाहेन ... भक्खेन ... पळासेन ... इस्साय ... मच्छरियेन ... मायाय
 15 ... साठेय्येन ... थम्भेन ... सारम्भेन ... मानेन ... अतिमानेन ... मदेन ...
 पमादेन ... सब्बकिलेसेहि ... सब्बदुच्चरितेहि... सब्बदरथेहि ... सब्बपरि-
 ळाहेहि ... सब्बसन्तापेहि ... सब्बाकुसलामिसङ्गारेहि चित्तं आविलं
 होति लुळितं एरितं घट्टितं चलितं भन्तं अवूपसन्तं। यदाविलत्तं मनसो
 विज्जञ्जा ति। चित्तस्स आविलभावं जानेय्य आजानेय्य विजानेय्य
 20 पटिविजानेय्य पटिविज्जेय्या ति - यदाविलत्तं मनसो विज्जञ्जा।

कण्हस्स पक्खो ति विनोदयेय्या ति। कण्हो ति। यो सो
 मारो कण्हो अधिपति अन्तगु' नमुच्चि पमत्तबन्धु। कण्हस्स पक्खो'
 मारपक्खो मारपासो मारबळिसं मारामिसं मारविसयो मारनिवासो'
 मारगोचरो मारबन्धनं ति पजहेय्य विनोदयेय्य व्यन्ति करेय्य अनभावं
 25 गमेय्या ति। एवं पि कण्हस्स पक्खो ति विनोदयेय्य। अथ वा,
 कण्हस्स पक्खो मारपक्खो अकुसलपक्खो दुक्खुद्दयो' दुक्खुविपाको
 निरयसंबत्तनिको तिरच्छानयोनिंसंबत्तनिको पेत्तिविसयसंबत्तनिको ति

१. तसा अप्पहीना - रो०। २. विपुल्लेन - रो०। ३. अन्तगु - स्या०, रो०। ४
 पक्खो ति विनोदयेय्या ति कण्हपक्खो - स्या०, रो०। ५. मारत्तवो - स्या०, रो०। ६
 दुक्खुद्दयो - स्या०, रो०।

पजहेय्य विनोदेय्य व्यन्ति करेय्य अनभावं गमेय्या ति । एवं पि कण्हस्स पक्खो ति विनोदयेय्य । तेनाह भगवा -

“थेय्यं ने कारे न मुसा भणेय्य,
मेत्ताय फस्से तसथावरानि ।
यदाविलत्तं मनसो विजञ्जा,
कण्हस्स पक्खो ति विनोदयेय्या” ति ॥

5

२०३. कोधातिमानस्स वसं न गच्छे,
मूलं पि तेसं पल्लिञ्ज तिट्ठे ।
अथप्पियं वा पन अप्पियं वा,
अद्धा भवन्तो अभिसम्भवेय्य ॥

10

कोधातिमानस्स वसं न गच्छे ति । कोधो' ति । यो चित्तस्स आधातो पटिघातो ...पे०... चण्डिकं असुरोपो' अनत्तमनता चित्तस्स । अतिमानो ति । इवेकच्चो परं अतिमञ्जति जातिया वा गोत्तेन वा ...पे०... अञ्जतरञ्जतरेन वा वत्थुना । कोधातिमानस्स वसं न गच्छे ति । कोधस्स च अतिमानस्स च वसं न गच्छेय्य, कोधं च 15 अतिमानं च पजहेय्य विनोदेय्य व्यन्ति करेय्य अनभावं गमेय्या ति - कोधातिमानस्स वसं न गच्छे ।

मूलं पि तेसं पल्लिञ्ज तिट्ठे ति । कतमं कोधस्स मूलं ? अविज्जा मूलं, अयोनिसो मनसिकारो मूलं, अस्मिमानो मूलं, अहि- 20 रिकं मूलं, अनोत्तप्यं मूलं, उद्धच्चं मूलं - इदं कोधस्स मूलं । कतमं अतिमानस्स मूलं ? अविज्जा मूलं, अयोनिसो मनसिकारो मूलं, अस्मिमानो मूलं, अहिरिकं मूलं, अनोत्तप्यं मूलं, उद्धच्चं मूलं - इदं 25 अतिमानस्स मूलं । मूलं पि तेसं पल्लिञ्ज तिट्ठे ति । कोधस्स च अतिमानस्स च मूलं पल्लिखणित्वा उद्धरित्वा समुद्धरित्वा उप्पाट- यित्वा' समुप्पाटयित्वा पजहित्वा विनोदेत्वा व्यन्ति करित्वा अनभावं गमेत्वा तिट्ठेय्य सन्तिट्ठेय्या' ति - मूलं पि तेसं पल्लिञ्ज तिट्ठे ।

B. 490

B. 392

अथप्पियं वा पन अप्पियं वा अद्धा भवन्तो अभिसम्भवेय्या ति । अथा ति । पदसन्धि पदसंसग्गो पदपारिपूरी अक्खरसमवायो

१. कोधा - स्या०, रो० । २ असुरोपो - सी०, स्या०, रो० । ३ उप्पादयित्वा - स्या०, रो०; एवमुपरि पि । ४. स्या० पीत्यके नत्थि ।

व्यञ्जनसिलिद्रुता पदानुपुञ्जतापेत' - अथा ति । पिया ति । द्वे पिया -
 सत्ता वा सङ्गारा वा । कतमे सत्ता पिया ? इध यास्स' ते होन्ति
 अत्यकामा हितकामा फासुकामा योगक्खेमकामा भाता वा पिता वा
 भाता वा भगिनी वा पुत्ता' वा धीता वा मित्ता वा अमच्चा वा
 5 वाती वा सालोहिता वा - इमे सत्ता पिया । कतमे सङ्गारा पिया ?
 मनापिका रूपा मनापिका सद्दा ... गन्धा ... रसा ... फोट्टब्बा - इमे
 सङ्गारा पिया । अप्पिया ति । द्वे अप्पिया - सत्ता वा सङ्गारा वा । कतमे
 सत्ता अप्पिया ? इध यास्स ते होन्ति अनत्यकामा अहितकामा
 अफासुकामा अयोगक्खेमकामा जीविता वीरोपेतुकामा - इमे सत्ता
 10 अप्पिया । कतमे सङ्गारा अप्पिया ? अमनापिका रूपा अमनापिका
 सद्दा, गन्धा ... रसा ... फोट्टब्बा - इमे सङ्गारा अप्पिया । अद्धा ति ।
 एकंसवचनं निस्संसयवचनं निक्कल्लवचनं अद्वेज्भवचनं अद्वेज्जहक-
 वचनं निय्यानिकवचनं' अपण्णकवचनं अवत्थापनवचनमेतं - अद्धा ति ।
 अथप्पियं वा पन अप्पियं वा अद्धा भवन्तो अभिसम्भवेय्या ति ।
 15 पियाप्पियं' सातासातं सुखदुक्खं सोमनस्सदोमनस्सं इट्टानिट्ठं अभिसम्भ-
 वन्तो वा अभिभवेय्य अधिभवन्तो' वा अभिसम्भवेय्या ति - अथप्पियं
 वा पन अप्पियं वा अद्धा भवन्तो अभिसम्भवेय्य । तेनाह भगवा -

“कोधातिमानस्स वसं न गच्छे,
 मूलं पि तेसं पल्लिञ्जतिट्ठे ।
 20 अथप्पियं वा पन अप्पियं वा,
 अद्धा भवन्तो अभिसम्भवेय्या” ति ॥

B. 293

२०४. पञ्जं पुरक्खत्वा कल्याणपीती,
 विक्खम्भये तानि परिस्सयानि ।
 अररतिं सहैथ सयनमिह पन्ते,
 25 चतुरो सहैथ परिदेवधम्मने ॥

पञ्जं पुरक्खत्वा कल्याणपीती ति । पञ्जा ति । या पञ्जा
 पजानना विचयो पविचयो धम्मविचयो . पे० .. अमोहो सम्मादिट्ठि' ।

१ पदानुपुञ्जतापेत - सी०, स्या०, रो०, एवमुपरि पि । २ अस्स - स्या०, रो० ।
 ३ पुत्तो - सी०, स्या० । ४ नियोगवचनं - स्या०, रो० । ५ पियापियं - स्या०, रो० ।
 ६ अभिभवन्तो - स्या०, रो० । ७ धम्मविचयो सम्मादिट्ठि - स्या०, रो० ।

पञ्चं पुरक्खत्वा ति । इधेकच्चो पञ्चं पुरतो कत्वा चरति पञ्चाधजो
पञ्चाकेतु पञ्चाधिपतेय्यो विचयबहुलो पविचयबहुलो पेक्खायन-
बहुलो सम्पेक्खायनबहुलो विभूतविहारी तच्चरितो तब्बहुलो तग-
स्को तन्नित्तो तप्पोणो तप्पम्भारो तदधिमुत्तो तदधिपतेय्यो ति ।
एवं पि पञ्चं पुरक्खत्वा ।

5

अथ वा, गच्छन्तो वा “गच्छामी” ति पजानाति, ठितो वा
“ठितोम्ही” ति पजानाति, निसिन्नो वा “निसिन्नोम्ही” ति पजानाति,
सयानो वा “सयानोम्ही” ति पजानाति, यथा यथा वा पनस्स कायो
पणिहितो होति तथा तथा नं पजानाती ति । एवं पि पञ्चं पुरक्खत्वा ।

अथ वा, अभिक्कन्ते पटिक्कन्ते सम्पजानकारी होति, 10
आलोकिते विलोकिते सम्पजानकारी होति, समिञ्जिते पसारिते
सम्पजानकारी होति, सञ्जाटिपत्तचीवरधारणे सम्पजानकारी होति,
असिते पीते खायिते सायिते सम्पजानकारी होति, उच्चारपत्सावकम्मे
सम्पजानकारी होति, गते ठिते निसिन्ने सुत्ते जागरिते भासिते
तुण्हिभावे सम्पजानकारी होती ति । एवं पि पञ्चं पुरक्खत्वा ।

15

कल्याणपीती ति । बुद्धानुस्सतिवसेन उप्पज्जति पीति
पामोज्जं - कल्याणपीती ति । धम्मानुस्सति सञ्चानुस्सति सीलानु-
स्सति चागानुस्सति देवतानुस्सति आनापानस्सति मरणस्सति काय-
गतासतिवसेन उपसमानुस्सतिवसेन उप्पज्जति पीति पामोज्जं -
कल्याणपीती ति - पञ्चं पुरक्खत्वा कल्याणपीती ।

R 492

20

विकल्हम्भये तानि परिस्सयानी ति । परिस्सया ति । द्वे
परिस्सया - पाकटपरिस्सया च पटिच्छन्नपरिस्सया च ...पे०... इमे
वुच्चन्ति पाकटपरिस्सया ...पे०... इमे वुच्चन्ति पटिच्छन्नपरिस्सया
...पे०... एवं पि तत्रासया ति - परिस्सया । विकल्हम्भये तानि परिस्सयानी
ति । तानि परिस्सयानि विकल्हम्भेय्य अभिभवेय्य अज्जोत्थरेय्य परि-
यादियेय्य मह्येय्या ति - विकल्हम्भये तानि परिस्सयानि ।

B 394

25

१-१. ओक्खायनबहुलो समोक्खायनबहुलो - सी०, स्या०, रो० । २ तच्चरितो -
म० । ३ तदाधिपतेय्यो - स्या०, रो०, एवमुपरि पि । ४ समिञ्जिते - सी०, स्या०,
रो० । ५. तुण्हिभावे - सी०, स्या०, रो० । ६ पामुज्जं - सी०, स्या०, रो० । ७ वेदना-
नुस्सति आनापानसति - सी०, आनापानसति - रो० । ८ मरणसति - सी०, मरणानुस्सति-
स्या० रो० ।

अरतिं सहेथ सयनमिह पन्ते ति । अरती ति । या अरति
अरतिता' अनभिरति' अनभिरमणा' उक्कण्ठिता परितस्सिता ।
सयनमिह पन्ते ति । पन्तेसु वा सेनासनेसु अञ्चतरञ्जतरेसु वा
अधिकुसलेसु' धम्मसेसु अरतिं सहेथ्य अभिभवेथ्य अज्जोत्थरेथ्य परि-
६ यादियेथ्य महेथ्या ति - अरतिं सहेथ सयनमिह पन्ते ।

चतुरो सहेथ परिदेवधम्मे ति । चत्तारो' परिदेवनीये धम्मे
सहेथ्य परिसहेथ्य' अभिभवेथ्य अज्जोत्थरेथ्य परियादियेथ्य महेथ्या
ति - चतुरो सहेथ परिदेवधम्मे । तेनाह भगवा -

१० "पञ्जं पुरकखत्वा कल्याणपीति,
विकखम्भये तानि परिस्सयानि ।
अरतिं सहेथ सयनमिह पन्ते,
चतुरो सहेथ परिदेवधम्मे" ति ॥

२०५. किंसू असिस्सं कुव वा असिस्सं,
१५ दुक्खं वत सेत्थ कुवज्ज सेत्सं ।
एते वितक्के परिदेवनेथ्ये,
विनयेथ सेत्तो' अनिकेतचारी" ॥

१३ किंसू असिस्सं कुव वा असिस्सं ति । किंसू" असिस्सामी ति ।
कि भुञ्जिस्सामि ओदनं वा कुम्मासं वा सत्तुं वा मच्छं वा मंसं वा
ति - किंसू असिस्सं । कुव वा असिस्सं ति । कत्थ भुञ्जिस्सामि
२० खत्तियकुले वा ब्राह्मणकुले वा वेस्सकुले वा सुद्धकुले वा ति - किंसू
असिस्सं कुव वा असिस्सं ।

दुक्खं वत सेत्थ कुवज्ज सेत्सं ति । इमं रतिं दुक्खं सयित्व"
फलके" वा तट्टिकाय वा चम्मखण्डे वा तिणसन्थारे वा पण्णसन्थारे
वा पलालसन्थारे वा । आगामिरत्ति" कत्थ सुखं सयिस्सामि मञ्जे
२५ वा पीठे वा मिसिया वा बिम्बोहने" वा विहारे वा अह्वयागे वा

१. अरतिका - स्या०, रो०; सी० पोत्यके नत्थि । २ सी० पोत्यके नत्थि । ३
अनभिरमणा - सी०, स्या०, रो० । ४-४. सी० पोत्यके नत्थि । ५. चतुरो - सी० । ६. स्या०,
रो० पोत्यकेसु नत्थि । ७. असिस्सामि - स्या०, रो० । ८. कुहि - सी, कुव - स्या०, रो० ।
९. सेक्खो - स्या०, रो० । १०. अनिकेतचारी - स्या०, रो० । ११. किंसु - म० ।
१२. सयि - स्या०, रो० । १३. सफलके - रो० । १४. आगमनरत्ति - स्या०, रो० । १५.
बिम्बोहने - स्या०, रो० ।

पासादे वा हम्मिये^१ वा गुहाय वा ति—दुक्खं वत सेत्थ कुवज्ज सेस्सं ।

एते वितक्के परिदेवनेय्ये ति । एते वितक्के ति । द्वे पिण्ड-
पातपटिसञ्जुत्ते वितक्के, द्वे सेनासनपटिसञ्जुत्ते वितक्के । परिदेव-
नेय्ये ति । आदेवनेय्ये परिदेवनेय्ये ति—एते वितक्के परिदेवनेय्ये । 5

विनयेथ सेखो^२ अनिकेतचारी ति । सेखो ति । किकारणा
वुच्चति सेखो ? सिक्खती ति—सेखो । किं च सिक्खति ? अधिसीलं
पि सिक्खति, अधिचित्तं पि सिक्खति, अधिपञ्चं पि सिक्खति ।
कतमा अधिसीलसिक्खा...पे०...अयं अधिपञ्चासिक्खा । इमा तिस्सो
सिक्खायो आवज्जन्तो सिक्खति, जानन्तो पस्सन्तो पच्चवेक्खन्तो 10
चित्तं अधिट्टहन्तो सिक्खति, सद्दाय अधिमुच्चन्तो सिक्खति, वीरियं
पग्गहन्तो , सति उपट्टपेन्तो, चित्तं समादहन्तो, पञ्चाय पजानन्तो
सिक्खति, अभिञ्जेय्यं अभिजानन्तो सिक्खति, परिञ्जेय्यं परिजानन्तो,
पहातब्बं पजहन्तो, भावेतब्बं भावेन्तो, सच्छिकातब्बं सच्छिकरोन्तो
सिक्खति आचरति समाचरति समादाय सिक्खति । तंकारणा 15
वुच्चति—सेखो । विनयाय^३ पटिविनयाय पहानाय वूपसमाय पटि-
निस्सग्गाय पटिपस्सद्धिया अधिसीलं पि सिक्खेय्य, अधिचित्तं पि
सिक्खेय्य, अधिपञ्चं पि सिक्खेय्य । इमा तिस्सो सिक्खायो आवज्जन्तो
सिक्खेय्य जानन्तो...पे०... सच्छिकातब्बं सच्छिकरोन्तो सिक्खेय्य
आचरेय्य समाचरेय्य समादाय वत्तेय्या ति—विनयेथ सेखो । 20

अनिकेतचारी ति । कथं निकेतचारी होति ? इधेकच्चो
कुलपलिबोधेन समन्नागतो होति, गणपलिबोधेन ... आवासपलिबोधेन
.. चीवरपलिबोधेन ... पिण्डपातपलिबोधेन ... सेनासनपलिबोधेन ...
गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारपलिबोधेन समन्नागतो होति । एवं निकेत-
चारी होति । कथं अनिकेतचारी होति ? इध भिक्खुं न कुलपलि- 25
बोधेन समन्नागतो होति, न गणपलिबोधेन ... न आवासपलिबोधेन ... न
चीवरपलिबोधेन ... न पिण्डपातपलिबोधेन ... न सेनासनपलिबोधेन ... न

१. हम्मियं—स्या०, रो० । २. सेखो—स्या०, रो० । ३. सेखो विनयाय—सी०; सेक्खो
विनयाय—स्या०, रो० । ४. रो० पोत्यके नत्थि । ५. सी० पोत्यके नत्थि ।

गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारपलिबोधेन समन्नागतो होति । एवं अनिकेतचारी होति ।

396

मगघं गता कोसलं गता,
एकच्चिया पन' वज्जभूमिया' ।
मिगा' विय असङ्गचारिनो,
अनिकेता विहरन्ति भिक्खवो ॥

5

10

साधु चरितकं' साधु सुचरितं,
साधु सदा अनिकेतविहारो ।
अत्थपुच्छनं पदक्खिणं' कम्मं,
एतं सामञ्जं अकिञ्चनस्सा' ति ॥

1. 493

विनयेथ सेखो अनिकेतचारी । तेनाह भगवा -

“किंसू असिस्सं” कुर्व वा असिस्सं,
दुक्खं वत सेत्थ कुवज्ज सेस्सं ।
एते वितक्के परिदेवनेय्ये,
विनयेथ सेखो अनिकेतचारी” ति ॥

15

२०६. अन्नं च लद्धा वसनं च काले,
मत्तं स' जज्जा इध तोसनत्थं ।
सो तेसु गुत्तो यतचारि गाम्भे,
रसितो पि दाचं फसं न वज्जा ॥

20

अन्नं च लद्धा वसनं च काले ति । अन्नं ति । ओदनो कुम्मासो सत्तु मच्छो मंसं । वसनं ति । छ चीवरानि - खोम, कप्पासिक, कोसेय्यं, कम्बलं, साण, मङ्गं । अन्नं च लद्धा वसनं च काले ति । चीवरं लभित्वा पिण्डपात लभित्वा न कुहनाय, न लपनाय, न नेमित्तिकताय, न निष्पेसिकताय, न लाभेन लाभं निजिगीसनताय^१; न दासदानेन, न वेळुदानेन, न पत्तदानेन, न पुप्फदानेन, न फलदानेन, न

25

१ स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि । २ वज्जभूमिया - सी० । ३-३ मागधा विवद्धं चारिनो - स्या०, रो० । ४ चरित - स्या०, रो० । ५-५ दक्खकम्म - स्या०, रो० । ६ आकिञ्चनस्सा - स्या०, रो० । ७ असिस्साभि - स्या०, रो० । ८ कुहि - सी०; कुव - स्या०, रो० । ९ सो - स्या०, रो० । १०. निजिगीसनताय - सी०, स्या०, रो० ।

सिनानदानेन, न चुष्णदानेन, न मत्तिकादानेन,^१ न दन्तकट्टदानेन, न मुखोदकदानेन, न चातुकम्यताय,^२ न मुग्गसूप्यताय,^३ न पारिभट्ट्य-
ताय,^४ न पीठमट्टिकताय,^५ न वत्थुविज्जाय, न तिरच्छानविज्जाय, न
अङ्गविज्जाय, न नक्खत्तविज्जाय, न दूतगमनेन, न पहिणगमनेन,^६
न जङ्घपेसनिकेन,^७ न वेज्जकम्मेन, न पिण्डपटिपिण्डकेन,^८ न दाना- 5
नुप्पदानेन धम्मेन समेन लद्धा लभित्वा अधिगन्त्वा विन्दित्वा^९ पटि-
लभित्वा ति— अन्नं च लद्धा वसनं च काले ।

R, 486

B 397

मत्तं स जञ्जा इध तोसनत्थं ति । मत्तं स जञ्जा ति । द्वीहि
कारणेहि मत्तं जानेय्य^{१०}—पटिग्गहणतो वा परिभोगतो वा । कथं
पटिग्गहणतो मत्तं जानाति ? थोके पि दिव्यमाने कुलानुदयाय^{११} 10
कुलानुरक्खाय कुलानुकम्पाय पटिग्गह्णाति, बहुके पि दिव्यमाने काय-
परिहारिकं चीवरं पटिग्गह्णाति कुच्छिपरिहारिकं पिण्डपातं पटि-
ग्गह्णाति । एवं पटिग्गहणतो मत्तं जानाति ।

कथं परिभोगतो मत्तं जानाति ? पटिसङ्घा योनिंसो चीवरं
पटिसेवति यावदेव सीतस्स पटिघाताय उण्हस्स पटिघाताय ङंसमकस- 15
वातातपसरीसपसम्फस्सानं पटिघाताय, यावदेव हिरिकोपीनपटिच्छा-
दनत्थं ।

पटिसङ्घा योनिंसो पिण्डपातं पटिसेवति नेव दवाय न मदाय
न मण्डनाय न विमूसनाय, यावदेव इमस्स कायस्स ठितिया याप-
नाय विहिसूपरतिया ब्रह्मचरियानुग्गहाय । इति पुराणं च वेदनं 20
पटिहङ्गामि नवं च वेदनं न उप्पादेस्सामि, यात्रा च मे भविस्सति
अनवज्जता च फासुविहारो च ।

पटिसङ्घा योनिंसो सेनासनं पटिसेवति यावदेव सीतस्स पटि-
घाताय उण्हस्स पटिघाताय ङंसमकसवातातपसरीसपसम्फस्सानं पटि-
घाताय, यावदेव उनुपरिस्सयविनोदनपटिसल्लानारामत्थं । 25

१ मत्तिकदानेन—सी०, स्या०, रो० । २ पातुकम्यताय—स्या०, रो० । ३ मुग्ग-
सुप्यताय—सी०, मुग्गसूप्यताय—स्या०, रो० । ४ पारिभट्टताय—सी० । ५ पिठिमट्टिकताय—
सी०, पिठमट्टिकताय—रो० । ६ पहीनगमनेन—सी०, स्या०, रो० । ७ जङ्घपेसनियेन—सी,
जङ्घपेसनेन स्या०, रो० । ८ पिण्डकेन स्या०, रो० । ९-९ अभिविन्दित्वा स्या०; अभिविन्दित्वा—
रो० । १० जानाति—स्या०, रो० । ११ कुलानुदयाय—सी०, रो० ।

पटिसङ्घा योनिसो गिलानपञ्चयभेसज्जपरिक्खारं पटिसेवति
यावदेव उप्पन्नानं वेय्याव्याधिकानं^१ वेदनानं पटिघाताय अव्यापज्ज-
परमत्ताय^२। एवं परिभोगतो मत्तं जानाति।

मत्तं स जञ्जा ति। इमेहि द्वीहि कारणेहि मत्तं जानेय्य
५ आजानेय्य^३ पटिविजानेय्य पटिविज्जेय्या ति—मत्तं स जञ्जा।

इध तोसन्त्थं ति। इध भिक्खुं सन्तुद्धो होति इतरीतरेण^४
चीवरेण इतरीतरचीवरसन्तुट्टिया च वण्णवादी, न च चीवरहेतु अने-
१ 497 सनं अप्पतिरूपं आपज्जति; अलद्धा च चीवरं न परितस्सति, लद्धा
१० च चीवरं अगधितो अमुच्छित्तो अनज्झापन्नो^५ आदीनवदस्सावी
३ 398 निस्सरणपञ्चो परिभुञ्जति; ताय च पन इतरीतरचीवरसन्तुट्टिया
नेवत्तानुक्कंसेति, न परं वम्भेति। यो हि तत्थ दक्खो अनल्लसो सम्प-
जानो पटिस्सतो—अयं वुच्चति भिक्खु पोरारणे अग्गञ्जे अरियवसे
ठितो।

पुन चपरं भिक्खु सन्तुद्धो होति इतरीतरेण पिण्डपातेन
१५ इतरीतरपिण्डपातसन्तुट्टिया च वण्णवादी, न च पिण्डपातहेतु अने-
सनं अप्पतिरूपं आपज्जति, अलद्धा च पिण्डपातं न परितस्सति,
लद्धा च पिण्डपातं अगधितो अमुच्छित्तो अनज्झापन्नो आदीनवदस्सावी
निस्सरणपञ्चो परिभुञ्जति; ताय च पन इतरीतरपिण्डपातसन्तु-
ट्टिया नेवत्तानुक्कंसेति, न परं वम्भेति। यो हि तत्थ दक्खो अनल्लसो
२० सम्पजानो पटिस्सतो^६—अयं वुच्चति भिक्खु पोरारणे अग्गञ्जे
अरियवसे ठितो।

पुन चपरं भिक्खु सन्तुद्धो होति इतरीतरेण सेनासनेन
इतरीतरसेनासनसन्तुट्टिया च वण्णवादी, न च सेनासनहेतु अनेसनं
अप्पतिरूपं आपज्जति, अलद्धा च सेनासनं न परितस्सति, लद्धा च
२५ सेनासनं अगधितो अमुच्छित्तो अनज्झापन्नो आदीनवदस्सावी निस्सरण-
पञ्चो परिभुञ्जति; ताय च पन इतरीतरसेनासनसन्तुट्टिया नेवत्ता-

१. वेय्यावाधिकानं—सी०, स्या०, रो०। २ अव्यापज्ज०—सी०, स्या०। ३ आन-
नेय्य विजानेय्य—स्या०; विजानेय्य—रो०। ४ भिक्खवे—रो०। ५ इतरीतरेण—स्या०।
६ अनज्झोपन्नो—स्या०, रो०। ७ पतिस्सुतो—रो०।

नुक्कंसेति, न परं वम्भेति । यो हि तत्थ दक्खो अनलसो सम्पजानो पटिस्सतो—अयं वुच्चति भिक्खु पोरणे अग्गञ्जे अरियवंसे ठितो ।

पुन चपरं भिक्खु सन्तुट्ठो होति इतरीतरेन गिलानपच्चय-भेसज्जपरिक्खारेन, इतरीतरगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारसन्तुट्ठिया च वण्णवादी, न च गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारहेतु अनेसनं अप्पति-
रूपं आपज्जति, अलद्धा च गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारं न परि-
तस्सति, लद्धा च गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारं अगधितो अमुच्छित्तो
अनज्झापन्नो आदीनवदस्सावी निस्सरणपञ्चो परिभुञ्जति; ताथ च
पन इतरीतरगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारसन्तुट्ठिया नेवत्तानुक्कंसेति,
न परं वम्भेति । यो हि तत्थ दक्खो अनलसो सम्पजानो पटिस्सतो—
अयं वुच्चति भिक्खु पोरणे अग्गञ्जे अरियवंसे ठितो ति—मत्तं स
जञ्जा इध तोसनत्थां ।

सो तेसु गुत्तो यतचारि गामे ति । सो तेसु गुत्तो ति । चीवरे
पिण्डपाते सेनासने गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारे गुत्तो गोपितो
रक्खितो संवुतो ति । एवं पि सो तेसु गुत्तो । अथ वा, आयतनेसु
गुत्तो गोपितो रक्खितो संवुतो ति । एवं पि सो तेसु गुत्तो ।

यतचारि गामे ति । गामे यतो यत्तो पटियत्तो गुत्तो गोपितो
रक्खितो संवुतो ति—सो तेसु गुत्तो यतचारि गामे ।

रुसितो पि वाचं फरुसं न वज्जा ति । दूसितो^१ खुसितो
वम्भितो घट्टितो गरहितो उपवदितो^२ फरुसेन कक्खल्लेन^३ नप्पटिवज्जा^४
नप्पटिभण्येय्य, अक्कोसन्तं न पच्चक्कोसेय्य, रोसन्तं नप्पटिरोसेय्य,
भण्डन्तं न पटिभण्डेय्य, न कलहं करेय्य, न भण्डनं करेय्य, न विग्गहं
करेय्य, न विवादं करेय्य, न मेधगं करेय्य, कलहं भण्डनं विग्गहं^५
विवादं मेधगं पजहेय्य विनोदेय्य ब्यन्ति करेय्य अनभावं गमेय्य,
कलहभण्डनविग्गहविवादमेधगा आरतो अस्स विरतो पटिविरतो
निक्खन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसञ्जुत्तो विमरियादिकत्तेन चेतसा
विहरेय्या ति—रुसितो पि वाचं फरुसं न वज्जा । तेनाह भगवा—

१ रुसितो—सी०, स्या०, रो० । २ उपवदितो—रो० । ३ कक्खल्लेन—सी० ।
४ भणन्तं—स्या०, पटिभनन्तं—रो० । ५ सी० पाल्यके नत्थि ।

“अन्नं च लद्धा वसनं च काले,
मत्तं स जञ्जा इध तोसनत्थं ।
सो तेषु गुत्तो यतचारि गामे,
इसितो पि वाचं फहसं न वञ्जा’ ति ॥

- ४ २०७. ओक्खित्तचक्खु न च पादलोलो,
झानानुयुत्तो बहुजागरस्स ।
उपेक्खमारब्भ समाहिततो,
तक्कासयं कुक्कुच्चञ्चुपच्छन्दे’ ॥

ओक्खित्तचक्खु न च पादलोलो ति । कथं खित्तचक्खु होति ?

- 10 इधेकच्चो भिक्खु’ चक्खुलोलो, चक्खुलोलियेन समन्नागतो होति,
“अदिट्ठं दक्खित्तब्बं, दिट्ठं समत्तिकमित्तब्बं” ति आरामेन आराम
B. 499 उय्यानेन उय्यानं गामेन गामं निगमेन निगमं नगरेन नगरं रट्ठेन
3. 400 रट्ठं जनपदेन जनपदं दीघचारिकं अनवद्वित्तचारिकं अनुयुत्तो च’
होति रूपदस्सनाय । एवं पि खित्तचक्खु होति ।

- 15 अथ वा, भिक्खु’ अन्तरघरं पविट्ठो वीथि पटिपन्नो असंबुत्तो
गच्छति हत्थि ओलोकेन्तो, अस्सं ओलोकेन्तो, रथं ओलोकेन्तो, पत्ति
ओलोकेन्तो, इत्थियो ओलोकेन्तो, पुरिसे ओलोकेन्तो, कुमारके ओलो-
केन्तो, कुमारिकायो ओलोकेन्तो, अन्तरापणं ओलोकेन्तो, घरमुखानि
ओलोकेन्तो, उद्धं ओलोकेन्तो, अधो ओलोकेन्तो, दिसाविदिसं विपेक्ख-
20 मानो’ गच्छति । एवं पि खित्तचक्खु होति ।

- अथ वा, भिक्खु चक्खुना रूपं दिस्वा निमित्तग्गाही होति
अनुब्यञ्जनग्गाही । यत्त्वाधिकरणमेनं’ चक्खुन्द्रियं असंबुत्तं विहरन्त
अभिज्झादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्यु, तस्स
संवराय नप्पटिपज्जति, न रक्खति चक्खुन्द्रियं, चक्खुन्द्रिये न संवरं
25 आपज्जति । एवं पि खित्तचक्खु होति ।

१. कुक्कुच्चिपुपच्छन्दे—स्या०, रो० । २. स्या० पोत्यके नत्थि । ३. अगिवत्त-
चारिकं—सी०; अन्वत्थित्तचारिक—स्या०, रो० । ४. सी०, स्या०, रो० पोत्यकेणु नत्थि । ५
स्या०, रो० पोत्यकेणु नत्थि । ६. पेक्खमानो—सी०, स्या०, रो० । ७. यत्त्वाधिकरणमेन-
सी०, ० करणमेवं—रो० । ८. अन्वावत्थेय्यु—रो० ।

यथा वा पनेके भोन्तो समणब्राह्मणा सद्भादेय्यानि भोजनानि भुञ्जित्वा ते एवरूपं विसूकदस्सनं अनुयुक्ता विहरन्ति, सेय्यथिदं^१— नच्चं गीतं वादितं पेक्खं अक्खानं पाणिस्सरं वेताळं कुम्भथूणं सोभनकं^२ चण्डालं वंसं घोवनं हत्थियुद्धं अस्सयुद्धं महिसयुद्धं^३ उसभयुद्धं अजयुद्धं मेण्डयुद्धं कुक्कुटयुद्धं वट्टकयुद्धं दण्डयुद्धं मुट्ठियुद्धं निब्बुद्धं^४ उय्योधिकं बलगं सेनाव्यूहं अनीकदस्सनं इति वा। एवं पि खित्तचक्खु^५ होति।

कथं न खित्तचक्खु होति? इधेकच्चो^६ भिक्खु न चक्खुलोलो न चक्खुलोलियेन समन्नागतो होति “अदिट्ठं दक्खित्तब्बं दिट्ठं समतित्कमित्तब्बं” ति न आरामेन आरामं न उय्यानेन उय्यानं न गामेन गामं न निगमेन निगमं न नगरेन नगरं न रट्ठेन रट्ठं न जनपदेन जनपदं दीघचारिकं अनवट्ठित्तचारिकं अननुयुक्तो च होति रूपदस्सनाय। एवं पि न खित्तचक्खु होति।

R 500

अथ वा, भिक्खु अन्तरघरं पविट्ठो वीथि पटिपन्नो संवृतो गच्छति न हत्थि ओलोकेन्तो...पे०... न दिसाविदिसं विपेक्खमानो गच्छति। एवं पि न खित्तचक्खु होति।

अथ वा, भिक्खु चक्खुना रूपं दिस्वा न निमित्तगाही होति पे०. चक्खुन्द्रिये संवरं आपज्जति। एवं पि न खित्तचक्खु होति।

B 401

यथा वा पनेके भोन्तो समणब्राह्मणा सद्भादेय्यानि भोजनानि भुञ्जित्वा...पे०...अनीकदस्सनं इति वा। एवरूपा विसूकदस्सनानुयोगा पटिविरतो होति। एवं पि न खित्तचक्खु होती ति—ओक्खित्तचक्खु।

न च पादलोलो ति। कथं पादलोलो होति? इधेकच्चो भिक्खु पादलोलो पादलोलियेन समन्नागतो होति, आरामेन आरामं...पे०... दीघचारिकं अनवट्ठित्तचारिकं अनुयुक्तो होति रूपदस्सनाय। एवं पि पादलोलो होति।

25

अथ वा, भिक्खु अन्तो पि सञ्चारामे पादलोलो पादलोलियेन समन्नागतो होति, न अत्थहेतु न कारणहेतु उद्धतो अवूपसन्तचित्तो

१ सेय्यथिदं—सी०, स्या०, रो०; एवमुपरि पि। २. सोभनगरकं—सी०, स्या०, रो०। ३ महिसयुद्ध—सी०, स्या०, रो०। ४ इव—स्या०। ५ स्या०, रो० पौत्यकेषु नत्थि; एवमुपरि पि।

परिवेणतो परिवेणं गच्छति । विहारतो...पे०...इति भवामवकथं कथेति ।
एवं पि पादलोलो होति ।

न च पादलोलो ति । पादलोलिय पञ्हेय्य विनोदेय्य व्यन्ति
करेय्य अनभावं गमेय्य, पादलोलिया आरतो अस्स विरतो पटिविरतो
८ निक्खन्तो निस्सटो' विप्पमुत्तो विसञ्जुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा
विहरेय्य, पटिसल्लानारामो अस्स पटिसल्लानरतो अज्झत्तं चेतो-
समथमनुयुत्तो अनिराकतज्झानो विपस्सनाय समन्नागतो ब्रूहेता भुञ्जा-
गारं' भायी भानरतो एकत्तमनुयुत्तो सदत्थगरको ति - बोक्खित-
चक्खु न च पादलोलो ।

10 झानानुयुत्तो बहुजागरस्सा ति । झानानुयुत्तो ति । द्वीहि कारणेहि
भानानुयुत्तो - अनुप्पन्नस्स वा पठमस्स भानस्स उप्पादाय युत्तो
पयुत्तो आयुत्तो समायुत्तो, अनुप्पन्नस्स वा दुतियस्स भानस्स ... ततियस्स
भानस्स ... चतुत्थस्स भानस्स उप्पादाय युत्तो पयुत्तो आयुत्तो समायुत्तो
ति । एवं पि भानानुयुत्तो । अथ वा, उप्पन्नं वा पठमं भानं आसेवति
B 462, 16 भावेति बहुलीकरोति, उप्पन्नं वा दुतियं भानं ... ततियं भानं ... चतुत्थं
3. 501 भानं आसेवति भावेति बहुलीकरोती ति । एवं पि भानानुयुत्तो ।

बहुजागरस्सा ति । इध भिक्खु दिवसं चङ्कमेन निसज्जाय
आवरणीयेहि धम्मोहि चित्तं परिसोषेति, रत्तिया पठमं याम चङ्कमेन
निसज्जाय आवरणीयेहि धम्मोहि चित्तं परिसोषेति, रत्तिया मज्झमं
20 यामं दक्खिणेन पस्सेन सीहसेय्यं कप्पेति पादे पादं अच्चाधाय सतो
सम्पजानो उट्टानसञ्जं मनसि' कत्वा, ' रत्तिया पच्छिमं यामं पच्चु-
ट्टाय चङ्कमेन निसज्जाय आवरणीयेहि धम्मोहि चित्तं परिसोषेती
ति - भानानुयुत्तो बहुजागरस्स ।

उपेक्खमारब्भ समाहिततो ति । उपेक्खा ति । या चतुत्थे
25 भाने उपेक्खा उपेक्खना अज्झुपेक्खना चित्तसमता चित्तप्पस्सद्धता
मज्झत्तता चित्तस्स । समाहिततो ति । या चित्तस्स ठिति सण्ठिति
अवट्ठिति अविसाहारो अविकखेपो अविसाहटमानसता समथो समाधि-
न्द्रियं समाधिबलं सम्मासमाधि । उपेक्खमारब्भ समाहिततो ति ।

१ कथेति - स्या०, रो० । २ निस्सटो - स्या०, रो०, एवमुपरि पि । ३ बुञ्जा
गारान - सी० । ४-४ मनसिकरिखा - स्या०, रो० ।

चतुर्थे भाने उपेक्खं आरब्भ एकग्गचित्तो अविक्खित्तचित्तो अवि-
साहटमानसो ति - उपेक्खमारब्भ समाहितत्तो ।

तक्कासयं कुक्कुच्चञ्चुपच्छन्दे ति । तक्का ति । नव वितक्का
- कामवितक्को, व्यापादवितक्को, विहिसावितक्को, वातिवितक्को,
जनपदवितक्को, अमरवितक्को, परानुदयतापटिसञ्चुत्तो^१ वितक्को, 5
लाभसक्कारसिलोकपटिसञ्चुत्तो वितक्को, अनवञ्जत्तिपटिसञ्चुत्तो
वितक्को - इमे वुच्चन्ति नव वितक्का । कामवितक्कानं काम-
सञ्चासयो, व्यापादवितक्कानं व्यापादसञ्चासयो, विहिसावितक्कानं
विहिसासञ्चासयो । अथ वा, तक्कानं वितक्कानं सङ्कप्पानं अविज्जा-
सयो, अयोनिस्सो मनसिकारो आसयो, अस्मिमानो आसयो, अनोत्तप्यं 10
आसयो, उद्धच्चं आसयो ।

कुक्कुच्चं ति । हत्थकुक्कुच्चं पि कुक्कुच्चं पादकुक्कुच्चं पि
कुक्कुच्चं हत्थपादकुक्कुच्चं पि कुक्कुच्चं, अकप्पिये कप्पियसञ्जिता
कप्पिये अकप्पियसञ्जिता, अवज्जे वज्जसञ्जिता वज्जे अवज्ज-
सञ्जिता । यं एवरूपं कुक्कुच्चं कुक्कुच्चायना कुक्कुच्चायितत्तं चेतसो 15
विप्पटिसारो मनोविलेखो - इदं वुच्चति कुक्कुच्चं । B. 502

अपि च, द्वीहि कारणेहि उप्पज्जति कुक्कुच्चं चेतसो विप्पटि-
सारो मनोविलेखो - कतत्ता च अकतत्ता च । कथं कतत्ता च अकतत्ता
च उप्पज्जति कुक्कुच्चं चेतसो विप्पटिसारो मनोविलेखो ? “कत्तं मे
कायदुच्चरितं, अकत्तं मे कायसुचरितं” ति उप्पज्जति कुक्कुच्चं चेतसो 20
विप्पटिसारो मनोविलेखो । “कत्तं मे वचीदुच्चरितं ... कत्तं मे मनोदुच्चरितं
.. कतो मे पाणातिपातो, अकता मे पाणातिपाता वेरमणी” ति उप्प-
ज्जति कुक्कुच्चं चेतसो विप्पटिसारो मनोविलेखो । “कत्तं मे अदिङ्गा-
दानं ... कतो मे कामेसु मिच्छाचारो ... कतो मे मुसावादो .. कता मे
पिसुणवाचा^२ ... कता मे फस्सवाचा ... कतो मे सम्फप्पलापो ... कता मे 25
अभिज्झा .. कतो मे व्यापादो ... कता मे मिच्छादिट्ठि, अकता मे सम्मा-
दिट्ठो” ति उप्पज्जति कुक्कुच्चं चेतसो विप्पटिसारो मनोविलेखो ।
एवं कतत्ता च अकतत्ता च उप्पज्जति कुक्कुच्चं चेतसो विप्पटिसारो
मनोविलेखो ।

१ परानुदयता - सी०, स्या०, रो० । २. पिसुणा वाचा - सी०, स्या०, रो० ।
म० ति० - ५६

अथ वा, “सीलेसुम्हि न परिपूरकारी” ति उपपज्जति
 कुक्कुच्चं चेतसो विप्पटिसारो मनोविलेखो; “इन्द्रियेसुम्हि अगुत्त-
 द्वारो” ति ... “भोजने अमत्तञ्जूम्ही” ति ... “जागरियं अननुयुत्तोम्ही”
 ति ... “न सतिसम्पज्जञ्जेन समन्नागतोम्ही” ति ... “अभाविता मे चत्तारो
 6 सतिपट्टाना” ति ... “अभाविता मे चत्तारो सम्मप्यधाना” ति ... “अभा-
 विता मे चत्तारो इद्धिपादा” ति... “अभावितानि मे पञ्चिन्द्रियानी”
 ति ... “अभावितानि मे पञ्च बलानी” ति .. “अभाविता मे सत्त
 बोक्कङ्गा” ति ... “अभावितो मे अरियो अट्टुङ्गिको मग्गो” ति . “दुक्खं
 मे अपरिञ्जातं ” ति ... “दुक्खसमुदयो मे अप्पहीनो” ति ... “मग्गो
 10 मे अभावितो” ति... “निरोधो मे असञ्चिकत्तो” ति उपपज्जति
 कुक्कुच्चं चेतसो विप्पटिसारो मनोविलेखो। तक्कासयं कुक्कुच्च-
 ञ्चुपच्छिन्दे ति। तक्क च तक्कासयं च कुक्कुच्चं च उपच्छिन्देय्य
 छिन्देय्य^१ उच्छिन्देय्य^२ समुच्छिन्देय्य पज्जेय्य विनोदेय्य व्यन्ति करेय्य
 अनभावं शमेय्या ति—तक्कासयं कुक्कुच्चञ्चुपच्छिन्दे। तेनाह भगवा—

15 “ओक्खत्तचक्खु न च पादलोलो,
 भानानुयुत्तो बहुजागरस्स।
 उपेक्खमारब्भ समाहिततो,
 तक्कासय कुक्कुच्चञ्चुपच्छिन्दे” ति ॥

२०८. चुद्धितो वचीभि सतिमाभिनन्दे,
 सब्भहाचारीसु खिलं पभिनन्दे।
 वाचं पमुञ्चे कुसलं नातिवेलं,
 जनवाद्दधम्मयाय न चेतयेय्य ॥

1. 404,
 1. 509 20

चुद्धितो वचीभि^३ सतिमाभिनन्दे ति। चुद्धितो ति। उपज्जाया
 वा आचरिया वा समानुपज्जायका वा समानाचरियका वा मित्ता
 25 वा सन्दिट्ठा वा सम्भत्ता वा सहाया वा चोदेन्ति—“इदं ते, आवुसो,
 अयुत्तं, इदं ते अप्पत्तं, इदं ते असारुप्पं, इदं ते असौलट्ठं” ति।
 सतिं उपट्टुपेत्वा^४ तं चोदनं नन्देय्य अभिनन्देय्य मोदेय्य अनुमोदेय्य
 इच्छेय्य सादियेय्य पत्थयेय्य^५ पिहयेय्य अभिजप्पेय्य। यथा इत्थी वा

१ परिपूरिकारी—स्वा०। २-२ स्वा०, रो० पोत्यकेषु नत्थि। ३ वचीहि—रो०।
 ४. उपट्टुपेत्वा—सी०, स्वा०, रो०। ५. पत्थेय्य—स्वा०, रो०।

पुरिसो वा दहरो युवा मण्डनजातिको सीसंहातो^१ उप्लमालं वा वस्सिकमालं वा अधिमुत्तकमालं वा लभित्वा उभोहि हृथेहि पटि-
गहेत्वा उत्तमङ्गे सिरस्मि पतिट्ठापेत्वा नन्देय्य अभिनन्देय्य मोदेय्य
अनुमोदेय्य इच्छेय्य सादियेय्य पत्थयेय्य पिहयेय्य अभिजप्पेय्य; एव-
मेव सति उपट्ठपेत्वा तं चोदनं नन्देय्य अभिनन्देय्य मोदेय्य अनु- 5
मोदेय्य इच्छेय्य सादियेय्य पत्थयेय्य पिहयेय्य अभिजप्पेय्य ।

निघीनं व पवत्तारं, यं पस्से वज्जदस्सिनं ।

निग्गय्हवादि मेघावि, तादिसं पण्डितं भजे ॥

तादिसं भजमानस्स, सेय्यो होति न पापियो ।

ओवदेय्यानुसासेय्य, असंभा च निवारये ।

10

सतं हि सो पियो होति, असतं होति अप्पियो ति ॥

चुदितो वचीभि सतिमाभिनन्दे सब्रह्मचारीसु खिलं पभिन्दे ति ।
सब्रह्मचारी ति । एककम्म^१ एकुद्देसो^२ समसिक्खता^३ । सब्रह्मचारीसु
खिलं पभिन्दे ति । सब्रह्मचारीसु आहतचित्ततं खिलजाततं पभिन्देय्य, 5
पञ्च पि चेतोखिले भिन्देय्य,^४ तयो पि चेतोखिले भिन्देय्य,^५ राग- 15
खिलं दोसखिलं मोहखिलं भिन्देय्य पभिन्देय्य सम्भिन्देय्या ति - सब्रह्म-
चारीसु खिलं पभिन्दे ।

R 504

वाचं पमुञ्चे कुसलं नातिवेलं ति । आणसमुट्ठितं वाचं
मुञ्चेय्य, अत्थूपसहितं घम्मूपसहितं कालेन सापदेसं परियन्तवति
वाचं^६ मुञ्चेय्य पमुञ्चेय्या^७ ति - वाचं पमुञ्चे कुसलं । नातिवेलं ति । 20
वेला ति । द्वे वेला - कालवेला च सीलवेला च । कतमा कालवेला ?
कालातिक्कन्तं वाचं न भासेय्य, वेलातिक्कन्तं वाचं न भासेय्य,
कालवेलातिक्कन्तं वाचं न भासेय्य, कालं असम्पत्तं वाचं न भासेय्य,
वेलं असम्पत्तं वाचं न भासेय्य, कालवेलं असम्पत्तं वाचं न भासेय्य ।

B. 405

यो वे^८ काले असम्पत्ते, अतिवेलं च^९ भासति ।

25

एवं सो निहतो सेति, कोकिलायेव^{१०} अत्रजो ति ॥

१ सीस नहातो - सी०, सीसन्हातो - स्या०, रो० । २-२ एककम्मा एकुद्देसा - सी० ।

३ समसिक्खता - सी०, समसिक्खता - स्या०, रो० । ४ पभिन्देय्य - सी०, स्या०, रो० ।

५ अत्थसहितं वाचं - स्या०, रो० । ६ पमुञ्चेय्य सम्पमुञ्चेय्या - स्या०, रो० । ७ च -

स्या० । ८-८ पमासति - सी०, रो० । ९ कोकिलायेव - स्या०, रो० ।

अयं कालवेला ।

कतमा सीलवेला ? रत्तो वाचं न भासेय्य, पुट्टो वाचं न भासेय्य, मूळहो वाचं न भासेय्य, मुसावादं न भासेय्य, पिसुणवाचं न भासेय्य, फत्सवाचं न भासेय्य, सम्फप्पलापं न भासेय्य, न कथेय्य 6 न भणेय्य न दीपयेय्य न वोहरेय्य । अयं सीलवेला ति - वाचं पमुञ्चे कुसलं नातिवेलं ।

जनवादधम्माय न चेतयेय्या ति । जना ति । खत्तिया च 608 ब्राह्मणा च वेस्सा च सुट्ठा च गहट्ठा च पब्बजिता च देवा च मनुस्सा च । जनस्स वादाय उपवादाय निन्दाय गरहाय अकित्तिया अवण्ण- 10 हारिकाय सीलविपत्तिया वा आचारविपत्तिया वा दिट्ठिविपत्तिया वा आजीविपत्तिया वा न चेतयेय्य चेतनं न उप्पादेय्य चित्तं न उप्पा- देय्य सङ्कप्पं न उप्पादेय्य मनसिकारं न उप्पादेय्या ति - जनवाद- धम्माय न चेतयेय्य । तेनाह भगवा ।

“चुदितो वचीमि” सतिमाभिनन्दे,
15 सन्नहाचारीसुखिलं पमिन्दे ।
वाचं पमुञ्चे कुसलं नातिवेलं,
जनवादधम्माय न चेतयेय्या” ति ॥

२०९. अथापरं पञ्च रजानि लोके,
थेसं सतीमां विनयाय सिक्खे ।
20 रूपेसु सहेसु अथो रसेसु,
गन्धेसु फस्सेसु सहैथ रागं ॥

अथापरं पञ्च रजानि लोके ति । अथा ति । पदसन्धि 30 पदसंसग्गो पदपारिपूरी अक्खरसमवायो व्यञ्जनसिलिट्ठता पदानु- पुब्बतापेतं - अथा ति । पञ्च रजानो ति । रूपरजो, सहरजो, 25 गन्धरजो, रसरजो, फोट्टब्बरजो ।

रागो रजो न च पन रेणुं वुच्चति,
रागस्सेतं अधिवचनं रजो ति ।

१. वचीहि - सी० । २. सतिमा - सी०, रो० । ३. पदानुपुब्बतापेतं - सी०, त्या०, रो० । ४. रूपरागो - त्या०, रो० । एवमुपरि पि । ५. रेणु - त्या०, रो० ।

एतं रजं विष्पजहित्वा^१ पण्डिता,
 विहरन्ति ते विगतरजस्स सासने ॥
 दोसो रजो न च पन रेणु वुच्चति...पे० ..
 विहरन्ति ते विगतरजस्स सासने ॥
 मोहो रजो न च पन रेणु वुच्चति...पे०... 5
 विहरन्ति ते विगतरजस्स सासने ॥

लोके ति । अपायलोके मनुस्सलोके देवल्लोके खन्धल्लोके धातु-
 लोके आयतनलोके ति — अथापरं पञ्च रजानि लोके ।

B. 506

येसं सतीमा विनयाय सिक्खे ति । येसं ति । रूपरागस्स
 सहारागस्स गन्धरागस्स रसरागस्स फोट्टुब्बारागस्स । सतीमा ति । या 10
 सति अनुस्सति पटिस्सति सति सरणता धारणता अपिलापनता
 असम्मूस्सनता^१ सत्तिन्द्रिय^२ सतिबलं सम्मासति सतिसम्बोज्झङ्गो
 एकायनमगो — अयं वुच्चति सति । इमाय सतिया उपेतो समुपेतो
 उपगतो^३ समुपगतो^४ उपपन्नो समुपपन्नो^५ समन्नागतो । सो वुच्चति
 सतिमा । सिक्खे ति । तिस्सो सिक्खा — अधिसीलसिक्खा, अधिचित्त- 16
 सिक्खा, अधिपञ्जासिक्खा । कतमा अधिसीलसिक्खा...पे०...अयं
 अधिपञ्जासिक्खा । येसं सतीमा विनयाय सिक्खे ति । सतिमा पुग्गलो
 येसं रूपरागस्स सहारागस्स गन्धरागस्स रसरागस्स फोट्टुब्बारागस्स
 विनयाय पटिविनयाय पहानाय वूपसमाय पटिनिस्सग्गाय पटिपस्स-
 द्विया^६ अधिसीलं पि सिक्खेय्य अधिचित्तं पि सिक्खेय्य अधिपञ्जं पि 20
 सिक्खेय्य, इमा तिस्सो सिक्खायो आवज्जन्तो सिक्खेय्य, जानन्तो
 सिक्खेय्य ...पे०... सच्छिकातब्बं सच्छिकरोन्तो सिक्खेय्य आचरेय्य
 समाचरेय्य समादाय वत्तेय्या ति — येसं सतीमा विनयाय सिक्खे ।

रूपेसु सहेसु अथो रसेसु गन्धेसु फस्सेसु सहैथ रागं ति ।
 रूपेसु सहेसु गन्धेसु रसेसु फोट्टुब्बेसु रागं सहैथ्य परिसहेथ्य अभि- 25
 भवेय्य अज्झोत्थरेय्य परियादियेय्य महेय्या ति — रूपेसु सहेसु अथो
 रसेसु गन्धेसु फस्सेसु सहैथ रागं । तेनाह भगवा —

B. 407

१ विष्पजहित्वा — स्या० । २ अस्सम्मूस्सनता — स्या०, रो० । ३ सति सतिन्द्रिय —
 स्या०, रो० । ४-४ उपगतो समुपगतो — सी० । ५ सम्पन्नो — सी० । ६ पटिपस्सद्विया —
 सी०, स्या०, रो० ।

“अथापरं पञ्च रजानि लोके,
येसं सतीमा विनयाय सिक्खे ।
रूपेसु सद्देसु अथो रसेसु,
गन्धेसु फस्सेसु सहेथ राग” ति ॥

- 5 २१०. एतेसु धम्मेसु विनेय्य छन्दं,
भिक्खु सतिमा^१ सुविमुत्तचित्तो ।
कालेन सो सम्मा धम्मं परिवीमंसमानो,
एकोदिभूतो विहने तमं सो ॥ (इति भगवा)

. 507

- एतेसु धम्मेसु विनेय्य छन्दं ति । एतेसू ति । रूपेसु सद्देसु
10 गन्धेसु रसेसु फोट्टवेसु । छन्दो ति । यो कामेसु कामच्छन्दो कामरागो
कामनन्दी^२ कामतण्हा कामस्नेहो कामपरिळाहो काममुच्छा काम-
ज्झोसानं कामोघो कामयोगो कामुपादानं ..पे०..कामच्छन्दनीवरणं ।
एतेसु धम्मेसु विनेय्य छन्दं ति । एतेसु धम्मेसु छन्दं विनेय्य पटि-
विनेय्य पज्जेय्य विनोदेय्य व्यन्तिं करेय्य अनभावं गमेय्या ति—एतेसु
15 धम्मेसु विनेय्य छन्दं ।

- भिक्खु सतिमा सुविमुत्तचित्तो ति । भिक्खू ति । पुथुज्जन-
कल्याणको वा भिक्खु, सेखी वा भिक्खु । सतिमा ति । या सति
अनुस्सति ...पे० ..सम्मासति सतिसम्बोज्झो एकायनमगो—अयं
वुच्चति सति । इमाय सतिया उपेतो समुपेतो ...पे०... सो वुच्चति
20 सतिमा ।

- भिक्खु सतिमा सुविमुत्तचित्तो ति । पठमं भानं समापन्नस्स
नीवरणेहि चित्तं मुत्तं विमुत्तं सुविमुत्तं, दुतियं भानं समापन्नस्स
वितक्कविचारेहि चित्तं मुत्तं विमुत्तं सुविमुत्तं, ततियं भानं समापन्नस्स
पीतिया च^३ चित्तं मुत्तं विमुत्तं सुविमुत्तं, चतुत्थं भानं समापन्नस्स
25 सुखदुक्खेहि चित्तं मुत्तं विमुत्तं सुविमुत्तं; आकासानञ्चायतनं समा-
पन्नस्स रूपसञ्जाय पटिघसञ्जाय नानत्तसञ्जाय चित्तं मुत्तं विमुत्तं
सुविमुत्तं, विञ्जाणञ्चायतनं समापन्नस्स आकासानञ्चायतनसञ्जाय
चित्तं ... आकिञ्चञ्चायतनं समापन्नस्स विञ्जाणञ्चायतनसञ्जाय

B. 408

१ सतीमा—स्या०, रो० । २ कामनन्दि—सी०, स्या०, रो० । ३ स्या०, रो०
पोत्यकेसु नत्थि ।

चित्तं ... नेवसञ्चानासञ्चायतनं समापन्नस्स आकिञ्चञ्चायतनसञ्चाय
चित्तं मुत्तं विमुत्तं सुविमुत्तं; सोतापन्नस्स सक्कायदिट्ठिया विचिकि-
च्छाय सीलम्बतपरामासा दिट्ठानुसया विचिकिच्छानुसया तदेकट्ठेहि
च किलेसेहि चित्तं मुत्तं विमुत्तं सुविमुत्तं, सकदागामिस्स ओट्ठारिका
कामरागानुसया पटिघानुसया तदेकट्ठेहि च किलेसेहि चित्तं मुत्तं 5
विमुत्तं सुविमुत्तं, अनागामिस्स अनुसहगता^१ कामरागसञ्चोजना
पटिघसञ्चोजना अनुसहगता कामरागानुसया पटिघानुसया तदे-
कट्ठेहि च किलेसेहि चित्तं मुत्तं विमुत्तं सुविमुत्तं, अरहतो रूपरागा
अरूपरागा माना उद्धच्चा अविज्जाय मानानुसया भवरागानुसया
अविज्जानुसया तदेकट्ठेहि च किलेसेहि बहिद्धा च सब्बनिमित्तेहि 10
चित्तं मुत्तं विमुत्तं सुविमुत्तं ति—भिक्षु सतिमा सुविमुत्तचित्तो।

R 508

कालेन सो सम्मा धम्मं परिवीमंसमानो ति। कालेना ति।
उद्धते चित्ते समथस्स^२ कालो, समाहिते चित्ते विपस्सनाय कालो।

काले पग्गहति चित्तं, निग्गहति^३ पुनापरं^४।

सम्पहंसति कालेन, काले चित्तं समादहे^५॥

15

अज्झुपेक्खति^६ कालेन, सो योगी कालकोविदो।

किम्हि कालम्हि पग्गाहो, किम्हि काले विनिग्गहो॥

किम्हि पहंसनाकालो,^७ समथकालो च कीदिसो।

उपेक्खाकालं चित्तस्स, कथं दस्सेति योगिनो॥

लीने चित्तम्हि पग्गाहो, उद्धतस्मि^८ विनिग्गहो^९।

20

निरस्सादगतं चित्तं, सम्पहंसेय्य तावदे॥

सम्पहट्ठं यदा चित्तं, अलीनं भवतिनुद्धतं।

समथस्स^{१०} च^{११} सो^{१२} कालो, अज्झत्तं रमये मनो॥

एतेन मेवुपायेन, यदा होति समाहितं।

समाहितचित्तमञ्चाय,^{१३} अज्झुपेक्खेय्य तावदे॥

25

१. अनुसहगता—सी०, स्या०, रो०। २. समाधिस्स—सी०। ३. निग्गहति—
सी०, स्या०, रो०। ४. अथापरे—स्या०, रो०। ५. समादहति—स्या०, रो०। ६. अज्झो-
पेक्खति—रो०। ७. पहंसनाकाले—सी०। ८-८ उद्धतस्मि हि निग्गहो—सी०। ९-९ समथ
निमित्तस्स—सी०। १०. रो० पोत्यके नत्थि। ११. समाहित चित्तमञ्चाय—सी०, समाहितं
चित्तपञ्चाय—स्या०, रो०।

B. 409

एवं कालविदू धीरो, कालञ्जू कालकोविदो।
कालेन कालं चित्तस्स, निमित्तमुपलब्धये ति॥

कालेन सो।

R 509

सम्मा धम्मं परिवीमंसमानो ति। “सब्बे सङ्खारा अनिच्चा”
5 ति सम्मा धम्मं परिवीमंसमानो, “सब्बे सङ्खारा दुक्खा” ति
सम्मा धम्मं परिवीमंसमानो, “सब्बे धम्मा अनत्ता” ति सम्मा
धम्मं परिवीमंसमानो...पे०... “यं किञ्चि समुदयधम्मं सब्बं तं निरोध-
धम्मं” ति - सम्मा धम्मं परिवीमंसमानो।

एकोदिभूतो विहने तमं सो इति भगवा ति। एकोदी ति।
10 एकगचित्तो अविक्खित्तचित्तो अविसाहटमानसो समथो समाधिन्द्रिय
समाधिबलं सम्मासमाधी ति - एकोदिभूतो। विहने तमं सो ति।
रागतमं दोसतमं मोहतमं दिट्ठितमं मानतमं किलेसतमं दुच्चरिततमं
अन्धकरणं अचक्खुकरणं अञ्जाणकरणं पञ्चानिरोधिक विघात-
पक्खिकं अनिब्बानसंवत्तनिकं हनेय्य विहनेय्य पजहेय्य विनोदेय्य
15 व्यन्ति करेय्य अनभावं गमेय्य।

भगवा ति। गारवाधिवचनं। अपि च भग्गरागो ति भगवा,
भग्गदोसो ति भगवा, भग्गमोहो ति भगवा, भग्गमानो ति भगवा,
भग्गदिट्ठी ति भगवा, भग्गकण्डको ति भगवा, भग्गकिलेसो ति
भगवा, भजि विभजि पविभजि धम्मरतनं ति भगवा, भवानं अन्त-
20 करो ति भगवा, भावितकायो भावितसीलो भावितचित्तो भावित-
पञ्चो ति भगवा, भजि वा भगवा अरञ्जवनपत्यानि पन्तानि
सेनासनानि अप्पसद्दानि अप्पनिग्घोसानि विजनवातानि मनुस्सराहस्से-
य्यकानि पटिसल्लानसारुप्पानी ति भगवा, भागी वा भगवा चीवर-
पिण्डपातसेनासनगिलानपञ्चयभेसज्जपरिक्खारानं ति भगवा, भागी
25 वा भगवा अत्थरसस्स धम्मरसस्स विमुत्तिरसस्स अधिशीलस्स
अधिचित्तस्स अधिपञ्जाया ति भगवा, भागी वा भगवा चतुन्न
भानानं चतुन्नं अप्पमञ्जानं चतुन्नं अरूपसमापत्तीनं ति भगवा,
भागी वा भगवा अट्टन्नं विमोक्खानं अट्टन्नं अभिभायतनानं नवन्न
अनुपुब्बविहारसमापत्तीनं ति भगवा, भागी वा भगवा दसन्नं सञ्जा-

१ कालेन सो सम्मा - सी०। २ भग्गकण्डको - सी०, स्या०, रो०। ३ पटिविभजि-
स्या०, रो०। ४ सी० पोत्यके नत्थि। ५. सी० पोत्यके नत्थि।

भावनां दसन्नं कसिणसमापत्तीनां आनापानस्सतिसमाधिस्स' असुभ-
 समापत्तिया ति भगवा, भागी वा भगवा चतुन्नं सतिपट्टानानं चतुन्नं
 सम्मपधानानं चतुन्नं इद्धिपादान पञ्चन्नं इन्द्रियानं पञ्चन्नं बलानं R 510
 सत्तन्नं बोज्झङ्गानं अरियस्स अट्टङ्गिकस्स मग्गस्सा ति भगवा,
 भागी वा भगवा दसन्नं तथागतवलानं चतुन्नं वेसारज्जानं चतुन्नं 5
 पटिसम्भदानं छन्नं अभिञ्चानं' छन्नं बुद्धघम्मानं ति भगवा, B 410
 भगवा ति नेत नामं मातरा कतं न पितरा कतं न भ्रातरा कतं न
 भगिनिया कतं न मित्तामच्चेहि कतं न आतिसालोहितेहि कतं न
 समणब्राह्मणेहि कतं न देवताहि कतं, विमोक्खन्तिकमेतं बुद्धानं
 भगवन्तानं बोधिया मूले सह सट्ठञ्चुतत्राणस्स पटिलाभा सच्छिका 10
 पञ्चत्ति यदिदं भगवा ति—एकोदिभूतो विहने तमं सो इति
 भगवा । तेनाह भगवा—

“एतेसु धम्मेषु विनेय्य छन्द,

भिक्षु सतिमा' सुविमुत्तचित्तो ।

कालेन सो सम्मा धम्मं परिवीमंसमानो,

एकोदिभूतो विहने तमं सो' ति ॥ (इति भगवा)

15

सारिपुत्तसुत्तनिद्देशो सोळसमो ।

अट्टकवग्गमिह सोळस सुत्तनिद्देशा समत्ता ।

महानिद्देशपालि निद्रिता ।

— . ० . —

१ आनापानसति०—सी०, रो० । २ अभिञ्चानान—सी० । ३ सतीमा—स्या०,
 रो० ।

निवृत्तसपदानं
अनुवकमणिका

अ			
अकम्पियो	२११	अतिसित्वा अञ्जेन वदन्ति सुद्धिं	२७४
अकित्तयी	३०१	अतीतं नानुसोचति	१८६
— नो	२३६	अत्तगरही	४६
— विवटचक्खु	३०१	अत्तञ्जहो नयिव पकुञ्जमानो	७५
अकुक्कुचो	१८२	अत्तदण्डा भय जातं	३४५
अकुहको	१८८, ४०२	अत्ता	६९, २०८, २९९
अकुह गणिमागत	४०२	— निरस्ता न हि तस्स अत्थि	६९
अक्कोव्वो	१८०, ३६४	— वा निरस्ता वा न तस्मि उपपञ्जमति	२०८
— असन्तासी	१८०	अत्त पहाय अनुपावियानो	९०
— लोभपाप वेविच्छ वितरे मुनि	३६४, ३६५	अत्थि पञ्हेन आगमं	४०५
अक्खाय वादं परिसाय मज्जे	१४२	अय १२७, १४७, ३२१, ३३९, ४२९, ४४४	
अक्खेय्यं	१०६	— खो सो जरसा पि भिय्यति	१००
अगिद्धो	१७०	— वे सय वेदगू होति धोरो	२५२
अच्चन्तसुद्धो त्ति न ते वदन्ति	८२	— जीवितेन पञ्जाय सोल्लव्वतेन	
अजेगुच्छो	१९४	नाञ्जमतिमञ्जे	३३९, ३४०
अज्झत्तमेवुपसमे	२९८	— त्वं पवितक्कमागमा	१४७
अज्झत्तसान्तिं पत्थिन अदस्स	१५५	अथप्पिय वा पन अप्पिय वा अद्धा भवन्तो	
अज्झत्तं	२९३	अभिसम्भवेय्य	४२९, ४३०
— उपसन्तस्स	२९९	अथ वा पि दिट्ठं व सुत्तं मुत्त वा	२६६
अञ्जन्न सञ्जाय निच्चानि लोके	२४८	— — — वहिद्धा	२९७
अञ्जमञ्जेहिं व्यारुद्धे	३५१	— — — सर्माधि	३११
अञ्जेन सो सुज्झति सोपचीको	७१	— सत्यानि कुस्ते परवादेहि चोदितो	१२७
अञ्ज हतो याभिवदन्ति धम्म अपरद्धा		अथस्स सुद्धिं	२६२
सुद्धिमकेवली ते	२५३	अथापरानि अभिसम्भवेय्य परित्थसयानि	
— त पुच्छाम तदिद्धं ब्रूहि	२३६	कुसजानुपेसी	४२५
— विमानंति तदेव पावा	२५१	अथापर पञ्च रजानि लोके	४४४
अत्तरी सो विसत्तिक	२०७, २०८	अथासनेसु सयनेसु अण्यसहेसु भिक्खु	
अत्तिमाने च नो यूतो	१९६	विहरेय्य	३२१
— न तिहेय्य	३६६	अथेत्थ सत्तमह्वंक्ख	३५५
अत्तिमानो	२१५, ३६६, ४२९	अथो पसस पि लभन्ति तत्या	२५८
अत्तिसारविट्ठिया सो समतो	२५१	— पि वे सच्चमना वदन्ति	५२
		अदक्खि चै किं हि तुमस्स तेन	२७४
		अदस्सं	१५५

अविद्धिया अस्सुतिया अभाणा असीलता		अप्पसद्देसु भिक्खु विहरेय्य	३२१
अब्बता नो पि तेन	१५८, १६१	अप्पिया	११२, ४७०
अद्धा पीत्तिमनो हीति	४	अप्पं वत जीवित इद	९७
अधिवात्सेय्य	४२६	अप्पं हि एत न अल समाय	२५८
अघोसि सो दिद्धिमिधेव सच्च	६९	अयन्धनो	३७५
अनत्तगरही	२८२	अवला न वलीयन्ति	११
अतरियधम्मं कुसला तमाहु	५७	अब्बुत्तहसल्लो चरमप्पगतो	५०
अनानुगिद्धो	४५	अभिगज्जमेति पटिसूरभिच्छ	१४४
अनानुपुट्ठो व परेस पाव	५७	अग्निमू हि सो अनभिभूतो	३४३
अनिकेतचारी	४३३	अयच्छरी	२१०
अनिट्टट्टरी अननुगिद्धो अनेजो सुब्बधी समो	३८२	अयमो चरेय्य	४३
अनिस्साय	१५९	असायो रितापेसुणो	३६४
अनिस्सितो	१११, ३७३	अरतिं सहेथ सयनम्हि पन्ते	४३२
अनुगिज्झति	११	अलाभे च न कुप्पति	२००
अनुगीयन्ति	३६२	अवदानिया ते विसमे निविद्धा	३१
अनुग्गहाय	१५६	अविक्कयी अकुक्कुचो	१८२
अनुग्गहो उग्गहणन्ति मञ्जे	२८०	अविक्कहो च तप्पहाय रसेसु नानुगिज्झति	२०१
अनुद्धतो	१८४	अवीततप्पहासे भवानवेसु	४१, २६६
अनुपावियानो	९०	अवीतिवतो	८६
— लोकास्मि किञ्चि	२९१	अवीवदाता	६१
अनुपुच्छमानो	१६२	अस्ता च न सोचति	२११, ३७७
अनुसिक्खे	३४४	असन्तासी	१८१
अनुपनीतो स निवेसनेसु	१७३	असन्तोसु	२८०
अनुपयो सो उपय किमेय्य	२६०	असात	२२२
अनुपयं केन कथ वदेय्य	६८	असित	३९९
अनेजस्स	३००	असुट्ठि	२६४
— विजानतो	३८४	अस्मि	२९३
अनेजा सन्नवी समो	३८३	अस्स	१०
अनोको	४२६		
अन्तो	४४, ९१	आ	
अज्ञानमथो पानानं खादनीयानमगो पि वत्थान	३१७	आकास न सितो सिया	३७१
अज्ञान	३१७	आजवं भूमि जप्पन	३७१
अज्ञ च लद्धा वसन च काले	४३४	आतङ्कफस्सेन खुदाय फुट्ठो	४२६
अपाहृतास्मि पन मञ्जुः हीति	१३८	आथब्बण सुपिन लक्खण नी विद्धे अथो	
अपाहृत पञ्चविमसकासे	१३९	पि नक्कत्त ३२५, ३२६	
अपिहालु अमच्छरी	१९०	आदानगन्ध गथित विसज्ज	८२
अप्पमब्बो अजेगुच्छो	१९१	आदिच्चवन्धु	२८९
अप्पञ्चिद जीवितमाहु चीरा	३६, ३८	आदियतो च धम्म	६४
अप्पमत्तो	५०, ३४४	आयस्मा	११७, ३८७
— सदा नमस्समनुसिक्खे इति अगवा	३४४	आरम्माणं पक्कप्पन	५७

आसा च निद्रा च इतोनिदाना
— कुतोनिदाना
आस न कुञ्चन्ति कुहिञ्चि लोके

२२०, २२१
२१८
८३

उपनिस्सता २३८

उपयो ६७, ६८, १७३, २६०

— हि धम्मेषु उपेति वाद ६८

उपवादं भिक्खु न करेय्य कुहिञ्चि ३३०

उपसन्तो चरिस्ससि ३७६

— ति कुञ्चति १७५

उपेक्खको सदा सतो २०२, २०५

— सो २८०

उपेक्खती उग्गहणन्ति मञ्जे २७८

उपेक्खमारब्भ समाहिततो ४४०

उपेक्खा ४४०

उभोसु अन्तेसु विनेय्य छन्द ४४

उस्सदा ६०, ३००

१५६, १६० उस्सदं भिक्खू न करेय्य कुहिञ्चि ३००

— मे मनो अहु

२३५

इतिह ति सीलेसु अकल्पमानो

५९

इतो च नाहंनिख अणु पि सञ्ज

१६२

इतोनिदान

२३०

इदमेव सच्च ति च वादयन्ति

१४५, २५७

इद पटिकोसमेकवली सो

२४१

— वदामी ति न तस्स होति

१५३

इध २४, ९२, २६२, २७९

२७९

— तोसनत्थ

४३६

— पण्डितासे

२३७

इमेव सिक्खेम अथस्स सुद्धि

२६२

— सुद्धि इति वादयन्ति

१३४, २५४

इमे व कामे पुरिमे व जप्पं

३०

उ

उच्चावचेषु सयनेसु

४०७

उच्चावचं गच्छति सञ्जसत्तो

७७

उण्ह

४२६

उत्तारि क्रुस्ते

८६

उद

३८७

उदबिन्दु यथा पि पोक्खरे

११३

उदाह् अञ्ज पि वदन्ति एत्तो

२३७

— ते तक्कमनुस्सरन्ति

२४८

उदसप सुद्धिमनुत्थुनन्ति

२६६

उदस लोकस्मि विवादमेति

२५६

उपञ्चना म ति अनुत्थुनाति

१४०

ए

एकञ्चरिअ अधिट्ठितो १२८

— दब्बह कयिरा १३१

एको ३९६

एकोदि ४१८, ४४८

— निपको सतो ४१८

एकोदिभूतो विह्वे तम सो इति भगवा ४४८

एको पुब्बे चरित्वाण १२१

— व रतिमञ्जगा ३९६

एकं हि सच्च न दुतोपमत्थि २४६

एजानुगा ते न तरन्ति सङ्ग ७६

एतमादीनव अत्वा मुनि पुब्बापरे इध १३१

एते च अत्वा उपनिस्सिता २३८

— निस्सञ्ज अनुग्गाहाय १५८

— निस्साय विमानदस्सी २४९

— पि धम्मा द्वयमेव सन्ते २२६

— वित्तके परिदेवनेय्ये ४३३

— विवादा समणेषु जाता १४०

एतेसु उग्घातिनिघाति होति १४०

— धम्मेषु विनेय्य छन्द ४४६

एतं १२४, २२९, २३०, २३४, ३४२

— अरियानमुत्तम १३२

— च धम्ममञ्जाय ३४२

— तस्मि अनारिय १२१

— ते पद्भूमि इतोनिदानं २३०

एत पि दिस्वा अममो चरेय्य	४३
— — — न विवादयेय	१४३, २५९
— — — चिरमे कथोज्ज	१४१
— — — सिक्खेय मेथुन विष्पहातवे	१२४, १२५
— — विदित्वान पण्डितो	१०४
— मे पबूहि यतोनिदान	२२९
— — — यथा विभोति	२३४
एतावतग्ग नू वदन्ति हेके यक्खस्स सुद्धिं	
इध पण्डितासे	२३६
— पि वदन्ति हेके यक्खस्स सुद्धिं	
इध पण्डितासे	२३७
एत्थ	२५५
एलम्बुजं कण्डकवारिज यथा जलेन पक्केन चनूपलित्त	१७०
एवाभिजान परम ति अत्था	७०
एव	१०५, ११३, १७०, ३००
— त्तित्तो अनेजस्स	३००
— पि तित्थ्या पुथुसो वदन्ति	२५३, २५४
— — पिपायित्त जन	१०५
— — विग्गय्ह विवादयन्ति	२४१, २५४, २६९
— मुनि नोपलिम्पति यदिद दिट्ठसुत्त- मुत्तेसु वा	११३
— — सन्तिवादो अगिद्धो कामे च लोके च अनूपलित्तो	१७०
— वग्गुवदो सत्था	३८७
— समेतस्स विभोति रूप	२३५
एस ख्वस्स महारोगो	१२७
ओ	
ओक्खित्तचक्खु न च पादलोलो	४३८
ओधतिण्णस्स पिह्थयन्ति कामेसु गधिता पजा	१३३
ओर वस्ससत्ता पि मिथ्यति	१००
ओसाने त्वेव व्यारुद्धं	३५४
क	
कण्हस्स पक्खो ति विनोदयेय्य	४२८
कति परिस्सया लोके	४०८

कथोज्ज	१३६, १४१
कथकथी ग्राणपथाय सिक्खे	२२६, २२७
कथदस्सी कथसीलो उपसन्तो ति वुच्चति	१७५
कथ दिस्वा निव्वति सिक्खु	२९१
— नु धीरेहि पवेदित्तं	१५६
— विग्गाहिक न कथयेय्य	३३७, ३३८
— समेतस्स विभोति रूप	२३४
कथसीलो	१७५
कपी व साख पमुञ्च गहाय	७६
कप्पा ८१, ८२, ९३, ९४, २११, २७७, २८५	
कप्प नेति अकप्पियो	२११
कमेत्थ वालो ति पर द्दहेय्य	२५५
कम्मविवाधयित्वा	२६३
कम्मारो रजतस्सेध निद्धमे मलमततो	४१९
कम्म च सावज्जनवज्जमेत	२६४
कयविककये न तिट्ठय्य	३२९, ३३०
कलहो	२१३
कल्याणपीति	४३१
कत्था न एक समथा वदन्ति	२४५
— नू सच्चानि वदन्ति नाना	२४७
कस्सच्चि	३८७
कानि सीलव्वतानासु	४१६
कामपङ्को कुरच्छयो	३७२
कामयानस्स	४, ५
कामा ३, ६, १७, २४, ३०, १३३, १७१, २०७, ३६३, ३७४	
कामानि परिवज्जये	१७
कामा हि लोके न हि सुप्पहाय	२४, २५
कामे च लोके च अनूपलित्तो	१७१
— परिवज्जेति	६
कामेसु अनपेक्खित्तो	१३३, २०७
— गिद्धा पसुता पमूळ्हा	३०
काम कामयमानस्स	३
— बहू पस्सतु अप्पक वा	२७५
कालेन सो सम्मा वम्म परिवीमसमानो	४४७
किञ्चि	२९१, ३१४
किन्तयिस्सामि	३४९
किमेविध मुत्तकरीसपुण्ण पादा पि न सम्फुसित्त न डच्छे	१५२
किवन्तो तत्थ भेरवा	४०८

किस्मि असन्ते न भवन्ति हेते	२२८
— — — ममत्तमत्वि	२३१
— विभूतेन फुसन्ति फस्ता	२३१
किसू असिस्स कुव वा असिस्स	४३२
— भविस्साम इतो चुतासे	३२
कि हि तुमस्स तेन	२७४
कुक्कुच्च	१८२, ३१९, ४४१
कुतोपहूता कलहा विवादो	२१३, २१४
— ते तदिह्व ब्रूहि	२१५
कुव वा असिस्स	४३२
कुसला	५७, ६०, ८८, १४३, २४०, २७५
कुसलानुएसी	४२५
कुसलावदाना	१३७, २३८, २४८, २६२
कुहिञ्चिन्	५३, ६०, ६६, ८३, ३००, ३१५
केनीध लोकरिम्म विकप्पयेय्य	८१, ९३
कोघातिमानस्स वस न गच्छे	४२९
कोघो	२२१, २२४, ३२८, ४२९
कोघो भोसवज्ज च कक्कया च	२२१, २२४
क सो सिक्खं समादाय	४१८
क्यास्स व्यप्पययो अस्सु	४१३
क्यास्सस्सु इध भोचरा	४१३
ख	
खिड्ढा	३२३
खेत्त	१०, २०८
— वल्लु हिरञ्ज वा	१०
खेमदस्सिनो	१०८
खेमाभिपस्स अविवाद्दभूमि	२५९
खेम पस्सति सव्वघी	३८५
ग	
गच्छतो अगत विसं	४१२
गणिमागत	४०५
गणी	३८८, ४०५
गन्था	८२, २०७, २७९
— तस्स न विज्जन्ति	२०७
गवास्स दासपोरिस्स	१०
गवं	१०
गामकयाय आवरये सोत्त	३१३
गामे च नाभिसज्जेय्य	३३१

येधं ब्रूमि महोवो	३७१
गोतम	१७६
च	
चक्खुमा	३९०
चक्खुहि नेव लोलस्स	३११, ३१३
चतुप्पदानं	४२४
चतुरो सहेय परिदेवधम्मो	४३२
चरतो	१३३
चरन्ति	१४६
चरन्त	८१
चर	५०
चुत्तपपातो इध यस्स नत्थि	२६७
चुदितो वचीमि सतिमाभिनन्दे	४४२
छ	
छन्दजातस्स जन्तुनो	५
छन्दानिदानानि पियानि लोके	२१९, २२०
छन्दानुनीतो रुचिया निविट्ठो	५४
छन्दो	५, ४४, २१९
— नु लोकरिम्म कुतोनिदानो	२२१
छिन्नसोतो अवन्चनं	३७५
ज	
जनवादवम्मयाय न चेतयेय्य	४४४
जना	१०१, ३४९, ४४४
जनं पस्सथ मेघग	३४९
जन्तु	५ १७, ७७, ८६, १०६, २२४
जप्पित्तानि	२६७
जागरियं भजेय्य आतापी	३२२
जानामि पस्सामि तथेव एत	२७३
जीवितं	३६, ९७
झ	
झानानुमुत्तो बहुजागरस्स	४४०
झायी न पादलोलस्स	३१८
ञ	
ञत्था	८४, १३१, २०६, २२७, २७८, ३७३
— च सो सम्मुत्तियो पुयुज्जा	२७८
— धम्म अनिस्सितो	२०६, ३७३
— पवुत्ता समणेन धम्मा	२२७

अत्वा मुनी निस्सये सो वीमसी	२३८
— विमुत्तो न विवादेति	२३८
भाणेन पि सो निस्सय नो करोति	९०
— वा सो पज्जाति दुक्ख	७१
भाण	७०
ठ	
ठितो	३००
ड	
डसाधिपातान सरीसपान	४२४
त	
तक्का	४४१
तक्कासय कुक्कच्चञ्चुपच्छन्दे	४४१, ४४२
तक्क च दिट्ठीसु पकप्पयित्वा सच्चं मुसा ति	
द्वयधम्ममाहु	२४९
तण्हगत	४०
तण्हा	४०, ४१, २०१, २०६, २६६, २९३
ततो न दुक्खमन्वेति	१५
तत्थ	१४२, २७७
— सिक्खा नु गीयन्ति यानि लोके गधितानि	३६२
— वदान	७१
तथाविधो	२४, १२६
तथेव एत	२७३
तदिह्व दूहि	२३६
तदेव पावा	२५१
— सो तत्थ समुग्गहाय	८८
तन्दि	३२३, ३६५
तन्दि माय हस्सं विह्वं भेयुन विप्पज्जे	
सविभूसं	३२३, ३२४
तमरियधम्म कुसला वदन्ति	६०
तमानिसस पबूमि पुच्छितो अबिकम्पिन	३८३
तमाहु अञ्जे पि सुच्छ मुसा ति	२४५
सम्पनिस्साय जिम्पुच्छितं वा	२६६
— पहोति छन्दो	२२२
तथेव दस्सि विषट् चरन्त	८१
— सल्लमञ्जुह्व न धावति न सीवति	३६१
— हीन ति पनाहु अञ्जे	२६८
तसा	४२७

तस्मा	१७, ३३, ५३, ६३, ८६, १०८, १६३,
	२१०, २४७, २७३, ३४४
— जन्तु सदा सतो	१७
— तुव भोमुहुतो बहासि	१६३
— न एक समथा वदन्ति	२४७
— नरो तेसु निवेसनेसु	६३
— भुनयो परिग्गह्व हित्वा अचरिसु	
क्षेमवस्सिनो	१०८
— भुनो नत्थि खिलो कुहिन्नि	५३
— वादेसु नेजति	२१०
— विवादानि अबीतिवतो	८६
— — उपातिवत्तो	२७३
— हि तस्स भगवतो सासने	३४४
— हि दिट्ठं व सुतं मृतं वा सीलव्वत	
भिनन्तु न निस्सयेय्य	८९
— हि वालो ति पर दहन्ति	२४४
— हि सिक्खेय इधेव जन्तु	३३
तस्सि परिदेवमच्छर पण्णे वारि यथा न लिम्पति	११२
तस्स	८४, ८५, ९२, ९३, १७८, २०५, २०७, २०८, २१०
— वे कामयानस्स	५
— त समिञ्जाति	४
— नत्थि पुरक्खत	१७८
— नो सन्ति उस्सवा	२०५
— भगवतो सासने	३४४
तस्सीध विट्ठे व सुते मुते वा पकप्पिता नत्थि	
अणू पि सञ्जा	९३
— नत्थ परमुग्गहीतं	८५
सावी	९६, ४००
सास विनया सदा सतो सिक्खे	२९४, २९५
तिक्किञ्जा	३२६
तिट्ठं नरो भोहनस्सि पगाळ्हो	२१
तिस्सो	११७
तीसु विवासु अबिकम्पयानो समो विसेसी ति न	
तस्स होति	१६३
तुमो सहा होति निहीनपञ्जो	२५२
तुसिता गधिमागतो	३८८
ते	१७
— उग्गहायन्ति निरस्सजन्ति	७६
— कामा परिहायन्ति	५

ते त्वं बद्धम् न हि तेष अस्थि वादस्मि जाते	
पटिमेनिकता	१४५
— बुष्पमुञ्चाना न हि अञ्जमोक्षाना	२६
— न हि सरन्ति सङ्ग	७६
तेनातुपाना कुसलो ति चाह	२५०
ते पहाय तरे ओर्धं	१७
— बादकामा परिस विगृह	१३६
— विसमे निविट्टा	३२
— वे मुनी वृत्ति अनुगहाय अञ्जतसन्ती ति	
यमेतमत्य	१५६
तेसु त्व कि लभेय पसूर	१४७
— निवेसनेसु	६३
तेस	९५
— न कोचि परिहीनपञ्जो	२४३
— पनेके समय वदन्ति अनुपादिसेते कुसला	
वदाना	२३८
त	१०३, ४२२
— जानियामा ति मे मनो अह	२३४
— तस्स अपुरक्खत	२१०
— ते पवक्खामि यथा पजान	४२२
— निस्सितो कुष्पपटिच्चसन्ति	६२
— बुद्ध असित तादि	३९८
— ब्राह्मण दिट्ठिमनादियान	९३
— वूमि लपसन्तो	२०७
— मे गोतम पबूहि	१७६
— वा पि गन्ध कुसला वदन्ति	८८
थ	
थले तिट्ठति ब्राह्मणो	३७२
थावर	४२८
थियो बन्धु पुषु कामे	११
थीन	३६५
थेय्य न कारे न मुसा भण्ठेय्य	४२७
द	
दण्डा	३४५
दासा	१०
दिट्ठा पि सुत्ता पि ते जना	१०६
दिट्ठिया एके पञ्चेन्ति सुद्धि	१६१, २७३
दिट्ठि च निस्सायनुपुञ्जमानो	१६२
म०नि०-५८	

दिट्ठि पि लोकास्मि न कप्पयेय्य भाणेन वा सील-	
वतेन वा पि	८९
— पि सो न पञ्चेति किञ्चि	९१
दिट्ठिनिवेसान न हि स्वातिवत्ता	६३
दिट्ठिसु च न नीयति	१८७
दिट्ठि हि तेस पि तथा समत्ता	२४३
— दिट्ठि अविरुज्जमाना	१४७
— न पाव तथा वदान	७१
— सा तस्स तथा समत्ता	२५२
दिट्ठे वे सुद्धि नरस्स होति	७१
— समुद्धि - -	७०
दिट्ठे सुते खन्तिमकुब्बमानो	२६०
— - सीलवते मुते वा	७३
— - - - एते च निस्साय	
विमानदस्ती	२४९
दिसा मग्गा समेरिता	३५३
दिसवा	८४, २७५, ३५१, ३५४
दिसवान तण्ह अररति एग च नाहोसि छन्दो	
अपि मेयुनस्मि	१५२
— वा भायति तानिभेव	२७५
दिसवा मे अरती अह	३५४
— म भयमाविसि	३५१
दुक्खूपनीता परिदेवयन्ति	३२
दुक्ख वत सेत्य कुवञ्ज सेस्म	४३२
दुहस हययस्सित	३५५
दुवे विवादस्स फलानि वूमि	२५९
दूरे विवेका हि	२४
— — तथाविधो सो	२३
ध	
धम्मा	६१
— पि तेस न पटिच्छितासे	९५
धम्मेषु	६३, ९२, १५३, २७२
— च न गच्छति	२१२
— निच्छेय्य समुगाहीत	६३, ९२, १५३, २७२
धीरो	४७, १५६, २३९, २८१, ४२२
धौनस्स हि नत्थि कुहिञ्चि लोके पकप्पिता	
दिट्ठिमवामेषु	६४, ६६
नेन युग धोसमागमा न हि त्व सक्खसि सम्पयातवे	१४८
धीनो	६४, ११४

धोनो न हि तेन मञ्जति यदिव विद्वसुत-	
मुतेसु वा	११४, ११५
न	
न	७२, ९५, १७२, २०८, १७२, २७७, ३८७
— अञ्जतो भिक्षु सन्तिमेसेय्य	२९८
— उञ्जावच गच्छति भूरिपञ्चो	७९
— उन्नमेय्य पससितो भिक्षु	३२८
— उस्सेसु वदते मुनि न समेषु न ओमेषु	२११
— कप्पयन्ति न पुरेकखरोन्ति	८२, ९४
— कप्पियो नूपरतो न पत्थियो ति भगवा	२८५
— कम्मुना नो पि सुतेन नेय्यो	१७३
— कोचि धम्मेषु चित्थेति अस्स	२७०
— बालो समणेषु अत्थो	२५३
— च कत्थिको सिया भिक्षु	३३३
— — परित्तसे तानि अलममानो	३१७
— — पादलोलो	४३९, ४४०
— — मयायेथ किञ्चि लोकस्मि	३१४
— — वाच पयुत्त मासेय्य	३३३, ३३४
— छन्दगू नो पि निविस्सवादी	२८१
— तस्स पुत्ता पसवो खेतं बल्लु च विज्जति	२०८
— — हेतु विसम चरेय्य	३५
— — होति	१५३, १६४
— तानि उग्गच्छ वदेय्य नागो	१६९, १७०
— तेन थाम कुञ्जेय	२९७
— — सेट्ठो मञ्जेय	१३२
— तेसु पसुतो सिया	३६३
नत्थि अत्ता कुतो निरत्ता वा	२९९
— काचि निसङ्गति	३८४
— मे ति न सोचति	३८२
न विट्ठिया	१७२
— — न सुत्तिया न भाणेन	१५७
— विट्ठिसारी न पि काणवन्धु	२७८
— निरस्सति	३८६
— निसेवेथ मेथुन	१३२
— पञ्चेति	९६
— पट्टिच्छितासे	९५
— पत्थियो	२८६
— पादलोलस्स	३१८, ३१९
— पि माणवन्धु	२७८

न पिय कुञ्जति नो पि अधिय	१११, ११२
— पिहेतोथ कस्सचि	३७४
— पुरेकखरोन्ति	८२, ९५
नय्यमञ्जेय्य	३२१, ३४३
न ब्राह्मणस्स परनेय्यमत्थि	२७२
— ब्राह्मणो अञ्जतो सुद्धिमाहू विट्ठे सुते	
सीलवते मुते वा	७२, ७५
— — कप्पमुपेति चङ्खा	२७७
— — सीलवतेन नेय्यो	९५
— मयत्ताय नयेथ मापको	१०४
नमस्स	३४४
न मुत्तिया	१७२
— मूसा भण्णेय्य	४२७
— मे विट्ठो इतो पुञ्जे	३८६
— मेवग कुञ्जति जत्तु लोके	२५६
नयिथ पकुब्बमानो	७५
न रागरागी न विरागरतो	८४
नरो	११, ६३
न लिप्पति लोके अनत्तराट्ठो	२८१
— — विट्ठसुत्तेसु वीरो	४७
— लोके मञ्जते सम	२०५
— वाहमेत ताथिय ति भूमि	२४४
— विवादमेति	२३९
— विवादयेथ	१४३, २५९
— चित्थेसी न तीचेय्यो	२०५
नवे अकुञ्ज	२८०
— खन्ति न कुञ्जे	३७०
— वेवगू विट्ठिया न मुत्तिया स मानमेति	१७२
— सञ्जसञ्जी न विसञ्जसञ्जी	२३५
— सद्धो न विरज्जति	१९७, १९९
— समेषु न ओमेषु न उस्सेसु वदते मुनि	३८५
— सिक्खेय्य	३३७
— सीवति	३६२
— सुतो उव कस्सचि	३८७
— सो सोचति नाञ्जेति	३७५
— हञ्जदत्थत्थि पससलाना	१४१
— हि अञ्जबोक्खा	२७
— — तम्मयो सी	१७३
— — तेन सुद्धि कुसला वदन्ति	१४३, २७५
— — सन्ति निम्मा परिग्हा	१०२

न हि सन्तो पटिसेनि करोन्ति	३४१	नीचेव्यो अथ वा पि सरिक्को	२९८
— — सा निम्बुति सत वृत्ता	२९७	नूपरतो	२८५
— — सुक्विनायो	२७६	नो चे किर दिट्ठिया न सुतिया न ब्राणेन	१६०
— — सेट्ठतो पस्सति धम्ममञ्ज	२७३	— पि असञ्जी न विभूतसञ्जी	२३५
— — सो रज्जति नो विरज्जति	११६	— — निविस्सवादी	२८१
— हेव सच्चानि बहूनि नाना	२४८	— — सुतेन नेव्यो	१७३
नागारभावसे	१०२		
नागो	१६९		
नाज्जेति	३७५		
नाज्जेन विसुद्धिमिच्छति	११५		
नाज्जेसु धम्मेषु विसुद्धिमाहु	१३५, २५४		
नातिवेळ	४४३		
नातुमान विकप्पय तिट्ठे	२९८		
नादेति न निरस्सति इति भगवा	३८६		
नाहसांसि अनोसित	३५४		
नाना ते सच्चानि सय धुनन्ति	२४६		
नामं	१०६, ३७७		
— च रूपं च पटिच्च फस्सो	२३१		
नामयेवावसिस्सति अक्खेय्य	१०६		
नाव भिन्नमिवादक	१६		
— सित्वा व पारणू	१८		
नासीसति लोकमिम पर च	५१		
निग्घोसे सयनासने	४०८		
निच्छेय्य	६३, ९२, १५३, २७२		
निट्ठा	३६५		
निट्ठ तन्दि सहे धीन	३६५		
— न बहुलीकरेय्य	३२२		
निन्दाय नप्पवेधेय्य	३२८		
— सो कुप्पति रन्वमेसी	१३८		
निपको	४१८		
निब्बानमत्तनो	३६३		
निब्बानमनसो नरो	३६६		
निव्विज्ज सव्वसो कामे	३६३		
निरस्ता	६९, २०८, २९९		
निरस्सती आदियती च धम्म	६४		
निरासत्ति अनागते	१८५		
निहीगतो पस्सति सव्वमञ्ज	८८		
— सन्दि दळ्ह वडाना	२७०		
निविस्सवादी न हि सुक्विनायो	२७६		
निवेसना तस्म न सन्ति केचि	९२		
		प	
		पकप्पना	६१, २६७
		पकापिता दिट्ठिपुरेक्खरानो	२७६
		— सङ्गता यस्स धम्मा	६१
		पकाप्पित	६६, १५६
		पचिन	१५५
		पञ्चेकसञ्चेसु पुण्ण निविट्ठा	१३५
		पच्छा ते माहु किञ्चनं	३७६
		— पुरे वा पि अपेक्खमाना	२८
		पजप्पती	२६३
		— पत्थयती च सुद्धि	२६३
		पजा	४०, १३३, २४६, ३४९
		पज इमं तण्हगत भवेसु	४०
		पञ्चस्र धीरो भयानं न भाये	४२२
		पञ्च रजानि	४४४
		पञ्जा	४३०
		पञ्जाविमुत्तस्स न सन्ति भोहा	१७४
		पञ्ज पुरक्खत्वा	४३१
		— — कन्याणपीति	४३०
		पटिपद वदेहि भद्दन्ते	३१०
		पटिवुद्धो पुरिसो न पस्सति	१०५
		पटिभानवा	१९६
		पथित्तो ति समञ्जातो	१२८
		पण्णे वारि यथा न लिम्पति	११२
		पतिलीनचरस्स भिक्खुनो	१०९
		पतिलीनो	१८७
		— अकुहको	१८७
		पत्थयती च सुद्धि	२६३
		पत्थयमानस्स	२६७
		— हि जप्पितानि	२६७
		पट्टमे वारि यथा न लिम्पति	११३
		पन्तन्दि सयनासने	४१२
		पण्ण्य तमत्थं यथा मनो अहु	१४२

पद्मि	०३०	पसंसमिच्छं विनिवाति होनि	१३७
पद्महि	१७६, २०९	पममितो वा पव तव्य होनि	१४०
पमादेन न मंवे	३६५, ३६६	पस्सति हीनमरुज	८८
परबम्मिकाल पि न मन्मयेव्य विम्वा पि नेसं		पन्तामि	३९, २७३
	वट्टभेरवानि	— लोके परिफण्डमान	३९
परसं अगेण	७०	— मुद्र	३०
— ति दिट्ठीमु परिक्वमाने	८५	— - परम अगेण	३०
परबादेहि बोदिनी	१२७	पम्प च दिट्ठीसु अनूमाहम्य	१५३
परम्म वे धम्मममानुजानं	२४०	पस्सं नरो वक्खति नामरुज	२७५
— - वम्मयितेन हीनो	२७०	पहम्ममानो	२५०
— - हि वचसा निहीनो	२५०	पहित्तस्स	४१७
परिमहा चा पि कृनोपहृता	२३१	— भिक्खूनो	८१३
परिमहेसु मुनि नोपलिनो	४९	पहीयति	१०३
परिमहो	४९, १०८, २३२	पागम्मिय	३३४
परिदेवति	१३९	— न मिक्खेय्य	३३४
— बोचति हानवावो	१३९	पातिभोक्खं	३३१
परिदेवनेय्ये	४३३	— अथ वा पि समारि	३११
परिदेवयन्ति	३२	यारण	१८
परिदेवभोका सहमच्छरा च	२१४	यारङ्गतो न पच्छेति तादी	९५
परिदेवो	१०७, ११०, २१४	पाव	५७
परिदेवं भिक्खुं न करेय्य कुह्मिच्च	३१५	पियञ्जना कण्हा विवादा परिदेवभोजा	
परिपुण्णमानो	२५२		वह्मच्छरा च २१६
परिफण्डमान	३९	पिया	१११, २२०, ४३०
परिसं विगम्ह	१३६	पियापित्तं जन	१०५
परिस्सविनयं	३०३, ३१०	पिया मु लोकास्सि कुनोविदाना	२१८
परिस्सया	१३ ३०७, ४०८, ४०९, ४२५, ४३१	पीति	४
परेसं	५७, १२६	पीतिपनो होति	२८३
पवक्खामि	४२२	पुच्छा	२८१
पवादियामे	२४७	पुच्छामि नं	२८१
— कुसलावदाना	२४७	— - खादिक्खवन्नु	१७६
पवित्तकभागमा	१४७	पुच्छिनो	१७६
पवुच्चति	१०६	— उत्तमं नर	७५
पवेदित	१५६	पुज्जं च पाये च अनूपलित्तो	२०८
पवेवति	२६३	पुत्ता	११
— कम्मञ्जिरावयिन्वा	२६३	पुयु कामे	१०३, २०६, ३४०
पवेधितं वा पि पकप्पित्तमु	२६७	पुयुञ्जना	२६०, २७८
पमूना	३०	पुयुञ्जा	२७०
पससकामा	१३७	पुयु हि अज्जस्स वदन्ति धम्म निहीलतो	१७७
— कुसलावदाना	१३७	पुव्वभन्तमणिसित्तो	२८१
पमसमिच्छं	१३७	पुव्वान्नेव हिन्वा नवे अकुञ्च	

पुञ्जैव नत्वि यदिद युषाय	१४४
पुरकक्षता	६१
— सन्ति अवीवदाता	६१
पुराण नाभिनन्द्य	३७०
पुरिमे व जाप	३०
पुरिमे पहाय अपर मिनासे	७६
पुरिसो	११, १०४
पुरेकसारा	८२, ९५, १७८
पेतन्स	१०६
— जन्तुनो	१०६
पेत कालङ्कृत न पस्मनि	१०५
पैसुञ्ज	२१५, २१७, ३२९
पैसुणेभ्ये च नो युतो	१९५

फ

फन्दमान पज दिस्वा	३४९
फरुनेन	३४१
— ने न पटिवज्जा	३४१
फस्सनिदान सात् असान	२२९
फस्से असान्ते न भवन्ति हेते	२३०
फस्सेन यदा फुट्टस्स	३१५
फल्पो	४४, ३१५
— नु लोकास्मि कुतोनिदानो	२३०
फम्स परिञ्जाय	४५
— — अनानुगिद्धो	४४
फुट्ठो अनेकरूपेहि	२९८

ब

बद्धान	४०५
बहुजागरस्स	४४०
बहुधा	४२६
बहुनाभिच्छन्नो	२१
बहूनमिष बद्धान	४०५
बालो परो अक्कुसलो ति चाहु	२४१, २५०
बालोमको ह्येति निहीनपञ्चो	२४२
बाल दहन्ती मिथु अञ्जमञ्ज	१३६
बुद्धो	३९८, ३९९
ब्याकद्धे	३५४
ब्राह्मणो ७२, ८४, ९३, ९५, १६४, २०९, २७२, २७७.	

भ

भगवा	११९, १५३, १६२, १७६, २८६, २९२, ३४४, ३८६
भजतो रित्तमामन	४०७
भजमानस्स विवित्तमामन	१०९
भय	३४५
भवन्	११०
भनसातवद्वा	२६
भवाभवाय	९१, २३९
— न समेति वीरो	२३९
भवामवेसु	४१, ६६, २६६
भवाय	२०६
— विभवाय वा तण्हा यस्स न विज्जनि	२०६
भवूपनीता	२६२
— कुमलावटाना	२६२
भवेसु	४३
— आसत्तिमकुञ्जमानो	४३, ४४
भव च नाभिजप्येय	३१६
— न जप्ये	१६०
भारा	२८३
भिकखु	५९, ४२२, ४४६
भिकखुनो	१०९, ४०६, ४१८
— विज्जिमुञ्छतो	४०६
भिकखु सतिमा मुविमुनच्चिनो	४४६
— सतो सपरियन्तचारी	४२२
भूरिपञ्चो	७९
भेरवा	३१६, ४०८
भेरवेसु च न सगपेवेय्य	३१६

म

मच्चुमुखं लपन्ति	४१
मच्चो	४
मच्छरिय	१०७, ११२, ३२८
मच्छर	२१४
मच्छं अप्पोदके यथा	३५१
मच्छेरपुत्ता कलहा विवावा	२१७
मच्छं व अप्पोदके खीणपोते	४३
मज्झं चे नो गहेस्ससि	३७६
— यथा समुहस्स अमि नो जायती कित्तो ह्येति	२९९

मञ्जामहं भोगुन्नेव धम्म	१६१
मत्तं स जञ्जा उच तोमनत्थं	४३५
मदन्ते न परिम्यया	१०, १५
मनगा दिङ्गिमानि चिन्तयन्तो	१४८
मग्गो	४०८
मनुमग्गम्म्यान चतुपज्जन	४०४
मत्तो	४
मन्नाभाषी अनुत्ततो	१८४
मन्ना जग्गी ति भव्वमुपारग्गे	०९३
मग्गो ध परिदिङ्ग्याति	१०९
ममना ४० ४३, १०१, १०४, १०७	२३०
	३१६, ३८०
ममत्तं नो धम्मचिन्द	३८२
ममायित्ते पम्मथ फग्गमाने	४२
ममायिन	३७७
ममिद नि मञ्जनि	१०८
मग्गेन पि न पग्गोयनि	१०३
मग्ग	१०३
मग्गि	२००
मानण्णियो १५३, १५६, १५७, १६०, १६२	१६२
मानात्तिमाना मग्गेमुग्गा च	०१५, ०१७
मानात्तिमान धग्गे पग्गेनो	१४३
मानेन मत्तो पग्गिपुग्गमानो	०५२
मानो	६६, ०१५, ३६८
मान च परिज्जानेय	३६८, ३६९
मानवो	१०४, ३०६
माय च मान च पत्ताय धोनों	६६ ६७
मारिन्	११७
मिच्छा च पटिपज्जति	१२१
मियु	१३६
मुनि ५२, १०८, १११, ११३, १३१, १३३, १५६, १७०, २११, ०७९, २८४, ३६५, ३७२, ३८५	
— नो उपेति	५२
मुसा ति वा सो विवग्गेथ केन	१६४
मुसस्ते वा पि भासन	१२०
मूळं पपञ्चमग्गुत्ताय (इति भग्वा) मन्ता अम्मो	
ति सव्वमुपसन्धे	२९२, २९३
— पि त्तं पल्लवञ्ज निद्धे	४९
ये अरसी	३५४

मेत्ता	४२७
मेत्ताय फस्से समवावरानि	४२७, ४२८
मेत्तेय्यो	११७, ११९
मेथुनमनुपुत्तस्म	११६, ११७, ११९
मेयुनं यो निमेवति	१२२
मे पक्कहि	०३४
मोत्तवग्गे न निय्येय	३३८, ३६७
मोमवज्ज पगाह्वति	१२७, १२८
मोहनन्मि पगाह्वो	२२, २३

य

यक्खस्म	२३७
यत्तारि पाभे	४३७
यतोनिदान	२२९
यया दिम्मनि	३८९
यथानुधम्म	४२१
यया पज्जान	४२२
— पणसन्ति मकायवानि	२७१
— मनो अह	१४२
— विभोति	२३४
— सविजितं मया	३४९
— हि खानेय्य त्था वदेय्य	५५
यदत्तगरह्णी गदकुच्चमानो	४६
यदत्तनि पत्तसति आनिमसं	६१
यदननो पत्तसति आनिमस दिद्धे सुते सीलवते	
युते वा	८७
यदा	४२८
यदाविलत्तो मननो विजञ्जा	४२८
यदिच्छति	५
यदिद फासु	४२०
— युवाय	१४४
यदुत्तरि कुरते जन्तु लोके	८६
यद	४६
यद	१३८
यमस्स वाद परिहीनमाहु	१३८
यमाहु धम्म परम ति एके	२६८
— वाला मियु अञ्जमब्ब	२४४
— लोके	०२२
— सच्च तयिय ति एके	२४५
यमेतमत्य	१५६, २२९, २३०
यसो किरिंति च या पुब्बे हायते वा पि तस्स सा	१२३

धम्मि	१६४, २४६
— पजा नो विवदे पजान	२४६
— सम विसम वा पि नत्थि	१६४
यस्स	६०, ६१, ९१, २०५, २०६, २११, २६७, ३७७, ३७९
— नत्थि इव मे ति परेस वा पि किञ्चन	३७९
— निस्सयता नत्थि	२०५
— लोके मक नत्थि	२११
मस्सुस्सदा नत्थि कुह्निञ्चि लोके	६०
मस्सुभयन्ते पणिधीघ नत्थि भवामवाय इव वा हुर वा	९१, ९२
या उन्नती सास्स विघातभूमि	१४३
या काचि तण्हा अज्झत्त	२९३
— काचिमा सम्भुतियो पुबुज्जा	२६०
यान भन्त व त लोके	१२२
युत्तो कवाय परिसाय मज्जे	१३७
ये	१४६, ४१२
— केचिमे दिट्ठिपरिष्वसाना	२५७
ये वा पि	२१८, २२०, २२२
— — — वम्मा समणेन वृत्ता	२२२
— — — ओमा विचरन्ति लोके	२१८, २२०
— विट्ठिमुग्गह्द विवादयन्ति	१४५
येन न वज्जू पुबुज्जना अथो समणत्ताहाणा	२०९
— सल्लेन ओतिण्णो दिमा सब्बा विवावति	३५५, ३५७
येनेव वाळो ति पर दह्हाति	२५०
— सो तेन पलेहि सूर	१४४
ये भिक्खु अनिसम्भवे	४१२
— सम्परयाय नरस्स होन्ति	२१९, २२१
येसीघ नत्थि परमुग्गहीत	१४७
येस नाममिद पबुञ्चति	१०६
— सत्तीमा विनयाय सिक्खे	४४५
येहि भिक्खु न वेधेय्य	४०८
— विवित्तो विचरेय्य लोके	१६९
यो	६, ११, ५५, ३७४
— अत्तानो सीलवसानि जन्तु	५५
— आनुमान सयमेव पाव	५८
— एव जानाति स वैदि धम्म	२४०
— कामे परिवज्जेति	१
— वे पि अतिञ्च जीवति	१००

योव कामे अञ्चतरि सज्ज लोके दुरञ्चय	३७४
यो नरो अनुगिज्जति	११
य	१०४
— किञ्चि जञ्जा विसम ति लोके	३५
— — धम्ममभिजञ्जा अज्जत्त	२९६
— त अपुच्छिम्ह अकित्तयी नो	२३६
— निस्सिता तत्थ सुभ वदाना	१३५
— निस्सितो तत्थ मुभ वदानो	२७६
— — पस्सति हीनमञ्ज	८८
— पुब्बे त विसोसिहि	३७६
— पुरिसो भमिद' ति मज्जति	१०४

र

रतिमज्जगा	३९८
रति	३९८
रत्थमेसी	१३८
रसे च नानुगिज्जेय्य	३१३
रसो	२०१
राजखावाय पुट्ठो	१४४
रित्तपेसुणो	३६४
रित्तस्स मुनिनो चरतो	१३३
रित्तामन सयन सेवते वे	४२१
रक्खमूल सुसान व	४०७
रचिया निदिट्ठो	५४
रसितो	३४०
— पि वाच फस न वज्जा	४३७
रूपे विभूने न फुसति फत्सा	२३३, २३४
रूपेसु दिस्वा विभव भव च	२२३
— सहेसु अथो रसेसु शन्वसु फत्सेसु सहेय राग	४४५
रूपे स्नेह न कुच्चये	३६८
रूप	२२३, ३६८, ३७७

ल

लब्धा	४, ३१७
— न सत्तिधि कथिरा	३१७
— मच्चो यद्विच्छति	४
लाभकम्या जन न लपयेय्य	३३१, ३३२
— न सिक्खति अलाभे च न कुप्पति	१९९
लेपा	५०, ११३, १७१, २८१

लोफास्या	८१, ८९, ९४	३१४
लोकिक मक नरिष		३११
लोको	९, २५, ३९, ६०, ६६, ८३, ८६, १६३, १७१, १७५, २१८, २२०, २२१, ३५८	३६३, ३७५, ४४७
लोगा	२२०, ३२८	३६५
लोभ महामच्छरिणेन नोप पैमुणिय व पनुदेव्य	३०८,	३०९

व

वन ममादाय उगटिताने		२६०
वन्	१०, २०८,	३१७
वदन्ति ने अज्जनिता कयोञ्ज		१३६
— ने तुटुमता पि लोके		५०
वात् पमुञ्चं तु सल नानियेत्		४४३
वादभिन्ना मोने पटिमेनिवत्ता		१४५
वाट व जानं मुनि मो उपेति		५०
विग्गमभये मानि परिस्सयाणि		४३१
विग्गह् नाना कुमत्ता वदन्ति		२६०
विघानं ब्रुहि माग्गि		११७
विचरन्ति	२१८, २२०	
विचरेव्य		१६९
विचिन् भिक्खु मदा मनो मिकेने		२४०
विज्ञानतो		३८६
विज्जिमुच्छने		६०६
विज्जिमुच्छमानम्म यदिद प्पामु		६००
विनरेव्य ओण		४८
विट्ठा	५८, ३७३	
— च वेदेहि नमेच्च वम्म		७८
विनयेथ मेत्तो अनिचिन्नायी		६३३
विनाभाव मम्ममिवाद		१०९
विनिघानि		१३७
विनिच्छया वा पि बुत्तोपहूना		२०१
— याणि पकप्पितानि		१५६
विनिच्छये उत्त्वा पहस्समालो		२४९
— — मय पयाय		२५६
विनिच्छय कुञ्चति जन्तु लोके		२२३
विप्पमुत्तो		२८५
विषव्वाय		२०६
विषव्वं भवं वा पि वसेत्तमेत्थे	२२९, २३०	

विभूना		३०६
विमुत्तो		२३९
विरतो च्चे मत्तिमनुग्गहाय		२६७
विरतो मो विपारम्भा		३८४
विरमे क्खोञ्ज		१४१
— कुम्भुच्चा		३००
— — नप्पमञ्जेव्य		३१९
विरत च मम्मरत्तप तिक्किच्छ मागको त मेवेव्य		३२६

विरुद्धो		३२७
विस्सपत्तनु		२०१
विच्छ		८१
विवादजातेसु च पनुपाणि		२१६
— न वग्गमारो		२७९
विवादानि		८६
विविन्तो		१६९
विवेकञ्जेव मिन्नयेथ		१३०
विवेकदम्मो पप्पेसु		१८६
विवेके मिम्भिव्वाग्गमे	११७, ११८	
विवेगे	२३, ११७, १३०, २८९	
विवेक मनिपट च महोनि		२८९
विमज्ज	८३, २७९	
विमनिन्ना	९, २०७	
विसम नि जज्जा		३५
विमेनिवत्त्वा गत ये चरन्ति		१६६
विम्मज्ज गन्थानि पुनीव लोके		२७९
विहने तन नां		४४८
वीतनेयो वमच्छरी		२१०
वीततट्टो पुराभेदा		१७६
वीरियपरक्कम द्दहहं वरेव्य	१७९, ३७३	
वेदग्		७८
वेदेहि		१८८
वेमज्जं नुपमज्जेव्यो		

स

मकच्छिह् विट्ठि कयमच्चयेव्य		५३
सकायने सत्थ द्दहह वदाना		२५५
— वा पि द्दहह वदानो		२५५
स केत्त शच्छेव्य अनुपमो मो		६७
— — वाटं पटिसुपुजेव्य		१६५

वैस वैन व जप्ये धेय्य कुहि	२६७
सक सक विट्टिपरिव्वसाना	२४०
— — विट्टिमकसु सच्चं	२४४
— — सम्मुत्तिमाहू सच्चं	२७९
— — हि धम्म परिपुण्णमाहू	२६९
सन्निखधम्ममनीतिहमहसि	३४४
सन्निखधम्म परिस्सविनय	३०७
सङ्कप्पेहि परेतो सो कपणो विय झायति	१२५
सङ्गता	६१
सङ्गा	३७४
सङ्गं लोके कुरच्चयं	३७५
स चा पि भेषुने यूतो	१२९
सचे चुतो सीलवततो ह्योति	२६३
सच्चा अबोक्कम मुनि	३७२
सच्चानि सुत्तानि बहूनि नाना	२४८
सच्चो नु वादो क्तमो इमंसे	२४१, २६८
— सिध्दा अप्पगम्भो	३६४
सच्चं ति सो ब्राह्मणो कि वदेय्य	१६४
सञ्जसत्तो	७७
सञ्जा	४८
सञ्जानिदाना हि पपञ्चसङ्गा	२३६
सञ्जाविरत्तस्स न सन्ति गन्था	१७४
सञ्ज च विट्टि च मे अग्गहेसु ते घट्टमाना	
विचरन्ति लोके	१७४
— परिञ्जा वित्तरेय्य ओवं	४८
सण्हो च पटिभानवा	१९६
सतिमा	४४६
सतीमा	४४५
सतो ९, १७, २९४, ३४२, ४१८, ४२२	
सत्तो गुहाय बहूनाभिच्छो	२०
सत्या १२७, ३८७	
— व हीनो पवसं घरम्हा	२६३
सवा १७, २९४, ३४२, ३४४	
सदेवकत्स लोकत्स	३८९
सद्धम्मपूजा पि पना तथेव	२७१
सन्ति ६१	
सन्तिमनुग्गाहाय	२६५
सन्तिवाधो १७०	
सन्ती ति निब्बुत्ति अत्वा ३४३	
सन्तो ५९, १५९, २८०, ३४१, ३८५	

सन्तो अनिस्साय भवं न जप्ये	१५९
— च भिक्खु अभिनिब्बुत्ततो	५९
— सो वीतमच्छरो	३८५
सन्दिट्टिया चेव नवीवदाता	२४३
सन्दिट्टिरापेन हि तेभिरत्ता	२५३
स पन्नभारो मुनि विप्पमुत्तो	२८३
सपरियन्तचारी	४२३
सप्पस्सेव पदा सिरो	८
सव्वत्थ मुनी अनिस्सितो	१११
सव्वधी समो	३८३
सव्वसो ३६३, ३७७	
— नामरूपस्सि यत्स नत्थि ममायितं	३७७
सव्वा व एता न उपेति विद्धा	२६०
सव्वेव ते निन्दमन्वानयन्ति	२५८
— बाला सुनिहीनपञ्जा	२४२
— वादा तथिया भवेय्युं	२७१
— हीमे कुसलावदाना २४१, २६८	
सव्वेविभे विट्टिपरिव्वसाना	२४२
सव्वं तम विनोदेत्वा	३९५
— सो पटिनिस्सज्ज	३७२
सब्रह्माचारीसु खिल पभिन्दे	४३३
समणेन वुत्ता	२२२
समणो १४०, २०९, ३४०	
समन्तसारो लोको	३५२
समाहित्तो	४४०
समिज्जति ४	
समुग्गहाय ८८	
समुग्गहीतेशु पमोहमागा	१६२
समुग्गहीत ६३, ९२	
समो ति अत्तानमनूपनेय्य ८९	
— विसेसी उद वा निहीनो थो मञ्जति	
सो विवधेय त्थ १६३	
सम्पजानो सठानि न कथिरा	३३९
सम्भोविकामस्स ययानुधम्मं	४२१
सम्मा धम्मं परिव्वीमसमानो	४४८
— सो लोके इरियानो ३७४	
सम्मुतियो २६०, २७८	
सयनभिह पत्ते ४२३	
सयमत्तना सो कुसलावदानो २५१	
सयमेव पाव ५८	

— सामं मनसाभिषिक्तो	२५२	सुत्वा रुसितो बहं वाचं समणानं पुथुञ्जनानं	३४०
सयं व सो मेघगमावहेय्य परं बवं दारुमसुद्धिवम्म	२५५	सुद्धानुपस्ती ति पच्चेति जाणं	७०
— समत्तानि पञ्चुब्बमानो	५४	सुद्धि	२२७
— समादाय वतानि जन्तु	७७	सुद्धि ति अपत्थयानो	२६४
सत्त्वविद्धो व सप्पति	६	— वदो तत्थ तथद्दसा सो	२७७
सत्त्वं	५०	सुद्धी हि नेस पच्चत्तमेव	२७१
स विप्पमुत्तो विट्ठिमतेहि धीरो	२८१	सुपिनेन यया पि सङ्गत	१०५
स वे निब्बानसन्तिके	१३२	सुम वदानो	१३५, २७७
— — लोके न जीयति	३७८	सुरो यथा राजसादाम पुद्धो	१४४
— — वाचायतो मुनि	१८४	सैखो	४३३
— — विद्धा स वेदम्	३७३	सेय्यो न तेन मञ्जेय्य	२९७
— — वियत्तेसु न वमासादी	९०	सो	८
— — सन्तो ति बुच्चति	२१३, ३७३	सोकप्परिदेवमच्छर न पजहन्ति विद्धा समाधिते	१०७
— सब्बघम्भेसु विसेनिभूतो थं किञ्चि	८०, २८३	सोको	१०७, २१४
सहसा विरतो चरे	३६९	सोचति	१३९
सात्तियेसु अनिस्सावी	१९६	सोचन्ति जना ममाधिते	१०१
सातं असात ति यमाहु लोके	२२२, २२८	सो तेसु मूत्तो यत्तचारि षामे	४३७
सामग्गिमाहु तत्स तं यो अत्तान भवने न वत्सये	११०	— तेहि फुद्धो बहुधा अनोको	४२६
सारिपुत्ता ति भगवा	४२०	सोपवीको	७१
सारिपुत्तो	३८७	सोम विसत्तिकं लोके सतो समतितवत्ति	८, १०
सासने गीतमत्स नप्पमञ्जेय्य	३४३	सो वीतमच्छरो	३८५
सात्स विघातमूभि	१४३	— वीमसी	२३९
सिक्ख	१३२, ३६२, ३६३	— हत्सदी उल्लमती च तेन	१४२
सिक्खे	३३, १२४, २२६, २६२, २९४, ३४२, ४४५	सवेग कित्तिस्सामि	३४९
— निब्बानभत्तानो	३६३	संसुद्धपञ्जा कुसला मूर्त्तमा	२४३
सीतं अथुप्ह अधिवासयेय्य	४२६	ह	
सीमात्तियो ब्राह्मणो तत्स नत्थि अत्वा च	८३, ८४	हृदयस्सितं	३५५
दित्त्वा च समुमहीतं	१५७, १६१	हायते वी पि तत्स सा	१२४
सीलम्भतेना पि न सुद्धिमाहु	२६४	हिरञ्ज	२५६
सीलम्भतं वा पि पहाय सब्ब	५५	द्वित्थान सब्बानि विनिच्छयानि	८६
सीलवतानि	२६१	हीना ति अञ्जं ततो सब्बमाहु	४१
सीलुत्तया सञ्जमेनाहु सुद्धि	६०	— नरा मञ्चुमुत्तं लपन्ति	१२३
सीलेसु अकत्थमानो	२३४	हीनमाहु पुथुञ्जन	१३९
सुख सुख चा पि कथ विभोत्ति	११७	हीनवादो	९०
सुत्थान तव सासनं	१२६	हीनो न मञ्जेव विसेसि वा पि	३७०
सुत्वा परेस निन्धोसं मञ्जु होति तयाविधो		हीयमाने न सोचेय्य	९२
		द्वरा	

